



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 15, 2019/श्रावण 24, 1941

No. 2]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 15, 2019/SHRAVANA 24, 1941

रक्षा मंत्रालय

(सेना शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2019

सं. 09(अ) दिनांक 15 अगस्त 2019.—राष्ट्रपति स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक ले./जेसी ओज़ को सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन उनको अवैतनिक कप्तान व अवैतनिक ले. का पद 15 अगस्त 2019 से सहर्ष प्रदान करते हैं, बशर्ते उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो और उनकी कार्यक्षमता संतोषजनक रहे :-

अवैतनिक कप्तान के रूप मेंकवाचिक पलटन

1	जेसी243277डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गिरधारी सिंह
2	जेसी244139एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गिरधारी सिंह इनडे
3	जेसी241364एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जोरावर सिंह
4	जेसी243286एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	केसरी प्रसाद मिश्रा
5	जेसी243827एन	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एम बालकृशना शाहू
6	जेसी243791ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	महेंद्र सिंह
7	जेसी243377एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्यवीर सिंह
8	जेसी244081पी	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	के एन बलभीम
9	जेसी243874एल	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	नंदा राम गुर्जर

तोपखाना सैन्यदल

10	जेसी269199एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलजीत सिंह
11	जेसी272976के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बिनोद प्रसाद सिंह
12	जेसी270075वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देस राज
13	जेसी269941एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दिनेश चौधरी
14	जेसी272302एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	के वेंकटरामन
15	जेसी270005ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	माधो सिंह
16	जेसी273420एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	महादेव प्रसाद यादव

17	जेसी270257एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मुख्त्यार सिंह
18	जेसी270915एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रवीन्द्र सिंह
19	जेसी271657एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिवेंद्र प्रताप सिंह
20	जेसी268839एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उपेंद्र कुमार शर्मा
21	जेसी269893एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	विजय कुमार
22	जेसी276275एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अवधेश कुमार यादव
23	जेसी280153वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भुनेश्वर प्रसाद शुक्ला
24	जेसी276404ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धनी राम
25	जेसी279591पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गजेन्द्र कुमार नेगी
26	जेसी276575एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ईश्वर दास
27	जेसी282087ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कृपाल सिंह
28	जेसी278309एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महाबीर
29	जेसी275251पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार
30	जेसी272861डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम नारायण
31	जेसी279521डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रसायन सिंह
32	जेसी273506एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुभाष सिंह
33	जेसी271645डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश जी.
34	जेसी277786एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार
35	जेसी273999एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वेद प्रकाश

सेना वायु सुरक्षा

36	जेसी299172वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	भंवर लाल
37	जेसी300261एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धर्म वीर यादव
38	जेसी300824एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी राजाराव
39	जेसी300604एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रमाकांत सिंह
40	जेसी300918वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम कुमार
41	जेसी303465के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जय प्रकाश साहू
42	जेसी302253एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सत्यवीर सिंह यादव

सेना वायु पलटन

43	जेसी278798एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार
----	--------------	-------------------------	-------------

मद्रास यान्त्रिक समुह

44	जेसी309046एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सी जोसफ जय
45	जेसी330787एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	विजय सिंह
46	जेसी311073एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अनिल कुमार ए
47	जेसी311044डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चंद्रा प्रकाश कुंतल
48	जेसी310713एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एम श्रीनिवास राव
49	जेसी306840पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रघुवीर सिंह
50	जेसी310978एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शोक माबू बाशा

बंगाल यान्त्रिक समुह

51	जेसी338848पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अरुण कुमार
52	जेसी338857डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ऐश बहादुर गुरंग
53	जेसी338310एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	महेश कुमार सामल
54	जेसी338786ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मंगला नन्द
55	जेसी338838एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मुश्ताक अहमद
56	जेसी331010के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रसांत कुमार के
57	जेसी331377के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सम्भू नाथ घोष
58	जेसी338895एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	संदीप कुमार थापा
59	जेसी338809डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुखवीर सिंह
60	जेसी340117ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अरुण कुमार त्रिपाठी
61	जेसी340642डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिनबन्धु नायल
62	जेसी338599एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महसन के

63	जेसी340197एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पबित्रा एच बरुयह
64	जेसी328890ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उपेंद्र पाल सिंह
65	जेसी325925ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विनोद पी

बॉम्बे यान्त्रिक समुह

66	जेसी351620एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अजीत सिंह
67	जेसी351006एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जाधव अरुण महादेव
68	जेसी350984एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	के बालीराम डी.
69	जेसी331315के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम बाली वर्मा
70	जेसी350198वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शेलाखे जे मानिक
71	जेसी352323डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अख्तर अली
72	जेसी352086एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार गुप्ता
73	जेसी352398एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बहादुर सिंह
74	जेसी352088एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलविन्दर सिंह
75	जेसी352319एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भोसले प्रमोद श्रीपति
76	जेसी352292एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चंद्रा भान
77	जेसी352120एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गायकवाड मारुति जलिनंदर
78	जेसी352327एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मलिक मोहम्मद फारुक खान
79	जेसी352466डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुचेत सिंह

अधिसूचना पलटन

80	जेसी378538एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आशुतोष मिश्रा
81	जेसी377922एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बिकाश आरईई
82	जेसी378033डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	द्वारका नाथ
83	जेसी378867एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्रा कुमार
84	जेसी378986वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जुगेन्द्र सिंह
85	जेसी380868के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लखपत सिंह
86	जेसी378037एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मिचेल राजू एस
87	जेसी379061पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पवन कुमार एस
88	जेसी378969वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	संतो कुमार जी.
89	जेसी372049एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्यावीर सिंह
90	जेसी372412डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेश बाबू एस
91	जेसी378577एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार ए
92	जेसी383824एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमरजीत चन्द
93	जेसी379617एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चिला संकर रेडी
94	जेसी380560डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पवन कुमार
95	जेसी382511एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रोबीन गोगोई
96	जेसी380040एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुंदर लाल

रक्षक सैन्यदल

97	जेसी404311वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलबीर सिंह
98	जेसी404244वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जयन्ती प्रसाद पांडे
99	जेसी404124ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सरजीत सिंह कास्वन

छाताधारी सैन्यदल

100	जेसी413270एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार, एससी
101	जेसी413273पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लालमन पलसरा, सेना मेडल
102	जेसी224157एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	माधवा नन्द जोशी
103	जेसी413476वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार

आर टी

यांत्रिक पैदल सैन्यदल

104	जेसी420931वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अजीत सिंह
105	जेसी421586एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलवंत सिंह
106	जेसी421076एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हवा सिंह

107	जेसी421446डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजन के वी
108	जेसी421373पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सैलेन्द्र कुमार मिश्रा

पंजाब सैन्यदल

109	जेसी429895ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलबीर सिंह
110	जेसी430545ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	झिलमिल सिंह
111	जेसी429797ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	परमजीत सिंह
112	जेसी430925वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरदेव सिंह
113	जेसी430715वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरेश कुमार
114	जेसी430819ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राकेश चन्द

मद्रास सैन्यदल

115	जेसी440140एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एमसी कृष्णन
116	जेसी440142एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एम सिवा प्रसादा राव
117	जेसी439570ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एन रंगैया चारी
118	जेसी439966के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	साकिरी अमरनादा
119	जेसी439940पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुदर्शनन पी
120	जेसी440459एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बी कृष्णा मूर्ती
121	जेसी441024एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रमेशाबाबू पी , सेना मेडल

गोलाफेंक सेना

122	जेसी450690वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बारीया पर्वत जेटा, सेना मेडल
123	जेसी450662एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धर्मन्द्र सिंह
124	जेसी450726एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मुस्ताक खान
125	जेसी450245ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रनबीर सिंह

मराठा लाई

126	जेसी459494ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नामदेव गोराल
127	जेसी460187पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगाधले कुमार दयान्देओ
128	जेसी460365एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निकम शंकर विष्णु
129	जेसी460331वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रामप्पा खिलाडी

राजपूताना बन्दूकधारी सेना

130	जेसी470544ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम कुमार
131	जेसी470213वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राशम खान
132	जेसी470445एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेंद्र कुमार
133	जेसी470256एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगमेन्द्र सिंह
134	जेसी471309एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रघुबीर सिंह
135	जेसी471260एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रमेश कुमार

राजपूत सैन्यदल

136	जेसी479953पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार मीडिया
137	जेसी480077एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रभु सिंह
138	जेसी480075डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम निवास गुर्जर
139	जेसी480858पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बनवारी सिंह परमार
140	जेसी480797एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महावीर प्रसाद
141	जेसी480612डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम किशन शर्मा
142	जेसी480584पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार

जाट सैन्यदल

143	जेसी489853एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अजीत सिंह
144	जेसी490035एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रनवीर सिंह जाट
145	जेसी490829एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बसंत पाल
146	जेसी490845एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महाबीर प्रसाद ढाका

147	जेसी490656एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम स्वरूप	
सिख सैन्यदल				
148	जेसी220849ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलदेव सिंह	आर टी
149	जेसी499419वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लखविन्दर सिंह	
150	जेसी499610ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुखविंदर सिंह	
151	जेसी220850पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरिन्दर सिंह	आर टी
152	जेसी500556एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निशान सिंह, सेनामेडल	
153	जेसी500334एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमा शंकर चौधरी	
सिख लघु पैदल सेना				
154	जेसी509753डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलवान सिंह	
155	जेसी509751एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	त्रिलोचन सिंह	
156	जेसी510287वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रोशन सिंह	
डोगरा सैन्यदल				
157	जेसी521077वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पुरुषोत्थम चन्द	
158	जेसी521111एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आर सिंह	
159	जेसी520983के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार	
160	जेसी226989एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार ठाकुर	आर टी
161	जेसी521723एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिलबाग सिंह	
162	जेसी521822एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लाल सिंह	
163	जेसी521898एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सतपाल सिंह	
164	जेसी521823डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिव दास	
165	जेसी521849एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	श्री कांत	
166	जेसी522189एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उधम सिंह राना	
167	जेसी521724एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	यशवंत सिंह	
गढवाल बन्दूकधारी सेना				
168	जेसी530312एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा सिंह नेगी, एसएम	
169	जेसी531191के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	किशन सिंह	
170	जेसी531459डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहन सिंह	
171	जेसी531447एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहन सिंह बिष्ट	
172	जेसी531867एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रंजीत सिंह	
173	जेसी531433एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सीस्पाल सिंह	
174	जेसी531456एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा सिंह नेगी	
कुर्माँउ सैन्यदल				
175	जेसी540266एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बिरेन्द्र सिंह	
176	जेसी540895पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बुल्ला राम, एससी	
177	जेसी540267ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरी किशन	
178	जेसी540289वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मदन सिंह बिष्ट	
179	जेसी539371एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह जलाल, वीएसएम	
180	जेसी540098के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम दत्त, एसएम	
181	जेसी541429एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दलीप सिंह	
आसाम सैन्यदल				
182	जेसी549445वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एल होकिप	
183	जेसी549621एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रसांत कुमार पोलाई	
184	जेसी550554एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिपुल निओग	
बिहार सैन्यदल				
185	जेसी560045एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अरुण कुमार	
186	जेसी559923एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दिनबन्धु नाइक	

187	जेसी559749के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा सिंह
188	जेसी560851वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार एस

माहर सैन्यदल

189	जेसी569955एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पुर्षोत्तम सिंह
190	जेसी569997एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्यवीर सिंह
191	जेसी570047एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	त्रिलोकी नाथ सिंह
192	जेसी570810एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कर्म सिंह
193	जेसी570587के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राज बहादुर खत्री
194	जेसी570816के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम लाल
195	जेसी571382एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रवीन्द्र कुमार
196	जेसी570815एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सरताज सिंह

जम्मू और कश्मीर बन्दूकधारी सेना

197	जेसी580250पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरी अवतार सिंह
198	जेसी580897एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	केवल सिंह
199	जेसी580946ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मान सिंह चौहान
200	जेसी580623एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	परमजीत सिंह
201	जेसी581773ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्राकम चन्द
202	जेसी582261ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सैलेन्द्र
203	जेसी581573के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सूरत सिंह
204	जेसी582102एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार, शौर्य चक्र
205	जेसी581833के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वजीर सिंह

लदाख निरीक्षक

206	जेसी588536वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तसेवांग एस
-----	---------------	-------------------------	------------

नागा सैन्यदल

207	जेसी590150एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरीश चंद्रा बदोला
208	जेसी540206एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुमेर सिंह

जम्मू और कश्मीर लघु पैदल सेना

209	जेसी593201एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पर्शोत्तम कुमार सैनी
210	जेसी594266एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बशीर अहमद
211	जेसी594343पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	फज़ल हुसैन, 2—सेना मैडल
212	जेसी594344एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निसार अहमद भाट
213	जेसी594172एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रेम नाथ
214	जेसी594386के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शेर सिंह

1 गोरखा बन्दूकधारी सेना

215	जेसी602684एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मेख बहादुर थापा
-----	----------------	------------------------------	-----------------

3 गोरखा बन्दूकधारी सेना

216	जेसी607972एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दुर्गा बहादुर हमल
217	जेसी607914के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तिका राम थापा

4 गोरखा बन्दूकधारी सेना

218	जेसी612625वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कृष्णा बहादुर थापा
219	जेसी612646पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	तिल बहादुर टी एसएम

5 गोरखा बन्दूकधारी सेना

220	जेसी618075एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भरत कुमार श्रेष्ठा
221	जेसी618040एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भीम बहादुर थापा
222	जेसी618051एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भीम बहादुर पुन

223	जेसी618142एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुल बहादुर अले
8 गोरखा बन्दूकधारी सेना			
224	जेसी623781एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	तारा बहादुर थापा
225	जेसी624080वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहन गुरंग
9 गोरखा बन्दूकधारी सेना			
226	जेसी629867एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बी विक्रम शाही
227	जेसी629793एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हेम चंद्रा कोइराला
228	जेसी629794डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लक्ष्मन सिंह थापा
11 गोरखा बन्दूकधारी सेना			
229	जेसी635096के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लोक बहादुर खादका
सेना सेवा पलटन दक्षिण			
230	जेसी665878पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सी वेंकटेश्वर रेडी
231	जेसी665753एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	चंद्र शेखर पांडे
232	जेसी642918वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दया नन्द मील
233	जेसी642941एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मदन लाल पठानिया
234	जेसी665917एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नोकराम दारा
235	जेसी642938एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आर श्याम वर्मा
236	जेसी665608ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिव शंकर साह
237	जेसी665883ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उत्तातम लाल गुप्ता
238	जेसी670291ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रभात रंजन
239	जेसी670128ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वी आइ मेरेडू
सेना सेवा पलटन पशु परिवहन			
240	जेसी681146एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गिरधारी लाल
241	जेसी681247डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रामानुज
242	जेसी681507डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	लाल साहेब गिरि
243	जेसी681514एम	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	सरवेन्द्रा कुमार सिंह
244	जेसी681508वाई	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	सिया राम
सेना चिकित्सा पलटन			
245	जेसी698368एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आम सिंह
246	जेसी698410एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	भीम सिंह
247	जेसी698448एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कृष्णन कुमार
248	जेसी698411के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	के सुन्दरा राजन
249	जेसी698174एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	महबूब आलम
250	जेसी698356वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी रामामूर्ति
251	जेसी698254एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार
252	जेसी698255एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार
253	जेसी693938पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्यपाल सिंह
254	जेसी698050डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	टीकू राम जाट
255	जेसी697756वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उदय राज सिंह
256	जेसी698285एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	असोहन टी
257	जेसी698397एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलदीप सिंह
सेना आयुध पलटन			
258	जेसी729304एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	चंद्रा कांत कुमार
259	जेसी728843डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जीवन लाल
260	जेसी729395एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लोकेश सहारन
261	जेसी729137एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजमल सिंह
262	जेसी725377एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिव राम सिंह ख्यालिया

263	जेसी727584एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेश चंद्रा राजपूत
264	जेसी728327एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गादी सुनील साहदेओ
265	जेसी730270डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मुनीश कुमार तिवारी
266	जेसी730391एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ओम प्रकाश पांडे

विद्युत्तिय एवं यांत्रिक अभियन्ता पलटन

267	जेसी758954एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देवानंद गिरि
268	जेसी758894वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गम्भीर सिंह चौधरी
269	जेसी766439एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	इंद्र सिंह
270	जेसी761407वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्रा सिंह राठोर
271	जेसी758627एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मनोहरन वी
272	जेसी758811एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नरेश पाल सिंह मलिक
273	जेसी758806एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी किट्टू
274	जेसी760950एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राधे गोपाल मिश्रा
275	जेसी759336के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजन सी
276	जेसी764331पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रजनी कांता रौय
277	जेसी758589एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम कण्ठन
278	जेसी758217एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम कृष्णा पांडे
279	जेसी758999एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	साजी वरुधिस
280	जेसी758849एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्य वीर सिंह
281	जेसी758870पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुख देव
282	जेसी766863एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार यादव
283	जेसी766425एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिमल कुमार रौय
284	जेसी766476वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ब्रजेश कुमार दुबे
285	जेसी769824ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दया राम
286	जेसी768309एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ज्ञान दास
287	जेसी766241एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मधु के
288	जेसी766418पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मधु सूदन घोष
289	जेसी766467एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मुकेश कुमार
290	जेसी766669वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नवाब सिंह

सेना शिक्षा पलटन

291	जेसी804046एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगदीश चंद्रा पांडे
292	जेसी803533पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पवन कुमार
293	जेसी803712पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सतेंद्र सिंह
294	जेसी804847एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	श्री के के सिंह

घुड एवं पशुचिकित्सा पलटन

295	जेसी797519के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगदीश चंद्र
296	जेसी797418डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रामलक्ष्मन माली

सेना आसूचना पलटन

297	जेसी811158के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अतर सिंह
298	जेसी810978के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	निर्मल सिंह धड़वाल, सेना मेडल
299	जेसी811266एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रामेश्वर सिंह
300	जेसी811126एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	वीरेंद्र बहादुर सिंह
301	जेसी811583पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रमेश कुमार एल
302	जेसी811611डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाम सिंह चिब

सेना पुलिस पलटन

303	जेसी819894एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम मनी दुबे
304	जेसी819907के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	श्याम सिंह जाट

अन्वेषक पलटन

305	जेसी829516एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जोमन सिंह
-----	--------------	-------------------------	-----------

रक्षा सुरक्षा पलटन

306	जेसी843223एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	असित कुमार पौल
307	जेसी843184वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भंवर लाल
308	जेसी842111ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महावीर सिंह

प्रादेशिक सेना

309	टीजे5627के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अर्जुन सिंह
310	टीजे5119एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भूप सिंह
311	टीजे5697एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देवेन्द्र दत्ता
312	टीजे4925एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जसपाल सिंह
313	टीजे5465के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रघुनाथ सहाय
314	टीजे5464एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा सिंह

अवैतनिक लैटनेंट के रूप में**राष्ट्रपति अंगरक्षक**

1	जेसी235059एच	रिसालदार मेजर	कुलदीप सिंह
2	जेसी235053एफ	रिसालदार मेजर	सुरेंद्र कुमार

कवाचिक पलटन

3	जेसी244394एन	रिसालदार मेजर	अमेदा राम
4	जेसी244704एन	रिसालदार मेजर	भूप सिंह
5	जेसी242740ए	रिसालदार मेजर	हरीश चंद्रा
6	जेसी243991डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	जसवीर सिंह
7	जेसी244122एन	रिसालदार मेजर	किशन सिंह
8	जेसी244323एम	रिसालदार मेजर	कुलदीप सिंह
9	जेसी243851के	रिसालदार मेजर	मारुति जी. तराले
10	जेसी245527एल	रिसालदार मेजर	पुरसोत्तम नायक
11	जेसी243693ए	रिसालदार मेजर	आर के त्रिपाठी
12	जेसी243492एफ	रिसालदार मेजर	विनोद कुमार पांडे
13	जेसी245257एफ	रिसालदार	आन्सवर अली मोन्डल
14	जेसी246032एल	रिसालदार	दर्शन सिंह
15	जेसी243989वाई	रिसालदार	खुशाल सिंह
16	जेसी244395डब्ल्यू	रिसालदार	महीपाल सिंह जखर
17	जेसी243976एफ	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह
18	जेसी243886ए	रिसालदार	नरेश कुमार
19	जेसी244145पी	रिसालदार	नरपत सिंह
20	जेसी245416एन	रिसालदार	नरपत सिंह सिसोदिया
21	जेसी244131पी	रिसालदार	नेत्रा सिंह
22	जेसी243950एम	रिसालदार	राज कुमार
23	जेसी243762एल	रिसालदार	राजनारायण दास
24	जेसी244278एल	रिसालदार	रमेश चन्द
25	जेसी246234एम	रिसालदार	रवीन्द्र सिंह राठोर
26	जेसी245089एन	रिसालदार	एस बाबू
27	जेसी243834के	रिसालदार	एस बालासाहेव भौसाहब
28	जेसी243686के	रिसालदार	शमशेर सिंह
29	जेसी246035वाई	रिसालदार	सुनील पटेल
30	जेसी244940पी	रिसालदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह
31	जेसी244949के	रिसालदार	उमरानिकर एजे
32	जेसी243759एल	रिसालदार	उपेंद्र सिंह
33	जेसी243996पी	रिसालदार	युधिष्ठिर सिंह

तोपखाना सैन्यदल

34	जेसी273380डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	
35	जेसी224337एल	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	आर टी
36	जेसी271706एच	सुबेदार मेजर	ए नारायना शर्मा	
37	जेसी270368के	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार	
38	जेसी270757के	सुबेदार मेजर	बाल कष्णन यादव	
39	जेसी268891डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बी पाटेकर	
40	जेसी271656एच	सुबेदार मेजर	भीम बहादुर दहल	
41	जेसी272246वाई	सुबेदार मेजर	वोपन्ना के यू	
42	जेसी272771पी	सुबेदार मेजर	बैजू बी	
43	जेसी272268एक्स	सुबेदार मेजर	छोटा राम जाट	
44	जेसी270489एल	सुबेदार मेजर	धन राज गुरंग	
45	जेसी273810पी	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह	
46	जेसी269946एफ	सुबेदार मेजर	गजेन्द्र सिंह	
47	जेसी270795ए	सुबेदार मेजर	गणेशा एम	
48	जेसी274212के	सुबेदार मेजर	जी. रेडी बी रेडी	
49	जेसी268836ए	सुबेदार मेजर	गुरपाल सिंह मेहता	
50	जेसी269696एल	सुबेदार मेजर	जाधव अनन्त बालीराम	
51	जेसी273591वाई	सुबेदार मेजर	जितेन्द्रा कुमार मिश्रा, सेना मेडल	
52	जेसी272624एम	सुबेदार मेजर	जोसफ जेम्स डी. सूजा	
53	जेसी272443एफ	सुबेदार मेजर	कल्प नाथ चौधरी	
54	जेसी273351एफ	सुबेदार मेजर	कृष्णा चंद्रा मरोदिया	
55	जेसी272348पी	सुबेदार मेजर	मान सिंह	
56	जेसी272283एम	सुबेदार मेजर	मान सिंह सिसोदिया	
57	जेसी269750एन	सुबेदार मेजर	मोदु सिंह	
58	जेसी274292एम	सुबेदार मेजर	नगेन्द्रा राय	
59	जेसी273043एफ	सुबेदार मेजर	प्रसन्न सी ए	
60	जेसी274203एच	सुबेदार मेजर	प्रसानथन वी	
61	जेसी273381वाई	सुबेदार मेजर	रछपाल सिंह	
62	जेसी272012पी	सुबेदार मेजर	राकेश कुमार	
63	जेसी272453एल	सुबेदार मेजर	राम आशीश शर्मा	
64	जेसी255049ए	सुबेदार मेजर	राम प्रपन पांडे	आर टी
65	जेसी272833के	सुबेदार मेजर	आर मनोहरन	
66	जेसी268549डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	आर सिल्वाराज	
67	जेसी268837एच	सुबेदार मेजर	एस लक्ष्मण सिंह	
68	जेसी270157एफ	सुबेदार मेजर	सत्य पाल	
69	जेसी270858एक्स	सुबेदार मेजर	सईयद आर	
70	जेसी270646एम	सुबेदार मेजर	एस छेलाथुराए	
71	जेसी268719पी	सुबेदार मेजर	शकील अहमद	
72	जेसी270262एक्स	सुबेदार मेजर	श्यामानंद द्विवेदी	
73	जेसी271513एच	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार एस	
74	जेसी271211डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र पाल	
75	जेसी272064एल	सुबेदार मेजर	विक्रम सिंह	
76	जेसी279821एक्स	सुबेदार	अमर कुमार	
77	जेसी274550एफ	सुबेदार	बल्लु राम यादव	
78	जेसी280547एक्स	सुबेदार	बलवंत सिंह	
79	जेसी268433ए	सुबेदार	भाग सिंह पटानिया	
80	जेसी280566एच	सुबेदार	बीनू एम सैमुअल	
81	जेसी275145डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	
82	जेसी280311एच	सुबेदार	ब्रम देव	
83	जेसी274425एक्स	सुबेदार	डेनिअल मेथ्यू	
84	जेसी280307ए	सुबेदार	देश राज राना	
85	जेसी276084डब्ल्यू	सुबेदार	देउ बहादुर गुरंग	
86	जेसी277219वाई	सुबेदार	दिलीप कुमार पांडे	

87	जेसी279238एच	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह
88	जेसी280677ए	सुबेदार	गिरवर सिंह परमार
89	जेसी279762डब्ल्यू	सुबेदार	जग रूप
90	जेसी275791एन	सुबेदार	जयपाल सिंह
91	जेसी278848एच	सुबेदार	जसवंत सिंह
92	जेसी283244एन	सुबेदार	जे आर
93	जेसी279188एच	सुबेदार	जे पोलाय
94	जेसी274828एक्स	सुबेदार	कंधार सिंह
95	जेसी277035ए	सुबेदार	कीर्ती सिंह
96	जेसी277737वाई	सुबेदार	के सत्यनारायणा
97	जेसी277552एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह
98	जेसी279012एक्स	सुबेदार	कुश कुमार सिंह
99	जेसी278664के	सुबेदार	लखिन्दर सिंह
100	जेसी276473डब्ल्यू	सुबेदार	लख्मी सिंह
101	जेसी279346एम	सुबेदार	एल प्रभाकर रामचंद्र
102	जेसी280098एन	सुबेदार	मनी राम राय
103	जेसी275143एल	सुबेदार	मनोज कुमार
104	जेसी275159डब्ल्यू	सुबेदार	मेथ्यू कुट्टी वरघेसे
105	जेसी282374के	सुबेदार	मिट्टू सिंह चौहान
106	जेसी277182एच	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह कनवासी
107	जेसी275358के	सुबेदार	ओम चन्द
108	जेसी273974एल	सुबेदार	पाप्पू सिंह
109	जेसी278358पी	सुबेदार	परमिन्दर सिंह
110	जेसी280390एच	सुबेदार	प्रदीप सिंह नेगी
111	जेसी281256के	सुबेदार	प्रदीप कुमार सिंह
112	जेसी273553एच	सुबेदार	प्रकाश सी जाटव
113	जेसी276731एल	सुबेदार	रबीन्द्र प्रसाद सिंह
114	जेसी280464एम	सुबेदार	राजबीर सिंह
115	जेसी276164एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह
116	जेसी279074एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा बहादुर
117	जेसी277571एच	सुबेदार	राजेश्वर प्रसाद सिंह
118	जेसी274605ए	सुबेदार	राम किशोर
119	जेसी279705पी	सुबेदार	रामवीर सिंह
120	जेसी282921एन	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह
121	जेसी273510एन	सुबेदार	रूप सिंह
122	जेसी278737एल	सुबेदार	आर सरवन कुमार
123	जेसी278081एफ	सुबेदार	संजीव
124	जेसी275903एच	सुबेदार	सतीषन
125	जेसी281797एल	सुबेदार	सतनाम सिंह
126	जेसी274664एम	सुबेदार	शत्रुघ्न सिंह
127	जेसी277990ए	सुबेदार	शिव राम सिंह
128	जेसी274178पी	सुबेदार	सोहन सिंह
129	जेसी278122ए	सुबेदार	एस सूरियन
130	जेसी277210के	सुबेदार	सुमेर सिंह यादव
131	जेसी279206ए	सुबेदार	सुरजीत सिंह
132	जेसी276418ए	सुबेदार	सुशील कुमार
133	जेसी276912डब्ल्यू	सुबेदार	वेन्गटेशन एस
134	जेसी275302एक्स	सुबेदार	वेनु गोपालन नायर बी
135	जेसी279190ए	सुबेदार	विजय कुमार
136	जेसी273807पी	सुबेदार	विक्रम सिंह
137	जेसी278090एच	सुबेदार	विनोद प्रसाद वर्मा
138	जेसी280887ए	सुबेदार	वाताने दन्यानोबा बी

सेना वायु सुरक्षा

139	जेसी300863ए	सुबेदार मेजर	एभंग संजय विथल
140	जेसी301360एफ	सुबेदार मेजर	भीमप्पा जी.
141	जेसी301348ए	सुबेदार मेजर	भुपिन्द्र सिंह
142	जेसी300793एम	सुबेदार मेजर	गिरधारी लाल
143	जेसी300896एल	सुबेदार मेजर	जगदीश चन्द
144	जेसी301362एम	सुबेदार मेजर	एम सुब्रमणि
145	जेसी301258वाई	सुबेदार मेजर	परमजीत सिंह
146	जेसी300883एन	सुबेदार मेजर	राकेश चंद्रा गुसाई
147	जेसी301167पी	सुबेदार मेजर	सेलवम एल
148	जेसी300112वाई	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह चिब
149	जेसी300334एन	सुबेदार मेजर	तापस कुमार मैती
150	जेसी302016एच	सुबेदार	एके प्रदीप कुमार
151	जेसी302361डब्ल्यू	सुबेदार	बीरबल शर्मा
152	जेसी301916ए	सुबेदार	दभेदार
153	जेसी300928एच	सुबेदार	देवा राज
154	जेसी300749एच	सुबेदार	देवेन्द्र पाल
155	जेसी302570एन	सुबेदार	धीर सिंह
156	जेसी302718एफ	सुबेदार	एम सुन्दराजन
157	जेसी302540डब्ल्यू	सुबेदार	परमजीत सिंह
158	जेसी303601पी	सुबेदार	राजीव के वी
159	जेसी301457एम	सुबेदार	राजेन्द्र कुमार
160	जेसी302956एन	सुबेदार	राज कंवर
161	जेसी303067एच	सुबेदार	राम आशीश यादवा
162	जेसी303175एम	सुबेदार	रमेश कुमार
163	जेसी301922एन	सुबेदार	साबू एस
164	जेसी303489एन	सुबेदार	शेख रमजान महिबुब
165	जेसी301038पी	सुबेदार	सोलंकी सुरेश सोलंकी सुरेश कुमार
166	जेसी303243पी	सुबेदार	श्री रवि शंकर तिवारी

सेना वायु पलटन

167	जेसी300876एक्स	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह
168	जेसी274971के	सुबेदार मेजर	सुरेश शर्मा
169	जेसी272037एफ	सुबेदार मेजर	सैयद अरशाद एम बी
170	जेसी259461एल	सुबेदार	राघवेन्द्रा दत्ताता पांडे
171	जेसी274069एच	सुबेदार	विजय कुमार शर्मा

आर टी

मद्रास यान्त्रिक समूह

172	जेसी309098वाई	सुबेदार मेजर	दिनेश बाबू एम पी
173	जेसी308810डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जे जोर्ज
174	जेसी309680एल	सुबेदार मेजर	के श्रीनिवास वर्मा
175	जेसी308658एन	सुबेदार मेजर	नारायण मोन्दल
176	जेसी309420ए	सुबेदार मेजर	पी सहाय राज
177	जेसी309426एफ	सुबेदार मेजर	आर टी सेलवम
178	जेसी308707एल	सुबेदार मेजर	शशि भान यादव
179	जेसी309154एम	सुबेदार मेजर	उन्नीर्कशान्न एन ए
180	जेसी311008एल	सुबेदार	ए किशोर
181	जेसी310331एन	सुबेदार	अमुधरंजन सी
182	जेसी311078के	सुबेदार	अर्जुन एल
183	जेसी311001एफ	सुबेदार	डी. रामालिंगम
184	जेसी310982के	सुबेदार	एफ अनटोनी मारिआ प्रकासम
185	जेसी310707के	सुबेदार	जी. लोगानाथन
186	जेसी311069एच	सुबेदार	जी. पापा राव
187	जेसी310999एक्स	सुबेदार	होसाली बालाप्या

188	जेसी310467एक्स	सुबेदार	जोसफ महीमाज दोस के
189	जेसी311121ए	सुबेदार	जे रवि
190	जेसी310706एफ	सुबेदार	कामथम श्रीनिवासुलु
191	जेसी310446एफ	सुबेदार	के एन संकर पांडि
192	जेसी310720एन	सुबेदार	एम पी दिनेश
193	जेसी311074एन	सुबेदार	महावीर उन्दरी
194	जेसी310724के	सुबेदार	नारायण पाटिल
195	जेसी310996के	सुबेदार	नर्रा कृष्णा रेडी
196	जेसी310442एल	सुबेदार	प्रेमकुमार वी
197	जेसी310710के	सुबेदार	राधा कृष्णन एन
198	जेसी310443एन	सुबेदार	राजेश कुमार
199	जेसी311067एक्स	सुबेदार	राज कुमार बीएच
200	जेसी311046एफ	सुबेदार	आर पी मरियप्पन
201	जेसी310712पी	सुबेदार	एस अरोकियादास
202	जेसी311068ए	सुबेदार	एस अरुणाचलम
203	जेसी311003एम	सुबेदार	शेक जी.
204	जेसी309898एक्स	सुबेदार	एस रमेश कुमार
205	जेसी310699डब्ल्यू	सुबेदार	एस नोरोन्हा
206	जेसी310737एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार मा
207	जेसी311002के	सुबेदार	थामीजरासन पी
208	जेसी311071ए	सुबेदार	तुलूगु सदानन्दम
209	जेसी311006ए	सुबेदार	वी जॉन बोसको

बंगाल यान्त्रिक समूह

210	जेसी339043के	सुबेदार मेजर	भूपाल सिंह
211	जेसी338670के	सुबेदार मेजर	बिपेंद्रा सिंह रावत
212	जेसी338844वाई	सुबेदार मेजर	गनेश चंद्र भट्ट
213	जेसी339114ए	सुबेदार मेजर	गोविंद सिंह राठोड़
214	जेसी331466एच	सुबेदार मेजर	कृष्णा कुमार वी
215	जेसी210495पी	सुबेदार मेजर	मोहन लाल शर्मा
216	जेसी338754एक्स	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
217	जेसी338834पी	सुबेदार मेजर	रघबीर सिंह
218	जेसी339076पी	सुबेदार मेजर	राय साहब यादव
219	जेसी331820एम	सुबेदार मेजर	सतीसन एस
220	जेसी328940ए	सुबेदार मेजर	सुभाष चन्द
221	जेसी340169डब्ल्यू	सुबेदार	अजय कुमार राय
222	जेसी340690डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक ठाकुर
223	जेसी341395ए	सुबेदार	अवतार सिंह
224	जेसी340227पी	सुबेदार	अवधेश कुमार त्रिपाठी
225	जेसी340638एन	सुबेदार	बिक्रम सिंह
226	जेसी340391एक्स	सुबेदार	बिपिन कुमार सिंह
227	जेसी340454पी	सुबेदार	बिपुल कुमार सिंह
228	जेसी339961डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश सिंह
229	जेसी340196ए	सुबेदार	इंद्र बीर सिंह चौहान
230	जेसी340224एफ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
231	जेसी341065एफ	सुबेदार	कमलेश कुमार ठाकुर
232	जेसी340113के	सुबेदार	के पाती त्रिपाठी
233	जेसी340118एच	सुबेदार	खुर्शीद आलम
234	जेसी340248एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह
235	जेसी340195एक्स	सुबेदार	ललित कुमार
236	जेसी340451एफ	सुबेदार	मोहन सिंह
237	जेसी340205डब्ल्यू	सुबेदार	मुन्ना लाल शर्मा
238	जेसी340142वाई	सुबेदार	नरिंदर सिंह
239	जेसी340462एन	सुबेदार	नवल कुमार मंडल

आर टी

240	जेसी340138डब्ल्यू	सुबेदार	परमजीत सिंह
241	जेसी340458एल	सुबेदार	फूल सिंह
242	जेसी340647पी	सुबेदार	प्रदीप कुमार रौय
243	जेसी340452के	सुबेदार	राजीब कुमार सिंह
244	जेसी340639डब्ल्यू	सुबेदार	राजकुमार सिंह
245	जेसी340176एम	सुबेदार	रंजीत प्रसाद दुबे
246	जेसी340460एच	सुबेदार	संतोष कुमार ठाकुर
247	जेसी340172डब्ल्यू	सुबेदार	सरत चंद्रा नाथ
248	जेसी340449के	सुबेदार	ससंका नंदी
249	जेसी340565एम	सुबेदार	सतेंद्र कुमार
250	जेसी340644एफ	सुबेदार	शिव शंकर यू
251	जेसी340473ए	सुबेदार	सुरेश कुमार सिंह
252	जेसी339838एक्स	सुबेदार	विजय सिंह

बॉम्बे यान्त्रिक समुह

253	जेसी224982ए	सुबेदार मेजर	अम्बरीश कुमार द्विवेदी	आर टी
254	जेसी351512एन	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह	
255	जेसी331316एम	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार पी के	
256	जेसी351285वाई	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार	
257	जेसी224983एच	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह	आर टी
258	जेसी351601एम	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह	
259	जेसी350650एच	सुबेदार मेजर	पुगलांडी जी.	
260	जेसी350698डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजवीर सिंह	
261	जेसी331314एफ	सुबेदार मेजर	राम इकबाल कुशवाहा	
262	जेसी331387एन	सुबेदार मेजर	शिवाजी शुक्ला	
263	जेसी351008एन	सुबेदार मेजर	शुभ रति	
264	जेसी352365एच	सुबेदार	अनेकर विठल राजाराम	
265	जेसी352370एन	सुबेदार	अनिल कुमार	
266	जेसी352380एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	
267	जेसी352082एफ	सुबेदार	आत्मा सिंह	
268	जेसी351734एच	सुबेदार	बलबीर सिंह	
269	जेसी352631डब्ल्यू	सुबेदार	बलजिन्दर सिंह	
270	जेसी352357के	सुबेदार	भुंगदे दगादु गमपति	
271	जेसी352121पी	सुबेदार	चरनजीत सिंह	
272	जेसी352487एम	सुबेदार	गाधव गुलाबराव सीताराम	
273	जेसी353206एक्स	सुबेदार	गायकवाड गोवर्धन दन्यानोबा	
274	जेसी352083के	सुबेदार	गीगा राम जाट	
275	जेसी351712के	सुबेदार	गुले अछूत दिगम्बर	
276	जेसी352638ए	सुबेदार	गोरे देवीदास भीकाजी	
277	जेसी352640एक्स	सुबेदार	हरभजन सिंह	
278	जेसी353253पी	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	
279	जेसी352853एल	सुबेदार	जगतार सिंह	
280	जेसी352689एन	सुबेदार	जरनैल सिंह	
281	जेसी352286एन	सुबेदार	जसबीर सिंह	
282	जेसी352432एच	सुबेदार	कमलेश सिंह	
283	जेसी351717एच	सुबेदार	के शरद मुरलीधर	
284	जेसी352494एच	सुबेदार	केवल कष्णन	
285	जेसी352519के	सुबेदार	कोदाग बाजीराव गुलाबराव	
286	जेसी352374के	सुबेदार	महेश सिंह एम	
287	जेसी352186एच	सुबेदार	महेश कुमार	
288	जेसी353406एन	सुबेदार	मोहम्मद महबूब अली	
289	जेसी352423एफ	सुबेदार	मोहम्मद याया खान	
290	जेसी352377एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश जोगी	
291	जेसी352282एक्स	सुबेदार	पांडे दया शंकर प्रयाग नारायण	

292	जेसी352642एच	सुबेदार	पाटिल आनंदा गुंडा
293	जेसी352861के	सुबेदार	पाटिल चान्द्राकान्त शिवाजी
294	जेसी352492एक्स	सुबेदार	पाटिल विश्वास मुकुन्द
295	जेसी352517वाई	सुबेदार	रफीक खान
296	जेसी351031एफ	सुबेदार	राजीव कुमार सी एम
297	जेसी352629वाई	सुबेदार	राजेश कुमार
298	जेसी352400ए	सुबेदार	राजिन्दर सिंह
299	जेसी352059एन	सुबेदार	राकेश कुमार तिवारी
300	जेसी352692एन	सुबेदार	रमजानी
301	जेसी352087ए	सुबेदार	रति राम
302	जेसी352543ए	सुबेदार	समर सिंह
303	जेसी352691एल	सुबेदार	शौकत अली
304	जेसी352431ए	सुबेदार	शिव पूजन सिंह
305	जेसी353446पी	सुबेदार	शिंदे संतोष रामदास
306	जेसी352061एल	सुबेदार	शियो कुमार सिंह
307	जेसी352397एल	सुबेदार	सोहन सिंह चौहान
308	जेसी352322एन	सुबेदार	यू वसंत इश्वर

अधिसूचना पलटन

309	जेसी378574एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह
310	जेसी378203पी	सुबेदार मेजर	अनिरुध पांडे
311	जेसी379735एफ	सुबेदार मेजर	अरुणा कुमार यू
312	जेसी379184एफ	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह खत्री
313	जेसी378042एक्स	सुबेदार मेजर	हरी सिंह रावत
314	जेसी379451एक्स	सुबेदार मेजर	जे जेवियर एम
315	जेसी372469एल	सुबेदार मेजर	जगबीर सिंह
316	जेसी367685पी	सुबेदार मेजर	जय कृष्णा बराकोटी
317	जेसी378550एन	सुबेदार मेजर	जीत नारायण सिंह
318	जेसी378802पी	सुबेदार मेजर	जॉय जॉन
319	जेसी379220एफ	सुबेदार मेजर	मोहम्मद जलालुद्दीन
320	जेसी379236एम	सुबेदार मेजर	मोहाना कृष्णन नायर पीआर
321	जेसी378700वाई	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
322	जेसी379105एफ	सुबेदार मेजर	पटेल मनुभाई छगन भाई
323	जेसी376178एच	सुबेदार मेजर	पवन कुमार
324	जेसी378615डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
325	जेसी378495एच	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार शर्मा
326	जेसी372406एच	सुबेदार मेजर	राज कुमार
327	जेसी373965वाई	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र
328	जेसी379109एक्स	सुबेदार मेजर	संजय कुमार
329	जेसी379434एक्स	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार यादव
330	जेसी372414एफ	सुबेदार मेजर	एस गणेशन
331	जेसी378629डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	शाजी एम जे
332	जेसी379230एल	सुबेदार मेजर	शंकर लाल मीना
333	जेसी377920डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सिरसापल्ली नुका राजू
334	जेसी379146एल	सुबेदार मेजर	शिवाशंकरा पिल्लई
335	जेसी372217वाई	सुबेदार मेजर	सुरेश सिंह सैंगर
336	जेसी378758डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	उन्नीर्वशन्न एके.
337	जेसी372631एक्स	सुबेदार मेजर	विजय सिंह नेगी
338	जेसी384015के	सुबेदार	अबधेश कुमार शर्मा
339	जेसी383139एम	सुबेदार	अजय कुमार
340	जेसी383513के	सुबेदार	अजय कुमार
341	जेसी383365के	सुबेदार	अमृत लाल मौर्या
342	जेसी383073एफ	सुबेदार	अनिल कुमार ए
343	जेसी377465वाई	सुबेदार	ए सैलू

आर टी

344	जेसी381089एन	सुबेदार	बच्चनजी पाठक
345	जेसी382884ए	सुबेदार	बलेश्वर सिंह
346	जेसी382526पी	सुबेदार	बासुदेव राम
347	जेसी382279एम	सुबेदार	भूवन सिंह
348	जेसी381086ए	सुबेदार	बिपिन गोंद
349	जेसी382282एम	सुबेदार	दयाल सिंह
350	जेसी380092एफ	सुबेदार	गणेशी लाल
351	जेसी383388एल	सुबेदार	ज्ञान सिंह पाल
352	जेसी377433डब्ल्यू	सुबेदार	हर पाल सिंह
353	जेसी378675एल	सुबेदार	महेंद्र कुमार त्रिपाठी
354	जेसी380156एफ	सुबेदार	मोहम्मद रफीकुल इस्लाम
355	जेसी382281के	सुबेदार	निधान सिंह
356	जेसी382284एक्स	सुबेदार	निकम हिम्मताराव राजाराम
357	जेसी382746वाई	सुबेदार	पितांबर
358	जेसी382901पी	सुबेदार	प्रसांत कुमार साहू
359	जेसी382558एक्स	सुबेदार	पूरन सिंह
360	जेसी383457डब्ल्यू	सुबेदार	आर पांडि कुमार
361	जेसी382435एल	सुबेदार	राहुल चकर्बती
362	जेसी382285ए	सुबेदार	राजाराम जीएस
363	जेसी383452एक्स	सुबेदार	राजेंद्र कुमार
364	जेसी382273एल	सुबेदार	राजेश कुमार
365	जेसी383367पी	सुबेदार	राक्ष पाल सिंह
366	जेसी379546एक्स	सुबेदार	रामकृष्ण पी
367	जेसी383372ए	सुबेदार	राम जी
368	जेसी383385एक्स	सुबेदार	रामजीत यादव
369	जेसी383387एच	सुबेदार	रवीन्द्र प्रताप सिंह
370	जेसी381144वाई	सुबेदार	रूप चन्द घोष
371	जेसी384957ए	सुबेदार	साजी कुमार एस
372	जेसी383389एन	सुबेदार	शेष नाथ सिंह यादव
373	जेसी383425एन	सुबेदार	श्याम बिहारी
374	जेसी382513एक्स	सुबेदार	एस कुमार दास
375	जेसी382277एफ	सुबेदार	सुनील कुमार भारद्वाज
376	जेसी383426डब्ल्यू	सुबेदार	तारा सिंह
377	जेसी383390एच	सुबेदार	विजन कुमार शुक्ला
378	जेसी384067ए	सुबेदार	विजय

रक्षक सैन्यदल

379	जेसी403925पी	सुबेदार मेजर	अवधेश कुमार
380	जेसी404197एम	सुबेदार मेजर	प्रसन्ना कुमार शर्मा
381	जेसी405254पी	सुबेदार	अवधेश कुमार
382	जेसी404935एल	सुबेदार	बंसी राम
383	जेसी405340ए	सुबेदार	हरी केश चौहान
384	जेसी405093एक्स	सुबेदार	खुशाल सिंह
385	जेसी404752पी	सुबेदार	नवीन पी
386	जेसी405317एम	सुबेदार	ओम प्रकाश
387	जेसी404990एफ	सुबेदार	संदीप कुमार
388	जेसी405200एन	सुबेदार	शकूर काथात
389	जेसी404851एक्स	सुबेदार	शीश राम
390	जेसी405321पी	सुबेदार	शिव दानी लाल
391	जेसी404399एन	सुबेदार	सिदा गण संकर राव

छाताधारी सैन्यदल

392	जेसी413208पी	सुबेदार मेजर	दिलबाग सिंह
393	जेसी413444डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह, केसी, एसएम
394	जेसी413272एम	सुबेदार मेजर	मुख्त्यार सिंह, एससी

395	जेसी413262एच	सुबेदार मेजर	सत्य प्रसाद नवानी
396	जेसी413540एल	सुबेदार	अशवनी कुमार
397	जेसी413770वाई	सुबेदार	भगवान सिंह सामंत
398	जेसी413348एफ	सुबेदार	भीम बहादुर थापा
399	जेसी413395वाई	सुबेदार	दयाल सिंह
400	जेसी413842एक्स	सुबेदार	गाबार सिंह, एसएम
401	जेसी413683एल	सुबेदार	जगत सिंह
402	जेसी413538एन	सुबेदार	काना राम
403	जेसी413541एन	सुबेदार	नवीन चंद्रा पांडे
404	जेसी413405एक्स	सुबेदार	निवरुति चन्द्र कलमकर
405	जेसी481049एफ	सुबेदार	राधे श्याम
406	जेसी413613एम	सुबेदार	राजू
407	जेसी413578पी	सुबेदार	राम दास
408	जेसी413500के	सुबेदार	शीवानागोरा निरवानी

यांत्रिक पैदल सैन्यदल

409	जेसी421065पी	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार, सेना मेडल
410	जेसी421027वाई	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार त्रिपाठी
411	जेसी421265एल	सुबेदार मेजर	कताकम रवि
412	जेसी420915एफ	सुबेदार मेजर	मानन पेरूमल पी
413	जेसी421427एल	सुबेदार मेजर	मुकेश कुमार
414	जेसी421037एच	सुबेदार मेजर	निगम सिंह
415	जेसी421185एन	सुबेदार मेजर	फूल सिंह
416	जेसी421082पी	सुबेदार मेजर	राम मूर्ती
417	जेसी421424एक्स	सुबेदार मेजर	श्रीनिवासन एस
418	जेसी421026डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तरुण कुमार मन्न
419	जेसी421808एम	सुबेदार	अयप्पा अब
420	जेसी422027एल	सुबेदार	धनंजय कुमार पांडे
421	जेसी421918एफ	सुबेदार	जनक राज
422	जेसी421330ए	सुबेदार	लखबिन्दर सिंह
423	जेसी422147के	सुबेदार	एम ए गुरुदेवन
424	जेसी420798एफ	सुबेदार	मनोहर सिंह
425	जेसी421542एल	सुबेदार	मान सिंह
426	जेसी421839एम	सुबेदार	मोहन डोंगरे
427	जेसी421809पी	सुबेदार	प्रेम कुमार वीएस

पंजाब सैन्यदल

428	जेसी430668एम	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
429	जेसी430518डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अशवनी कुमार
430	जेसी430144एल	सुबेदार मेजर	बलजिन्दर सिंह
431	जेसी430307एन	सुबेदार मेजर	भुपिन्द्र सिंह गुलेरिया
432	जेसी430126एच	सुबेदार मेजर	गुरनाम सिंह
433	जेसी429961एक्स	सुबेदार मेजर	जगमोहन सिंह
434	जेसी430525एम	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
435	जेसी430328के	सुबेदार मेजर	लखविन्दर सिंह
436	जेसी430709एल	सुबेदार मेजर	नरेश कुमार धीमान
437	जेसी430022एफ	सुबेदार मेजर	राम करन
438	जेसी430635एफ	सुबेदार मेजर	राम कृष्ण
439	जेसी220841एन	सुबेदार मेजर	सतनाम सिंह
440	जेसी431148एन	सुबेदार	अनिल कुमार
441	जेसी430991एफ	सुबेदार	हरभजन सिंह
442	जेसी430782के	सुबेदार	कुलवंत सिंह
443	जेसी430969डब्ल्यू	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
444	जेसी431387एच	सुबेदार	प्रदीप सिंह

आर टी

445	जेसी431335एम	सुबेदार	राजेंद्र कुमार
446	जेसी431126पी	सुबेदार	राजेश कुमार
447	जेसी431607एफ	सुबेदार	राजेश सिंह
448	जेसी431332वाई	सुबेदार	सुरेश कुमार
449	जेसी431497एक्स	सुबेदार	विजय कुमार

मद्रास सैन्यदल

450	जेसी440047एफ	सुबेदार मेजर	चिदम्बरम् डी.
451	जेसी439863एल	सुबेदार मेजर	कालीदासन वी
452	जेसी440179पी	सुबेदार मेजर	कुरियन अब्राहम
453	जेसी439897वाई	सुबेदार मेजर	संगमेश्वर राव
454	जेसी440323वाई	सुबेदार मेजर	शेक करिमुल्ला
455	जेसी440024ए	सुबेदार मेजर	वी हरी प्रसाद
456	जेसी440231एम	सुबेदार	अनिल कुमार एम
457	जेसी441026एक्स	सुबेदार	बी मोहम्मद
458	जेसी440574एच	सुबेदार	डी. के राव
459	जेसी440632एफ	सुबेदार	कामराज के
460	जेसी440870एन	सुबेदार	मधु सुधन राव एन
461	जेसी440555एक्स	सुबेदार	एम खजाना
462	जेसी440730एफ	सुबेदार	पुतछा वेन्कटा राव
463	जेसी440228एम	सुबेदार	सैनी नरसिम्हा राव
464	जेसी440567एम	सुबेदार	साजी पी
465	जेसी440669एच	सुबेदार	एस दीनाकरन
466	जेसी441032एल	सुबेदार	शिबू जे
467	जेसी440236एल	सुबेदार	एस सिवा कुमार
468	जेसी440635पी	सुबेदार	वी मनोज कुमार

गोलाफेंक सेना

469	जेसी450238के	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार	
470	जेसी450595एम	सुबेदार मेजर	दिनेश सिंह	
471	जेसी450742के	सुबेदार मेजर	लक्खा सिंह	
472	जेसी450980डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	माम चन्द	
473	जेसी450868के	सुबेदार मेजर	मोहम्मद रफीक अली, सेना मेडल	
474	जेसी450761पी	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	
475	जेसी448011एक्स	सुबेदार मेजर	श्री मोहन नाथ त्रिपाठी	आर टी
476	जेसी451533वाई	सुबेदार	धन पाल सिंह	
477	जेसी451532डब्ल्यू	सुबेदार	गयासुद्दीन खान	
478	जेसी451757वाई	सुबेदार	हासन खान	
479	जेसी451499के	सुबेदार	जगबीर सिंह	
480	जेसी451659वाई	सुबेदार	जसबीर सिंह	
481	जेसी451633के	सुबेदार	जीत मल	
482	जेसी451636एक्स	सुबेदार	कंवर पाल सिंह	
483	जेसी451635पी	सुबेदार	कोशलेन्द्र सिंह	
484	जेसी451864ए	सुबेदार	मोहम्मद आर अंसारी	
485	जेसी451065के	सुबेदार	नरेश प्रकाश	
486	जेसी451660एन	सुबेदार	पवन कुमार वर्मा	
487	जेसी451047एफ	सुबेदार	शिशु पाल मीना	
488	जेसी451074एल	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह यादव	

मराठा लाई

489	जेसी459495एच	सुबेदार मेजर	भोसले अनिल विथल	
490	जेसी458195पी	सुबेदार मेजर	ब्रज भूषण दुबे	आर टी
491	जेसी459765एम	सुबेदार मेजर	खादे तानाजी गुंडप्पा	
492	जेसी459489पी	सुबेदार मेजर	एल रवीन्द्र भगवान	

493	जेसी459716के	सुबेदार मेजर	प्रकाश जेंदे	
494	जेसी458006ए	सुबेदार मेजर	शशिकांत पांडे	आर टी
495	जेसी458080एफ	सुबेदार मेजर	सुधाकर मिश्रा	आर टी
496	जेसी458005एक्स	सुबेदार मेजर	योगेन्द्रा प्रसाद शर्मा	आर टी
497	जेसी460074एम	सुबेदार	बारगे चान्द्राकान्त डी.	
498	जेसी460494एम	सुबेदार	चांडेकर जयवन्त बाबू	
499	जेसी460238एक्स	सुबेदार	गायकवाड यशवंत गोपाल	
500	जेसी460962एफ	सुबेदार	कापसे अशोक बाबूराव	
501	जेसी459913एम	सुबेदार	के सुभाष लक्ष्मन	
502	जेसी460278वाई	सुबेदार	निकम दनयानु पांडुरंग	
503	जेसी460390एल	सुबेदार	परब कृष्णा शान्तराम	
504	जेसी460511एफ	सुबेदार	पाटिल अनिल बी	
505	जेसी460724पी	सुबेदार	पाटिल रवीन्द्र दोलत	
506	जेसी460778डब्ल्यू	सुबेदार	पाटिल संतोष विठल	
507	जेसी460505एन	सुबेदार	पवार मानिकराव भीमराव	
508	जेसी460632एच	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार शर्मा	
509	जेसी460277डब्ल्यू	सुबेदार	टी बालासो परासू	
510	जेसी460476के	सुबेदार	विकास पवार	
511	जेसी460304पी	सुबेदार	वालके बालू पुन्दलिकराव	
512	जेसी460244एल	सुबेदार	यादव राजकुमार रामचंद्र	

राजपूताना बन्दूकधारी सेना

513	जेसी470227वाई	सुबेदार मेजर	चंद्रा शेखर	
514	जेसी470661एल	सुबेदार मेजर	मन्दरूप सिंह	
515	जेसी470571के	सुबेदार मेजर	मनसुख राम	
516	जेसी470490के	सुबेदार मेजर	रामवीर सिंह राजपूत	
517	जेसी470270ए	सुबेदार मेजर	रेहिताशवा	
518	जेसी470783पी	सुबेदार मेजर	सुख देव चौधरी	
519	जेसी470660एच	सुबेदार मेजर	सुल्तान सिंह शेखावत	
520	जेसी471222एम	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	
521	जेसी471191एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	
522	जेसी470837एल	सुबेदार	छोटू सिंह शेखावत	
523	जेसी471623एफ	सुबेदार	डी. रनमैल जीवा	
524	जेसी471485एल	सुबेदार	धर्मन्द्र सिंह परिहार	
525	जेसी471016एच	सुबेदार	दिलीप सिंह	
526	जेसी470964ए	सुबेदार	गोपाल सिंह तनवर	
527	जेसी471519एन	सुबेदार	गोपी सिंह	
528	जेसी471649डब्ल्यू	सुबेदार	हुकम सिंह	
529	जेसी470992एम	सुबेदार	जगदीश चंद्रा	
530	जेसी471381के	सुबेदार	जगपाल सिंह	
531	जेसी469936एफ	सुबेदार	जीव राज सिंह शेखावत	
532	जेसी471231एन	सुबेदार	करन पाल सिंह	
533	जेसी471083एन	सुबेदार	लिला राम	
534	जेसी471263डब्ल्यू	सुबेदार	महावीर	
535	जेसी471155एम	सुबेदार	मुकेश बाबू	
536	जेसी470876के	सुबेदार	नवाब अली	
537	जेसी471174एक्स	सुबेदार	राम मिलन सिंह	
538	जेसी471493के	सुबेदार	रोहताश सिंह	
539	जेसी471393वाई	सुबेदार	रूपा राम	
540	जेसी471033एच	सुबेदार	संतोष कुमार	
541	जेसी471183वाई	सुबेदार	संतोष सिंह तोमर	

राजपूत सैन्यदल

542	जेसी480111डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जाधव शिवाजी शाम राव	
-----	-------------------	--------------	---------------------	--

543	जेसी480140एल	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह भाटी
544	जेसी480076वाई	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्र
545	जेसी480795एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह
546	जेसी480736एल	सुबेदार	अर्विन्द कुमार सिंह
547	जेसी481347एक्स	सुबेदार	भंवर सिंह
548	जेसी480844पी	सुबेदार	भंवर सिंह राठोर
549	जेसी481243डब्ल्यू	सुबेदार	भगवान सिंह
550	जेसी480899वाई	सुबेदार	बिमन चंद्रा प्रमाणिक
551	जेसी481187एच	सुबेदार	गुलशेर अली
552	जेसी481104एम	सुबेदार	हरी सिंह चौहान
553	जेसी480976एच	सुबेदार	जगदीश प्रसाद
554	जेसी481136पी	सुबेदार	कर्मजीत
555	जेसी481149एम	सुबेदार	मदन लाल
556	जेसी481123एक्स	सुबेदार	रमा कांत
557	जेसी480709एफ	सुबेदार	रमेश कुमार
558	जेसी481500एच	सुबेदार	रमेश सिंह
559	जेसी480975ए	सुबेदार	राम निवास गुर्जर
560	जेसी480879एल	सुबेदार	रविन्द्र सिंह
561	जेसी481648एफ	सुबेदार	सतबीर
562	जेसी481164एफ	सुबेदार	सतीश कुमार
563	जेसी480801ए	सुबेदार	सत्यवीर सिंह
564	जेसी480970एफ	सुबेदार	शालिग्राम सिंह
565	जेसी480800एक्स	सुबेदार	सोम दत्ता
566	जेसी481415ए	सुबेदार	सुभाष सिंह
567	जेसी481144एन	सुबेदार	सुशील कुमार
568	जेसी481330के	सुबेदार	तेज प्रताप सिंह
569	जेसी481327के	सुबेदार	विजय प्रताप सिंह कुशवाह
570	जेसी480969एम	सुबेदार	विजय पाल सिंह

जाट सैन्यदल

571	जेसी489975एफ	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार बागडिया
572	जेसी490431वाई	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह भाटी
573	जेसी489826एन	सुबेदार मेजर	भीम सिंह
574	जेसी490070एल	सुबेदार मेजर	धर्मवीर
575	जेसी490138एफ	सुबेदार मेजर	हवा सिंह
576	जेसी489705एम	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
577	जेसी489885ए	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार
578	जेसी490349के	सुबेदार मेजर	विरपाल सिंह
579	जेसी488799एच	सुबेदार	अमरीश कुमार
580	जेसी490554एल	सुबेदार	अनिल कुमार
581	जेसी491370वाई	सुबेदार	अशोक कुमार
582	जेसी491127एफ	सुबेदार	बलबीर सिंह
583	जेसी490684एन	सुबेदार	भंवर सिंह नेहरा
584	जेसी490772के	सुबेदार	दिलेप सिंह
585	जेसी490962डब्ल्यू	सुबेदार	दिनेश चंद्रा
586	जेसी490459वाई	सुबेदार	हनुता राम
587	जेसी490925एच	सुबेदार	जयवीर
588	जेसी490946वाई	सुबेदार	झम्मन सिंह
589	जेसी490958एन	सुबेदार	मदन लाल यादव
590	जेसी490883एफ	सुबेदार	मेहर सिंह
591	जेसी490497पी	सुबेदार	नरेश पाल
592	जेसी489763डब्ल्यू	सुबेदार	पवन कुमार
593	जेसी490764एल	सुबेदार	राज कुमार सरावत
594	जेसी490706एफ	सुबेदार	राजवीर सिंह

595	जेसी491109वाई	सुबेदार	राम चन्द्र
596	जेसी491020एम	सुबेदार	रणवीर सिंह
597	जेसी490994वाई	सुबेदार	रतन लाल दूदी
598	जेसी490769के	सुबेदार	सुबा करन
599	जेसी490732एच	सुबेदार	सुमेर सिंह
600	जेसी490705वाई	सुबेदार	योगेन्द्रा यादव

सिख सैन्यदल

601	जेसी499586पी	सुबेदार मेजर	जयमल सिंह
602	जेसी499339एफ	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह
603	जेसी499510पी	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह
604	जेसी499609एल	सुबेदार मेजर	महिंद्र सिंह
605	जेसी499813के	सुबेदार मेजर	मान सिंह
606	जेसी499336एन	सुबेदार मेजर	रघबीर सिंह
607	जेसी499577एन	सुबेदार मेजर	संजीव सिंह
608	जेसी499568एम	सुबेदार मेजर	श्रवण सिंह
609	जेसी500613एच	सुबेदार	बलदेव सिंह
610	जेसी500466एल	सुबेदार	बलविन्दर सिंह
611	जेसी500319एच	सुबेदार	दर्शन लाल
612	जेसी500336एच	सुबेदार	दिनेश कुमार
613	जेसी500566डब्ल्यू	सुबेदार	हरभजन सिंह
614	जेसी500502एल	सुबेदार	हरभजन सिंह
615	जेसी500525एम	सुबेदार	हरदीप सिंह
616	जेसी500581एल	सुबेदार	हरदीप सिंह
617	जेसी500550एल	सुबेदार	हरपाल सिंह
618	जेसी500683एफ	सुबेदार	जरनैल सिंह
619	जेसी500465एच	सुबेदार	जितेन्द्र सिंह
620	जेसी500614एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह
621	जेसी500429एक्स	सुबेदार	लखविंदर सिंह
622	जेसी500234एम	सुबेदार	महेश चन्द्र
623	जेसी500240ए	सुबेदार	रमेश चंद्रा
624	जेसी500624पी	सुबेदार	सतपाल सिंह
625	जेसी500261डब्ल्यू	सुबेदार	सत्येंद्र सिंह
626	जेसी500490एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह

सिख लघु पैदल सेना

627	जेसी509158एम	सुबेदार मेजर	बंत सिंह
628	जेसी509487एच	सुबेदार मेजर	हाकम सिंह
629	जेसी509752एन	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह
630	जेसी509742के	सुबेदार मेजर	संत सिंह
631	जेसी509954पी	सुबेदार	अजीत सिंह
632	जेसी509818वाई	सुबेदार	बलकार सिंह
633	जेसी510164एम	सुबेदार	दलबीर सिंह
634	जेसी510368वाई	सुबेदार	गुरचरण सिंह
635	जेसी510145एफ	सुबेदार	हरभजन सिंह
636	जेसी510300एक्स	सुबेदार	जरनैल सिंह
637	जेसी510180के	सुबेदार	जसपाल सिंह
638	जेसी510299एन	सुबेदार	जसपाल सिंह
639	जेसी510130वाई	सुबेदार	मलकियत सिंह
640	जेसी510358पी	सुबेदार	मनोहर सिंह
641	जेसी509812एक्स	सुबेदार	महल सिंह
642	जेसी509969एक्स	सुबेदार	नायब सिंह
643	जेसी510367डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश सिंह
644	जेसी510005पी	सुबेदार	रंजीत सिंह

645	जेसी510067पी	सुबेदार	सतनाम सिंह
646	जेसी510096के	सुबेदार	सुखविंदर सिंह
डोगरा सैन्यदल			
647	जेसी521182पी	सुबेदार मेजर	भरत भूषण
648	जेसी520636एल	सुबेदार मेजर	चौबे राम ठाकुर
649	जेसी521020के	सुबेदार मेजर	करन सिंह राना
650	जेसी520854के	सुबेदार मेजर	मदन लाल
651	जेसी520598ए	सुबेदार	अशोक कुमार
652	जेसी521778पी	सुबेदार	बालक राम ठाकुर
653	जेसी521739डब्ल्यू	सुबेदार	बी देव ठाकुर
654	जेसी521492ए	सुबेदार	बी कुमार शर्मा
655	जेसी521738एन	सुबेदार	चेत राम चौहान
656	जेसी521994एच	सुबेदार	डी. सिंह
657	जेसी521610एच	सुबेदार	दलजीत सिंह
658	जेसी522181वाई	सुबेदार	दीपक सिंह
659	जेसी521503एफ	सुबेदार	हुसैन सिंह
660	जेसी521624एच	सुबेदार	जगदीश चन्द
661	जेसी522052वाई	सुबेदार	जय रथ
662	जेसी521752ए	सुबेदार	कमल कुमार
663	जेसी521802ए	सुबेदार	कश्मीरा
664	जेसी521770एच	सुबेदार	मल्कीत सिंह, सेना मेडल
665	जेसी521779एक्स	सुबेदार	मनोहर लाल
666	जेसी521803एच	सुबेदार	मेद राम शर्मा
667	जेसी521578वाई	सुबेदार	मुकेश कुमार
668	जेसी521767एच	सुबेदार	ओमकार सिंह
669	जेसी521648एम	सुबेदार	राजीव कुमार
670	जेसी521780एम	सुबेदार	राजेश कुमार
671	जेसी520631एम	सुबेदार	राजेश कुमार
672	जेसी521707एन	सुबेदार	राजिन्दर सिंह
673	जेसी520225एम	सुबेदार	राकेश कुमार
674	जेसी521668ए	सुबेदार	रवि कुमार सैनी
675	जेसी521509एच	सुबेदार	सैलेन्द्र पाल
676	जेसी521741एन	सुबेदार	सिकंदर सिंह
677	जेसी521615एफ	सुबेदार	सुनील सिंह
678	जेसी521730एफ	सुबेदार	वरिन्द्र कुमार
679	जेसी521886वाई	सुबेदार	विजय सिंह
680	जेसी521159एफ	सुबेदार	विनोद कुमार
गढवाल बन्दूकधारी सेना			
681	जेसी530969एल	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार वी
682	जेसी530727एच	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
683	जेसी530155एम	सुबेदार मेजर	दरवान सिंह
684	जेसी530247वाई	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार
685	जेसी530311एल	सुबेदार मेजर	हरेन्द्र सिंह
686	जेसी530708एक्स	सुबेदार मेजर	महीपाल सिंह बिष्ट
687	जेसी530352पी	सुबेदार मेजर	राजा राम
688	जेसी531442एच	सुबेदार	चंद्रा मोहन सिंह
689	जेसी531493डब्ल्यू	सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद
690	जेसी531445डब्ल्यू	सुबेदार	धन सिंह
691	जेसी531353के	सुबेदार	धीरज कुकरेती
692	जेसी531806के	सुबेदार	दिनेश सिंह रावत
693	जेसी531542एन	सुबेदार	हरी सिंह बर्तवाल
694	जेसी531253वाई	सुबेदार	जबार सिंह चौहान

695	जेसी531794ए	सुबेदार	खुशाल सिंह
696	जेसी531522ए	सुबेदार	लाल सिंह, सेना मेडल
697	जेसी531399एम	सुबेदार	महादेव प्रसाद
698	जेसी531892ए	सुबेदार	महेंद्र सिंह
699	जेसी531790के	सुबेदार	मातबर सिंह
700	जेसी531416एफ	सुबेदार	एम सिंह बिष्ट
701	जेसी531834डब्ल्यू	सुबेदार	मेहरवान सिंह
702	जेसी531492एन	सुबेदार	प्रेम सिंह
703	जेसी531449एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह
704	जेसी531805एफ	सुबेदार	सरत सिंह
705	जेसी531385एम	सुबेदार	शक्ती सिंह
706	जेसी531550एम	सुबेदार	शिशुपाल सिंह
707	जेसी531403के	सुबेदार	ताजवर सिंह
708	जेसी531335एफ	सुबेदार	विक्रम सिंह

कुर्माँउ सैन्यदल

709	जेसी540397एच	सुबेदार मेजर	भूपाल सिंह
710	जेसी540510एम	सुबेदार मेजर	मुकेश
711	जेसी540382ए	सुबेदार मेजर	पूरन सिंह दसिला
712	जेसी540511पी	सुबेदार मेजर	रघुबीर सिंह
713	जेसी540017वाई	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह भाईसोरा
714	जेसी541082एल	सुबेदार	अभेय सिंह
715	जेसी541535एल	सुबेदार	चंचल सिंह चौहान
716	जेसी540925एफ	सुबेदार	दलीप सिंह
717	जेसी541331वाई	सुबेदार	दीवान सिंह
718	जेसी540817एक्स	सुबेदार	दुर्गा सिंह कन्याल
719	जेसी541304पी	सुबेदार	दुर विजय यादव
720	जेसी541296एफ	सुबेदार	गोविंद सिंह
721	जेसी541274एच	सुबेदार	हीरा सिंह कापकोटी
722	जेसी541315एफ	सुबेदार	कल्याण सिंह
723	जेसी541150एन	सुबेदार	किशन सिंह
724	जेसी541102एन	सुबेदार	ललित मोहन
725	जेसी541247वाई	सुबेदार	महेश चंद्रा
726	जेसी541210एक्स	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह
727	जेसी540926के	सुबेदार	पूरन चंद्रा पनेरू
728	जेसी541248एफ	सुबेदार	राज बिहारी शर्मा
729	जेसी541212एच	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
730	जेसी540946एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
731	जेसी541408डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र सिंह सुयल
732	जेसी541185के	सुबेदार	रामवतर
733	जेसी541249के	सुबेदार	सुनील कुमार पाल
734	जेसी541269एक्स	सुबेदार	उमेद सिंह

आसाम सैन्यदल

735	जेसी549681ए	सुबेदार मेजर	हेमन्त कुमार दास
736	जेसी549744एक्स	सुबेदार मेजर	जोगेश्वर राजबोंगशी
737	जेसी549437ए	सुबेदार मेजर	कृष्णा बहादुर थापा
738	जेसी549612के	सुबेदार मेजर	नार बहादुर थापा
739	जेसी549693पी	सुबेदार मेजर	राम दुलारे
740	जेसी549685डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरेन सेकिआ
741	जेसी550203एच	सुबेदार	अमृत चंद्रा नाथ
742	जेसी550851एल	सुबेदार	अरुण सिंघा
743	जेसी550321डब्ल्यू	सुबेदार	बिनोद चंद्रा दास
744	जेसी550007एच	सुबेदार	देबा कांता नाथ

745	जेसी550626डब्ल्यू	सुबेदार	करण कुमार ब्रमा
746	जेसी550805डब्ल्यू	सुबेदार	करुणा कांता दास
747	जेसी550380एच	सुबेदार	मोहन च. राय
748	जेसी550461एच	सुबेदार	एन चंद्रा राय
749	जेसी550359ए	सुबेदार	नारायण दास
750	जेसी550316एल	सुबेदार	टी लुडिम

बिहार सैन्यदल

751	जेसी560127पी	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार मंडल
752	जेसी559754पी	सुबेदार मेजर	जगन्नाथ मुरमु
753	जेसी560213ए	सुबेदार मेजर	एल माझी
754	जेसी558242डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महेंद्र कुमार मिश्रा
755	जेसी560276एच	सुबेदार मेजर	मुना बारक
756	जेसी559769एक्स	सुबेदार मेजर	रबीन्द्र नाथ परीद
757	जेसी560074एफ	सुबेदार मेजर	सुखराम मुंडा
758	जेसी560059एम	सुबेदार मेजर	उदय सिंह गगराए
759	जेसी560133एच	सुबेदार मेजर	वी मिंज
760	जेसी560627एम	सुबेदार	अलेकजेन्डर मिंज
761	जेसी561019एक्स	सुबेदार	अरुण कुमार चौधरी
762	जेसी560707के	सुबेदार	बी मुंडा
763	जेसी560471ए	सुबेदार	चन्दन बी
764	जेसी560654डब्ल्यू	सुबेदार	सी पूर्ति
765	जेसी561087एल	सुबेदार	जॉन मिंज
766	जेसी560696एच	सुबेदार	पातरस किसपोत्ता
767	जेसी561041एच	सुबेदार	शिवजी प्रसाद
768	जेसी560839एक्स	सुबेदार	उमेश तिवारी
769	जेसी561020एम	सुबेदार	उपेंद्र पीडी सिंह
770	जेसी560869पी	सुबेदार	विनोद कुमार

आर टी

माहर सैन्यदल

771	जेसी569981एच	सुबेदार मेजर	इंद्र कुमार एबोट
772	जेसी570096एन	सुबेदार मेजर	मिलाप सिंह काकी
773	जेसी570266एम	सुबेदार मेजर	नारु गोपाल दत्ता
774	जेसी570017एन	सुबेदार मेजर	पृथ्वी पाल सिंह
775	जेसी569977ए	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा कुमार
776	जेसी571349के	सुबेदार	अछार सिंह
777	जेसी571296डब्ल्यू	सुबेदार	अमरजीत सिंह
778	जेसी570808एल	सुबेदार	अशोक कुमार रौय
779	जेसी570255ए	सुबेदार	बासुदेब दास
780	जेसी570702वाई	सुबेदार	गिरधारी लाल
781	जेसी571022एल	सुबेदार	गुरप्रीत सिंह
782	जेसी570673पी	सुबेदार	कमलेश ओझा
783	जेसी570943वाई	सुबेदार	काम्बले संजय यशवन्त
784	जेसी570928के	सुबेदार	निर्माले रमेश रवाजी
785	जेसी570902पी	सुबेदार	पगारे सुनील करभरी
786	जेसी570879एम	सुबेदार	रंजीत सिंह
787	जेसी571383के	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह
788	जेसी570374डब्ल्यू	सुबेदार	शमशेर बहादुर सिंह
789	जेसी571005एल	सुबेदार	एस मगन गनेश
790	जेसी570687पी	सुबेदार	सुरेश सिंह धामी

जम्मू और कश्मीर बन्दूकधारी सेना

791	जेसी581091पी	सुबेदार मेजर	दलजीत सिंह
792	जेसी580900एक्स	सुबेदार मेजर	मनोज कुमार श्रीवास्तवा

793	जेसी581173एक्स	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह ठाकुर
794	जेसी580559एल	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह
795	जेसी580541पी	सुबेदार मेजर	समिरा सिंह
796	जेसी581353ए	सुबेदार	अब्दुल हमीद
797	जेसी581858डब्ल्यू	सुबेदार	अजय सुब्बा, एसएम
798	जेसी582106वाई	सुबेदार	अरुण कुमार
799	जेसी582008वाई	सुबेदार	बलजीत सिंह
800	जेसी581703एफ	सुबेदार	भरत सिंह
801	जेसी582103एल	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह
802	जेसी582138एफ	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह
803	जेसी581834एम	सुबेदार	बीरबल राम
804	जेसी581494पी	सुबेदार	दर्शन लाल
805	जेसी582040एन	सुबेदार	धन बहादुर
806	जेसी581985एल	सुबेदार	हरदेव सिंह
807	जेसी581697वाई	सुबेदार	जगत राम
808	जेसी581872एच	सुबेदार	जसवंत सिंह
809	जेसी582083एच	सुबेदार	जसवंत सिंह
810	जेसी581634डब्ल्यू	सुबेदार	कमल सिंह
811	जेसी581633एन	सुबेदार	करनैल सिंह
812	जेसी581545एक्स	सुबेदार	महीपाल गुलेरिया
813	जेसी580789वाई	सुबेदार	पदम सिंह
814	जेसी582013के	सुबेदार	पर्गत सिंह
815	जेसी581702वाई	सुबेदार	प्रेम नाथ
816	जेसी581784एम	सुबेदार	पूर्णा कुमार गुरंग
817	जेसी581699के	सुबेदार	राजेश कुमार
818	जेसी581869एच	सुबेदार	राकेश अग्निहोत्री
819	जेसी581901एम	सुबेदार	रंजीत सिंह
820	जेसी582104एन	सुबेदार	रवि कुमार
821	जेसी581713एल	सुबेदार	संसार चन्द
822	जेसी581706पी	सुबेदार	सतीश कुमार
823	जेसी581659एच	सुबेदार	श्याम सिंह
824	जेसी581602एन	सुबेदार	सूरज गुरंग
825	जेसी582022एल	सुबेदार	सुरेश कुमार
826	जेसी582154वाई	सुबेदार	तारा चन्द
827	जेसी581558पी	सुबेदार	त्रिलोक सिंह
828	जेसी582016एक्स	सुबेदार	विनोद कुमार
829	जेसी581864के	सुबेदार	योग राज

लदाख निरीक्षक

830	जेसी588576ए	सुबेदार	मोहम्मद दीन
831	जेसी588733एफ	सुबेदार	नवंग डोरजे
832	जेसी588682वाई	सुबेदार	नवंग नोरबो
833	जेसी588637एम	सुबेदार	पद्मा नामगेल
834	जेसी588650डब्ल्यू	सुबेदार	सेतन पलजोर

नागा सैन्यदल

835	जेसी590216एच	सुबेदार मेजर	वांगसोल एन अनल
836	जेसी590327ए	सुबेदार	ए पुकेनी
837	जेसी590338एम	सुबेदार	एनजी. कुबा
838	जेसी590305एफ	सुबेदार	पी एस एस अनल

जम्मू और कश्मीर लघु पैदल सेना

839	जेसी593176एक्स	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार शर्मा
840	जेसी593609के	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह

841	जेसी593433के	सुबेदार मेजर	गुरदेव सिंह चिब
842	जेसी593348एफ	सुबेदार मेजर	किशोर लाल परहार
843	जेसी593253एफ	सुबेदार मेजर	मोहम्मद सादिक
844	जेसी593471ए	सुबेदार मेजर	एस वी राजू
845	जेसी593753वाई	सुबेदार मेजर	सकिन्दर लाल
846	जेसी593455एच	सुबेदार मेजर	सुबाष चंद्र
847	जेसी593419एक्स	सुबेदार मेजर	सुबाष चंद्र
848	जेसी593606डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुबाष सिंह
849	जेसी593604एल	सुबेदार मेजर	विजय पौल शर्मा
850	जेसी593633ए	सुबेदार	अर्जुन सिंह महार
851	जेसी594230एम	सुबेदार	अशोक सिंह
852	जेसी594140एल	सुबेदार	बोध राज
853	जेसी594257के	सुबेदार	जी एच नबी वाणी
854	जेसी593942एच	सुबेदार	जतिंद्र सिंह
855	जेसी594394एच	सुबेदार	कपूर चन्द
856	जेसी593799एफ	सुबेदार	कुलदीप राज
857	जेसी593749डब्ल्यू	सुबेदार	कुंजी लाल एस
858	जेसी594235एल	सुबेदार	कुशल सिंह
859	जेसी594751ए	सुबेदार	मोहम्मद अश्फाक
860	जेसी593983एम	सुबेदार	मोहम्मद बशीर
861	जेसी593665एच	सुबेदार	मोहम्मद शबीर
862	जेसी594122एच	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
863	जेसी594213एम	सुबेदार	मुंशी खान
864	जेसी594094एफ	सुबेदार	मुश्ताक हुसैन
865	जेसी594214पी	सुबेदार	नरिंदर कुमार, एसएम
866	जेसी594217एच	सुबेदार	राजिन्दर लाल
867	जेसी593842एक्स	सुबेदार	राम दास
868	जेसी593650ए	सुबेदार	राम कुमार
869	जेसी593549ए	सुबेदार	राम स्वरूप
870	जेसी594149ए	सुबेदार	रियाज अहमद खान
871	जेसी594745एम	सुबेदार	शमीम अहमद
872	जेसी594355के	सुबेदार	सोम नाथ
873	जेसी594523एक्स	सुबेदार	सुबाष लाल
874	जेसी593689एम	सुबेदार	सुखदेव सिंह पडा
875	जेसी594115एम	सुबेदार	स्वर्ण लाल
876	जेसी593925एच	सुबेदार	यश पाल

1 गोरखा बन्दूकधारी सेना

877	जेसी602725डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मनी कुमार पुन
878	जेसी603021वाई	सुबेदार	अजुन कुमार सारेस्था
879	जेसी602969के	सुबेदार	महेंद्र बहादुर राना मगर
880	जेसी602977एच	सुबेदार	नील बहादुर गुरंग
881	जेसी603063एल	सुबेदार	याम बहादुर दरलामी

3 गोरखा बन्दूकधारी सेना

882	जेसी607838एच	सुबेदार मेजर	धन बहादुर श्रेष्ठा
883	जेसी607786एक्स	सुबेदार मेजर	रत्ना बहादुर पुन
884	जेसी607884एक्स	सुबेदार	चंद्रा बहादुर अधिकारी
885	जेसी607779एफ	सुबेदार	दंबर बहादुर गुरंग
886	जेसी607960वाई	सुबेदार	गोपाल सिंह थापा
887	जेसी607812एन	सुबेदार	कृशन प्रसाद गुरंग
888	जेसी607908डब्ल्यू	सुबेदार	मेघ बहादुर अले
889	जेसी608007डब्ल्यू	सुबेदार	पी मरुथप्पन
890	जेसी608005एल	सुबेदार	राम बहादुर थापा
891	जेसी607868ए	सुबेदार	राम बहादुर थापा

4 गोरखा बन्दूकधारी सेना

892	जेसी612853एफ	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार श्रेष्ठा
893	जेसी612658के	सुबेदार मेजर	काजी राम थापा
894	जेसी612631एम	सुबेदार मेजर	नार भूपाल गुरंग
895	जेसी612677पी	सुबेदार मेजर	पदम बहादुर गुरंग
896	जेसी612886एम	सुबेदार	बिल बहादुर गुरंग
897	जेसी612849वाई	सुबेदार	ज्ञानेन्द्र बलाल
898	जेसी612821वाई	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा मगर

5 गोरखा बन्दूकधारी सेना

899	जेसी617001डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भुपेन्द्र कुमार मनी त्रिपाठी	आर टी
900	जेसी617880पी	सुबेदार मेजर	बुधी राज गुरंग	
901	जेसी617874एफ	सुबेदार मेजर	दीपक थापा	
902	जेसी617863पी	सुबेदार मेजर	डी.ओ.एल बहादुर थापा	
903	जेसी617938एफ	सुबेदार मेजर	प्रेम चन्द कुमार	
904	जेसी617671एक्स	सुबेदार मेजर	ठाकुर प्रसाद पोउदेल	
905	जेसी618166एफ	सुबेदार	बाल बहादुर सरु	
906	जेसी618053वाई	सुबेदार	बील बहादुर गुरंग	
907	जेसी618110पी	सुबेदार	दान बहादुर सरु	
908	जेसी618066डब्ल्यू	सुबेदार	जी. बहादुर पुन	
909	जेसी618143ए	सुबेदार	हीरा प्रकाश गुरंग	
910	जेसी618165वाई	सुबेदार	इशोर बहादुर थापा	
911	जेसी618164डब्ल्यू	सुबेदार	के बी क्षेत्रिय	
912	जेसी618127एच	सुबेदार	आर राज पांडे	
913	जेसी617926एम	सुबेदार	विष्णु थापा	

8 गोरखा बन्दूकधारी सेना

914	जेसी623811पी	सुबेदार मेजर	जीत बहादुर पुन
915	जेसी623982एफ	सुबेदार	धन बहादुर छत्री
916	जेसी623931एन	सुबेदार	धन बहादुर थापा
917	जेसी623985पी	सुबेदार	रण बहादुर राना
918	जेसी624149एक्स	सुबेदार	शिव बहादुर थापा
919	जेसी624058एन	सुबेदार	श्री कुमार पुन
920	जेसी624120पी	सुबेदार	सोम बहादुर भुजल

9 गोरखा बन्दूकधारी सेना

921	जेसी629875डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भीम बहादुर भंडारी
922	जेसी629949ए	सुबेदार मेजर	मान बहादुर छत्री, शौर्य चक
923	जेसी629960वाई	सुबेदार मेजर	तिलक पउदेल
924	जेसी630035एच	सुबेदार	मिन बहादुर के सी
925	जेसी629966ए	सुबेदार	रवि भूषण सिंह
926	जेसी630106वाई	सुबेदार	सूरज मल

11 गोरखा बन्दूकधारी सेना

927	जेसी634779एल	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार लिम्बू
928	जेसी612675के	सुबेदार मेजर	अर्पण थापा
929	जेसी634636एल	सुबेदार मेजर	धर्मेन्द्र सिंह बसनत
930	जेसी634692के	सुबेदार मेजर	पदम बहादुर राय
931	जेसी635070पी	सुबेदार	भुपेन्द्र कुमार सुब्बा
932	जेसी635239वाई	सुबेदार	होम बहादुर तमंग
933	जेसी634891एक्स	सुबेदार	करण कुमार लिम्बू
934	जेसी635127वाई	सुबेदार	मान कुमार पी
935	जेसी635091एल	सुबेदार	रवि राय

सेना सेवा पलटन दक्षिण

936	जेसी665758डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ए भाउ साहेब काचरू	
937	जेसी642587एच	सुबेदार मेजर	अग्रवाल मनी शंकर लाल	
938	जेसी665795के	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार टी जी.	
939	जेसी660081एम	सुबेदार मेजर	अवधेश कुमार मिश्रा	आर टी
940	जेसी666023वाई	सुबेदार मेजर	भोला रौय	
941	जेसी642912एक्स	सुबेदार मेजर	गोरा चन्द पसारी	
942	जेसी665778के	सुबेदार मेजर	जीवन सिंह	
943	जेसी665966एल	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार प्रधान	
944	जेसी664846ए	सुबेदार मेजर	पी परिया	
945	जेसी665741एच	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह राय एस	
946	जेसी665610एक्स	सुबेदार मेजर	एस कुमार	
947	जेसी665918एल	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण	
948	जेसी664274के	सुबेदार मेजर	तख्त सिंह एन	
949	जेसी660993एल	सुबेदार	अमर नाथ मिश्रा	आर टी
950	जेसी670232एन	सुबेदार	अनुराग कुमार श्रीवास्तव	
951	जेसी670260ए	सुबेदार	अशोक कुमार गुप्ता	
952	जेसी668854डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार साह	
953	जेसी670131ए	सुबेदार	हरीश चंद्रा	
954	जेसी667318एफ	सुबेदार	जयंत कुमार मोहंती	
955	जेसी670135डब्ल्यू	सुबेदार	एम पी राधाकृष्ण	
956	जेसी670143पी	सुबेदार	मदन लाल	
957	जेसी670126पी	सुबेदार	निरोतम सिंह	
958	जेसी668671ए	सुबेदार	प्रदीप कुमार सत्यथी	
959	जेसी670142एम	सुबेदार	राधे शाम	
960	जेसी670146एच	सुबेदार	रघुवीर प्रसाद सैनी	
961	जेसी669683एफ	सुबेदार	श्री निवास	
962	जेसी668672एच	सुबेदार	सुजान सिंह	
963	जेसी668684एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र	
964	जेसी670294एन	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	
965	जेसी660532एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रताप सिंह	आर टी
966	जेसी669273एल	सुबेदार	ठाकुरसेन नेगी	
967	जेसी670259एल	सुबेदार	विनोद महतो	
968	जेसी667868के	सुबेदार	योगेशा पुजारी के	

सेना सेवा पलटन पशु परिवहन

969	जेसी681194एच	रिसालदार मेजर	हयात सिंह
970	जेसी681254एम	रिसालदार मेजर	मोहन सिंह
971	जेसी681534ए	रिसालदार	अजीजुर रहमान
972	जेसी681520ए	रिसालदार	बिरेन्द्रा सिंह
973	जेसी681528एम	रिसालदार	बृज नंदन प्रसाद
974	जेसी681519एल	रिसालदार	सी एम एस बिष्ट
975	जेसी681517ए	रिसालदार	जाधव दिनकर सहदेव
976	जेसी681510डब्ल्यू	रिसालदार	जितेन्द्रा सिंह राठोर
977	जेसी681533एक्स	रिसालदार	के ज्योति राजू
978	जेसी681530के	रिसालदार	के वी राधाकृष्ण
979	जेसी681513के	रिसालदार	मनमोहन सिंह
980	जेसी681621एन	रिसालदार	मन्नू सिंह यादव
981	जेसी681504एच	रिसालदार	एम हुसैन
982	जेसी681503ए	रिसालदार	मुन्ना पण्डित
983	जेसी681501पी	रिसालदार	नारायण बिशोई
984	जेसी681518एच	रिसालदार	पी कमला कानन्न
985	जेसी681543एफ	रिसालदार	रबीन्द्र नाथ पाल
986	जेसी681512एफ	रिसालदार	राकेश कुमार

987	जेसी681542वाई	रिसालदार	रंजन कुमार राना
988	जेसी681505एल	रिसालदार	सुदामा यादव
989	जेसी681529पी	रिसालदार	एस यादव
990	जेसी681526एफ	रिसालदार	उमा शंकर शर्मा

सेना चिकित्सा पलटन

991	जेसी698315पी	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह चौहान
992	जेसी697167एच	सुबेदार मेजर	अशफाक अहमद
993	जेसी698450एच	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह
994	जेसी698256एन	सुबेदार मेजर	देस राज
995	जेसी695075एक्स	सुबेदार मेजर	गिरीजा प्रसाद मोहंती
996	जेसी696612के	सुबेदार मेजर	गोरी संकर सामंत
997	जेसी694270एच	सुबेदार मेजर	ईलम सिंह
998	जेसी695058एक्स	सुबेदार मेजर	कमल जीत सिंह
999	जेसी698407एफ	सुबेदार मेजर	कुनछाला रवि कुमार
1000	जेसी697243के	सुबेदार मेजर	निकोलस रवि पी
1001	जेसी693939एक्स	सुबेदार मेजर	पुष्पेन्द्र कुमार
1002	जेसी697120एक्स	सुबेदार मेजर	राजन सिंह
1003	जेसी699166वाई	सुबेदार मेजर	राजेश सिंह
1004	जेसी698309एफ	सुबेदार मेजर	राम बिलास यादव
1005	जेसी698049एफ	सुबेदार मेजर	आर गुरुसामी
1006	जेसी698594एल	सुबेदार मेजर	संजय कुमार
1007	जेसी698449एन	सुबेदार मेजर	शाम लाल
1008	जेसी696909एल	सुबेदार मेजर	उधम सिंह
1009	जेसी700597ए	सुबेदार	अमर सिंह
1010	जेसी699566एल	सुबेदार	अनिल कुमार
1011	जेसी698880एम	सुबेदार	ए रंगनाथन
1012	जेसी699645ए	सुबेदार	अरुण कुमार
1013	जेसी699612पी	सुबेदार	अशवनी कुमार
1014	जेसी700724के	सुबेदार	असीम विश्वास
1015	जेसी698120के	सुबेदार	छोटे लाल सिंह
1016	जेसी700978एफ	सुबेदार	दम्बारूधर मोहंता
1017	जेसी699571डब्ल्यू	सुबेदार	धीरेन्द्र प्रसाद ठाकुर
1018	जेसी699534एच	सुबेदार	जी. दिवाकर
1019	जेसी700339ए	सुबेदार	हरी शंकर
1020	जेसी698281एम	सुबेदार	हरीश चंद्रा पटेल
1021	जेसी698121एम	सुबेदार	जहर लाल दाश
1022	जेसी697079एम	सुबेदार	जय राम कुमावत
1023	जेसी700510एन	सुबेदार	कमलेश कुमार
1024	जेसी697247ए	सुबेदार	एम शंकर मधुकर
1025	जेसी700802डब्ल्यू	सुबेदार	निरंजन सोई
1026	जेसी700670एन	सुबेदार	ओम प्रकाश
1027	जेसी700344एल	सुबेदार	परमजीत सिंह
1028	जेसी698471वाई	सुबेदार	प्रबोध कुमार हाजरा
1029	जेसी700392एल	सुबेदार	प्रणब गोगोई
1030	जेसी700336एम	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार
1031	जेसी700413डब्ल्यू	सुबेदार	राजू एस
1032	जेसी697881एच	सुबेदार	राम अवध सिंह यादव
1033	जेसी699573एफ	सुबेदार	राम निवास यादव
1034	जेसी700869पी	सुबेदार	रामवीर
1035	जेसी699310एच	सुबेदार	शेक अब्दुल रहीम
1036	जेसी700412एन	सुबेदार	सुशील चंद्रा
1037	जेसी700343एच	सुबेदार	सुशील कुमार मन्न
1038	जेसी700342ए	सुबेदार	स्वप्न कुमार दास

1039	जेसी701013डब्ल्यू	सुबेदार	एस येशू दोस
1040	जेसी700873एक्स	सुबेदार	ताटी रंगा राव
1041	जेसी700669वाई	सुबेदार	विजय शंकर सिंह यादवा
1042	जेसी701912एक्स	सुबेदार	वयावहारे सुनील रामराव

सेना आयुध पलटन

1043	जेसी724845के	सुबेदार मेजर	अजय कुमार दास
1044	जेसी728991एफ	सुबेदार मेजर	बी कासी विश्वनधाम
1045	जेसी725581ए	सुबेदार मेजर	दुर्गा राम सायु
1046	जेसी728541के	सुबेदार मेजर	हरीभान सिंह
1047	जेसी728997एच	सुबेदार मेजर	जगन नाथ प्रसाद शर्मा
1048	जेसी725309एन	सुबेदार मेजर	एम सारागदा
1049	जेसी725524वाई	सुबेदार मेजर	नाथू लाल
1050	जेसी729025एफ	सुबेदार मेजर	राज बीर सिंह
1051	जेसी729132एच	सुबेदार मेजर	राम चंद्र
1052	जेसी727369एफ	सुबेदार मेजर	साफी मोहम्मद खान
1053	जेसी727942एम	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा तिवारी
1054	जेसी727944एक्स	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
1055	जेसी728943एफ	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह
1056	जेसी727454के	सुबेदार मेजर	थामस एमटी
1057	जेसी730589डब्ल्यू	सुबेदार	अरुण कुमार मैटी
1058	जेसी730487ए	सुबेदार	ए शहाबुद्दीन
1059	जेसी730060डब्ल्यू	सुबेदार	बिमल कुमार
1060	जेसी730249एन	सुबेदार	घनशाम यादव
1061	जेसी730245एक्स	सुबेदार	गोविंद प्रसाद जाट
1062	जेसी730168एन	सुबेदार	करुणा शंकर तिवारी
1063	जेसी730194पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह
1064	जेसी731379एच	सुबेदार	महादेव गूजर
1065	जेसी728042पी	सुबेदार	मोहम्मद नसीर अली
1066	जेसी728219एक्स	सुबेदार	एन विनोद
1067	जेसी730172डब्ल्यू	सुबेदार	नानक चन्द
1068	जेसी730370एफ	सुबेदार	निताइ चंद्रा महता
1069	जेसी730637एल	सुबेदार	राघवन वी
1070	जेसी730264एच	सुबेदार	राज कुमार
1071	जेसी730306के	सुबेदार	राजू के
1072	जेसी730349वाई	सुबेदार	राकेश पाल
1073	जेसी730339पी	सुबेदार	सफीकुल मालित्या
1074	जेसी730594एफ	सुबेदार	संजीत कुमार सिंह
1075	जेसी730246ए	सुबेदार	शिवेंद्र सिंह
1076	जेसी730560एन	सुबेदार	शिवजी लाल यादव
1077	जेसी730335वाई	सुबेदार	तपन कुमार प्रधान
1078	जेसी730989एच	सुबेदार	उमेश कुमार यादव

विद्युतिय एवं यांत्रिक अभियन्ता पलटन

1079	जेसी766581पी	सुबेदार मेजर	अब्दुल साहेब उद्दीन लश्कर
1080	जेसी758615एच	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार राय
1081	जेसी758516ए	सुबेदार मेजर	बाबू राम बिश्नोई
1082	जेसी763696एक्स	सुबेदार मेजर	भास्कर
1083	जेसी758264वाई	सुबेदार मेजर	बी पी प्रधान
1084	जेसी762104डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ब्रिजेश सिंह
1085	जेसी763713एम	सुबेदार मेजर	ब्रजकेश मिश्रा
1086	जेसी757720एम	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार पी एन
1087	जेसी759171डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गंगाधरन वी वी
1088	जेसी761737एक्स	सुबेदार मेजर	हरेन्द्र सिंह

1089	जेसी759193पी	सुबेदार मेजर	जगबन्धु समानत्रे
1090	जेसी766348एफ	सुबेदार मेजर	जमीर अहमद
1091	जेसी758795डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कृष्णन वी
1092	जेसी759007एन	सुबेदार मेजर	महेंद्र प्रताप सिंह
1093	जेसी758674पी	सुबेदार मेजर	मुकेश कुमार शर्मा
1094	जेसी760963एच	सुबेदार मेजर	मुरुगन
1095	जेसी758724पी	सुबेदार मेजर	नारायण बिसोइ
1096	जेसी759009वाई	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा राउता
1097	जेसी762891एच	सुबेदार मेजर	नेमी चन्द गौतम
1098	जेसी758631ए	सुबेदार मेजर	ओंकार सिंह
1099	जेसी758879के	सुबेदार मेजर	पंकज केआर हज़ारिका
1100	जेसी763801एच	सुबेदार मेजर	प्रमोद कुमार
1101	जेसी749321एन	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार तिवारी
1102	जेसी759434के	सुबेदार मेजर	प्रकाशन सी पी
1103	जेसी758855ए	सुबेदार मेजर	राजीव सिंह
1104	जेसी766440ए	सुबेदार मेजर	राज कुमार
1105	जेसी756563वाई	सुबेदार मेजर	राज रूप
1106	जेसी758807ए	सुबेदार मेजर	राकेश कुमार
1107	जेसी759532के	सुबेदार मेजर	रामानन्द यादव
1108	जेसी758892एन	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र
1109	जेसी758567एन	सुबेदार मेजर	राम किशोर
1110	जेसी758603एन	सुबेदार मेजर	राम नगीना सिंह
1111	जेसी759331एल	सुबेदार मेजर	राम पुकार प्रसाद
1112	जेसी758857एल	सुबेदार मेजर	संत कुमार
1113	जेसी758608एम	सुबेदार मेजर	सत्याबादी जैना
1114	जेसी759029एम	सुबेदार मेजर	शिव गोपाल राय
1115	जेसी765505डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	श्याम जीत यादव
1116	जेसी763697ए	सुबेदार मेजर	सुबोध कुमार गिरि
1117	जेसी766400वाई	सुबेदार मेजर	सुनील
1118	जेसी762556वाई	सुबेदार मेजर	सुरेश चन्द
1119	जेसी758784के	सुबेदार मेजर	सुरेश टी
1120	जेसी759006एल	सुबेदार मेजर	ताहिर अली खान
1121	जेसी766270एफ	सुबेदार मेजर	उपेंद्र प्रसाद
1122	जेसी766305एम	सुबेदार	अध्व बालू डी.
1123	जेसी767458एच	सुबेदार	अलक मित्रा
1124	जेसी767468एम	सुबेदार	अनंथा कृष्णन के
1125	जेसी762843एच	सुबेदार	अनार सिंह
1126	जेसी766471ए	सुबेदार	अनिल कुमार
1127	जेसी766296डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार
1128	जेसी766475डब्ल्यू	सुबेदार	बिजय कुमार यादव
1129	जेसी766304के	सुबेदार	डी. सरदार श्रीपति
1130	जेसी769698वाई	सुबेदार	दया शंकर सिंह
1131	जेसी768307डब्ल्यू	सुबेदार	देशबंधु सिंह
1132	जेसी767703ए	सुबेदार	दिनेश चंद्रा
1133	जेसी766416के	सुबेदार	गौतम कुमार मंडल
1134	जेसी768323एन	सुबेदार	हकीम अली खान
1135	जेसी767465वाई	सुबेदार	हरे कुर्णा मलिक
1136	जेसी766408एल	सुबेदार	हरी कुमार बी टी
1137	जेसी766307एक्स	सुबेदार	हरीश कुमार सिंह
1138	जेसी766295एन	सुबेदार	जाधव कृशान्त शिवाजी
1139	जेसी769341एच	सुबेदार	जाधव संदीप सदासिव
1140	जेसी766294एल	सुबेदार	के बाला साहेब भीकोबा
1141	जेसी767586ए	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह
1142	जेसी766237के	सुबेदार	मधु सुधानन नायर के बी

आर टी

1143	जेसी766306पी	सुबेदार	मोहम्मद जुबेर आलम
1144	जेसी766308ए	सुबेदार	एम कुमार गुलाब राव
1145	जेसी768304एच	सुबेदार	ओम प्रकाश चोबे
1146	जेसी766423ए	सुबेदार	परखारे मधुकर नाथू
1147	जेसी768646डब्ल्यू	सुबेदार	परमार जगादीश कुमार धईया भाई
1148	जेसी766481के	सुबेदार	पोल कृष्णा नारायण
1149	जेसी768311वाई	सुबेदार	प्रवीर कुमार प्रमाणिक
1150	जेसी761046एल	सुबेदार	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
1151	जेसी767536पी	सुबेदार	रछपाल सिंह
1152	जेसी766421पी	सुबेदार	राजिन्दर पाल
1153	जेसी767469पी	सुबेदार	रमाकांत मिश्रा
1154	जेसी761872एल	सुबेदार	रमा सामी एन
1155	जेसी761871एच	सुबेदार	राम चंद्रा
1156	जेसी767519पी	सुबेदार	रामेश्वर सिंह
1157	जेसी768152एम	सुबेदार	राम गुलाम
1158	जेसी769120डब्ल्यू	सुबेदार	राउत नन्दू दत्तात्रिया
1159	जेसी766411एल	सुबेदार	एस लक्ष्मन पुंडलिक
1160	जेसी766409एन	सुबेदार	साजन जी.
1161	जेसी767459एल	सुबेदार	समित के
1162	जेसी766410एच	सुबेदार	संतोष जी.
1163	जेसी766405एक्स	सुबेदार	साठे नावानाथ एकनाथ
1164	जेसी766663एक्स	सुबेदार	सैयद अब्दुल हीराभाई
1165	जेसी767906के	सुबेदार	शेक ए खादर बाशा
1166	जेसी767830पी	सुबेदार	शेक खासिम वाली
1167	जेसी768949एल	सुबेदार	शलेश कुमार सिंह
1168	जेसी767871वाई	सुबेदार	एस कान्तीलाल जेटालाल
1169	जेसी767785एन	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह
1170	जेसी767486पी	सुबेदार	सुरेश कुमार
1171	जेसी769692एक्स	सुबेदार	सुरेश कुमार
1172	जेसी767258एम	सुबेदार	सुरेश कुमार के
1173	जेसी766419एक्स	सुबेदार	तपन कुमार साहू
1174	जेसी766420एम	सुबेदार	उदित कुमार
1175	जेसी766414वाई	सुबेदार	विभाकर तिवारी
1176	जेसी766472एच	सुबेदार	वाधे देवानंद पुंडलिक

सेना शिक्षा पलटन

1177	जेसी803696एच	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
1178	जेसी803894एन	सुबेदार मेजर	बुधी बल्लभ डिमरी
1179	जेसी804155एन	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र सिंह
1180	जेसी804075डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मुकेश कुमार अदलख
1181	जेसी804042एल	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार उपाध्याय
1182	जेसी804235एल	सुबेदार मेजर	राम यज्ञा मिश्रा
1183	जेसी804216ए	सुबेदार मेजर	एस के यूसुफ अली
1184	जेसी803893एल	सुबेदार मेजर	सुदर्शन कुमार
1185	जेसी804751ए	सुबेदार	अलीम काथात
1186	जेसी804745एम	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह
1187	जेसी804365एन	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह रावत
1188	जेसी804931एच	सुबेदार	कैलाश चंद्रा राउता
1189	जेसी804772डब्ल्यू	सुबेदार	महाराज सिंह
1190	जेसी804364एल	सुबेदार	पदुम सिंह
1191	जेसी804377एच	सुबेदार	राकेश कुमार

घुड़ एवं पशुचिकित्सा पलटन

1192	जेसी797675एन	रिसालदार मेजर	अल्बर्ट सेलवन एस
------	--------------	---------------	------------------

1193	जेसी797493ए	रिस्सालदार मेजर	हरी राम
1194	जेसी797440एफ	रिस्सालदार मेजर	रोहतास कुमार
1195	जेसी797818एच	रिस्सालदार	सुंदर राम

सेना आसूचना पलटन

1196	जेसी811243एम	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह
1197	जेसी811307एम	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
1198	जेसी8111111वाई	सुबेदार मेजर	चतर सिंह
1199	जेसी811296एल	सुबेदार मेजर	दलवीर सिंह
1200	जेसी810966पी	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
1201	जेसी811231एक्स	सुबेदार मेजर	सोबन सिंह
1202	जेसी811884वाई	सुबेदार	गायकवाड दीपक नामदेव
1203	जेसी811591एन	सुबेदार	किशोर सिंह
1204	जेसी811635ए	सुबेदार	पवन जीत
1205	जेसी811586एच	सुबेदार	प्रमोद सिंह नेगी
1206	जेसी811592डब्ल्यू	सुबेदार	सालुंखे जे बाजीराव
1207	जेसी811640एल	सुबेदार	एस गुरु नगेन्द्रा चारी
1208	जेसी811668एल	सुबेदार	शिशु राम बारो

सेना पुलिस पलटन

1209	जेसी819449वाई	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार सिंह
1210	जेसी819530एल	सुबेदार मेजर	पुरुषाथमन पी
1211	जेसी820070एफ	सुबेदार	चंद्रा पाल सिंह
1212	जेसी820084एफ	सुबेदार	महेंद्र सिंह
1213	जेसी819902एल	सुबेदार	गोरखा नाथ यादवा
1214	जेसी819945ए	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद
1215	जेसी819908एम	सुबेदार	सतेंद्र कुमार
1216	जेसी819941के	सुबेदार	सतीश कुमार एस

सेना शारीरिक प्रशिक्षण पलटन

1217	जेसी826246एक्स	सुबेदार	अरुण कुमार
------	----------------	---------	------------

अन्वेषक पलटन

1218	जेसी829490एच	सुबेदार मेजर	श्यामल कान्ति धर
1219	जेसी829427एन	सुबेदार मेजर	श्याम सिंह गोबारी
1220	जेसी829565पी	सुबेदार	श्याम चरण मोहंता

रक्षा सुरक्षा पलटन

1221	जेसी843495एम	सुबेदार	जसविन्दर सिंह
1222	जेसी842968एन	सुबेदार	कृष्णा कुमार
1223	जेसी842991एफ	सुबेदार	पी मनोहरन
1224	जेसी842379एक्स	सुबेदार	राज बहादुर यादवा
1225	जेसी843484ए	सुबेदार	राम करन
1226	जेसी843526एफ	सुबेदार	आर सेकिआ
1227	जेसी843522एल	सुबेदार	सुभाष नाइक
1228	जेसी843361एन	सुबेदार	सूरज प्रकाश
1229	जेसी842971एन	सुबेदार	स्वामीनाथन वी
1230	जेसी843069वाई	सुबेदार	टी अशोक कुमार
1231	जेसी842988एफ	सुबेदार	उग्र राम
1232	जेसी842975के	सुबेदार	वी लक्ष्मीया

प्रादेशिक सेना

1233	टीजे5603ए	सुबेदार	अरुण राय
1234	टीजे5819एफ	सुबेदार	अरुण कुमार एन

1235	टीजे5424ए	सुबेदार	अशोक सिंह
1236	टीजे5707एफ	सुबेदार	बासप्पा बी
1237	टीजे5558वाई	सुबेदार	बिरजू सिंह
1238	टीजे5743एम	सुबेदार	गुरमेल सिंह
1239	टीजे5552एक्स	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह
1240	टीजे5731एक्स	सुबेदार	लखविन्दर सिंह
1241	टीजे4915के	सुबेदार	नरेंद्र कुमार
1242	टीजे5730पी	सुबेदार	पारस राम
1243	टीजे5628एम	सुबेदार	प्रेम दास
1244	टीजे4874एल	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह
1245	टीजे5642वाई	सुबेदार	राजी के
1246	टीजे5288एम	सुबेदार	राम कुमार सिंह
1247	टीजे4902एम	सुबेदार	संतोष कुमार दास
1248	टीजे5397एफ	सुबेदार	सत्यवीर सिंह यादव
1249	टीजे5823के	सुबेदार	शमशेर मसीह
1250	टीजे5504एक्स	सुबेदार	शिशु पाल सिंह
1251	टीजे4808एच	सुबेदार	श्री धर्मेन्द्र कुमार पटेल
1252	टीजे5755एफ	सुबेदार	श्री गोविंद प्रसाद तिवारी
1253	टीजे5696ए	सुबेदार	सुदेश कुमार
1254	टीजे5348वाई	सुबेदार	सुखवीर सिंह
1255	टीजे5251एन	सुबेदार	सुलखान सिंह
1256	टीजे5683एच	सुबेदार	टी खान
1257	टीजे5585एच	सुबेदार	तुलसी राम अहीरवर
1258	टीजे5961एल	सुबेदार	उमेद सिंह

[सं. बी./43432/आई डी-19/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

अश्विनी कुमार, ले. जनरल एडजुटेंट जनरल

MINISTRY OF DEFENCE

(ARMY BRANCH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15, August, 2019

No. 09(E) dated 15 August 2019.—The President is pleased to award honorary commission to the rank of Honorary Captain/Lieutenant on the eve of Independence Day to the under mentioned Honorary Lieutenants/JCOs on active list under Para 177 of Regulation for the Army 1987, with effect from **15 August 2019** subject to the individual not being under any disciplinary action and satisfactory continued performance :-

TO BE HONORARY CAPTAIN (ON ACTIVE LIST)

ARMoured CORPS

1	JC 243277W	RIS MAJ & HONY LT	GIRDHARI SINGH
2	JC 244139F	RIS MAJ & HONY LT	GIRDHARI SINGH INDA
3	JC 241364L	RIS MAJ & HONY LT	JORAWAR SINGH
4	JC 243286X	RIS MAJ & HONY LT	KESHARI PRASAD MISHRA
5	JC 243827N	RIS MAJ & HONY LT	M BALKRISHNA SHAHU
6	JC 243791A	RIS MAJ & HONY LT	MAHANDER SINGH
7	JC 243377F	RIS MAJ & HONY LT	SATYAVIR SINGH
8	JC 244081P	RIS & HONY LT	K N BALBHIM
9	JC 243874L	RIS & HONY LT	NANDA RAM GURJAR

REGIMENT OF ARTILLERY

10	JC 269199F	SUB MAJ & HONY LT	BALJEET SINGH
----	------------	-------------------	---------------

11	JC 272976K	SUB MAJ & HONY LT	BINOD PRASAD SINGH
12	JC 270075Y	SUB MAJ & HONY LT	DES RAJ
13	JC 269941H	SUB MAJ & HONY LT	DINKAR CHAUDHARY
14	JC 272302M	SUB MAJ & HONY LT	K VENKATARAMAN
15	JC 270005A	SUB MAJ & HONY LT	MADHO SINGH
16	JC 273420M	SUB MAJ & HONY LT	MAHADEV PRASAD YADAV
17	JC 270257M	SUB MAJ & HONY LT	MUKHTIAR SINGH
18	JC 270915N	SUB MAJ & HONY LT	RAVINDER SINGH
19	JC 271657L	SUB MAJ & HONY LT	SHIVENDRA PRATAP SINGH
20	JC 268839N	SUB MAJ & HONY LT	UPENDRA KUMAR SHARMA
21	JC 269893N	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY KUMAR
22	JC 276275L	SUB MAJ & HONY LT	AWADHESH KUMAR YADAV
23	JC 280153Y	SUB & HONY LT	BHUNESHWAR PRASAD SHUKLA
24	JC 276404A	SUB & HONY LT	HANI RAM
25	JC 279591P	SUB & HONY LT	GAJENDRA KUMAR NEGI
26	JC 276575M	SUB & HONY LT	ISHWAR DASS
27	JC 282087A	SUB & HONY LT	KIRPAL SINGH
28	JC 278309M	SUB & HONY LT	MAHABIR
29	JC 275251P	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR
30	JC 272861W	SUB & HONY LT	RAM NARAYAN
31	JC 279521W	SUB & HONY LT	RASAYAN SINGH
32	JC 273506L	SUB & HONY LT	SUBHASH SINGH
33	JC 271645W	SUB & HONY LT	SURESH G
34	JC 277786F	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR
35	JC 273999X	SUB & HONY LT	VED PARKASH

ARMY AIR DEFENCE

36	JC 299172Y	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR LAL
37	JC 300261M	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM VEER YADAV
38	JC 300824F	SUB MAJ & HONY LT	PUKKALLA RAJARAO
39	JC 300604X	SUB MAJ & HONY LT	RAMAKANT SINGH
40	JC 300918Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR
41	JC 303465K	SUB & HONY LT	JAI PRAKASH SAHOO
42	JC 302253M	SUB & HONY LT	SATYAVEER SINGH YADAV

ARMY AVIATION CORPS

43	JC 278798H	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR
----	------------	---------------	--------------

MADRAS ENGINEER GROUP

44	JC 309046H	SUB MAJ & HONY LT	C JOSEPH JAI
45	JC 330787N	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SINGH
46	JC 311073L	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR A
47	JC 311044W	SUB & HONY LT	CHANDRA PRAKASH KUNTAL
48	JC 310713X	SUB & HONY LT	MUSADA SRINIVASA RAO
49	JC 306840P	SUB & HONY LT	RAGHUVVEER SINGH
50	JC 310978F	SUB & HONY LT	SHAIK MABU BASHA

BENGAL ENGINEER GROUP

51	JC 338848P	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR
52	JC 338857W	SUB MAJ & HONY LT	ASH BAHADUR GURUNG
53	JC 338310N	SUB MAJ & HONY LT	MAHESH KUMAR SAMAL
54	JC 338786A	SUB MAJ & HONY LT	MANGLA NAND
55	JC 338838L	SUB MAJ & HONY LT	MUSHTAQ AHMED
56	JC 331010K	SUB MAJ & HONY LT	PRASANTA KUMAR KHANRA
57	JC 331377K	SUB MAJ & HONY LT	SAMBHU NATH GHOSH
58	JC 338895M	SUB MAJ & HONY LT	SANDEEP KUMAR THAPA
59	JC 338809W	SUB MAJ & HONY LT	SUKHBIR SINGH
60	JC 340117A	SUB & HONY LT	ARUN KUMAR TRIPATHI
61	JC 340642W	SUB & HONY LT	DINABANDHU NAYAL

62	JC 338599F	SUB & HONY LT	MAHESAN K
63	JC 340197H	SUB & HONY LT	PABITRA HATI BARUAH
64	JC 328890A	SUB & HONY LT	PENDRA PAL SINGH
65	JC 325925A	UB & HONY LT	VINOD P

BOMBAY ENGINEER GROUP

66	JC 351620X	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH
67	JC 351006H	SUB MAJ & HONY LT	JADHAV ARUN MAHADEV
68	JC 350984X	SUB MAJ & HONY LT	KADHANE BALIRAM DNYANB
69	JC 331315K	SUB MAJ & HONY LT	RAM BALI VERMA
70	JC 350198Y	SUB MAJ & HONY LT	SHELAKE JIBHAU MANIK
71	JC 352323W	SUB & HONY LT	AKHTAR ALI
72	JC 352086X	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR GUPTA
73	JC 352398N	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH
74	JC 352088H	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH
75	JC 352319N	SUB & HONY LT	BHOSALE PRAMOD SHRIPATI
76	JC 352292F	SUB & HONY LT	CHANDRA BHAN
77	JC 352120M	SUB & HONY LT	GAIKWAD MARUTI JALINDAR
78	JC 352327M	SUB & HONY LT	MALIK MUHAMMAD FAROOK KHAN
79	JC 352466W	SUB & HONY LT	SUCHET SINGH

CORPS OF SIGNALS

80	JC 378538M	SUB MAJ & HONY LT	ASHUTOSH MISRA
81	JC 377922F	SUB MAJ & HONY LT	BIKASH REE
82	JC 378033W	SUB MAJ & HONY LT	DAWARKA NATH
83	JC 378867H	SUB MAJ & HONY LT	JITENDRA KUMAR
84	JC 378986Y	SUB MAJ & HONY LT	JUGENDRA SINGH
85	JC 380868K	SUB MAJ & HONY LT	LAKHPAT SINGH
86	JC 378037M	SUB MAJ & HONY LT	MICHAEL RAJU S
87	JC 379061P	SUB MAJ & HONY LT	PAWAN KUMAR SADOTRA
88	JC 378969Y	SUB MAJ & HONY LT	SANTHOSH KUMAR G
89	JC 372049L	SUB MAJ & HONY LT	SATYEVIR SINGH
90	JC 372412W	SUB MAJ & HONY LT	SURESH BABU S
91	JC 378577L	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR A
92	JC 383824X	SUB & HONY LT	AMARJEET CHAND
93	JC 379617N	SUB & HONY LT	CHILLA SANKAR REDDY
94	JC 380560W	SUB & HONY LT	PAWAN KUMAR
95	JC 382511M	SUB & HONY LT	PROBIN GOGOI
96	JC 380040L	SUB & HONY LT	SUNDER LAL

THE BRIGADE OF GUARDS

97	JC 404311Y	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
98	JC 404244Y	SUB MAJ & HONY LT	JAYANTI PRASAD PANDEY
99	JC 404124A	SUB MAJ & HONY LT	SARJEET SINGH KASWAN

THE PARACHUTE REGIMENT

100	JC 413270F	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR, SC
101	JC 413273P	SUB MAJ & HONY LT	LALMAN PALSRA, SM
102	JC 224157H	SUB MAJ & HONY LT	MADHAWA NAND JOSHI (RT)
103	JC 413476Y	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

104	JC 420931Y	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH
105	JC 421586H	SUB MAJ & HONY LT	BALWANT SINGH
106	JC 421076F	SUB MAJ & HONY LT	HAWA SINGH
107	JC 421446W	SUB MAJ & HONY LT	RAJAN KV
108	JC 421373P	SUB & HONY LT	SAILENDER KUMAR MISHRA

THE PUNJAB REGIMENT

109	JC 429895A	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
110	JC 430545A	SUB MAJ & HONY LT	JHILMIL SINGH
111	JC 429797A	SUB MAJ & HONY LT	PARAMJIT SINGH
112	JC 430925Y	SUB & HONY LT	HARDEV SINGH
113	JC 430715Y	SUB & HONY LT	NARESH KUMAR
114	JC 430819A	SUB & HONY LT	RAKESH CHAND

THE MADRAS REGIMENT

115	JC 440140H	SUB MAJ & HONY LT	MC KRISHNAN
116	JC 440142N	SUB MAJ & HONY LT	M SIVA PRASADA RAO
117	JC 439570A	SUB MAJ & HONY LT	N RANGAIAH CHARY
118	JC 439966K	SUB MAJ & HONY LT	SAKIRI AMARANADA
119	JC 439940P	SUB MAJ & HONY LT	SUDARSANAN P
120	JC 440459H	SUB & HONY LT	B KRISHNA MOORTHY
121	JC 441024M	SUB & HONY LT	REMESH BABU P, SM

THE GRENADIERS

122	JC 450690Y	SUB MAJ & HONY LT	BARIYA PARBAT JETHA, SM
123	JC 450662M	SUB MAJ & HONY LT	DHARMENDRA SINGH
124	JC 450726M	SUB MAJ & HONY LT	MUSTAQ KHAN
125	JC 450245A	SUB MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

126	JC 459494A	SUB MAJ & HONY LT	NAMADEV GORAL
127	JC 460187P	SUB & HONY LT	JAGADALE KUMAR DNYANDEO
128	JC 460365M	SUB & HONY LT	NIKAM SHANKAR VISHNU
129	JC 460331Y	SUB & HONY LT	RAMAPPA KHILARI

THE RAJPUTANA RIFLES

130	JC 470544A	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR
131	JC 470213Y	SUB MAJ & HONY LT	RASHAM KHAN
132	JC 470445X	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER KUMAR
133	JC 470256N	SUB & HONY LT	JAGMENDER SINGH
134	JC 471309N	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH
135	JC 471260H	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR

THE RAJPUT REGIMENT

136	JC 479953P	SUB MAJ & HONY LT	ASOK KUMAR MIDYA
137	JC 480077F	SUB MAJ & HONY LT	PRABHU SINGH
138	JC 480075W	SUB MAJ & HONY LT	RAM NIWAS GURJAR
139	JC 480858P	SUB & HONY LT	BANWARI SINGH PARAMAR
140	JC 480797H	SUB & HONY LT	MAHAVIR PARSHAD
141	JC 480612W	SUB & HONY LT	RAM KISHAN SHARMA
142	JC 480584P	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR

THE JAT REGIMENT

143	JC 489853X	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH
144	JC 490035H	SUB MAJ & HONY LT	RANVIR SINGH JAT
145	JC 490829N	SUB & HONY LT	BASANT PAL
146	JC 490845L	SUB & HONY LT	MAHABIR PRASAD DHAKA
147	JC 490656F	SUB & HONY LT	RAM SWAROOP

THE SIKH REGIMENT

148	JC 220849A	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV SINGH	(RT)
149	JC 499419Y	SUB MAJ & HONY LT	LAKHWINDER SINGH	
150	JC 499610A	SUB MAJ & HONY LT	SUKHWINDER SINGH	
151	JC 220850P	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER SINGH	(RT)
152	JC 500556M	SUB & HONY LT	NISHAN SINGH, SM	

153	JC 500334X	SUB & HONY LT	UMA SHANKER CHAUDHARY
<u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u>			
154	JC 509753W	SUB MAJ & HONY LT	BALWAN SINGH
155	JC 509751L	SUB MAJ & HONY LT	TARLOCHAN SINGH
156	JC 510287Y	SUB & HONY LT	ROSHAN SINGH
<u>THE DOGRA REGIMENT</u>			
157	JC 521077Y	SUB MAJ & HONY LT	PURSHOTTAM CHAND
158	JC 521111N	SUB MAJ & HONY LT	RAGBINDER SINGH
159	JC 520983K	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR
160	JC 226989H	SUB MAJ & HONY LT	SUNIL KUMAR THAKUR (RT)
161	JC 521723L	SUB & HONY LT	DILBAG SINGH
162	JC 521822N	SUB & HONY LT	LAL SINGH
163	JC 521898N	SUB & HONY LT	SATPAL SINGH
164	JC 521823W	SUB & HONY LT	SHIV DASS
165	JC 521849L	SUB & HONY LT	SHRI KANT
166	JC 522189L	SUB & HONY LT	UDHAM SINGH RANA
167	JC 521724N	SUB & HONY LT	YASHWANT SINGH
<u>THE GARHWAL RIFLES</u>			
168	JC 530312N	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH NEGI,SM
169	JC 531191K	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH
170	JC 531459W	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH
171	JC 531447F	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH BISHT
172	JC 531867F	SUB & HONY LT	RANJEET SINGH
173	JC 531433F	SUB & HONY LT	SISPAL SINGH
174	JC 531456H	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH NEGI
<u>THE KUMAON REGIMENT</u>			
175	JC 540266X	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDER SINGH
176	JC 540895P	SUB MAJ & HONY LT	BULLA RAM, SC
177	JC 540267A	SUB MAJ & HONY LT	HARI KISHAN
178	JC 540289Y	SUB MAJ & HONY LT	MADAN SINGH BISHT
179	JC 539371F	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA SINGH JALAL, VSM
180	JC 540098K	SUB MAJ & HONY LT	RAM DATT, SM
181	JC 541429N	SUB & HONY LT	DALIP SINGH
<u>THE ASSAM REGIMENT</u>			
182	JC 549445Y	SUB MAJ & HONY LT	LUNKHOLAL HAOKIP
183	JC 549621L	SUB MAJ & HONY LT	PRASANTA KUMAR POLAI
184	JC 550554X	SUB & HONY LT	BIPUL NEOG
<u>THE BIHAR REGIMENT</u>			
185	JC 560045M	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR
186	JC 559923L	SUB MAJ & HONY LT	DINABANDHU NAIK
187	JC 559749K	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH
188	JC 560851Y	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SARYAM
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>			
189	JC 569955F	SUB MAJ & HONY LT	PURSHOTAM SINGH
190	JC 569997N	SUB MAJ & HONY LT	SATYAVIR SINGH
191	JC 570047L	SUB MAJ & HONY LT	TRILOKI NATH SINGH
192	JC 570810H	SUB & HONY LT	KARAM SINGH
193	JC 570587K	SUB & HONY LT	RAJ BAHADUR KHATTRI
194	JC 570816K	SUB & HONY LT	RAM LAL
195	JC 571382F	SUB & HONY LT	RAVINDER KUMAR

196	JC 570815F	SUB & HONY LT	SARTAJ SINGH
<u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u>			
197	JC 580250P	SUB MAJ & HONY LT	HARI AVTAR SINGH
198	JC 580897H	SUB MAJ & HONY LT	KEWAL SINGH
199	JC 580946A	SUB MAJ & HONY LT	MAN SINGH CHAUHAN
200	JC 580623X	SUB MAJ & HONY LT	PARAMJIT SINGH
201	JC 581773A	SUB & HONY LT	PRAKAM CHAND
202	JC 582261A	SUB & HONY LT	SALINDER
203	JC 581573K	SUB & HONY LT	SURAT SINGH
204	JC 582102H	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR, SC
205	JC 581833K	SUB & HONY LT	WAZIR SINGH
<u>THE LADAKH SCOUTS</u>			
206	JC 588536Y	SUB & HONY LT	TSEWANG STOBGSIS
<u>THE NAGA REGIMENT</u>			
207	JC 590150X	SUB MAJ & HONY LT	HARISH CHANDRA BADOLA
208	JC 540206H	SUB MAJ & HONY LT	SUMER SINGH
<u>THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY</u>			
209	JC 593201L	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTAM KUMAR SAINI
210	JC 594266L	SUB & HONY LT	BASHIR AHMED
211	JC 594343P	SUB & HONY LT	FAZAL HUSSAIN, SM*
212	JC 594344X	SUB & HONY LT	NISSAR AHMAD BHAT
213	JC 594172N	SUB & HONY LT	PREM NATH
214	JC 594386K	SUB & HONY LT	SHER SINGH
<u>1 GORKHA RIFLES</u>			
215	JC 602684X	SUB MAJ & HONY LT	MEK BAHADUR THAPA
<u>3 GORKHA RIFLES</u>			
216	JC 607972N	SUB & HONY LT	DURGA BAHADUR HAMAL
217	JC 607914K	SUB & HONY LT	TIKA RAM THAPA
<u>4 GORKHA RIFLES</u>			
218	JC 612625Y	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA BAHADUR THAPA
219	JC 612646P	SUB MAJ & HONY LT	TIL BAHADUR THAOA, SM
<u>5 GORKHA RIFLES</u>			
220	JC 618075X	SUB & HONY LT	BHARAT KUMAR SHRESTHA
221	JC 618040F	SUB & HONY LT	BHIM BAHADUR THAPA
222	JC 618051N	SUB & HONY LT	BHIM BHADUR PUN
223	JC 618142X	SUB & HONY LT	KUL BAHADUR ALE
<u>8 GORKHA RIFLES</u>			
224	JC 623781H	SUB MAJ & HONY LT	TARA BAHADUR THAPA
225	JC 624080Y	SUB & HONY LT	MOHAN GURUNG
<u>9 GORKHA RIFLES</u>			
226	JC 629867X	SUB MAJ & HONY LT	BHAVINDRA VIKRAM SHAHI
227	JC 629793N	SUB MAJ & HONY LT	HEM CHANDRA KOIRALA
228	JC 629794W	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN SINGH THAPA
<u>11 GORKHA RIFLES</u>			
229	JC 635096K	SUB & HONY LT	LOK BAHADUR KHADKA

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

230	JC 665878P	SUB MAJ & HONY LT	CHAGANI VENKATESWARA REDDY
231	JC 665753X	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER SHEKHAR PANDEY
232	JC 642918Y	SUB MAJ & HONY LT	DAYA NAND MEEL
233	JC 642941M	SUB MAJ & HONY LT	MADAN LAL PATHANIA
234	JC 665917H	SUB MAJ & HONY LT	NOKRAM DARA
235	JC 642938M	SUB MAJ & HONY LT	RAJEVENDRA SHYAM VERMA
236	JC 665608A	SUB MAJ & HONY LT	SHIV SHANKAR SAH
237	JC 665883A	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM LAL GUPTA
238	JC 670291A	SUB & HONY LT	PRABHAT RANJAN
239	JC 670128A	SUB & HONY LT	V I MREDU

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

240	JC 681146H	RIS MAJ & HONY LT	GIRDHARI LAL
241	JC 681247W	RIS MAJ & HONY LT	RAMANUJ
242	JC 681507W	RIS & HONY LT	LAL SAHEB GIRI
243	JC 681514M	RIS & HONY LT	SARVENDRA KUMAR SINGH
244	JC 681508Y	RIS & HONY LT	SIYA RAM

ARMY MEDICAL CORPS

245	JC 698368N	SUB MAJ & HONY LT	AAM SINGH
246	JC 698410F	SUB MAJ & HONY LT	BHIM SINGH
247	JC 698448L	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN KUMAR
248	JC 698411K	SUB MAJ & HONY LT	K SUNDARA RAJAN
249	JC 698174L	SUB MAJ & HONY LT	MAHBUB ALAM
250	JC 698356Y	SUB MAJ & HONY LT	P RAMAMOORTHY
251	JC 698254H	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR
252	JC 698255L	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR
253	JC 693938P	SUB MAJ & HONY LT	SATYAPAL SINGH
254	JC 698050W	SUB MAJ & HONY LT	TIKU RAM JAT
255	JC 697756Y	SUB MAJ & HONY LT	UDAY RAJ SINGH
256	JC 698285H	SUB & HONY LT	ASOHAN T
257	JC 698397H	SUB & HONY LT	KULDEEP SINGH

ARMY ORDNANCE CORPS

258	JC 729304M	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA KANT KUMAR
259	JC 728843W	SUB MAJ & HONY LT	JIWAN LAL
260	JC 729395F	SUB MAJ & HONY LT	LOKESH SAHARAN
261	JC 729137F	SUB MAJ & HONY LT	RAJMAL SINGH
262	JC 725377F	SUB MAJ & HONY LT	SHIV RAM SINGH KHYALIA
263	JC 727584M	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHANDRA RAJPUT
264	JC 728327F	SUB & HONY LT	GHADI SUNIL SAHADEO
265	JC 730270W	SUB & HONY LT	MUNISH KUMAR TIWARI
266	JC 730391X	SUB & HONY LT	OM PRAKASH PANDEY

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

267	JC 758954H	SUB MAJ & HONY LT	DEVANAND GIRI
268	JC 758894Y	SUB MAJ & HONY LT	GAMBHIR SINGH CHAUDHARY
269	JC 766439L	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH
270	JC 761407Y	SUB MAJ & HONY LT	JITENDRA SINGH RATHORE
271	JC 758627X	SUB MAJ & HONY LT	MANOHARAN V
272	JC 758811H	SUB MAJ & HONY LT	NARESH PAL SINGH MALIK
273	JC 758806X	SUB MAJ & HONY LT	P KITTU
274	JC 760950L	SUB MAJ & HONY LT	RADHE GOPAL MISHRA
275	JC 759336K	SUB MAJ & HONY LT	RAJAN C
276	JC 764331P	SUB MAJ & HONY LT	RAJANI KANTA ROY
277	JC 758589M	SUB MAJ & HONY LT	RAM KRISHAN
278	JC 758217F	SUB MAJ & HONY LT	RAM KRISHNA PANDEY
279	JC 758999H	SUB MAJ & HONY LT	SAJI VARUGHESE

280	JC 758849M	SUB MAJ & HONY LT	SATYA VIR SINGH
281	JC 758870P	SUB MAJ & HONY LT	SUKH DEV
282	JC 766863N	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR YADAV
283	JC 766425L	SUB & HONY LT	BIMAL KUMAR ROY
284	JC 766476Y	SUB & HONY LT	BRAJESH KUMAR DUBEY
285	JC 769824A	SUB & HONY LT	DAYA RAM
286	JC 768309F	SUB & HONY LT	GYAN DAS
287	JC 766241M	SUB & HONY LT	MADHU K
288	JC 766418P	SUB & HONY LT	MADHU SUDAN GHOSH
289	JC 766467X	SUB & HONY LT	MUKESH KUMAR
290	JC 766669Y	SUB & HONY LT	NAWAB SINGH

ARMY EDUCATIONCORPS

291	JC 804046F	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDRA PANDEY
292	JC 803533P	SUB MAJ & HONY LT	PAWAN KUMAR
293	JC 803712P	SUB MAJ & HONY LT	SATENDRA SINGH
294	JC 804847H	SUB & HONY LT	SRI K K SINGH

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

295	JC 797519K	RIS MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER
296	JC 797418W	RIS MAJ & HONY LT	RAMLAXMAN MALI

THE INTELLIGENCE CORPS

297	JC 811158K	SUB MAJ & HONY LT	ATAR SINGH
298	JC 810978K	SUB MAJ & HONY LT	NIRMAL SINGH DHADWAL, SM
299	JC 811266N	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHVAR SINGH
300	JC 811126F	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDRA BAHADUR SINGH
301	JC 811583P	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR LOYER
302	JC 811611W	SUB & HONY LT	SHAM SINGH CHIB

CORPS OF MILITARY POLICE

303	JC 819894X	SUB & HONY LT	RAM MANI DUBEY
304	JC 819907K	SUB & HONY LT	SHYAM SINGH JAT

THE PIONEER CORPS

305	JC 829516M	SUB & HONY LT	JOMAN SINGH
-----	------------	---------------	-------------

DEFENCE SECURITY CORPS

306	JC 843223M	SUB & HONY LT	ASIT KUMAR PAUL
307	JC 843184Y	SUB & HONY LT	BHANWAR LAL
308	JC 842111A	SUB & HONY LT	MAHAVIR SINGH

TERRITORIAL ARMY

309	TJ 5627K	SUB & HONY LT	ARJUN SINGH
310	TJ 5119N	SUB & HONY LT	BHOOP SINGH
311	TJ 5697H	SUB & HONY LT	DEVENDRA DUTT
312	TJ 4925N	SUB & HONY LT	JASPAL SINGH
313	TJ 5465K	SUB & HONY LT	RAGHUNATH SAHAI
314	TJ 5464F	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH

TO BE HONORARY LIEUTENANT (ON ACTIVE LIST)**PRESIDENT'S BODYGUARD**

1	JC 235059H	RIS MAJ	KULDIP SINGH
2	JC 235053F	RIS MAJ	SURENDER KUMAR

ARMOURED CORPS

3	JC 244394N	RIS MAJ	AMEDA RAM
---	------------	---------	-----------

4	JC 244704N	RIS MAJ	BHOOP SINGH
5	JC 242740A	RIS MAJ	HARISH CHANDRA
6	JC 243991W	RIS MAJ	JASVIR SINGH
7	JC 244122N	RIS MAJ	KISHAN SINGH
8	JC 244323M	RIS MAJ	KULDIP SINGH
9	JC 243851K	RIS MAJ	MARUTI GHALAGU TARALE
10	JC 245527L	RIS MAJ	PURUSHOTAM NAYAK
11	JC 243693A	RIS MAJ	R K TRIPATHI
12	JC 243492F	RIS MAJ	VINOD KUMAR PANDEY
13	JC 245257F	RIS	ANSWAR ALI MONDAL
14	JC 246032L	RIS	DARSHAN SINGH
15	JC 243989Y	RIS	KHUSHAL SINGH
16	JC 244395W	RIS	MAHIPAL SINGH JAKHAR
17	JC 243976F	RIS	MOHINDER SINGH
18	JC 243886A	RIS	NARESH KUMAR
19	JC 244145P	RIS	NARPAT SINGH
20	JC 245416N	RIS	NARPAT SINGH SHISHODIYA
21	JC 244131P	RIS	NETRA SINGH
22	JC 243950M	RIS	RAJ KUMAR
23	JC 243762L	RIS	RAJNARAYAN DAS
24	JC 244278L	RIS	RAMESH CHAND
25	JC246234M	RIS	RAVINDRA SINGH RATHORE
26	JC 245089N	RIS	S BABU
27	JC 243834K	RIS	SANGALE BALASAHEB BHAUSAHEB
28	JC 243686K	RIS	SHAMSHER SINGH
29	JC 246035Y	RIS	SUNIL PATEL
30	JC 244940P	RIS	SURENDRA KUMAR SINGH
31	JC 244949K	RIS	UMARANIKAR ALLUDDINA JAINUDDIN
32	JC 243759L	RIS	UPINDER SINGH
33	JC 243996P	RIS	YUDHISTER SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

34	JC 273380W	SUB MAJ	AMARJEET SINGH
35	JC 224337L	SUB MAJ	AMARJIT SINGH (RT)
36	JC 271706H	SUB MAJ	ANANTU NARAYANA SARMA
37	JC 270368K	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
38	JC 270757K	SUB MAJ	BAL KRISHAN YADAV
39	JC 268891W	SUB MAJ	BASALING PATTEKAR
40	JC 271656H	SUB MAJ	BHIM BHADUR DAHAL (CHHETRI)
41	JC 272246Y	SUB MAJ	BOPANNA K U
42	JC 272771P	SUB MAJ	BYJU B
43	JC 272268X	SUB MAJ	CHHOTA RAM JAT
44	JC 270489L	SUB MAJ	DHAN RAJ GURUNG
45	JC 273810P	SUB MAJ	DHARAMBIR SINGH
46	JC 269946F	SUB MAJ	GAJENDRA SINGH
47	JC 270795A	SUB MAJ	GANESHA M
48	JC 274212K	SUB MAJ	GELIMI REDDY B REDDY
49	JC 268836A	SUB MAJ	GURPAL SINGH MEHTA
50	JC 269696L	SUB MAJ	JADHAV ANANT BALIRAM
51	JC 273591Y	SUB MAJ	JITENDRA KUMAR MISHRA, SM
52	JC 272624M	SUB MAJ	JOSEPH JAMES D SOUZA
53	JC 272443F	SUB MAJ	KALP NATH CHOUDHARY
54	JC 273351F	SUB MAJ	KRISHNA CHANDRA MARODIA
55	JC 272348P	SUB MAJ	MAN SINGH
56	JC 272283M	SUB MAJ	MAN SINGH SISODIYA
57	JC 269750N	SUB MAJ	MODU SINGH
58	JC 274292M	SUB MAJ	NAGENDRA RAI
59	JC 273043F	SUB MAJ	PRASANNAN C A
60	JC 274203H	SUB MAJ	PRASANTHAN VARAPRATH
61	JC 273381Y	SUB MAJ	RACHHPAL SINGH

62	JC 272012P	SUB MAJ	RAKESH KUMAR	
63	JC 272453L	SUB MAJ	RAM ASHISH SHARMA	
64	JC 255049A	SUB MAJ	RAM PRAPANN PANDEY	(RT)
65	JC 272833K	SUB MAJ	R MANOHARAN	
66	JC 268549W	SUB MAJ	R SELVARAJ	
67	JC 268837H	SUB MAJ	SAGOLSHEM LAKSHAMAN SINGH	
68	JC 270157F	SUB MAJ	SATYA PAL	
69	JC 270858X	SUB MAJ	SAYAD RAFEEL	
70	JC 270646M	SUB MAJ	S CHELLATHURAI	
71	JC 268719P	SUB MAJ	SHAKEEL AHMAD	
72	JC 270262X	SUB MAJ	SHYAMANAND DWIVEDI	
73	JC 271513H	SUB MAJ	SUNIL KUMAR S	
74	JC 271211W	SUB MAJ	SURENDER PAL	
75	JC 272064L	SUB MAJ	VIKRAM SINGH	
76	JC279821X	SUB	AMAR KUMAR	
77	JC 274550F	SUB	BALLU RAM YADAV	
78	JC 280547X	SUB	BALWANT SINGH	
79	JC 268433A	SUB	BHAG SINGH PATHANIA	
80	JC 280566H	SUB	BINU M SAMUEL	
81	JC 275145W	SUB	BIRENDER SINGH	
82	JC 280311H	SUB	BRAHM DEV	
83	JC 274425X	SUB	DANIEL MATHEW	
84	JC 280307A	SUB	DESH RAJ RANA	
85	JC 276084W	SUB	DEU BAHADUR GURUNG	
86	JC 277219Y	SUB	DILEEP KUMAR PANDEY	
87	JC 279238H	SUB	GAJENDRA SINGH	
88	JC 280677A	SUB	GIRVAR SINGH PARMAR	
89	JC 279762W	SUB	JAG ROOP	
90	JC 275791N	SUB	JAIPAL SINGH	
91	JC 278848H	SUB	JASWANT SINGH	
92	JC 283244N	SUB	JOTHIVEL R	
93	JC 279188H	SUB	JUDISTO POLLAI	
94	JC 274828X	SUB	KANDHAR SINGH	
95	JC 277035A	SUB	KIRTI SINGH	
96	JC 277737Y	SUB	K SATYANARAYANA	
97	JC 277552X	SUB	KULDEEP SINGH	
98	JC 279012X	SUB	KUSH KUMAR SINGH	
99	JC 278664K	SUB	LAKHINDER SINGH	
100	JC 276473W	SUB	LAKHMI SINGH	
101	JC 279346M	SUB	LUGADE PRABHAKAR RAMCHANDRA	
102	JC 280098N	SUB	MANI RAM RAI	
103	JC 275143L	SUB	MANOJ KUMAR	
104	JC 275159W	SUB	MATHEW KUTTY VARGHESE	
105	JC 282374K	SUB	MITTU SINGH CHAUHAN	
106	JC 277182H	SUB	NARENDRA SINGH KANWASI	
107	JC 275358K	SUB	OM CHAND	
108	JC 273974L	SUB	PAPOO SINGH	
109	JC 278358P	SUB	PARMINDER SINGH	
110	JC 280390H	SUB	PRADEEP SINGH NEGI	
111	JC 281256K	SUB	PRADIP KUMAR SINGH	
112	JC 273553H	SUB	PRAKASH CHAND JATAV	
113	JC 276731L	SUB	RABINDRA PRASAD SINGH	
114	JC 280464M	SUB	RAJBEER SINGH	
115	JC 276164N	SUB	RAJENDER SINGH	
116	JC 279074X	SUB	RAJENDRA BAHADUR	
117	JC 277571H	SUB	RAJESHWAR PRASAD SINGH	
118	JC 274605A	SUB	RAM KISHOR	
119	JC 279705P	SUB	RAMVIR SINGH	
120	JC 282921N	SUB	RAVINDER SINGH	
121	JC 273510N	SUB	ROOP SINGH	

122	JC 278737L	SUB	R SARAVANA KUMAR
123	JC 278081F	SUB	SANJEEV
124	JC 275903H	SUB	SATHEESAN
125	JC 281797L	SUB	SATNAM SINGH
126	JC 274664M	SUB	SATRUGHNA SINGH
127	JC 277990A	SUB	SHIV RAM SINGH
128	JC 274178P	SUB	SOHAN SINGH
129	JC 278122A	SUB	S SOORIAN
130	JC 277210K	SUB	SUMER SINGH YADAV
131	JC 279206A	SUB	SURJIT SINGH
132	JC 276418A	SUB	SUSHIL KUMAR
133	JC 276912W	SUB	VENGATESAN S
134	JC 275302X	SUB	venu GOPALAN NAIR B
135	JC 279190A	SUB	VIJAY KUMAR
136	JC 273807P	SUB	VIKRAM SINGH
137	JC 278090H	SUB	VINOD PARSAD VERMA
138	JC 280887A	SUB	WATANE DNYANOBA BABURA

ARMY AIR DEFENCE

139	JC 300863A	SUB MAJ	ABHANG SANJAY VITHAL
140	JC 301360F	SUB MAJ	BHEEMAPPA GULABAJI
141	JC 301348A	SUB MAJ	BHUPINDER SINGH
142	JC 300793M	SUB MAJ	GIRDHARI LAL
143	JC 300896L	SUB MAJ	JAGDISH CHAND
144	JC 301362M	SUB MAJ	M SUBRAMANI
145	JC 301258Y	SUB MAJ	PARAMJIT SINGH
146	JC 300883N	SUB MAJ	RAKESH CHANDRA GUSAIN
147	JC 301167P	SUB MAJ	SELVAM L
148	JC 300112Y	SUB MAJ	SURJEET SINGH CHIB
149	JC 300334N	SUB MAJ	TAPAS KUMAR MAITY
150	JC 302016H	SUB	AK PRADEEP KUMAR
151	JC 302361W	SUB	BIRBAL SHARMA
152	JC 301916A	SUB	DAFEDAR
153	JC 300928H	SUB	DEVA RAJ
154	JC 300749H	SUB	DEVENDR PAL
155	JC 302570N	SUB	DHEER SINGH
156	JC 302718F	SUB	M SUNDARARAJAN
157	JC 302540W	SUB	PARMJIT SINGH
158	JC 303601P	SUB	RAJEEV KV
159	JC 301457M	SUB	RAJENDAR KUMAR
160	JC 302956N	SUB	RAJ KANWAR
161	JC 303067H	SUB	RAM ASHISH YADAVA
162	JC 303175M	SUB	RAMESH KUMAR
163	JC 301922N	SUB	SABU S
164	JC 303489N	SUB	SHAIKH RAMJAN MAHIBUB
165	JC 301038P	SUB	SOLNKI SURESH KUMAR MANA BHAI
166	JC 303243P	SUB	SRI RAVI SHANKAR TIWARI

ARMY AVIATION CORPS

167	JC 300876X	SUB MAJ	JASPAL SINGH
168	JC 274971K	SUB MAJ	SURESH SHARMA
169	JC 272037F	SUB MAJ	SYED ARSHAD MAHADI BUKARI
170	JC 259461L	SUB	RAGHAWENDRA DATTA PANDEY (RT)
171	JC 274069H	SUB	VIJAY KUMAR SHARMA

MADRAS ENGINEER GROUP

172	JC 309098Y	SUB MAJ	DINESH BABU M P
173	JC 308810W	SUB MAJ	JOSEY GEORGE
174	JC 309680L	SUB MAJ	K SRINIVASA VARMA
175	JC 308658N	SUB MAJ	NARAYAN MONDAL

176	JC 309420A	SUB MAJ	P SAHAYA RAJ
177	JC 309426F	SUB MAJ	RT SELVAM
178	JC 308707L	SUB MAJ	SHASHI BHAN YADAV
179	JC 309154M	SUB MAJ	UNNIKRISHNAN N A
180	JC 311008L	SUB	A KISHOR
181	JC 310331N	SUB	AMUDHARAJAN C
182	JC 311078K	SUB	ARJUN LOKOGOL
183	JC 311001F	SUB	D RAMALINGAM
184	JC 310982K	SUB	F ANTONY MARIA PRAKASAM
185	JC 310707K	SUB	G LOGANATHAN
186	JC 311069H	SUB	GUNTU PAPA RAO
187	JC 310999X	SUB	HOSALLI BALAPPA
188	JC 310467X	SUB	JOSEPH MAHIMAI DOSS K
189	JC 311121A	SUB	J RAVI
190	JC 310706F	SUB	KAMATHAM SREENIVASULU
191	JC 310446F	SUB	KN SANKARA PANDI
192	JC 310720N	SUB	M P DINESH
193	JC 311074N	SUB	MAHAVEER UNDRI
194	JC 310724K	SUB	NARAYAN PATIL
195	JC 310996K	SUB	NARRA KRISHNA REDDY
196	JC 310442L	SUB	PREMAKUMAR V
197	JC 310710K	SUB	RADHA KRISHNAN N
198	JC 310443N	SUB	RAJESH KUMAR
199	JC 311067X	SUB	RAJ KUMAR BH
200	JC 311046F	SUB	RP MARIAPPAN
201	JC 310712P	SUB	S AROCKIADOSS
202	JC 311068A	SUB	S ARUNACHALAM
203	JC 311003M	SUB	SHAIK GHOUSEDDIN
204	JC 309898X	SUB	S RAMESH KUMAR
205	JC 310699W	SUB	STANY NORONHA
206	JC 310737F	SUB	SURESH KUMAR MA
207	JC 311002K	SUB	THAMIZHARASAN P
208	JC 311071A	SUB	TULUGU SADANANDAM
209	JC 311006A	SUB	V JOHN BOSCO

BENGAL ENGINEER GROUP

210	JC 339043K	SUB MAJ	BHUPAL SINGH
211	JC 338670K	SUB MAJ	BIPENDRA SINGH RAWAT
212	JC 338844Y	SUB MAJ	GANESH CHANDER BHATT
213	JC 339114A	SUB MAJ	GOVIND SINGH RATHOUR
214	JC 331466H	SUB MAJ	KRISHNA KUMAR V
215	JC 210495P	SUB MAJ	MOHAN LAL SHARMA (RT)
216	JC 338754X	SUB MAJ	PARTAP SINGH
217	JC 338834P	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH
218	JC 339076P	SUB MAJ	RAI SAHAB YADAV
219	JC 331820M	SUB MAJ	SATHEESAN S
220	JC 328940A	SUB MAJ	SUBHASH CHAND
221	JC 340169W	SUB	AJAI KUMAR RAI
222	JC 340690W	SUB	ASHOK THAKUR
223	JC 341395A	SUB	AVTAR SINGH
224	JC 340227P	SUB	AWADHESH KUMAR TRIPATHI
225	JC 340638N	SUB	BIKRAM SINGH
226	JC 340391X	SUB	BIPIN KUMAR SINGH
227	JC 340454P	SUB	BIPUL KUMAR SINGH
228	JC 339961W	SUB	GANESH SINGH
229	JC 340196A	SUB	INDER BIR SINGH CHAUHAN
230	JC 340224F	SUB	JOGINDER SINGH
231	JC 341065F	SUB	KAMALESH KUMAR THAKUR
232	JC 340113K	SUB	KAOSHLESH PATI TRIPATHI
233	JC 340118H	SUB	KHORSID ALAM
234	JC 340248L	SUB	KULDEEP SINGH

235	JC 340195X	SUB	LALIT KUMAR
236	JC 340451F	SUB	MOHAN SINGH
237	JC 340205W	SUB	MUNNA LAL SHARMA
238	JC 340142Y	SUB	NARINDER SINGH
239	JC 340462N	SUB	NAWAL KUMAR MANDAL
240	JC 340138W	SUB	PARAMJIT SINGH
241	JC 340458L	SUB	PHOOL SINGH
242	JC 340647P	SUB	PRADIP KUMAR ROY
243	JC 340452K	SUB	RAJIB KUMAR SINGH
244	JC 340639W	SUB	RAJKUMAR SINGH
245	JC 340176M	SUB	RANJIT PRASAD DUBEY
246	JC 340460H	SUB	SANTOSH KUMAR THAKUR
247	JC 340172W	SUB	SARAT CHANDRA NATH
248	JC 340449K	SUB	SASANKA NANDI
249	JC 340565M	SUB	SATENDRA KUMAR
250	JC 340644F	SUB	SHIV SHANKAR UPADHYAI
251	JC 340473A	SUB	SURESH KUMAR SINGH
252	JC 339838X	SUB	VIJAY SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

253	JC 224982A	SUB MAJ	AMBARISH KUMAR DWIVEDI (RT)
254	JC 351512N	SUB MAJ	AMRIK SINGH
255	JC 331316M	SUB MAJ	ANIL KUMAR P K
256	JC 351285Y	SUB MAJ	DINESH KUMAR
257	JC 224983H	SUB MAJ	KASHMIR SINGH (RT)
258	JC 351601M	SUB MAJ	PARTAP SINGH
259	JC 350650H	SUB MAJ	PUGALANDHI G
260	JC 350698W	SUB MAJ	RAJVIR SINGH
261	JC 331314F	SUB MAJ	RAM EKBAL KUSHWAHA
262	JC 331387N	SUB MAJ	SHIVAJI SHUKLA
263	JC 351008N	SUB MAJ	SHUB RATI
264	JC 352365H	SUB	ANEKAR VITTHAL RAJARAM
265	JC 352370N	SUB	ANIL KUMAR
266	JC 352380X	SUB	ASHOK KUMAR
267	JC 352082F	SUB	ATMA SINGH
268	JC 351734H	SUB	BALBIR SINGH
269	JC 352631W	SUB	BALJINDER SINGH
270	JC 352357K	SUB	BHIUNGADE DAGADU GANPATI
271	JC 352121P	SUB	CHARANJIT SINGH
272	JC 352487M	SUB	GADHAVE GULABRAO SITARAM
273	JC 353206X	SUB	GAIKWAD GOVARDHAN DNYANOBA
274	JC 352083K	SUB	GEEGA RAM JAT
275	JC 351712K	SUB	GHULE ACHUT DIGAMBER
276	JC 352638A	SUB	GORE DEVIDAS BHIKAJI
277	JC 352640X	SUB	HARBHAJAN SINGH
278	JC 353253P	SUB	HARJINDER SINGH
279	JC 352853L	SUB	JAGTAR SINGH
280	JC 352689N	SUB	JARNAIL SINGH
281	JC 352286N	SUB	JASBIR SINGH
282	JC 352432H	SUB	KAMLESH SINGH
283	JC 351717H	SUB	KANDALKAR SHARAD MURALIDHAR
284	JC 352494H	SUB	KEWAL KRISHAN
285	JC 352519K	SUB	KODAG BAJIRAO GULABRAO
286	JC 352374K	SUB	MAHESH SINGH MOODOTIYA
287	JC 352186H	SUB	MAHESH KUMAR
288	JC353406N	SUB	MOHD MAHBOOB ALI
289	JC 352423F	SUB	MOHD YAHIYA KHAN
290	JC 352377X	SUB	OM PRKASH JOGI
291	JC 352282X	SUB	PANDEY DAYA SHANKAR PRAYAG NARAYAN
292	JC 352642H	SUB	PATIL ANANDA GUNDA

293	JC 352861K	SUB	PATIL CHANDRAKANT SHIVAJI
294	JC 352492X	SUB	PATIL VISHWAS MUKUNDA
295	JC 352517Y	SUB	RAFIK KHAN
296	JC 351031F	SUB	RAJEEV KUMAR C M
297	JC 352629Y	SUB	RAJESH KUMAR
298	JC 352400A	SUB	RAJINDER SINGH
299	JC 352059N	SUB	RAKESH KUMAR TIWARI
300	JC 352692N	SUB	RAMJANI
301	JC 352087A	SUB	RATI RAM
302	JC 352543A	SUB	SAMER SINGH
303	JC 352691L	SUB	SHAUKAT ALI
304	JC 352431A	SUB	SHEO PUJAN SINGH
305	JC353446P	SUB	SHINDE SANTOSH RAMDAS
306	JC 352061L	SUB	SHIO KUMAR SINGH
307	JC 352397L	SUB	SOHAN SINGH CHOUHAN
308	JC 352322N	SUB	UGADE VASANT ISHWAR

CORPS OF SIGNALS

309	JC 378574X	SUB MAJ	ANIL KUMAR SINGH
310	JC 378203P	SUB MAJ	ANIRUDHA PANDEY
311	JC 379735F	SUB MAJ	ARUNA KUMAR UDGATA
312	JC 379184F	SUB MAJ	GOPAL SINGH KHATTRI
313	JC 378042X	SUB MAJ	HARI SINGH RAWAT
314	JC 379451X	SUB MAJ	JACKULIN XAVIER M
315	JC 372469L	SUB MAJ	JAGBIR SINGH
316	JC 367685P	SUB MAJ	JAI KRISHNA BARAKOTI (RT)
317	JC 378550N	SUB MAJ	JEET NARAYAN SINGH
318	JC 378802P	SUB MAJ	JOY JOHN
319	JC 379220F	SUB MAJ	MD JALALUDDIN
320	JC 379236M	SUB MAJ	MOHANA KRISHNAN NAIR PR
321	JC 378700Y	SUB MAJ	PARTAP SINGH
322	JC 379105F	SUB MAJ	PATEL MANUBHAI CHHAGAN BHAI
323	JC 376178H	SUB MAJ	PAWAN KUMAR
324	JC 378615W	SUB MAJ	PRATAP SINGH
325	JC 378495H	SUB MAJ	RAJESH KUMAR SHARMA
326	JC 372406H	SUB MAJ	RAJ KUMAR
327	JC 373965Y	SUB MAJ	RAVINDRA
328	JC 379109X	SUB MAJ	SANJAYA KUMAR
329	JC 379434X	SUB MAJ	SATISH KUMAR YADAV
330	JC 372414F	SUB MAJ	S GANESAN
331	JC 378629W	SUB MAJ	SHAJI M J
332	JC 379230L	SUB MAJ	SHANKAR LAL MEENA
333	JC 377920W	SUB MAJ	SIRASAPALLI NOOKA RAJU
334	JC 379146L	SUB MAJ	SIVASANKARA PILLAI
335	JC 372217Y	SUB MAJ	SURESH SINGH SENGAR
336	JC 378758W	SUB MAJ	UNNIKRISHNAN AK
337	JC 372631X	SUB MAJ	VIJAY SINGH NEGI
338	JC 384015K	SUB	ABADHESH KUMAR SHARMA
339	JC 383139M	SUB	AJAY KUMAR
340	JC 383513K	SUB	AJAY KUMAR
341	JC 383365K	SUB	AMRIT LAL MAURYA
342	JC 383073F	SUB	ANIL KUMAR A
343	JC 377465Y	SUB	A SAILU
344	JC 381089N	SUB	BACHANJEE PATHAK
345	JC 382884A	SUB	BALESHWAR SINGH
346	JC 382526P	SUB	BASUDEO RAM
347	JC 382279M	SUB	BHUWAN SINGH
348	JC 381086A	SUB	BIPIN GOND
349	JC 382282M	SUB	DAYAL SINGH
350	JC 380092F	SUB	GANESHI LAL

351	JC 383388L	SUB	GYAN SINGH PAL
352	JC 377433W	SUB	HAR PAL SINGH
353	JC 378675L	SUB	MAHENDRA KUMAR TRIPATHI
354	JC 380156F	SUB	MD RAFIKUL ISLAM
355	JC 382281K	SUB	NIDHAN SINGH
356	JC 382284X	SUB	NIKAM HIMMATRAO RAJARAM
357	JC 382746Y	SUB	PITAMBAR
358	JC 382901P	SUB	PRASANTA KUMAR SAHOO
359	JC 382558X	SUB	PURAN SINGH
360	JC 383457W	SUB	R PANDI KUMAR
361	JC 382435L	SUB	RAHUL CHAKRABORTY
362	JC 382285A	SUB	RAJARAM GS
363	JC 383452X	SUB	RAJENDER KUMAR
364	JC 382273L	SUB	RAJESH KUMAR
365	JC 383367P	SUB	RAKSH PAL SINGH
366	JC 379546X	SUB	RAMAKRISHNAN P
367	JC 383372A	SUB	RAM JEE
368	JC 383385X	SUB	RAMJEET YADAV
369	JC 383387H	SUB	RAVINDRA PRATAP SINGH
370	JC 381144Y	SUB	RUP CHAND GHOSH
371	JC 384957A	SUB	SAJI KUMAR S
372	JC 383389N	SUB	SHESH NATH SINGH YADAV
373	JC 383425N	SUB	SHYAM BIHARI
374	JC 382513X	SUB	SONJIB KUMAR DAS
375	JC 382277F	SUB	SUNEEL KUMAR BHARDWAJ
376	JC 383426W	SUB	TARA SINGH
377	JC 383390H	SUB	VIJAN KUMAR SHUKLA
378	JC 384067A	SUB	VIJAY

THE BRIGADE OF GUARDS

379	JC 403925P	SUB MAJ	AWADHESH KUMAR
380	JC 404197M	SUB MAJ	PRASANNA KUMAR SHARMA
381	JC 405254P	SUB	AWADHESH KUMAR
382	JC 404935L	SUB	BANSI RAM
383	JC 405340A	SUB	HARI KESH CHAUHAN
384	JC 405093X	SUB	KHUSHAL SINGH
385	JC 404752P	SUB	NAVEEN P
386	JC 405317M	SUB	OM PRAKASH
387	JC 404990F	SUB	SANDEEP KUMAR
388	JC 405200N	SUB	SHAKUR KATHAT
389	JC 404851X	SUB	SHISH RAM
390	JC 405321P	SUB	SHIV DANI LAL
391	JC 404399N	SUB	SIDA GANA SANKARA RAO

THE PARACHUTE REGIMENT

392	JC 413208P	SUB MAJ	DILBAG SINGH
393	JC 413444W	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH, KC, SM
394	JC 413272M	SUB MAJ	MUKHTIAR SINGH, SC
395	JC 413262H	SUB MAJ	SATYA PARASAD NAWANI
396	JC 413540L	SUB	ASHWANI KUMAR
397	JC 413770Y	SUB	BHAGWAN SINGH SAMANT
398	JC 413348F	SUB	BHIM BAHADUR THAPA
399	JC 413395Y	SUB	DAYAL SINGH
400	JC 413842X	SUB	GABAR SINGH, SM
401	JC 413683L	SUB	JAGAT SINGH
402	JC 413538N	SUB	KANA RAM
403	JC 413541N	SUB	NAVIN CHANDRA PANDEY
404	JC 413405X	SUB	NIVRUTI CHANDER KALAMKAR
405	JC 481049F	SUB	RADHE SHYAM
406	JC 413613M	SUB	RAJU

407	JC 413578P	SUB	RAM DASS
408	JC 413500K	SUB	SHIVANAGOUDA NIRWANI
<u>THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT</u>			
409	JC 421065P	SUB MAJ	ANIL KUMAR, SM
410	JC 421027Y	SUB MAJ	ASHOK KUMAR TRIPATHI
411	JC 421265L	SUB MAJ	KATAKAM RAVI
412	JC 420915F	SUB MAJ	MANNAN PERUMAL P
413	JC 421427L	SUB MAJ	MUKESH KUMAR
414	JC 421037H	SUB MAJ	NIGAM SINGH
415	JC 421185N	SUB MAJ	PHOOL SINGH
416	JC 421082P	SUB MAJ	RAM MURTI
417	JC 421424X	SUB MAJ	SRINIVASAN S
418	JC 421026W	SUB MAJ	TARUN KUMAR MANNA
419	JC 421808M	SUB	AIYAPPA AB
420	JC 422027L	SUB	DHANANJAY KUMAR PANDEY
421	JC 421918F	SUB	JANAK RAJ
422	JC 421330A	SUB	LAKHBINDER SINGH
423	JC 422147K	SUB	M A GURUDEVAN
424	JC 420798F	SUB	MANOHAR SINGH
425	JC 421542L	SUB	MAN SINGH
426	JC 421839M	SUB	MOHAN DONGARE
427	JC 421809P	SUB	PREM KUMAR VS
<u>THE PUNJAB REGIMENT</u>			
428	JC 430668M	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
429	JC 430518W	SUB MAJ	ASHWANI KUMAR
430	JC 430144L	SUB MAJ	BALJINDER SINGH
431	JC 430307N	SUB MAJ	BHUPINDER SINGH GULERIA
432	JC 430126H	SUB MAJ	GURNAM SINGH
433	JC 429961X	SUB MAJ	JAGMOHAN SINGH
434	JC 430525M	SUB MAJ	KULDEEP SINGH
435	JC 430328K	SUB MAJ	LAKHWINDER SINGH
436	JC 430709L	SUB MAJ	NARESH KUMAR DHIMAN
437	JC 430022F	SUB MAJ	RAM KARAN
438	JC 430635F	SUB MAJ	RAM KRISHAN
439	JC 220841N	SUB MAJ	SATNAM SINGH (RT)
440	JC 431148N	SUB	ANIL KUMAR
441	JC 430991F	SUB	HARBHAJAN SINGH
442	JC 430782K	SUB	KULWANT SINGH
443	JC 430969W	SUB	MOHINDER SINGH
444	JC 431387H	SUB	PRADIP SINGH
445	JC 431335M	SUB	RAJENDER KUMAR
446	JC 431126P	SUB	RAJESH KUMAR
447	JC 431607F	SUB	RAJESH SINGH
448	JC 431332Y	SUB	SURESH KUMAR
449	JC 431497X	SUB	VIJAY KUMAR
<u>THE MADRAS REGIMENT</u>			
450	JC 440047F	SUB MAJ	CHIDAMBARAM D
451	JC 439863L	SUB MAJ	KALIDASAN V
452	JC 440179P	SUB MAJ	KURIAN ABRAHAM
453	JC 439897Y	SUB MAJ	SANGAMESHWAR RAO
454	JC 440323Y	SUB MAJ	SHAIK KARIMULLA
455	JC 440024A	SUB MAJ	V HARI PRASAD
456	JC 440231M	SUB	ANIL KUMAR M
457	JC 441026X	SUB	BINO MD
458	JC 440574H	SUB	D KHUMBESWARA RAO
459	JC 440632F	SUB	KAMARAJ K
460	JC 440870N	SUB	MADHU SUDHANA RAO N
461	JC 440555X	SUB	M KHAJANNA
462	JC 440730F	SUB	PUTCHA VENKATA RAO
463	JC 440228M	SUB	SAINI NARASIMHA RAO

464	JC 440567M	SUB	SAJI P
465	JC 440669H	SUB	S DHINAKARAN
466	JC 441032L	SUB	SHIBU J
467	JC 440236L	SUB	S SIVA KUMAR
468	JC 440635P	SUB	V MANOJ KUMAR

THE GRENADIERS

469	JC 450238K	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
470	JC 450595M	SUB MAJ	DINESH SINGH
471	JC 450742K	SUB MAJ	LAKHA SINGH
472	JC 450980W	SUB MAJ	MAM CHAND
473	JC 450868K	SUB MAJ	MOHD RAFIK ALI, SM
474	JC 450761P	SUB MAJ	OM PRAKASH
475	JC 448011X	SUB MAJ	SHRI MOHAN NATH TRIPATHI (RT)
476	JC 451533Y	SUB	DHAN PAL SINGH
477	JC 451532W	SUB	GAYASUDDIN KHAN
478	JC 451757Y	SUB	HASAN KHAN
479	JC 451499K	SUB	JAGBIR SINGH
480	JC 451659Y	SUB	JASBIR SINGH
481	JC 451633K	SUB	JEET MAL
482	JC 451636X	SUB	KANWAR PAL SINGH
483	JC 451635P	SUB	KAUSHALENDRA SINGH
484	JC 451864A	SUB	MOHD RAFIQUE ANSARI
485	JC 451065K	SUB	NARESH PRAKASH
486	JC 451660N	SUB	PAWAN KUMAR VERMA
487	JC 451047F	SUB	SHISHU PAL MEENA
488	JC 451074L	SUB	SURENDER SINGH YADAV

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

489	JC 459495H	SUB MAJ	BHOSALE ANIL VITHAL
490	JC 458195P	SUB MAJ	BRAJ BHUSHAN DUBEY (RT)
491	JC 459765M	SUB MAJ	KHADE TANAJI GUNDAPPA
492	JC 459489P	SUB MAJ	LADKAT RAVINDRA BHAGWAN
493	JC 459716K	SUB MAJ	PRAKASH ZENDE
494	JC 458006A	SUB MAJ	SHASHIKANT PANDEY (RT)
495	JC 458080F	SUB MAJ	SUDHAKAR MISHRA (RT)
496	JC 458005X	SUB MAJ	YOGENDRA PRASAD SHARMA (RT)
497	JC 460074M	SUB	BARGE CHANDRAKANT D
498	JC 460494M	SUB	CHANDEKAR JAYAVANT BABU
499	JC 460238X	SUB	GAIKWAD YESHWANT GOPAL
500	JC 460962F	SUB	KAPSE ASHOK BABURAO
501	JC 459913M	SUB	KUDEKAR SUBHASH LAXMAN
502	JC 460278Y	SUB	NIKAM DNYANU PANDURANG
503	JC 460390L	SUB	PARAB KRISHNA SHANTARAM
504	JC 460511F	SUB	PATIL ANIL BALASO
505	JC 460724P	SUB	PATIL RAVINDRA DAULAT
506	JC 460778W	SUB	PATIL SANTOSH VITTHAL
507	JC 460505N	SUB	PAWAR MANIKRAO BHIMRAO
508	JC 460632H	SUB	RAVINDRA KUMAR SHARMA
509	JC 460277W	SUB	TIPE BALASO PARASU
510	JC 460476K	SUB	VIKAS PAWAR
511	JC 460304P	SUB	WALKE BALU PUNDLIKRAO
512	JC 460244L	SUB	YADAV RAJKUMAR RAMCHANDRA

THE RAJPUTANA RIFLES

513	JC 470227Y	SUB MAJ	CHANDRA SHEKHAR
514	JC 470661L	SUB MAJ	MANDROOP SINGH
515	JC 470571K	SUB MAJ	MANSUKH RAM
516	JC 470490K	SUB MAJ	RAMVEER SINGH RAJPUT

517	JC 470270A	SUB MAJ	ROHITASWA
518	JC 470783P	SUB MAJ	SUKH DEV CHOUDHARY
519	JC 470660H	SUB MAJ	SULTAN SINGH SHEKHAWAT,VSM
520	JC 471222M	SUB	ANIL KUMAR SINGH
521	JC 471191X	SUB	ASHOK KUMAR
522	JC 470837L	SUB	CHHOTU SINGH SHEKHAWAT
523	JC 471623F	SUB	DAKI RANMAL JIVA
524	JC 471485L	SUB	DHARMENDRA SINGH PARIHAR
525	JC 471016H	SUB	DILIP SINGH
526	JC 470964A	SUB	GOPAL SINGH TANWAR
527	JC 471519N	SUB	GOPI SINGH
528	JC 471649W	SUB	HUKAM SINGH
529	JC 470992M	SUB	JAGDISH CHANDRA
530	JC 471381K	SUB	JAGPAL SINGH
531	JC 469936F	SUB	JEEV RAJ SINGH SHEKHAWAT
532	JC 471231N	SUB	KARAN PAL SINGH
533	JC 471083N	SUB	LILA RAM
534	JC 471263W	SUB	MAHAVEER
535	JC 471155M	SUB	MUKESH BABU
536	JC 470876K	SUB	NAWAB ALI
537	JC 471174X	SUB	RAM MILAN SINGH
538	JC 471493K	SUB	ROHTASH SINGH
539	JC 471393Y	SUB	RUPA RAM
540	JC 471033H	SUB	SANTOSH KUMAR
541	JC 471183Y	SUB	SANTOSH SINGH TOMAR

THE RAJPUT REGIMENT

542	JC 480111W	SUB MAJ	JADHAV SHIVAJI SHAM RAO
543	JC 480140L	SUB MAJ	PRATAP SINGH BHATI
544	JC 480076Y	SUB MAJ	SUBHASH CHANDER
545	JC 480795X	SUB	ANIL KUMAR SINGH
546	JC 480736L	SUB	ARVIND KUMAR SINGH
547	JC 481243W	SUB	BHAGWAN SINGH
548	JC 481347X	SUB	BHANWAR SINGH
549	JC 480844P	SUB	BHANWAR SINGH RATHORE
550	JC 480899Y	SUB	BIMAN CHANDRA PARMANIK
551	JC 481187H	SUB	GULSHER ALI
552	JC 481104M	SUB	HARI SINGH CHOUHAN
553	JC 480976H	SUB	JAGDISH PRASAD
554	JC 481136P	SUB	KARAMJIT
555	JC 481149M	SUB	MADAN LAL
556	JC 481123X	SUB	RAMA KANT
557	JC 480709F	SUB	RAMESH KUMAR
558	JC 481500H	SUB	RAMESH SINGH
559	JC 480975A	SUB	RAM NIWAS GURJAR
560	JC 480879L	SUB	RAVENDRA SINGH
561	JC 481648F	SUB	SATBIR
562	JC 481164F	SUB	SATISH KUMAR
563	JC 480801A	SUB	SATYAVIR SINGH
564	JC 480970F	SUB	SHALIGRAM SINGH
565	JC 480800X	SUB	SOM DUTT
566	JC 481415A	SUB	SUBHASH SINGH
567	JC 481144N	SUB	SUSHIL KUMAR
568	JC 481330K	SUB	TEJ PRATAP SINGH
569	JC 481327K	SUB	VIJAY PRATAP SINGH KUSHWAH
570	JC 480969M	SUB	VIJAY PAL SINGH

THE JAT REGIMENT

571	JC 489975F	SUB MAJ	ANIL KUMAR BAGARIA
572	JC 490431Y	SUB MAJ	BHANWAR SINGH BHATI

573	JC 489826N	SUB MAJ	BHIM SINGH
574	JC 490070L	SUB MAJ	DHARAMVEER
575	JC 490138F	SUB MAJ	HAWA SINGH
576	JC 489705M	SUB MAJ	OM PARKASH
577	JC 489885A	SUB MAJ	SATISH KUMAR
578	JC 490349K	SUB MAJ	VIRPAL SINGH
579	JC 488799H	SUB	AMRISH KUMAR
580	JC 490554L	SUB	ANIL KUMAR
581	JC 491370Y	SUB	ASHOK KUMAR
582	JC 491127F	SUB	BALBIR SINGH
583	JC 490684N	SUB	BHANWAR SINGH NEHRA
584	JC 490772K	SUB	DILEP SINGH
585	JC 490962W	SUB	DINESH CHANDRA
586	JC 490459Y	SUB	HANUTA RAM
587	JC 490925H	SUB	JAIVIR
588	JC 490946Y	SUB	JHAMMAN SINGH
589	JC 490958N	SUB	MADAN LAL YADAV
590	JC 490883F	SUB	MEHAR SINGH
591	JC 490497P	SUB	NARESH PAL
592	JC 489763W	SUB	PAWAN KUMAR
593	JC 490764L	SUB	RAJ KUMAR SARAWAT
594	JC 490706F	SUB	RAJVIR SINGH
595	JC 491109Y	SUB	RAM CHANDAR
596	JC 491020M	SUB	RANVEER SINGH
597	JC 490994Y	SUB	RATAN LAL DUDI
598	JC 490769K	SUB	SHUBA KARAN
599	JC 490732H	SUB	SUMER SINGH
600	JC 490705Y	SUB	YOGENDRA YADAV

THE SIKH REGIMENT

601	JC 499586P	SUB MAJ	JAIMAL SINGH
602	JC 499339F	SUB MAJ	JASPAL SINGH
603	JC 499510P	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
604	JC 499609L	SUB MAJ	MAHINDER SINGH
605	JC 499813K	SUB MAJ	MANN SINGH
606	JC 499336N	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH
607	JC 499577N	SUB MAJ	SANJIV SINGH
608	JC 499568M	SUB MAJ	SARWAN SINGH
609	JC 500613H	SUB	BALDEV SINGH
610	JC 500466L	SUB	BALWINDER SINGH
611	JC 500319H	SUB	DARSHAN LAL
612	JC 500336H	SUB	DINESH KUMAR
613	JC 500566W	SUB	HARBHAJAN SINGH
614	JC 500502L	SUB	HARBHAJAN SINGH
615	JC 500525M	SUB	HARDEEP SINGH
616	JC 500581L	SUB	HARDEEP SINGH
617	JC 500550L	SUB	HARPAL SINGH
618	JC 500683F	SUB	JARNAIL SINGH
619	JC 500465H	SUB	JITENDER SINGH
620	JC 500614L	SUB	KULDIP SINGH
621	JC 500429X	SUB	LAKHVINDER SINGH
622	JC 500234M	SUB	MAHESH CHAND
623	JC 500240A	SUB	RAMESH CHANDRA
624	JC 500624P	SUB	SATPAL SINGH
625	JC 500261W	SUB	SATYENDER SINGH
626	JC 500490F	SUB	SURENDER SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

627	JC 509158M	SUB MAJ	BANT SINGH
628	JC 509487H	SUB MAJ	HAKAM SINGH
629	JC 509752N	SUB MAJ	JASPAL SINGH
630	JC 509742K	SUB MAJ	SANT SINGH

631	JC 509954P	SUB	AJIT SINGH
632	JC 509818Y	SUB	BALKAR SINGH
633	JC 510164M	SUB	DALBIR SINGH
634	JC 510368Y	SUB	GURCHARAN SINGH
635	JC 510145F	SUB	HARBHAJAN SINGH
636	JC 510300X	SUB	JARNAIL SINGH
637	JC 510180K	SUB	JASPAL SINGH
638	JC 510299N	SUB	JASPAL SINGH
639	JC 510130Y	SUB	MALKIAT SINGH
640	JC 510358P	SUB	MANOHAR SINGH
641	JC 509812X	SUB	MEHAL SINGH
642	JC 509969X	SUB	NAIB SINGH
643	JC 510367W	SUB	RAMESH SINGH
644	JC 510005P	SUB	RANJIT SINGH
645	JC 510067P	SUB	SATNAM SINGH
646	JC 510096K	SUB	SUKHWINDER SINGH

THE DOGRA REGIMENT

647	JC 521182P	SUB MAJ	BHARAT BHUSHAN
648	JC 520636L	SUB MAJ	CHOBE RAM THAKUR
649	JC 521020K	SUB MAJ	KARAN SINGH RANA
650	JC 520854K	SUB MAJ	MADAN LAL
651	JC 520598A	SUB	ASHOK KUMAR
652	JC 521778P	SUB	BALAK RAM THAKUR
653	JC 521739W	SUB	BEAS DEV THAKUR
654	JC 521492A	SUB	BIPEN KUMAR SHARMA
655	JC 521738N	SUB	CHET RAM CHAUHAN
656	JC 521994H	SUB	DALAIR SINGH
657	JC 521610H	SUB	DALJIT SINGH
658	JC 522181Y	SUB	DEEPAK SINGH
659	JC 521503F	SUB	HUSSAN SINGH
660	JC 521624H	SUB	JAGDISH CHAND
661	JC 522052Y	SUB	JAI RATH
662	JC 521752A	SUB	KAMAL KUMAR
663	JC 521802A	SUB	KASHMIRA
664	JC 521770H	SUB	MALKIT SINGH, SM
665	JC 521779X	SUB	MANOHAR LAL
666	JC 521803H	SUB	MED RAM SHARMA
667	JC 521578Y	SUB	MUKESH KUMAR
668	JC 521767H	SUB	OMKAR SINGH
669	JC 521648M	SUB	RAJEEV KUMAR
670	JC 521780M	SUB	RAJESH KUMAR
671	JC 520631M	SUB	RAJESH KUMAR
672	JC 521707N	SUB	RAJINDER SINGH
673	JC 520225M	SUB	RAKESH KUMAR
674	JC 521668A	SUB	RAVI KUMAR SAINI
675	JC 521509H	SUB	SALINDER PAL
676	JC 521741N	SUB	SIKINDER SINGH
677	JC 521615F	SUB	SUNIL SINGH
678	JC 521730F	SUB	VARINDER KUMAR
679	JC 521886Y	SUB	VIJAY SINGH
680	JC 521159F	SUB	VINOD KUMAR

THE GARHWAL RIFLES

681	JC 530969L	SUB MAJ	ANIL KUMAR V
682	JC 530727H	SUB MAJ	BALWANT SINGH
683	JC 530155M	SUB MAJ	DARWAN SINGH
684	JC 530247Y	SUB MAJ	DINESH KUMAR
685	JC 530311L	SUB MAJ	HARENDRA SINGH
686	JC 530708X	SUB MAJ	MAHIPAL SINGH BISHT

687	JC 530352P	SUB MAJ	RAJA RAM
688	JC 531442H	SUB	CHANDRA MOHAN SINGH
689	JC 531493W	SUB	DEVENDRA PRASAD
690	JC 531445W	SUB	DHAN SINGH
691	JC 531353K	SUB	DHEERAJ KUKRETI
692	JC 531806K	SUB	DINESH SINGH RAWAT
693	JC 531542N	SUB	HARI SINGH BARTWAL
694	JC 531253Y	SUB	JABAR SINGH CHAUHAN
695	JC 531794A	SUB	KHUSHAL SINGH
696	JC 531522A	SUB	LAL SINGH, SM
697	JC 531399M	SUB	MAHADEV PRASAD
698	JC 531892A	SUB	MAHENDRA SINGH
699	JC 531790K	SUB	MATBAR SINGH
700	JC 531416F	SUB	MATBER SINGH BISHT
701	JC 531834W	SUB	MEHARWAN SINGH
702	JC 531492N	SUB	PREM SINGH
703	JC 531449M	SUB	RAJENDER SINGH
704	JC 531805F	SUB	SARAT SINGH, M-IN-D
705	JC 531385M	SUB	SHAKTI SINGH
706	JC 531550M	SUB	SHISHUPAL SINGH
707	JC 531403K	SUB	TAJWAR SINGH
708	JC 531335F	SUB	VIKRAM SINGH

THE KUMAON REGIMENT

709	JC 540397H	SUB MAJ	BHOOPAL SINGH
710	JC 540510M	SUB MAJ	MUKESH
711	JC 540382A	SUB MAJ	PURAN SINGH DASILA
712	JC 540511P	SUB MAJ	RAGHUBIR SINGH
713	JC 540017Y	SUB MAJ	RAJENDER SINGH BHAINSORA
714	JC 541082L	SUB	ABHEY SINGH
715	JC 541535L	SUB	CHANCHAL SINGH CHAUHAN
716	JC 540925F	SUB	DALIP SINGH
717	JC 541331Y	SUB	DIWAN SINGH
718	JC 540817X	SUB	DURGA SINGH KANYAL
719	JC 541304P	SUB	DUR VIJAY YADAV
720	JC 541296F	SUB	GOVIND SINGH
721	JC 541274H	SUB	HIRA SINGH KAPKOTI
722	JC 541315F	SUB	KALYAN SINGH
723	JC 541150N	SUB	KISHAN SINGH
724	JC 541102N	SUB	LALIT MOHAN
725	JC 541247Y	SUB	MAHESH CHANDRA
726	JC 541210X	SUB	NARENDRA SINGH
727	JC 540926K	SUB	POORAN CHANDRA PANERU
728	JC 541248F	SUB	RAJ BIHARI SHARMA
729	JC 541212H	SUB	RAJENDRA SINGH
730	JC 540946X	SUB	RAJENDRA SINGH
731	JC 541408W	SUB	RAJENDRA SINGH SUYAL
732	JC 541185K	SUB	RAMAWTAR
733	JC 541249K	SUB	SUNIL KUMAR PAL
734	JC 541269X	SUB	UMED SINGH

THE ASSAM REGIMENT

735	JC 549681A	SUB MAJ	HEMANTA KUMAR DAS
736	JC 549744X	SUB MAJ	JOGESWAR RAJBONGSHI
737	JC 549437A	SUB MAJ	KRISHNA BAHADUR THAPA
738	JC 549612K	SUB MAJ	NAR BAHADUR THAPA
739	JC 549693P	SUB MAJ	RAM DULAREY
740	JC 549685W	SUB MAJ	SUREN SAIKIA
741	JC 550203H	SUB	AMRIT CHANDRA NATH

742	JC 550851L	SUB	ARUN SINGHA
743	JC 550321W	SUB	BINOD CHANDRA DAS
744	JC 550007H	SUB	DEBA KANTA NATH
745	JC 550626W	SUB	KARNA KUMAR BRAHMA
746	JC 550805W	SUB	KARUNA KANTA DAS
747	JC 550380H	SUB	MOHAN CH RAY
748	JC 550461H	SUB	NAJEN CHANDRA RAY
749	JC 550359A	SUB	NARAYAN DAS
750	JC 550316L	SUB	THONGKHOLUN LHUNDIM

THE BIHAR REGIMENT

751	JC 560127P	SUB MAJ	DINESH KUMAR MANDAL
752	JC 559754P	SUB MAJ	JAGANNATH MURMU
753	JC 558242W	SUB MAJ	MAHENDRA KUMAR MISHRA (RT)
754	JC560213A	SUB MAJ	LAPSA MAJHI
755	JC 560276H	SUB MAJ	MUNA BARAIK
756	JC 559769X	SUB MAJ	RABINDRA NATH PARIDA
757	JC 560074F	SUB MAJ	SUKHRAM MUNDA
758	JC 560059M	SUB MAJ	UDAY SINGH GAGRAI
759	JC 560133H	SUB MAJ	VISHNATH MINJ
760	JC 560627M	SUB	ALEXANDER MINJ
761	JC 561019X	SUB	ARUN KUMAR CHAUDHARY
762	JC 560707K	SUB	BICHA MUNDA
763	JC 560471A	SUB	CHANDAN BASKI
764	JC 560654W	SUB	CHURI PURTY
765	JC 561087L	SUB	JOHN MINJ
766	JC 560696H	SUB	PATRAS KISPOTTA
767	JC 561041H	SUB	SHEOJI PRASAD
768	JC 560839X	SUB	UMESH TIWARY
769	JC 561020M	SUB	UPENDRA PD SINGH
770	JC 560869P	SUB	VINOD KUMAR

THE MAHAR REGIMENT

771	JC 569981H	SUB MAJ	INDER KUMAR ABBOT
772	JC 570096N	SUB MAJ	MILAP SINGH KARKI
773	JC 570266M	SUB MAJ	NARU GOPAL DUTTA
774	JC 570017N	SUB MAJ	PRITHVI PAL SINGH
775	JC 569977A	SUB MAJ	RAJENDRA KUMAR
776	JC 571349K	SUB	ACHHAR SINGH
777	JC 571296W	SUB	AMARJIT SINGH
778	JC 570808L	SUB	ASHOK KUMAR ROY
779	JC 570255A	SUB	BASUDEB DAS
780	JC 570702Y	SUB	GIRDHARI LAL
781	JC 571022L	SUB	GURPREET SINGH
782	JC 570673P	SUB	KAMALESH OJHA
783	JC 570943Y	SUB	KAMBLE SANJAY YASHAVANT
784	JC 570928K	SUB	NIRMALE RAMESH RAVAJI
785	JC 570902P	SUB	PAGARE SUNIL KARBHARI
786	JC 570879M	SUB	RANJIT SINGH
787	JC 571383K	SUB	RAVINDRA SINGH
788	JC 570374W	SUB	SHAMSHER BAHADUR SINGH
789	JC 571005L	SUB	SHINGANE MAGAN GANESH
790	JC 570687P	SUB	SURESH SINGH DHAMI

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

791	JC 581091P	SUB MAJ	DALJIT SINGH
792	JC 580900X	SUB MAJ	MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA
793	JC 581173X	SUB MAJ	MOHAN SINGH THAKUR
794	JC 580559L	SUB MAJ	NARAYAN SINGH
795	JC 580541P	SUB MAJ	SHAMIRA SINGH
796	JC 581353A	SUB	ABDUL HAMID
797	JC 581858W	SUB	AJAY SUBBA, SM
798	JC 582106Y	SUB	ARUN KUMAR

799	JC 582008Y	SUB	BALJIT SINGH
800	JC 581703F	SUB	BHARAT SINGH
801	JC 582103L	SUB	BHUPINDER SINGH
802	JC 582138F	SUB	BHUPINDER SINGH
803	JC 581834M	SUB	BIRBAL RAM
804	JC 581494P	SUB	DARSHAN LAL
805	JC 582040N	SUB	DHAN BAHADUR
806	JC 581985L	SUB	HARDEV SINGH
807	JC 581697Y	SUB	JAGAT RAM
808	JC 581872H	SUB	JASWANT SINGH
809	JC 582083H	SUB	JASWANT SINGH
810	JC 581634W	SUB	KAMAL SINGH
811	JC 581633N	SUB	KARNAIL SINGH
812	JC 581545X	SUB	MAHIPAL GULERIA
813	JC 580789Y	SUB	PADHAM SINGH
814	JC 582013K	SUB	PARGAT SINGH
815	JC 581702Y	SUB	PREM NATH
816	JC 581784M	SUB	PURNA KUMAR GURUNG
817	JC 581699K	SUB	RAJESH KUMAR
818	JC 581869H	SUB	RAKESH AGNIHOTRI
819	JC 581901M	SUB	RANJIT SINGH
820	JC 582104N	SUB	RAVI KUMAR
821	JC 581713L	SUB	SANSAR CHAND
822	JC 581706P	SUB	SATISH KUMAR
823	JC 581659H	SUB	SHYAM SINGH
824	JC 581602N	SUB	SURAJ GURUNG
825	JC 582022L	SUB	SURESH KUMAR
826	JC 582154Y	SUB	TARA CHAND
827	JC 581558P	SUB	TRILOK SINGH
828	JC 582016X	SUB	VINOD KUMAR
829	JC 581864K	SUB	YOG RAJ
<u>THE LADAKH SCOUTS</u>			
830	JC 588576A	SUB	MOHD DIN
831	JC 588733F	SUB	NAWANG DORJEY
832	JC 588682Y	SUB	NAWANG NORBOO
833	JC 588637M	SUB	PADMA NAMGAIL
834	JC 588650W	SUB	TSETAN PALJOR
<u>THE NAGA REGIMENT</u>			
835	JC 590216H	SUB MAJ	WANGSOL NIKALAR ANAL
836	JC 590327A	SUB	A PUKENI
837	JC 590338M	SUB	NG KUBA
838	JC 590305F	SUB	P S SHELSHUNG ANAL
<u>THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY</u>			
839	JC 593176X	SUB MAJ	ASHOK KUMAR SHARMA
840	JC 593609K	SUB MAJ	BALWAN SINGH
841	JC 593433K	SUB MAJ	GURDEV SINGH CHIB
842	JC 593348F	SUB MAJ	KISHOR LAL PARHAR
843	JC 593253F	SUB MAJ	MOHD SADIQ
844	JC 593471A	SUB MAJ	SIDDAPURAM V RAJU
845	JC 593753Y	SUB MAJ	SKINDER LAL
846	JC 593455H	SUB MAJ	SUBASH CHANDER
847	JC 593419X	SUB MAJ	SUBASH CHANDER
848	JC 593606W	SUB MAJ	SUBASH SINGH
849	JC 593604L	SUB MAJ	VIJAY PAUL SHARMA
850	JC 593633A	SUB	ARJUN SINGH MAHAR
851	JC 594230M	SUB	ASHOK SINGH
852	JC 594140L	SUB	BODH RAJ
853	JC 594257K	SUB	GH NABI WANI
854	JC 593942H	SUB	JATINDER SINGH
855	JC 594394H	SUB	KAPOOR CHAND

856	JC 593799F	SUB	KULDEEP RAJ
857	JC 593749W	SUB	KUNJI LAL SANODIYA
858	JC 594235L	SUB	KUSHAL SINGH
859	JC 594751A	SUB	MOHD ASHFAQ
860	JC 593983M	SUB	MOHD BASHIR
861	JC 593665H	SUB	MOHD SHABIR
862	JC 594122H	SUB	MOHINDER SINGH
863	JC 594213M	SUB	MUNSHI KHAN
864	JC 594094F	SUB	MUSHTAQ HUSSAIN
865	JC 594214P	SUB	NARINDER KUMAR, SM
866	JC 594217H	SUB	RAJINDER LAL
867	JC 593842X	SUB	RAM DASS
868	JC 593650A	SUB	RAM KUMAR
869	JC 593549A	SUB	RAM SWARUP
870	JC 594149A	SUB	REYAZ AHMAD KHAN
871	JC 594745M	SUB	SHAMIM AHMED
872	JC 594355K	SUB	SOM NATH
873	JC 594523X	SUB	SUBASH LAL
874	JC 593689M	SUB	SUKHDEV SINGH PADDA
875	JC 594115M	SUB	SWARN LAL
876	JC 593925H	SUB	YASH PAL

1 GORKHA RIFLES

877	JC 602725W	SUB MAJ	MANI KUMAR PUN
878	JC 603021Y	SUB	AJUN KUMAR SHARESTHA
879	JC 602969K	SUB	MAHENDRA BAHADUR RANA MAGAR
880	JC 602977H	SUB	NIL BAHADUR GURUNG
881	JC 603063L	SUB	YAM BAHADUR DARLAMI

3 GORKHA RIFLES

882	JC 607838H	SUB MAJ	DHAN BAHADUR SHRESTHA
883	JC 607786X	SUB MAJ	RATNA BAHADUR PUN
884	JC 607884X	SUB	CHANDRA BAHADUR ADHIKARI
885	JC 607779F	SUB	DAMBAR BAHADUR GURUNG
886	JC 607960Y	SUB	GOPAL SINGH THAPA
887	JC 607812N	SUB	KESHAN PRASAD GURUNG
888	JC 607908W	SUB	MEGH BAHADUR ALE
889	JC 608007W	SUB	P MARUTHAPPAN
890	JC 608005L	SUB	RAM BAHADUR THAPA
891	JC 607868A	SUB	RAM BAHADUR THAPA

4 GORKHA RIFLES

892	JC 612853F	SUB MAJ	ANIL KUMAR SHRESTHA
893	JC 612658K	SUB MAJ	KAJI RAM THAPA
894	JC 612631M	SUB MAJ	NAR BHUPAL GURUNG
895	JC 612677P	SUB MAJ	PADAM BAHADUR GURUNG
896	JC 612886M	SUB	BIL BAHADUR GURUNG
897	JC 612849Y	SUB	GYANENDRA BALAL
898	JC 612821Y	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA MAGAR

5 GORKHA RIFLES

899	JC 617001W	SUB MAJ	BHUPENDRA KUMAR MANI TRIPATHI (RT)
900	JC 617880P	SUB MAJ	BUDHI RAJ GURUNG
901	JC 617874F	SUB MAJ	DIPAK THAPA
902	JC 617863P	SUB MAJ	DOL BAHADUR THAPA
903	JC 617938F	SUB MAJ	PREM CHAND KUMAR
904	JC 617671X	SUB MAJ	THAKUR PRASAD POUDEL
905	JC 618166F	SUB	BAL BAHADUR SARU
906	JC 618053Y	SUB	BIL BAHADUR GURUNG
907	JC 618110P	SUB	DAN BAHADUR SARU
908	JC 618066W	SUB	GHAK BAHADUR PUN
909	JC 618143A	SUB	HIRA PRAKASH GURUNG
910	JC 618165Y	SUB	ISHOR BAHADUR THAPA
911	JC 618164W	SUB	K B KSHETRY

912	JC 618127H	SUB	RESHAU RAJ PANDEY
913	JC 617926M	SUB	VISHNU THAPA
8 GORKHA RIFLES			
914	JC 623811P	SUB MAJ	JIT BAHADUR PUN
915	JC 623982F	SUB	DHAN BAHADUR CHHETRI
916	JC 623931N	SUB	DHAN BAHADUR THAPA
917	JC 623985P	SUB	RAN BAHADUR RANA
918	JC 624149X	SUB	SHIV BAHADUR THAPA
919	JC 624058N	SUB	SHREE KUMAR PUN
920	JC 624120P	SUB	SOM BAHADUR BHUJEL
9 GORKHA RIFLES			
921	JC 629875W	SUB MAJ	BHIM BAHADUR BHANDARI
922	JC 629949A	SUB MAJ	MAN BAHADUR CHHETRY, SC
923	JC 629960Y	SUB MAJ	TILAK PAUDEL
924	JC 630035H	SUB	MIN BAHADUR K C
925	JC 629966A	SUB	RAVI BHUSHAN SINGH
926	JC 630106Y	SUB	SURAJ MAL
11 GORKHA RIFLES			
927	JC 634779L	SUB MAJ	ANIL KUMAR LIMBU
928	JC 612675K	SUB MAJ	ARPAN THAPA
929	JC 634636L	SUB MAJ	DHARMENDRA SINGH BASNET
930	JC 634692K	SUB MAJ	PADAM BAHADUR RAI
931	JC 635070P	SUB	BHUPENDRA KUMAR SUBBA
932	JC 635239Y	SUB	HOM BAHADUR TAMANG
933	JC 634891X	SUB	KARNA KUMAR LIMBU
934	JC 635127Y	SUB	MAN KUMAR PALUNGWA
935	JC 635091L	SUB	RAVI RAI
ARMY SERVICE CORPS (SOUTH)			
936	JC 665758W	SUB MAJ	ADHANE BHAU SAHEB KACHRU
937	JC 642587H	SUB MAJ	AGRAWAL MANISH SHANKAR LAL
938	JC 665795K	SUB MAJ	ANIL KUMAR T G
939	JC 660081M	SUB MAJ	AWADHESH KUMAR MISHRA (RT)
940	JC 666023Y	SUB MAJ	BHOLA ROY
941	JC 642912X	SUB MAJ	GORA CHAND PASARI
942	JC 665778K	SUB MAJ	JIWAN SINGH
943	JC 665966L	SUB MAJ	PRADIP KUMAR PRADHAN
944	JC 664846A	SUB MAJ	PRAVANJAN PARIA
945	JC 665741H	SUB MAJ	RAJENDER SINGH RAI SHIKKH
946	JC 665610X	SUB MAJ	S KUMAR
947	JC 665918L	SUB MAJ	SATYA NARAYAN
948	JC 664274K	SUB MAJ	TAKHAT SINGH NATHAWAT
949	JC 660993L	SUB	AMAR NATH MISHRA (RT)
950	JC 670232N	SUB	ANURAG KUMAR SRIVASTAVA
951	JC 670260A	SUB	ASHOK KUMAR GUPTA
952	JC 668854W	SUB	ASHOK KUMAR SAH
953	JC 670131A	SUB	HARISH CHANDRA
954	JC667318F	SUB	JAYANTA KUMAR MOHANTY
955	JC 670135W	SUB	M P RADHAKRISHNAN
956	JC 670143P	SUB	MADAN LAL
957	JC 670126P	SUB	NIROTAM SINGH
958	JC 668671A	SUB	PRADIPTA KUMAR SATAPATHY
959	JC 670142M	SUB	RADHEY SHAM
960	JC 670146H	SUB	RAGHUVVEER PRASAD SAINI
961	JC 669683F	SUB	SHRI NIWAS
962	JC 668672H	SUB	SUJAN SINGH
963	JC 668684X	SUB	SURENDER

964	JC670294N	SUB	SURENDRA KUMAR	
965	JC 660532F	SUB	SURENDRA PRATAP SINGH	(RT)
966	JC 669273L	SUB	THAKURSEN NEGI	
967	JC670259L	SUB	VINOD MAHTO	
968	JC 667868K	SUB	YOGESHA POOJARY K	

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

969	JC 681194H	RIS MAJ	HAYAT SINGH	
970	JC 681254M	RIS MAJ	MOHAN SINGH	
971	JC 681534A	RIS	AZIZUR RAHAMAN	
972	JC 681520A	RIS	BIRENDRA SINGH	
973	JC 681528M	RIS	BRIJ NANDAN PRASAD	
974	JC 681519L	RIS	CHANDRA MOHAN SINGH BISHT	
975	JC 681510W	RIS	JITENDRA SINGH RATHORE	
976	JC681517A	RIS	JADHAV DINKAR SAHADEV	
977	JC681530K	RIS	K V RADHAKRISHNAN	
978	JC 681533X	RIS	K JYOTHI RAJU	
979	JC 681513K	RIS	MANMOHAN SINGH	
980	JC 681621N	RIS	MANNU SINGH YADAV	
981	JC 681504H	RIS	MOKTER HOSSAIN	
982	JC 681503A	RIS	MUNNA PANDIT	
983	JC 681501P	RIS	NARAYAN BISHOYI	
984	JC 681518H	RIS	P KAMALA KANNAN	
985	JC 681543F	RIS	RABINDRA NATH PAL	
986	JC 681512F	RIS	RAKESH KUMAR	
987	JC 681542Y	RIS	RANJAN KUMAR RANA	
988	JC 681505L	RIS	SUDAMA YADAV	
989	JC 681529P	RIS	SUSRENDRA YADAV	
990	JC 681526F	RIS	UMA SHANKAR SHARMA	

ARMY MEDICAL CORPS

991	JC 698315P	SUB MAJ	AJIT SINGH CHAUHAN	
992	JC 697167H	SUB MAJ	ASHFAK AHAMAD	
993	JC 698450H	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH	
994	JC 698256N	SUB MAJ	DES RAJ	
995	JC 695075X	SUB MAJ	GIRIJA PRASAD MOHANTY	
996	JC 696612K	SUB MAJ	GOURI SANKAR SAMANTA	
997	JC 694270H	SUB MAJ	ILAM SINGH	
998	JC 695058X	SUB MAJ	KAMAL JIT SINGH	
999	JC 698407F	SUB MAJ	KUNCHALA RAVI KUMAR	
1000	JC 697243K	SUB MAJ	NICHOLAS RAVI P	
1001	JC693939X	SUB MAJ	PUSHPENDER KUMAR	
1002	JC 697120X	SUB MAJ	RAJAN SINGH	
1003	JC 699166Y	SUB MAJ	RAJESH SINGH	
1004	JC 698309F	SUB MAJ	RAM BILASH YADAV	
1005	JC 698049F	SUB MAJ	R GURUSAMY	
1006	JC 698594L	SUB MAJ	SANJAY KUMAR	
1007	JC 698449N	SUB MAJ	SHAM LAL	
1008	JC 696909L	SUB MAJ	UDHAM SINGH	
1009	JC 700597A	SUB	AMAR SINGH	
1010	JC 699566L	SUB	ANIL KUMAR	
1011	JC 698880M	SUB	A RANGANATHAN	
1012	JC 699645A	SUB	ARUN KUMAR	
1013	JC 699612P	SUB	ASHWANI KUMAR	
1014	JC 700724K	SUB	ASIM BISWAS	
1015	JC 698120K	SUB	CHHOTE LAL SINGH	
1016	JC 700978F	SUB	DAMBARUDHAR MOHANTA	
1017	JC 699571W	SUB	DHIRENDRA PRASAD THAKUR	
1018	JC 699534H	SUB	G DIVAKAR	

1019	JC 700339A	SUB	HARI SHANKAR
1020	JC 698281M	SUB	HARISH CHANDRA PATEL
1021	JC 698121M	SUB	JAHAR LAL DASH
1022	JC 697079M	SUB	JAI RAM KUMAWAT
1023	JC 700510N	SUB	KAMLESH KUMAR
1024	JC 697247A	SUB	MESTRI SHANKAR MADHUKAR
1025	JC 700802W	SUB	NIRANJAN SOI
1026	JC 700670N	SUB	OM PRAKASH
1027	JC 700344L	SUB	PARAMJIT SINGH
1028	JC 698471Y	SUB	PRABODH KUMAR HAZRA
1029	JC 700392L	SUB	PRANAB GOGOI
1030	JC 700336M	SUB	RAJENDRA KUMAR
1031	JC 700413W	SUB	RAJU SUNASAGADA
1032	JC 697881H	SUB	RAM AWADH SINGH YADAV
1033	JC 699573F	SUB	RAM NIWAS YADAV
1034	JC 700869P	SUB	RAMVIR
1035	JC 699310H	SUB	SHAIK ABDUL RAHIM
1036	JC 700412N	SUB	SUSHIL CHANDRA
1037	JC 700343H	SUB	SUSIL KUMAR MANNA
1038	JC 700342A	SUB	SWAPAN KUMAR DAS
1039	JC 701013W	SUB	S YESU DOSS
1040	JC 700873X	SUB	TATI RANGA RAO
1041	JC 700669Y	SUB	VIJAI SHANKAR SINGH YADAVA
1042	JC 701912X	SUB	VYAVAHARE SUNIL RAMRAO

ARMY ORDNANCE CORPS

1043	JC 724845K	SUB MAJ	AJOY KUMAR DAS
1044	JC 728991F	SUB MAJ	BEESETTI KASI VISWANADHAM
1045	JC 725581A	SUB MAJ	DURGA RAM SAU
1046	JC 728541K	SUB MAJ	HARIBHAN SINGH
1047	JC 728997H	SUB MAJ	JAGAN NATH PRASAD SHARMA
1048	JC 725309N	SUB MAJ	MANGABABU SARAGADA
1049	JC 725524Y	SUB MAJ	NATHU LAL
1050	JC 729025F	SUB MAJ	RAJ BIR SINGH
1051	JC 729132H	SUB MAJ	RAM CHANDER
1052	JC 727369F	SUB MAJ	SAFI MOHD KHAN
1053	JC 727942M	SUB MAJ	SURENDRA TIWARI
1054	JC 727944X	SUB MAJ	SURESH KUMAR
1055	JC 728943F	SUB MAJ	SURJIT SINGH
1056	JC 727454K	SUB MAJ	THOMAS MT
1057	JC 730589W	SUB	ARUN KUMAR MAITI
1058	JC 730487A	SUB	A SHAHABUDDIN
1059	JC 730060W	SUB	BIMAL KUMAR
1060	JC 730249N	SUB	GHANSHYAM YADAV
1061	JC 730245X	SUB	GOVIND PRASAD JAT
1062	JC 730168N	SUB	KARUNA SHANKAR TIWARI
1063	JC 730194P	SUB	KULDEEP SINGH
1064	JC 731379H	SUB	MAHADEVA GUJAR
1065	JC 728042P	SUB	MD NASIR ALI
1066	JC 728219X	SUB	N VINOD
1067	JC 730172W	SUB	NANAK CHAND
1068	JC 730370F	SUB	NITAI CHANDRA MAHATA
1069	JC 730637L	SUB	RAGHAVAN V
1070	JC 730264H	SUB	RAJ KUMAR
1071	JC 730306K	SUB	RAJU K
1072	JC 730349Y	SUB	RAKESH PAL
1073	JC 730339P	SUB	SAFIKUL MALITYA
1074	JC 730594F	SUB	SANJIT KUMAR SINGH
1075	JC 730246A	SUB	SHIVENDRA SINGH
1076	JC 730560N	SUB	SHIVJI LAL YADAV

1077	JC 730335Y	SUB	TAPAN KUMAR PRADHAN
1078	JC 730989H	SUB	UMESH KUMAR YADAV

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

1079	JC 766581P	SUB MAJ	ABDUL SAHAB UDDIN LASKAR
1080	JC 758615H	SUB MAJ	ANIL KUMAR RAI
1081	JC 758516A	SUB MAJ	BABU RAM BISHNOI
1082	JC 763696X	SUB MAJ	BHASKAR
1083	JC 758264Y	SUB MAJ	BINALA PUNIYA PRADHAN
1084	JC 762104W	SUB MAJ	BRIJESH SINGH
1085	JC 763713M	SUB MAJ	BRIJKESH MISHRA
1086	JC 757720M	SUB MAJ	DINESH KUMAR P N
1087	JC 759171W	SUB MAJ	GANGADHARAN V V
1088	JC 761737X	SUB MAJ	HARENDRA SINGH
1089	JC 759193P	SUB MAJ	JAGABANDHU SAMANTRAY
1090	JC 766348F	SUB MAJ	JAMIR AHMED
1091	JC 758795W	SUB MAJ	KRISHNAN V
1092	JC 759007N	SUB MAJ	MAHENDRA PRATAP SINGH
1093	JC 758674P	SUB MAJ	MUKESH KUMAR SHARMA
1094	JC 760963H	SUB MAJ	MURUGAN
1095	JC 758724P	SUB MAJ	NARAYAN BISOI
1096	JC 759009Y	SUB MAJ	NARENDRA RAUTA
1097	JC 762891H	SUB MAJ	NEMI CHAND GAUTAM
1098	JC 758631A	SUB MAJ	ONKAR SINGH
1099	JC 758879K	SUB MAJ	PANKAJ KR HAZARIKA
1100	JC 763801H	SUB MAJ	PARMOD KUMAR
1101	JC 749321N	SUB MAJ	PRADIP KUMAR TIWARI (RT)
1102	JC 759434K	SUB MAJ	PRAKASHAN CHOTON PUTHIYOTH
1103	JC 758855A	SUB MAJ	RAJEEV SINGH
1104	JC 766440A	SUB MAJ	RAJ KUMAR
1105	JC 756563Y	SUB MAJ	RAJ RUP
1106	JC 758807A	SUB MAJ	RAKESH KUMAR
1107	JC 759532K	SUB MAJ	RAMANAND YADAV
1108	JC 758892N	SUB MAJ	RAMESH CHANDER
1109	JC 758567N	SUB MAJ	RAM KISHOR
1110	JC 758603N	SUB MAJ	RAM NAGINA SINGH
1111	JC 759331L	SUB MAJ	RAM PUKAR PRASAD
1112	JC 758857L	SUB MAJ	SANT KUMAR
1113	JC 758608M	SUB MAJ	SATYABADI JENA
1114	JC 759029M	SUB MAJ	SHEO GOPAL RAI
1115	JC 765505W	SUB MAJ	SHYAM JEET YADAV
1116	JC 763697A	SUB MAJ	SUBODH KUMAR GIRI
1117	JC 766400Y	SUB MAJ	SUNIL
1118	JC 762556Y	SUB MAJ	SURESH CHAND
1119	JC 758784K	SUB MAJ	SURESH TEGUR
1120	JC 759006L	SUB MAJ	TAHER ALI KHAN
1121	JC 766270F	SUB MAJ	UPENDRA PRASAD
1122	JC 766305M	SUB	ADHAV BALU DHONDIBA
1123	JC 767458H	SUB	ALAK MITRA
1124	JC 767468M	SUB	ANANTHA KRISHNAN K
1125	JC 762843H	SUB	ANAR SINGH
1126	JC 766471A	SUB	ANIL KUMAR
1127	JC 766296W	SUB	ASHOK KUMAR
1128	JC 766475W	SUB	BIJAY KUMAR YADAV
1129	JC 766304K	SUB	DAVANG SARADAR SHRIPATI
1130	JC 769698Y	SUB	DAYA SHANKAR SINGH
1131	JC 768307W	SUB	DESHBANDHU SINGH
1132	JC 767703A	SUB	DINESH CHANDRA
1133	JC 766416K	SUB	GAUTAM KUMAR MANDAL
1134	JC 768323N	SUB	HAKIM ALI KHAN

1135	JC 767465Y	SUB	HARE KRUSHNA MALIK
1136	JC 766408L	SUB	HARI KUMAR BT
1137	JC 766307X	SUB	HARISH KUMAR SINGH
1138	JC 766295N	SUB	JADHAV KRISHNAT SHIVAJI
1139	JC 769341H	SUB	JADHAV SANDIP SADASHIV
1140	JC 766294L	SUB	KHATKE BALA SAHEB BHIKOKA
1141	JC 767586A	SUB	KULWINDER SINGH
1142	JC 766237K	SUB	MADHU SUDHANAN NAIR K B
1143	JC 766306P	SUB	MD ZUBER ALAM
1144	JC 766308A	SUB	MEDHEKAR KUMAR GULAB RAO
1145	JC 768304H	SUB	OM PRAKASH CHAUBEY
1146	JC 766423A	SUB	PAKHARE MADHUKAR NATHU
1147	JC 768646W	SUB	PARMAR JAGADISH KUMAR DAHYA BHAI
1148	JC 766481K	SUB	POL KRISHNA NARAYAN
1149	JC 768311Y	SUB	PRABIR KUMAR PRAMANIK
1150	JC 761046L	SUB	PRADIP KUMAR SRIVASTAWA
1151	JC 767536P	SUB	RACHHPAL SINGH
1152	JC 766421P	SUB	RAJINDER PAL
1153	JC 767469P	SUB	RAMAKANTA MISHRA
1154	JC 761872L	SUB	RAMA SAMY N
1155	JC 761871H	SUB	RAM CHANDRA
1156	JC 767519P	SUB	RAMESWAR SINGH
1157	JC 768152M	SUB	RAM GULAM
1158	JC 769120W	SUB	RAUT NANDU DATTATRAYA
1159	JC 766411L	SUB	SADOLKAR LAXMAN PUNDLIK
1160	JC 766409N	SUB	SAJAN G
1161	JC 767459L	SUB	SAMIT KANSARY
1162	JC 766410H	SUB	SANTOSH G
1163	JC 766405X	SUB	SATHE NAVANATH EKNATH
1164	JC 766663X	SUB	SAYYAD ABDUL HIRABHAI
1165	JC 767906K	SUB	SHAIK A KHADAR BASHA
1166	JC 767830P	SUB	SHAIK KHASIM VALI
1167	JC 768949L	SUB	SHALES KUMAR SINGH
1168	JC 767871Y	SUB	SINDHAV KANTILAL JETHALAL
1169	JC 767785N	SUB	SURENDRA SINGH
1170	JC 767486P	SUB	SURESH KUMAR
1171	JC 769692X	SUB	SURESH KUMAR
1172	JC 767258M	SUB	SURESH KUMAR K
1173	JC 766419X	SUB	TAPAN KUMAR SAHOO
1174	JC 766420M	SUB	UDIT KUMAR
1175	JC 766414Y	SUB	VIBHAKAR TIWARI
1176	JC 766472H	SUB	WAGH DEVANAND PUNDLIK
<u>ARMY EDUCATION CORPS</u>			
1177	JC 803696H	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
1178	JC 803894N	SUB MAJ	BUDHI BALLABH DIMRI
1179	JC 804155N	SUB MAJ	DEVENDRA SINGH
1180	JC 804075W	SUB MAJ	MUKESH KUMAR ADLAKHA
1181	JC 804042L	SUB MAJ	RAJESH KUMAR UPADHYAY
1182	JC 804235L	SUB MAJ	RAM YAGYA MISHRA
1183	JC 804216A	SUB MAJ	S K YOUSUF ALI
1184	JC 803893L	SUB MAJ	SUDERSHAN KUMAR
1185	JC 804751A	SUB	ALIM KATHAT
1186	JC 804745M	SUB	ASHOK KUMAR SINGH
1187	JC 804365N	SUB	DEVENDRA SINGH RAWAT
1188	JC 804931H	SUB	KAILASH CHANDRA RAUTA
1189	JC 804772W	SUB	MAHARAJ SINGH
1190	JC 804364L	SUB	PADUM SINGH
1191	JC 804377H	SUB	RAKESH KUMAR
<u>REMOUNT AND VETERINARY CORPS</u>			
1192	JC 797675N	RIS MAJ	ALBERT SELVAN S

1193	JC 797493A	RIS MAJ	HARI RAM
1194	JC 797440F	RIS MAJ	ROHTAS KUMAR
1195	JC 797818H	RIS	SUNDAR RAM
<u>THE INTELLIGENCE CORPS</u>			
1196	JC 811243M	SUB MAJ	AMRIK SINGH
1197	JC 811307M	SUB MAJ	ASHOK KUMAR
1198	JC 811111Y	SUB MAJ	CHATAR SINGH
1199	JC 811296L	SUB MAJ	DALVEER SINGH
1200	JC 810966P	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
1201	JC 811231X	SUB MAJ	SOBAN SINGH
1202	JC 811884Y	SUB	GAIKWAD DIPAK NAMDEO
1203	JC811591N	SUB	KISHOR SINGH
1204	JC 811635A	SUB	PAVAN JIT
1205	JC 811586H	SUB	PRAMOD SINGH NEGI
1206	JC 811592W	SUB	SALUNKHE JALANDHER BAJIRAO
1207	JC 811640L	SUB	S GURU NAGENDRA CHARY
1208	JC 811668L	SUB	SHISHU RAM BARO
<u>CORPS OF MILITARY POLICE</u>			
1209	JC 819449Y	SUB MAJ	DINESH KUMAR SINGH
1210	JC 819530L	SUB MAJ	PURUSHOTHAMAN P
1211	JC 820070F	SUB	CHANDRA PAL SINGH
1212	JC819902L	SUB	GORAKH NATH YADAVA
1213	JC 820084F	SUB	MAHENDER SINGH
1214	JC 819945A	SUB	RAJENDER PRASAD
1215	JC 819908M	SUB	SATENDRA KUMAR
1216	JC 819941K	SUB	SATHEESH KUMAR S
<u>ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS</u>			
1217	JC 826246X	SUB	ARUN KUMAR
<u>THE PIONEER CORPS</u>			
1218	JC 829490H	SUB MAJ	SHYAMAL KANTI DHAR
1219	JC 829427N	SUB MAJ	SHYAM SINGH GOBARI
1220	JC 829565P	SUB	SHYAM CHARAN MOHANTA
<u>DEFENCE SECURITYCORPS</u>			
1221	JC 843495M	SUB	JASWINDER SINGH
1222	JC 842968N	SUB	KRISHNA KUMAR
1223	JC 842991F	SUB	P MANOHARAN
1224	JC 842379X	SUB	RAJ BAHADUR YADAVA
1225	JC 843484A	SUB	RAM KARAN
1226	JC 843526F	SUB	RIPUN SAIKIA
1227	JC 843522L	SUB	SUBHASH NAIK
1228	JC 843361N	SUB	SURAJ PARKASH
1229	JC 842971N	SUB	SWAMINADHAN V
1230	JC 843069Y	SUB	T ASHOK KUMAR
1231	JC 842988F	SUB	UGRA RAM
1232	JC 842975K	SUB	V LAXMAIAH
<u>TERRITORIAL ARMY</u>			
1233	TJ 5603A	SUB	ARUN RAI
1234	TJ 5819F	SUB	ARUN KUMAR N
1235	TJ 5424A	SUB	ASHOK SINGH
1236	TJ 5707F	SUB	BASAPPA BARABALLI
1237	TJ 5558Y	SUB	BIRJU SINGH
1238	TJ 5743M	SUB	GURMAIL SINGH
1239	TJ 5552X	SUB	HARJINDER SINGH
1240	TJ 5731X	SUB	LAKHWINDER SINGH
1241	TJ 4915K	SUB	NARENDER KUMAR
1242	TJ 5730P	SUB	PARAS RAM
1243	TJ 5628M	SUB	PREM DASS
1244	TJ 4874L	SUB	PREM PAL SINGH
1245	TJ 5642Y	SUB	RAJI K

1246	TJ 5288M	SUB	RAM KUMAR SINGH
1247	TJ 4902M	SUB	SANTOSH KUMAR DAS
1248	TJ 5397F	SUB	SATYAVEER SINGH YADAV
1249	TJ 5823K	SUB	SHAMSHER MASIH
1250	TJ 5504X	SUB	SHISHU PAL SINGH
1251	TJ 4808H	SUB	SRI DHARMENDRA KUMAR PATEL
1252	TJ 5755F	SUB	SRI GOVIND PRASAD TIWARI
1253	TJ 5696A	SUB	SUDESH KUMAR
1254	TJ 5348Y	SUB	SUKHBIR SINGH
1255	TJ 5251N	SUB	SULAKHAN SINGH
1256	TJ 5683H	SUB	TAHBEL KHAN
1257	TJ 5585H	SUB	TULSI RAM AHIRWAR
1258	TJ 5961L	SUB	UMED SINGH

[No. B/43432/ID19/AG/CW-2]

ASHWANI KUMAR, Lt. Gen. Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2019

सं. 10(अ) दिनांक 15 अगस्त 2019.—राष्ट्रपति स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लें /जे सी ओ को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवा निवृत्ति पर)**17 अश्व**

1	जेसी244898एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	कप्तान सिंह शेखावत	01.05.2019
---	--------------	--------------------------	--------------------	------------

14 अश्व

2	जेसी244503पी	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कर्मजीत सिंह	01.07.2019
---	--------------	-------------------------------	--------------	------------

केन्द्रीय भारतीय अश्व

3	जेसी243562पी	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रमेश सिंह	01.07.2019
---	--------------	-------------------------------	-----------	------------

65 कवाचिक सैन्यदल

4	जेसी243905ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धनपत सिंह	01.07.2019
5	जेसी243534एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कृपाल सिंह	01.07.2019

70 कवाचिक सैन्यदल

6	जेसी243845डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मंगू सिंह	01.08.2019
---	-------------------	-------------------------------	-----------	------------

72 कवाचिक सैन्यदल

7	जेसी244155वाई	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आनंद सिंह	01.06.2019
---	---------------	-------------------------------	-----------	------------

75 कवाचिक सैन्यदल

8	जेसी244306एम	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	संजीव कुमार	01.02.2019
---	--------------	--------------------------	-------------	------------

41 कवाचिक सैन्यदल

9 जेसी243385ए रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. राजबीर 01.05.2019

42 कवाचिक सैन्यदल

10 जेसी243715एन रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. सुरेश सिंह 01.05.2019

44 कवाचिक सैन्यदल

11 जेसी243872ए रिसालदार एवं अवैतनिक ले. जी. जोसफ लौरेन्स 01.07.2019

47 कवाचिक सैन्यदल

12 जेसी243422एच रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. राम कुमार गुप्ता 01.07.2019

13 जेसी243801वाई रिसालदार एवं अवैतनिक ले. नारद मुनि पांडे 01.04.2019

14 जेसी243802एफ रिसालदार एवं अवैतनिक ले. वी मोहन 01.06.2019

54 कवाचिक सैन्यदल

15 जेसी243387एल रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. सीजी. मुरुज्जान 01.04.2019

55 कवाचिक सैन्यदल

16 जेसी243881एफ रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. रमेश कुमार 01.03.2019

17 जेसी243995एम रिसालदार एवं अवैतनिक ले. संदीप कुमार 01.05.2019

कवाचिक पलटन

18 जेसी243260एच रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. चंद्रा मोहन के 01.08.2019

19 जेसी245030एन रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले. परवत सिंह राजावत 01.03.2019

20 जेसी243069एफ रिसालदार एवं अवैतनिक ले. भूपेंद्र सिंह 01.04.2019

21 जेसी243836पी रिसालदार एवं अवैतनिक ले. बिनोद भारती 01.03.2019

22 जेसी244553ए रिसालदार एवं अवैतनिक ले. दलजीत कुमार 01.04.2019

23 जेसी241740एन रिसालदार एवं अवैतनिक ले. खिरोद चंद्रा मिश्रा 01.06.2019

24 जेसी244199डब्ल्यू रिसालदार एवं अवैतनिक ले. लाल बचन यादवा 01.07.2019

तोपखाना सैन्यदल

25 जेसी270534एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. बहादुर सिंह 01.06.2019

26 जेसी210088एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. भोला नाथ पांडे 01.03.2019

27 जेसी272398ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. बिक्रमजीत सिंह 01.08.2019

28 जेसी266743एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. डी. पी 01.02.2019

29 जेसी271976एक्स सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. दया शंकर पांडे 01.05.2019

30 जेसी272161एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. धर्म पाल 01.06.2019

31 जेसी269597एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. गोपालाकृष्णन के 01.08.2019

32 जेसी267988पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. हरी ओम 01.08.2019

33 जेसी266525एन सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. जे सिंह चंदेल 01.04.2019

34 जेसी266512डब्ल्यू सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. के कुप्पन 01.02.2019

35 जेसी269729एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. कुलदीप सिंह 01.07.2019

36 जेसी271720पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. एम मथियालागन 01.06.2019

37 जेसी273199वाई सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. एम त्रीनाथा राव 01.07.2019

38 जेसी270903वाई सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. मनोज कुमार सिंह 01.08.2019

39 जेसी264597वाई सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. मोहम्मद एम आलम 01.02.2019

40 जेसी265654एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. मूल सिंह राजावत 01.04.2019

41 जेसी268545ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. नरेंद्र कुमार 01.08.2019

42 जेसी267018एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. राज सिंह 01.05.2019

43 जेसी268835एक्स सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले. रामवतार मीना 01.08.2019

44	जेसी267976ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस अरुमई दोस	01.07.2019
45	जेसी270613एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.06.2019
46	जेसी273149एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शम्भू पीडी यादव	01.08.2019
47	जेसी273235वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शेर बहादुर खत्री	01.08.2019
48	जेसी273137वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस संजय कुमार जी.	01.06.2019
49	जेसी269370पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिव प्रकाश	01.02.2019
50	जेसी269123एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सोमानाथ आर	01.08.2019
51	जेसी270182ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुंदरा पाल	01.06.2019
52	जेसी271703पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	टी रामकृष्णा	01.06.2019
53	जेसी277071एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ए जयराज रथिनाम	01.07.2019
54	जेसी276316के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ए मारिआ अरोचिया दास	01.06.2019
55	जेसी276253एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अजय सिंह	01.07.2019
56	जेसी278919वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलबीर सिंह	01.06.2019
57	जेसी278052एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बेली राम	01.06.2019
58	जेसी277168डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बेन्नी टी अब्राहम	01.03.2019
59	जेसी274167एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भागीरथ घोष	01.03.2019
60	जेसी275895पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भरत चंद्रा बर्मन	01.07.2019
61	जेसी276380एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चरण दास	01.04.2019
62	जेसी281126एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देव बहादुर गुरंग	01.05.2019
63	जेसी274786डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धनी राम	01.03.2019
64	जेसी281053ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिनेश कुमार	01.06.2019
65	जेसी276682एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	डी. कोनवर	01.04.2019
66	जेसी273490एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ई रंगा रेडी	01.06.2019
67	जेसी273530एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एदुल मोहन रेडी	01.05.2019
68	जेसी275673ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गनेश दत्त चौसाली	01.05.2019
69	जेसी277936एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुप्ता जगदीश प्रसाद राम , एसएम	01.07.2019
70	जेसी272299एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुरमेज सिंह	01.02.2019
71	जेसी270077के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जग्गा	01.03.2019
72	जेसी275398एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगतार सिंह	01.03.2019
73	जेसी276178एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जय चन्द	01.06.2019
74	जेसी276209एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जसवीर सिंह	01.02.2019
75	जेसी277825पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जया कुमार एस	01.06.2019
76	जेसी277412एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के प्रभाकरण	01.05.2019
77	जेसी272702वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	करनैल सिंह	01.04.2019
78	जेसी277561वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के सिंह तोमर	01.07.2019
79	जेसी258751डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कृष्णा देव पाठक	01.07.2019
80	जेसी279595एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कृष्णा देव	01.08.2019
81	जेसी275266एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कृष्णा प्रसाद के	01.03.2019
82	जेसी276903पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलदीप सिंह	01.08.2019
83	जेसी275621के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मदन लाल	01.03.2019
84	जेसी281813एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महावीर सिंह तोमर	01.06.2019
85	जेसी277296एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनोज के.एम	01.05.2019
86	जेसी274732पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन एस रेडी	01.05.2019
87	जेसी256699ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ओंकार नाथ तिवारी	01.08.2019
88	जेसी273511डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	परमजीत सिंह	01.08.2019
89	जेसी276505एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पौल के डेनिअल	01.04.2019
90	जेसी274817एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह चौहान	01.07.2019
91	जेसी277803डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राकेश कुमार	01.06.2019
92	जेसी528245पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राकेश कुमार शर्मा	01.07.2019
93	जेसी278280पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम शंकर पांडे	01.03.2019
94	जेसी278483वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम सिंह	01.03.2019
95	जेसी273883एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रनवीर सिंह	01.04.2019
96	जेसी277813ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजू बाबर	01.08.2019

97	जेसी276219एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सतेन्द्र तिवारी	01.06.2019
98	जेसी274802एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सतेंद्र कुमार	01.03.2019
99	जेसी274590एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सीता राम	01.02.2019
100	जेसी280405ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाजी एल	01.03.2019
101	जेसी273397के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शशि प्रकाश पांडे	01.02.2019
102	जेसी275658एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शोकीन काथात	01.03.2019
103	जेसी276759एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुखजिंदर सिंह	01.02.2019
104	जेसी275917एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेंद्र सिंह	01.05.2019
105	जेसी278155एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार	01.03.2019
106	जेसी270897डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरिन्दर मोहन	01.04.2019
107	जेसी272295एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमेश दास	01.05.2019

सेना वायु सुरक्षा

108	जेसी300286वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	भोपाल यादव	01.04.2019
109	जेसी300400एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दलीप कुमार	01.02.2019
110	जेसी300359ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राज कुमार	01.02.2019
111	जेसी300456एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शाजी के वी	01.05.2019
112	जेसी300363एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	वी प्रसाद शुक्ला	01.02.2019
113	जेसी302700एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशवनी कुमार	01.02.2019
114	जेसी301739एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अवधेश सिंह	01.08.2019
115	जेसी302667वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अवतार सिंह	01.05.2019
116	जेसी301775डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिरेन्द्र सिंह	01.04.2019
117	जेसी302697डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	छोटे भाया	01.07.2019
118	जेसी302112एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दलेर सिंह	01.04.2019
119	जेसी302745एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धर्म चन्द	01.04.2019
120	जेसी302899एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गिरि बाबू एम	01.07.2019
121	जेसी302397पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लखविंदर सिंह	01.03.2019
122	जेसी301165के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एम रमा चंद्रा रेडी	01.08.2019
123	जेसी302727एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ओम प्रकाश	01.07.2019
124	जेसी302633एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	परमेश्वर दीन मिश्रा	01.03.2019
125	जेसी302934पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रवीन्द्र सिंह	01.07.2019
126	जेसी301170पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सतनाम सिंह	01.03.2019
127	जेसी301152एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार	01.03.2019
128	जेसी300686एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वी वेकटेशन	01.02.2019

सेना वायु पलटन

129	जेसी274385एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमृत लाल	01.06.2019
130	जेसी274405के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार यादव	01.06.2019
131	जेसी274359ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सिंगारा सिंह	01.03.2019

मद्रास यान्त्रिक समुह

132	जेसी309160ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जे कुमार	01.04.2019
133	जेसी309101एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जयसन जोर्ज	01.08.2019
134	जेसी309109ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	केपी मधु	01.08.2019
135	जेसी308384एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मोहम्मद सादिख टी	01.03.2019
136	जेसी308519के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मोती गीर गोस्वामी	01.06.2019
137	जेसी309090एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस हबीब अहमद	01.08.2019
138	जेसी308640एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस एम एस	01.08.2019
139	जेसी311051एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बालकृशना चोगले	01.05.2019
140	जेसी310969ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बोनीबास सी	01.07.2019
141	जेसी310672वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सी इन्दुराज	01.05.2019
142	जेसी309446पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दास पीएम	01.02.2019
143	जेसी309821पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ध्यान सिंह	01.04.2019

144	जेसी310408एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जनार्दन प्रसाद यादव	01.04.2019
145	जेसी310791पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के कानन्न	01.04.2019
146	जेसी310964एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के मनी	01.07.2019
147	जेसी310963वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के मणिकम	01.05.2019
148	जेसी310090वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कोटा करुणाकर रेडी	01.02.2019
149	जेसी308447एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मराठे अनिल कुमार मंगरू	01.04.2019
150	जेसी310668डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन एल नारायना	01.03.2019
151	जेसी310664ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पी सिम्हाचलम	01.02.2019
152	जेसी309679डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश नाइक	01.08.2019
153	जेसी310671डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश सिंह	01.05.2019
154	जेसी311196एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रुदरप्पा केदारी	01.03.2019
155	जेसी310959डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस आर श्रीनिवासन	01.05.2019
156	जेसी310409एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस सुब्बारामन	01.04.2019
157	जेसी310954एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाजहान के	01.04.2019
158	जेसी310602ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाजीमोन केसी	01.06.2019
159	जेसी311243के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश के	01.07.2019

बंगाल यान्त्रिक समूह

160	जेसी331077एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अरुण कुमार शर्मा	01.08.2019
161	जेसी330684पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बेबी जोसफ टी	01.07.2019
162	जेसी338875वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बाल कृष्णा यादव	01.05.2019
163	जेसी338285ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दया कृष्ण भट्ट	01.03.2019
164	जेसी330588ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ई अतुल सुरेश	01.04.2019
165	जेसी191551एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हेम चंद्रा डिमरी	01.02.2019
166	जेसी191571वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हृदया भूषण नेगी	01.02.2019
167	जेसी199965एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जोगिंदर सिंह	01.03.2019
168	जेसी338715वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मोहन गिरि	01.06.2019
169	जेसी331633एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नार सिंह	01.02.2019
170	जेसी338781एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नेत्रा पाल सिंह	01.06.2019
171	जेसी327721एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रताप सिंह बोरा	01.05.2019
172	जेसी338328के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह	01.03.2019
173	जेसी186228एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रनबीर सिंह	01.05.2019
174	जेसी329936के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्यबीर सिंह	01.08.2019
175	जेसी330033वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुब्रता कोनर	01.02.2019
176	जेसी338969डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुधाकर मनी पांडे	01.08.2019
177	जेसी328989डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुख दवे सिंह बैस	01.07.2019
178	जेसी339992डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिसवा नाथ मोन्डल	01.08.2019
179	जेसी340406पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ब्रमा चातोपाध्यई	01.02.2019
180	जेसी340631के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरविन्दर सिंह	01.06.2019
181	जेसी339926एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	खुशाल सिंह धामी	01.04.2019
182	जेसी339922एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलवीर सिंह	01.04.2019
183	जेसी340447वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलवंत सिंह	01.07.2019
184	जेसी339572डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मधुसूदन मोहंती	01.03.2019
185	जेसी340625डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मृत्युंजय प्रसाद सिंह	01.02.2019
186	जेसी339876एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नक्ष सिंह	01.02.2019
187	जेसी339929एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरेन्द्रा सिंह	01.05.2019
188	जेसी340416वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नौरंग सिंह	01.06.2019
189	जेसी340501एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन सिंह	01.05.2019
190	जेसी340634एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन कोनवर	01.06.2019
191	जेसी339841एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पर्गत सिंह	01.04.2019
192	जेसी339573वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रमोद कुमार चौबे	01.03.2019
193	जेसी340119एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राधाकान्ता जैना	01.06.2019
194	जेसी339778एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राकेश बहादुर सिंह	01.04.2019
195	जेसी339931वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम निवास	01.05.2019

196	जेसी340632एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रवीन्द्र कुमार	01.06.2019
197	जेसी340411ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय कुमार पांडे	01.04.2019
198	जेसी340686एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुभास राम	01.08.2019
199	जेसी340504पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुखदेव सिंह	01.07.2019
200	जेसी339619डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार	01.05.2019
201	जेसी339606वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	स्वप्न कुमार घोष	01.02.2019
202	जेसी340635ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमेश प्रसाद	01.08.2019

बॉम्बे यान्त्रिक समुह

203	जेसी350400एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अमर सिंह शेखावत	01.07.2019
204	जेसी350323एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	महेंद्र टी	01.04.2019
205	जेसी349033एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मानेबेन्द्रा चकर्बती	01.02.2019
206	जेसी350766वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	निर्मल सिंह	01.03.2019
207	जेसी350349एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शाजी पी जी.	01.06.2019
208	जेसी352045एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ए शरद लक्ष्मण	01.08.2019
209	जेसी352231के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ए दीन	01.03.2019
210	जेसी352754एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अवतार सिंह	01.05.2019
211	जेसी352305एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बृज लाल पटेल	01.04.2019
212	जेसी352043एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुलज़ार सिंह	01.08.2019
213	जेसी352772एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जसविन्दर सिंह	01.07.2019
214	जेसी352057एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	काम्बले संजय रामु	01.05.2019
215	जेसी352755एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	खोराते रमेश पी	01.05.2019
216	जेसी352346एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लाल बहादुर सिंह	01.07.2019
217	जेसी353095एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मंगल सिंह	01.04.2019
218	जेसी352271एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहम्मद सिराजुद्दीन	01.05.2019
219	जेसी352270एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पाटिल बंदू सदासिव	01.05.2019
220	जेसी352054पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रघुबीर सिंह	01.05.2019
221	जेसी352277एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रमेश कुमार पटेल	01.08.2019
222	जेसी352302ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रवि शंकर	01.02.2019
223	जेसी351955पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रेडेकर अर्जुन भीमराव	01.07.2019
224	जेसी352272एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सामंत प्रताप सिंह	01.05.2019
225	जेसी353100एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सरवर अली	01.07.2019
226	जेसी352343के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिंदे बालासाहेब एस	01.06.2019
227	जेसी352821एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिव मंगल वर्मा	01.08.2019
228	जेसी351702ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिव प्रसाद यादव	01.03.2019
229	जेसी352304एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार	01.02.2019
230	जेसी351997एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विजय सिंह एल	01.06.2019
231	जेसी352017एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विनोद कुमार गुप्ता	01.07.2019
232	जेसी351674वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जयिा उल्लाह खान	01.04.2019

अधिसूचना पलटन

233	जेसी378108एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आमरे राम	01.07.2019
234	जेसी370968एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बाल राज	01.02.2019
235	जेसी377739वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलदेव सिंह	01.03.2019
236	जेसी378808डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बसुंगोंदा वी पाटिल	01.07.2019
237	जेसी379831डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देवेदर कुमार शर्मा	01.07.2019
238	जेसी372395एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गोविंदन के	01.06.2019
239	जेसी377423एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्र सिंह रावत	01.03.2019
240	जेसी372172के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कमलेश कुमार पाठक	01.04.2019
241	जेसी378089एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	करनैल सिंह	01.06.2019
242	जेसी379975वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कष्णन पाल	01.03.2019
243	जेसी377547एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मोहानन पिल्लई सी के	01.06.2019
244	जेसी372179एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ओम प्रकाश	01.05.2019
245	जेसी372193ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	परमजीत सिंह	01.05.2019

246	जेसी378783पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रदीप एस	01.06.2019
247	जेसी377866एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रघूनन्दन एम	01.05.2019
248	जेसी372177एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा प्रसाद	01.04.2019
249	जेसी378534डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम किशन	01.07.2019
250	जेसी378529एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम नाथ ओझा	01.08.2019
251	जेसी378480ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिंदे जनार्दन बालीराम	01.07.2019
252	जेसी372195एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिव राज ए	01.06.2019
253	जेसी377846ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार एस	01.04.2019
254	जेसी380526डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	यादव राजेंद्रा कुमार बी	01.03.2019
255	जेसी383132एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमरनाथ झा	01.04.2019
256	जेसी381705एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अनिल कुमार एम आर	01.05.2019
257	जेसी382657ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अनिल कुमार पीवी	01.07.2019
258	जेसी380240एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देवा नन्द पंत	01.04.2019
259	जेसी383465पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गीगा राम	01.05.2019
260	जेसी382377एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गोविंद सिंह	01.02.2019
261	जेसी373852डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरी दास के.एस	01.03.2019
262	जेसी382725एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जे राम यादव	01.04.2019
263	जेसी382479एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्र कुमार चौधरी	01.03.2019
264	जेसी379464पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कमल चंदेल	01.04.2019
265	जेसी382536वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कमलेश चंद्रा	01.04.2019
266	जेसी382462पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के पंडा	01.03.2019
267	जेसी382707ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एम मरिकैमी	01.05.2019
268	जेसी383087एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महेश चंद्रा	01.04.2019
269	जेसी377795एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनदीप सिंह	01.04.2019
270	जेसी381180के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नबेन्दू दान	01.07.2019
271	जेसी382380एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नगेन्द्रा प्रताप	01.03.2019
272	जेसी383317के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरेश कुमार	01.04.2019
273	जेसी375018डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पननीर सेलवम एस	01.03.2019
274	जेसी382939वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह	01.02.2019
275	जेसी383416एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रामवतार सिंह	01.02.2019
276	जेसी383068डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सिबस्टियन जोसफ	01.05.2019
277	जेसी382480एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तारा शंकर सिंह	01.03.2019
278	जेसी384153एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तरुण कुमार सिंह	01.08.2019
279	जेसी380867एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विरेन्द्र कुमार	01.04.2019
280	जेसी384494डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वाइ श्रीनिवास राव	01.07.2019
281	जेसी382330एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	झाला सहदेव सिंह डी.	01.02.2019

रक्षक सैन्यदल

282	जेसी404416एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	चंद्रा प्रकाश	01.06.2019
283	जेसी402002एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मृदुल कुमार	01.02.2019
284	जेसी403635एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नेमी चन्द	01.08.2019
285	जेसी405248एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार	01.05.2019
286	जेसी405270एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दुशन्त कुमार	01.05.2019
287	जेसी405146एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एच सेकिआ	01.05.2019
288	जेसी404823एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरजीत सिंह	01.03.2019
289	जेसी405247वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मदन गोपाल	01.05.2019
290	जेसी404526एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनी राम बी	01.04.2019
291	जेसी405091एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहन सिंह	01.03.2019
292	जेसी405275एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शमशेर सिंह	01.05.2019
293	जेसी405244एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तरंगा आर	01.05.2019

छाताधारी सैन्यदल

294	जेसी413258ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सेवक सिंह	01.06.2019
295	जेसी413367एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अजय अले	01.07.2019

296	जेसी413381वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कोलाटे समभाजी मुरलीधर	01.03.2019
297	जेसी413427डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लक्ष्मी नारायण	01.05.2019
298	जेसी413326एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एम अर्जन भाई जी. भाई	01.02.2019
299	जेसी413335के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोरे मंसाराम जगन्ध	01.03.2019
300	जेसी413554एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पी सी कुमार	01.03.2019
301	जेसी471201डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राना दिग्विजय सिंह	01.04.2019
302	जेसी481048वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	श्री मुकेश सिंह भादौरिया	01.05.2019
303	जेसी413451एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तरसेम सिंह	01.07.2019

यांत्रिक पैदल सैन्यदल

304	जेसी421042एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगदीश चंद्र	01.05.2019
305	जेसी421625डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी राजा पांडियन	01.08.2019
306	जेसी421157एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	परवीन्द्र कुमार	01.05.2019
307	जेसी421179ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुदर्श बी	01.06.2019
308	जेसी420963एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	वीरेंद्र सिंह	01.04.2019
309	जेसी421893ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अखादे रामचंद्र विठल	01.07.2019
310	जेसी421588एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ए वेन्कटेश्वरलु	01.07.2019
311	जेसी421674वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	फिरोज खान	01.05.2019
312	जेसी421478वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जादाब गोस्वामी	01.07.2019
313	जेसी421786वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के पी भाया	01.04.2019
314	जेसी422034एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के नाबा चंद्रा सिंह	01.07.2019
315	जेसी421336एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रमोद कुमार	01.04.2019
316	जेसी421541एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राज पाल	01.08.2019
317	जेसी420966पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजू थापा	01.06.2019
318	जेसी421313ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम आशीश यादव	01.05.2019
319	जेसी421582एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रंजीत सिंह	01.06.2019
320	जेसी422183पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुखदेव सिंह	01.05.2019
321	जेसी421696एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.02.2019

पंजाब सैन्यदल

322	जेसी430667के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरबंस लाल	01.08.2019
323	जेसी429535के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरभजन सिंह	01.03.2019
324	जेसी430524के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी राना	01.04.2019
325	जेसी429647के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सतपाल सिंह	01.04.2019
326	जेसी430905एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलबीर सिंह	01.02.2019
327	जेसी431028पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिकाश साहा	01.04.2019
328	जेसी431187एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुरजंत सिंह	01.03.2019
329	जेसी430769ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कश्मीर सिंह	01.02.2019
330	जेसी431310ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मेजर सिंह	01.07.2019
331	जेसी431539वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरेंद्र सिंह	01.06.2019
332	जेसी428252डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा प्रसाद शर्मा	01.02.2019
333	जेसी431519एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रेशम सिंह	01.03.2019
334	जेसी431031पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुशील कुमार	01.03.2019

मद्रास सैन्यदल

335	जेसी439917एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ए अरोकियासाव्मी	01.08.2019
336	जेसी439540एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ए गोपी	01.06.2019
337	जेसी439668एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	डेविस एजे	01.07.2019
338	जेसी439843एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जयराजन ओवी	01.04.2019
339	जेसी439582पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एम कंडासामी	01.04.2019
340	जेसी440049एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी हुलामनी	01.08.2019
341	जेसी439714एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेश अल	01.04.2019
342	जेसी439664एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राथीनावल आर	01.06.2019

343	जेसी439667एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस अरुमुगम	01.06.2019
344	जेसी439775पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	वी मुथुसामी	01.05.2019
345	जेसी440973एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बी एलांगुवान	01.03.2019
346	जेसी440750पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चान्द्राकान्त देसे	01.07.2019
347	जेसी440439पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कलागौडा एम	01.03.2019
348	जेसी440381एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कोशी मेथ्यू	01.06.2019
349	जेसी440380ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन पेची मुथु पांडि	01.04.2019
350	जेसी440093डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	आर सुब्रमणि	01.02.2019
351	जेसी440136ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस चंद्रशेखरन	01.05.2019
352	जेसी440357एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय	01.03.2019
353	जेसी439055एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सतीश कुमार एके.	01.02.2019
354	जेसी440726वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शंकरप्पा तेली	01.03.2019
355	जेसी440522एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वेलिन्गारीअसन वी	01.03.2019

गोलाफेक सेना

356	जेसी450327एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशन अली	01.04.2019
357	जेसी450489एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बहदुर सिंह	01.08.2019
358	जेसी450042डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बनवारी लाल	01.07.2019
359	जेसी450550एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लाल बहादुर सिंह	01.07.2019
360	जेसी450517पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मोहम्मद जुबेर	01.08.2019
361	जेसी450634ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजबीर सिंह	01.04.2019
362	जेसी451881ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अल्लादीन खान	01.03.2019
363	जेसी451205एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमजद हुसैन	01.02.2019
364	जेसी451482डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अनंता चरण पी	01.03.2019
365	जेसी451143डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिरेन्द्रा तिवारी	01.03.2019
366	जेसी450273एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चौधरी रमेश भाईरामजी	01.02.2019
367	जेसी451595वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देवी सिंह	01.05.2019
368	जेसी451386एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धर्म पाल सिंह मीना	01.02.2019
369	जेसी451461ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जय सिंह	01.04.2019
370	जेसी451725डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्र कुमार	01.03.2019
371	जेसी451078एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लाल चन्द मीना	01.04.2019
372	जेसी451305डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मुकेश कुमार	01.02.2019
373	जेसी451525ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम जीत सिंह	01.03.2019
374	जेसी452114एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	आर करन	01.05.2019

मराठा लाई

375	जेसी458038एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अमर नाथ प्रसाद	01.06.2019
376	जेसी459306एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शिंदे संजय सखाराम	01.04.2019
377	जेसी459438एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	थोरात मानिक भाउ	01.07.2019
378	जेसी460607के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अंचल सिंह	01.04.2019
379	जेसी459998एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बाबर लालासाहिब नंदराव	01.05.2019
380	जेसी459873डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बी राजेश कृष्णा	01.05.2019
381	जेसी460596एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गिरीश कुमार के	01.04.2019
382	जेसी460397पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरिदास पी	01.03.2019
383	जेसी460433पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पाटिल रवीन्द्र शामराव	01.07.2019
384	जेसी459959पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रहीस खान	01.05.2019
385	जेसी460403एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार राय	01.02.2019
386	जेसी460231एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिकं मिलिंद केशव	01.03.2019
387	जेसी459969वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस माधव हरीबा, एसएम	01.03.2019
388	जेसी460597एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुजीत कुमार साहा	01.04.2019
389	जेसी460567एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उतेकार राजेश दिनकर	01.03.2019

राजपूताना बन्दूकधारी सेना

390	जेसी470113एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार	01.05.2019
391	जेसी468056वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	डी. पारीक	01.06.2019
392	जेसी470263के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आर सिंह जोधा	01.08.2019
393	जेसी470483एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सतीश सिंह	01.08.2019
394	जेसी470288डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सत्यापाल सिंह	01.05.2019
395	जेसी470582डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उदय प्रताप सिंह	01.08.2019
396	जेसी470489पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बी चन्द	01.03.2019
397	जेसी471102एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बुद्धीमान सिंह	01.02.2019
398	जेसी471306ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुलाब सिंह	01.04.2019
399	जेसी471173पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरी पाल सिंह	01.03.2019
400	जेसी470135एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कृष्ण पाल सिंह	01.08.2019
401	जेसी471283के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लक्ष्मन सिंह	01.03.2019
402	जेसी471036डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहन सिंह	01.04.2019
403	जेसी471335पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नाथू सिंह	01.04.2019
404	जेसी469733एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नवल सिंह	01.04.2019
405	जेसी471395के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नेत्रा पाल	01.04.2019
406	जेसी469721एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ओम सिंह	01.04.2019
407	जेसी471018एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	परमेल सिंह	01.03.2019
408	जेसी471308एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राज करन	01.03.2019
409	जेसी471075पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रामधन बी	01.03.2019
410	जेसी470310डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रावत मल	01.04.2019
411	जेसी471252के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शील कुमार	01.06.2019
412	जेसी471354ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिव सिंह	01.03.2019
413	जेसी470709एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	श्री पाल सिंह	01.03.2019
414	जेसी470923डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सोरन सिंह	01.03.2019
415	जेसी471212एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश चंद्रा	01.04.2019
416	जेसी471111पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश सिंह तोमर	01.03.2019
417	जेसी470998एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विजय सिंह भाटी	01.05.2019
418	जेसी470914पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विजय सिंह चाहर	01.04.2019
419	जेसी470983एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विरेश कुमार	01.03.2019

राजपूत सैन्यदल

420	जेसी479684एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दिले राम	01.03.2019
421	जेसी479912एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	श्याम सिंह	01.07.2019
422	जेसी481146वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अरुण कुमार सिंह	01.04.2019
423	जेसी480753एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिरेन्द्रा सिंह गुर्जर	01.03.2019
424	जेसी480740एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गोविंद सिंह चौहान	01.05.2019
425	जेसी481190एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हेम चन्द	01.02.2019
426	जेसी480598पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जग राम सिंह खटाना	01.04.2019
427	जेसी481073एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	के रंजीत एफ	01.04.2019
428	जेसी480796ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पंकज शर्मा	01.07.2019
429	जेसी480828एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पुष्पेन्द्रा सिंह	01.03.2019
430	जेसी480707डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा कुमार	01.03.2019
431	जेसी481099एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह	01.03.2019
432	जेसी481235एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह	01.03.2019
433	जेसी481166एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम बीर सिंह गुर्जर	01.05.2019
434	जेसी481168एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम चंद्र सिंह	01.04.2019
435	जेसी481117के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम सिंह	01.03.2019
436	जेसी481356वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रंजीत सिंह चौहान	01.05.2019
437	जेसी481274डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रतन पाल सिंह	01.04.2019
438	जेसी480175एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शीशराम खटाना	01.04.2019
439	जेसी481108एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जाकिर हुसैन	01.04.2019

जाट सैन्यदल

440	जेसी499508एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलजीत सिंह	01.02.2019
441	जेसी489650एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बिजेन्द्र सिंह	01.04.2019
442	जेसी488097के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देव प्रकाश शास्त्रा	01.05.2019
443	जेसी489807एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम निवास सोलकी	01.06.2019
444	जेसी490390ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुखदेव सिंह	01.07.2019
445	जेसी489836एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उमेद सिंह	01.08.2019
446	जेसी490919पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बनवारी लाल ख्यालिया	01.03.2019
447	जेसी490785एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिजेन्द्र कुमार	01.03.2019
448	जेसी491021पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हंस राज	01.07.2019
449	जेसी490930एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरबीर सिंह	01.04.2019
450	जेसी490888ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरफूल सिंह	01.05.2019
451	जेसी491010एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	इंदराज सिंह	01.03.2019
452	जेसी489256एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कपूर सिंह गिल	01.02.2019
453	जेसी490752डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एम राम	01.06.2019
454	जेसी490762ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राकेश कुमार	01.03.2019
455	जेसी490928डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम किशोर दूदी	01.03.2019
456	जेसी490902एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रण वीर सिंह	01.06.2019
457	जेसी490771एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार	01.03.2019
458	जेसी490778एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वीरेंद्र सिंह	01.04.2019

सिख सैन्यदल

459	जेसी499467वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरदीप सिंह	01.05.2019
460	जेसी499440एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लखबीर सिंह	01.08.2019
461	जेसी499512ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुखविंदर सिंह	01.08.2019
462	जेसी500225एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमरजीत सिंह	01.05.2019
463	जेसी500136एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अरजिन्दर सिंह	01.03.2019
464	जेसी500320एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बचन सिंह	01.04.2019
465	जेसी500723एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलजिन्दर सिंह	01.04.2019
466	जेसी500403एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलविन्दर सिंह	01.04.2019
467	जेसी500447ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दर्शन सिंह	01.04.2019
468	जेसी500519वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुरमीत सिंह	01.07.2019
469	जेसी500317एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरबख्शा सिंह	01.04.2019
470	जेसी500523एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जसबीर सिंह	01.07.2019
471	जेसी500658एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जतिंद्र सिंह	01.03.2019
472	जेसी500441वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलदीप सिंह	01.04.2019
473	जेसी500373डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलविन्द्र सिंह	01.04.2019
474	जेसी500457के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुखपाल सिंह जाटना	01.04.2019

सिख लघु पैदल सेना

475	जेसी509565पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलदेव सिंह	01.08.2019
476	जेसी509401वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बलवीर सिंह	01.03.2019
477	जेसी509260पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दारा सिंह	01.04.2019
478	जेसी509611वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दिलबाग सिंह	01.02.2019
479	जेसी509450एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रीरथीपाल सिंह	01.06.2019
480	जेसी510015वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमरजीत सिंह	01.02.2019
481	जेसी510131एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बख्शीश सिंह	01.04.2019
482	जेसी510000डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलविन्दर सिंह	01.04.2019
483	जेसी509961एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चरनजीत सिंह	01.04.2019
484	जेसी510229पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चितरन्जन मिश्रा	01.04.2019
485	जेसी509786एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दीप सिंह	01.02.2019
486	जेसी510139एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुरदीप सिंह	01.04.2019
487	जेसी509790के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जसबीर सिंह	01.07.2019

488	जेसी509460एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनजीत सिंह	01.04.2019
489	जेसी510208वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निरंजन सिंह	01.05.2019
490	जेसी509613के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निर्मल सिंह	01.04.2019
491	जेसी509528एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	परमजीत सिंह	01.02.2019
492	जेसी510213के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	परविन्दर सिंह	01.04.2019
493	जेसी510298एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस सिंह	01.06.2019
494	जेसी510138एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ताजेन्द्र सिंह	01.04.2019

डोगरा सैन्यदल

495	जेसी520803डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	किशन चन्द वैद्या	01.07.2019
496	जेसी520940पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मदन लाल ठाकुर	01.07.2019
497	जेसी521429एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अजीत सिंह	01.03.2019
498	जेसी521580डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलबीर सिंह	01.07.2019
499	जेसी521690एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलदेव सिंह	01.07.2019
500	जेसी521344पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलविन्दर सिंह	01.06.2019
501	जेसी521981एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चैन सिंह	01.07.2019
502	जेसी521744एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गरजन सिंह	01.07.2019
503	जेसी521820एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुर्विन्दर सिंह	01.08.2019
504	जेसी521565एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरविंदर सिंह राना	01.07.2019
505	जेसी521607एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हिटलर	01.07.2019
506	जेसी521491एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	होशियार सिंह	01.03.2019
507	जेसी521798एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जय लाल	01.06.2019
508	जेसी521499के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जसवंत सिंह	01.07.2019
509	जेसी521772एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कमल किशोर	01.05.2019
510	जेसी521682एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुलदीप सिंह	01.06.2019
511	जेसी521515डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहिद्र सिंह	01.06.2019
512	जेसी521541एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरिंदर सिंह	01.07.2019
513	जेसी522041एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निक्का राम	01.05.2019
514	जेसी521381एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ओम प्रकाश डोगरा	01.06.2019
515	जेसी521908एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पवन कुमार	01.02.2019
516	जेसी521480एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रदीप कुमार	01.07.2019
517	जेसी521733पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रदीप कुमार	01.06.2019
518	जेसी521543एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रेम लाल	01.06.2019
519	जेसी521387के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राधा कष्णन	01.08.2019
520	जेसी521906एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राज कुमार	01.05.2019
521	जेसी521933एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रूप चन्द	01.03.2019
522	जेसी521732एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संतोख सिंह	01.05.2019
523	जेसी521323वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सावंत हेमंत लहु	01.04.2019
524	जेसी521745के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाम लाल	01.07.2019
525	जेसी521912पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सोम राज	01.07.2019
526	जेसी521980एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुबाष चंद्र	01.07.2019
527	जेसी522168पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुमेश पाल राना	01.07.2019
528	जेसी521463एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार	01.07.2019
529	जेसी521372एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस सिंह	01.03.2019
530	जेसी522060एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तिलक राज	01.07.2019
531	जेसी521439पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उजागर मल	01.05.2019

गढवाल बन्दूकधारी सेना

532	जेसी530441एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आनंद प्रकाश	01.02.2019
533	जेसी529997एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	भरत सिंह	01.06.2019
534	जेसी528145के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरिहर प्रसाद पांडे	01.02.2019
535	जेसी530204के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगदीश सिंह	01.08.2019
536	जेसी530029ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	नरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
537	जेसी530245एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम सिंह	01.03.2019

538	जेसी530452ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा दत्त	01.05.2019
539	जेसी531391ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अर्जुन सिंह	01.06.2019
540	जेसी531258एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिगपाल पुरी	01.03.2019
541	जेसी531041एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिनेश कुमार	01.03.2019
542	जेसी531257पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगमोहन सिंह	01.03.2019
543	जेसी531619एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मदन सिंह	01.06.2019
544	जेसी531523एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महेन्द्र सिंह	01.03.2019
545	जेसी531346एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मान सिंह	01.02.2019
546	जेसी531384के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मुकुंद सिंह नेगी	01.08.2019
547	जेसी531652एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नीतू कुमार	01.06.2019
548	जेसी531252डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	निहाल सिंह	01.02.2019
549	जेसी531654एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रकाश सिंह	01.06.2019
550	जेसी531473एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रघुबीर सिंह	01.05.2019
551	जेसी531663पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सरदार सिंह	01.03.2019
552	जेसी531624डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सतेंद्र सिंह गुसाई	01.04.2019
553	जेसी531162पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा सिंह	01.06.2019

कुमाँउ सैन्यदल

554	जेसी540923डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार	01.02.2019
555	जेसी540556पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बसंत गिरि	01.08.2019
556	जेसी541323ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भूवन चंद्रा	01.06.2019
557	जेसी541152वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरीश सिंह	01.06.2019
558	जेसी540988के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हुकम सिंह यादव	01.05.2019
559	जेसी541209एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हुकुम सिंह	01.08.2019
560	जेसी541066एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हुकुम सिंह परिहार	01.08.2019
561	जेसी541297के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कवर सिंह यादव	01.05.2019
562	जेसी541154के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	केशव दत्त	01.05.2019
563	जेसी541168के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुंदन सिंह	01.06.2019
564	जेसी541183वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लोक नाथ सिंह	01.05.2019
565	जेसी541181एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार	01.05.2019
566	जेसी541319एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम शिरोमणि	01.03.2019
567	जेसी541046ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	समशेर सिंह	01.08.2019
568	जेसी540528एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार	01.02.2019
569	जेसी541180एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विरेन्द्र सिंह	01.05.2019

आसाम सैन्यदल

570	जेसी549440ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस रौय	01.06.2019
571	जेसी550573एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अरुण चंद्रा रौय	01.06.2019
572	जेसी550415एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ए एम सिंह	01.07.2019
573	जेसी550560एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बी डी. पीटर अनल	01.03.2019
574	जेसी550462एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चिन्गाखम जे	01.02.2019
575	जेसी550295ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दीपक चंद्रा तालुकदार	01.05.2019
576	जेसी549834वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	घना कांता गोगोई	01.06.2019
577	जेसी550489एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एच हमर	01.07.2019
578	जेसी550326पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जतिन चंद्रा बसुमा	01.06.2019
579	जेसी549468ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लालिन एस	01.03.2019
580	जेसी548150डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एल पी	01.03.2019
581	जेसी549664ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सरत चंद्रा नाथ	01.04.2019
582	जेसी549750एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	टेक बहादुर थापा	01.05.2019
583	जेसी550034एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उदय चंद्रा नाथ	01.07.2019

बिहार सैन्यदल

584	जेसी559752के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रभाश कुमार झा	01.04.2019
-----	--------------	------------------------------	-----------------	------------

585	जेसी559753एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम आशीश राय	01.04.2019
586	जेसी561109वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अखिलेश्वर कुमार सिंह	01.04.2019
587	जेसी561119एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अर्विन्द यादव	01.04.2019
588	जेसी560760पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बच्चा सिंह	01.04.2019
589	जेसी560841पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिदी सिंह	01.04.2019
590	जेसी560988एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिरेन्द्रा कुमार	01.04.2019
591	जेसी561015एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिरेन्द्रा नाथ सिंह	01.04.2019
592	जेसी560455एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बृज किशोर खल्खो	01.03.2019
593	जेसी561016के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धनंजय सिंह	01.04.2019
594	जेसी560948के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ई टोपनो	01.03.2019
595	जेसी560866एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगनाथ शर्मा	01.04.2019
596	जेसी561105एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कन्हैया सिंह	01.04.2019
597	जेसी560890एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनोज एन	01.04.2019
598	जेसी560746एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मिथलेश कुमार सिंह	01.04.2019
599	जेसी560892एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रदीप कुमार पैटरो	01.07.2019
600	जेसी560729एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रसन्ना कुमार गिरि	01.03.2019
601	जेसी561174वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय कुमार सिंह	01.08.2019
602	जेसी560951के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सूरज कुमार बेसरा	01.07.2019
603	जेसी560150एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरिन्दर कुमार	01.04.2019

माहर सैन्यदल

604	जेसी569911के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कुराने संजय शंकर	01.02.2019
605	जेसी569917एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पूरन सिंह	01.06.2019
606	जेसी570516एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चान्द्राकान्त भीवागायकवाड	01.08.2019
607	जेसी570427के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गोदावरी महाराना	01.03.2019
608	जेसी570786एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरविंदर सिंह	01.03.2019
609	जेसी570657एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगजीवन सिंह	01.08.2019
610	जेसी570498एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्रा राय	01.08.2019
611	जेसी570841एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	काम्बले तुकाराम यलप्पा	01.03.2019
612	जेसी571090वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मदन सिंह	01.07.2019
613	जेसी570312डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मितन सिंह	01.02.2019
614	जेसी570681एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्र सिंह	01.07.2019
615	जेसी570002एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रतन कुमार कन्नौजिया	01.06.2019
616	जेसी570806ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सत्यवीर सिंह जे	01.07.2019
617	जेसी570649वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तारा चन्द	01.03.2019
618	जेसी570469डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वंकर मगन भाई जागा भाई	01.03.2019
619	जेसी570676एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वीर बहादुर यादवा	01.05.2019

जम्मु और कश्मीर बन्दूकधारी सेना

620	जेसी581308एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गुरपाल सिंह	01.06.2019
621	जेसी580740एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मदन सिंह	01.05.2019
622	जेसी580645डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	यू सिंह	01.08.2019
623	जेसी581466एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशवनी कुमार चौधरी	01.08.2019
624	जेसी581394के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अवनीश कुमार शर्मा	01.06.2019
625	जेसी581457एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अवतार सिंह	01.07.2019
626	जेसी581420ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलदेव सिंह	01.03.2019
627	जेसी581209एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिजेन्द्र थापा	01.05.2019
628	जेसी581705एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चमन सिंह	01.06.2019
629	जेसी581691एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दावा बहादुर गुरंग	01.02.2019
630	जेसी581472डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देश राज	01.02.2019
631	जेसी581479ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुरनाम सिंह	01.02.2019
632	जेसी581536डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एच राज	01.02.2019
633	जेसी581661ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरजीत सिंह	01.08.2019

634	जेसी581233एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	इंद्र सिंह	01.02.2019
635	जेसी581795वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जगतार सिंह	01.08.2019
636	जेसी581719एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जोगिंदर पाल	01.03.2019
637	जेसी581873एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहम्मद रशीद	01.04.2019
638	जेसी581467एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नन्द लाल	01.03.2019
639	जेसी581693एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रताप चन्द	01.06.2019
640	जेसी581548एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रछपाल दास	01.02.2019
641	जेसी581195डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम लाल	01.02.2019
642	जेसी581184के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रोमेश सिंह	01.02.2019
643	जेसी581687पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिव कुमार	01.08.2019
644	जेसी581183एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सूरम सिंह	01.02.2019
645	जेसी581381एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरिन्दर सिंह	01.02.2019
646	जेसी581683वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरजीत सिंह	01.02.2019
647	जेसी581620डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुसील सिंह	01.03.2019
648	जेसी581692ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तेज बहादुर	01.02.2019
649	जेसी581520एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विजय कुमार	01.02.2019
650	जेसी581560एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विजय कुमार अले	01.02.2019
651	जेसी581767एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विरेन्द्र कुमार	01.08.2019

लदाख निरीक्षक

652	जेसी588377एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	छेरिंग दोर्जे	01.03.2019
653	जेसी588627एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	डोरजे आर	01.02.2019
654	जेसी588614एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	स्टनज़िन सी	01.06.2019
655	जेसी588646एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ताशी नामग्याल	01.03.2019
656	जेसी588575एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	टी नमगैल	01.08.2019
657	जेसी588520एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तसेवांग ताशी	01.05.2019

नागा सैन्यदल

658	जेसी540444पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बहादुर सिंह भंडारी	01.03.2019
659	जेसी590313ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन ए जॉन	01.07.2019
660	जेसी590360एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वीरेंद्र थापा	01.02.2019

जम्मू और कश्मीर लघु पैदल सेना

661	जेसी593360एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अर्जन कुमार	01.08.2019
662	जेसी593951के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशवनी कुमार	01.07.2019
663	जेसी593141एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एम राजन	01.07.2019
664	जेसी593437ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम पौल	01.08.2019
665	जेसी594243के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बलदेव राज	01.05.2019
666	जेसी594148एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दर्शन सिंह	01.04.2019
667	जेसी594298एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कबीर हुसैन	01.02.2019
668	जेसी593870के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	काफिल अहमद	01.02.2019
669	जेसी593473एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एल विनोद कुमार	01.04.2019
670	जेसी594519पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनजीत सिंह	01.07.2019
671	जेसी594151एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहम्मद आर	01.06.2019
672	जेसी593916एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहम्मद शोफी	01.08.2019
673	जेसी594242एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहिन्दर पौल शर्मा	01.03.2019
674	जेसी593407एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोहित दिलीप गनपत	01.02.2019
675	जेसी594250ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ओमकार सिंह	01.03.2019
676	जेसी594041एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रमेश लाल सलगोत्रा	01.02.2019
677	जेसी594459एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सत पौल	01.07.2019
678	जेसी594035पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुभाष चंद्र	01.08.2019
679	जेसी594147पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश पौल	01.03.2019
680	जेसी594053एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	स्वर्ण सिंह सी	01.03.2019

681	जेसी594200पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उत्तातम सिंह	01.02.2019
682	जेसी593917के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जेड हुसैन	01.04.2019
1 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
683	जेसी602671ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राज कुमार थापा	01.04.2019
684	जेसी612820डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दीपक कुमार राना	01.07.2019
685	जेसी603060एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	करण बहादुर पुन	01.07.2019
686	जेसी603010एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश थापा	01.04.2019
3 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
687	जेसी607957वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भक्ता बहादुर थापा	01.07.2019
688	जेसी607728एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मान बहादुर पल्ली	01.08.2019
689	जेसी607906एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	याम बहादुर रोका	01.07.2019
4 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
690	जेसी612641डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गोपाल बहादुर गुरंग	01.07.2019
691	जेसी612804वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भीम दर्शन थापा	01.02.2019
692	जेसी612817डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बिश्नु बीर राना	01.07.2019
5 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
693	जेसी617861के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	भीम सिंह गुरंग	01.05.2019
694	जेसी617894पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रोमन सिंह थापा	01.05.2019
695	जेसी618104एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गीर बहादुर सरु	01.04.2019
696	जेसी618132एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लाल बहादुर राना	01.08.2019
697	जेसी618004डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वाईईएस बहादुर गुरंग	01.02.2019
8 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
698	जेसी623952के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हर्शा बहादुर अले	01.06.2019
699	जेसी624113वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	केशर बहादुर थापा	01.08.2019
700	जेसी624059डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कुमार गुरंग	01.03.2019
701	जेसी623932डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मिलन थापा	01.08.2019
702	जेसी623877एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नंदा बहादुर थापा	01.04.2019
703	जेसी623913एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नारायण बहादुर थापा	01.06.2019
704	जेसी624074एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पदम बहादुर राना	01.04.2019
705	जेसी624146के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पदम बहादुर थापा	01.04.2019
706	जेसी624109डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पूर्णा बहादुर सरु	01.02.2019
707	जेसी623922एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रामानन्द पुदार	01.06.2019
9 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
708	जेसी629936एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रमेश कुमार थापा	01.04.2019
709	जेसी629890एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भगवान मल्ला	01.03.2019
710	जेसी630029पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दुर्गा बहादुर खत्री	01.02.2019
711	जेसी630077पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मिन बहादुर पंता	01.03.2019
712	जेसी630081एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रेशम बहादुर अधिकारी	01.05.2019
11 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
713	जेसी635352एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार तमंग	01.04.2019
714	जेसी603007एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धन मान थापा	01.04.2019
715	जेसी635094वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गनेश ए लिम्बू	01.03.2019
716	जेसी635323वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	केवल मान राय	01.03.2019
717	जेसी635233एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महेंद्र कुमार लिम्बू	01.03.2019
सेना सेवा पलटन दक्षिण				
718	जेसी665351ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आशीस दास	01.04.2019

719	जेसी664215एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	डी. चंद्रा सेकारन	01.06.2019
720	जेसी665226डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दर्शन सिंह रावत	01.03.2019
721	जेसी665143एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगदीश मौर्या	01.06.2019
722	जेसी642909एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कला चन्द मिस्त्री	01.04.2019
723	जेसी665571के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रेम सिंह नेगी	01.04.2019
724	जेसी663140वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राधे श्याम	01.05.2019
725	जेसी665220पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजू मिचेल	01.03.2019
726	जेसी217190एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सच्चिदानंद तिवारी	01.03.2019
727	जेसी642906के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सोमानाथ महाराना	01.03.2019
728	जेसी665346पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुबा सिंह यादव	01.03.2019
729	जेसी664143वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुशील कुमार यादव	01.06.2019
730	जेसी668804एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमृत सिंह	01.08.2019
731	जेसी665326एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देव राज त्रिपाठी	01.02.2019
732	जेसी665400एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एफ एम शिव लाल भाई	01.04.2019
733	जेसी669963पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरी शंकर दत्ता	01.07.2019
734	जेसी670166डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्रा कुमार शर्मा	01.08.2019
735	जेसी669962एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एन के सिंह	01.07.2019
736	जेसी669981एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह	01.07.2019
737	जेसी668601एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाहुल हमीद वी ई	01.03.2019
738	जेसी668826के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शेर सिंह	01.05.2019
739	जेसी668560एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तापस कुमार मोन्डल	01.03.2019

सेना सेवा पलटन पशु परिवहन

740	जेसी681482पी	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	अभिमन्यु सिंह	01.04.2019
741	जेसी681473एन	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	आरिफ खान	01.04.2019
742	जेसी681485एच	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	बासप्पा पाटिल	01.08.2019
743	जेसी681469एल	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	भिशामभर कुमार	01.05.2019
744	जेसी681489वाई	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	सी दीपक दन्यानोबा	01.08.2019
745	जेसी681492वाई	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	जी. लाल	01.08.2019
746	जेसी681441एल	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	गंगा दीन कोरी	01.04.2019
747	जेसी681474डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	काम्बले सतप्पा	01.08.2019
748	जेसी681496पी	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	कोप्पुला नरसिम्हुलु	01.08.2019
749	जेसी681444वाई	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	लाल बहादुर प्रसाद	01.04.2019
750	जेसी681436ए	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	नारायण आर	01.03.2019
751	जेसी681480के	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	एन सिंह बिष्ट	01.08.2019
752	जेसी681476एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	प्रामा राम	01.08.2019
753	जेसी681462एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	राज किशोर	01.04.2019
754	जेसी681487एन	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	राजेंद्रा सिंह रावत	01.08.2019
755	जेसी681478एम	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	रामेंदर कुमार राठौर	01.08.2019
756	जेसी681497एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	शेक जे साहेब	01.08.2019
757	जेसी681468एच	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	सुबोध कुमार	01.05.2019
758	जेसी681464एम	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार	01.04.2019
759	जेसी681493एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	येन्नी जगन्नाधा राव	01.08.2019

सेना चिकित्सा पलटन

760	जेसी694775वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बसंत कुमार साहू	01.02.2019
761	जेसी693713एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	भगवती प्रसाद	01.05.2019
762	जेसी695824एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	चन्द्र शेखर	01.06.2019
763	जेसी696129ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	दीवान सिंह	01.02.2019
764	जेसी696811एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जसपाल सिंह	01.02.2019
765	जेसी697940के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	लाला राम	01.08.2019
766	जेसी696525डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राधा कृष्णा पनिकेर टी पी	01.05.2019
767	जेसी694852एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सिकंदर इकबाल	01.02.2019

768	जेसी694976एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सिवा प्रसाद एस	01.05.2019
769	जेसी695214डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	श्री एम के	01.06.2019
770	जेसी694100वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	तपन कुमार गायन	01.06.2019
771	जेसी694110एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उमेश चंद्रा	01.04.2019
772	जेसी699992वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमब्रे संजय हरीश चंद्रा	01.04.2019
773	जेसी700271के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अरुण कुमार	01.08.2019
774	जेसी700284एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भूपेन नाथ	01.05.2019
775	जेसी700224एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	चोबे रवीन्द्र कुमार राजाराम	01.03.2019
776	जेसी700027के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देवा राजू डी. एस	01.03.2019
777	जेसी700032पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धन्न राम यादव	01.03.2019
778	जेसी700061के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धेन्दे अर्जुन निवरूति	01.04.2019
779	जेसी700223के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जी. अप्पला नायडू	01.03.2019
780	जेसी699853पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गोपाल शरण भारद्वाज	01.02.2019
781	जेसी699991डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जाधव दिलीप विलास राव	01.04.2019
782	जेसी699769पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पाटिल विश्वास राजाराम	01.04.2019
783	जेसी700034ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रवीन्द्र राना	01.06.2019
784	जेसी699683डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एस कार्तीकेयन	01.03.2019
785	जेसी700030के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय कुमार	01.03.2019
786	जेसी700295एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय कुमार चोबे	01.04.2019
787	जेसी696978एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संतोख सिंह	01.05.2019
788	जेसी700031एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सत्येन्द्र चौहान	01.03.2019
789	जेसी700272एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	श्री कृष्णा वर्मा	01.08.2019
790	जेसी700225पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुखवीर सिंह	01.03.2019
791	जेसी696977वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुखदेव सिंह	01.08.2019
792	जेसी700066एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुंदर लाल	01.04.2019
793	जेसी700026एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार सिंह	01.03.2019
794	जेसी700235वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्रा कुमार पटेल	01.04.2019
795	जेसी700262एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमेश कुमार	01.04.2019
796	जेसी700064एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विनय कुमार	01.04.2019
797	जेसी699503एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विनोद कुमार शर्मा	01.03.2019

सेना आयुध पलटन

798	जेसी724945पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार	01.04.2019
799	जेसी725351एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देबानन्दा राजगुरु	01.05.2019
800	जेसी728723एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगन्नाथ बेरा	01.06.2019
801	जेसी725459के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	महेंद्र सिंह आर	01.05.2019
802	जेसी728670के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम देव	01.07.2019
803	जेसी729003एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रशपाल सिंह	01.05.2019
804	जेसी730079पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भगवंत सिंह	01.02.2019
805	जेसी729949पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देश राज	01.08.2019
806	जेसी730390पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देविन्द्र सिंह	01.07.2019
807	जेसी727708डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	डी. रमा एम	01.06.2019
808	जेसी730154एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिल कुमार राय	01.07.2019
809	जेसी730404के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिलीप सिंह	01.03.2019
810	जेसी728582एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जी. संतो कुमार	01.03.2019
811	जेसी728148एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धनशायम मल्लिक	01.03.2019
812	जेसी730410एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हरप्रीत सिंह	01.02.2019
813	जेसी728585एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जैत सिंह	01.03.2019
814	जेसी730190वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	किशन सिंह	01.06.2019
815	जेसी730284डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राज ऋषि	01.04.2019
816	जेसी730294ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम भगत साहू	01.02.2019
817	जेसी728220एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय कुमार साहू	01.08.2019
818	जेसी730558डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सत्य प्रकाश यादवा	01.03.2019
819	जेसी729343एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शाजी जेएम	01.07.2019

820	जेसी730444एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार चौधरी	01.03.2019
821	जेसी729992डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुनील कुमार यादव	01.06.2019
822	जेसी728150वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सूरत सिंह	01.04.2019
823	जेसी730405एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विजय कुमार	01.03.2019
824	जेसी728050एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वीरेंद्र कुमार राजभर	01.03.2019

विद्युतिय एवं यात्रिक अभियन्ता पलटन

825	जेसी757722एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ए प्रेमा कुमार	01.02.2019
826	जेसी758175ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अजीत सिंह	01.03.2019
827	जेसी757678वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अनिल कुमार	01.03.2019
828	जेसी757836एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अंसारी अबुल हासन एन	01.03.2019
829	जेसी758523डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार मान	01.05.2019
830	जेसी764363एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बसंत कुमार	01.06.2019
831	जेसी757512एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बीरबल राम	01.02.2019
832	जेसी758527एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देवी दीन यादव	01.06.2019
833	जेसी758718एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धर्मराज नाहक	01.08.2019
834	जेसी757734एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धर्मेन्द्र सिंह	01.03.2019
835	जेसी760949डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गजेन्द्र कुमार बी	01.05.2019
836	जेसी760979एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरी ओयूएम	01.02.2019
837	जेसी757735पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जाधव अरुण मनोहर	01.02.2019
838	जेसी759157के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जया बालन एन	01.03.2019
839	जेसी758452ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	कमलेश कुमार शुक्ला	01.05.2019
840	जेसी758185के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मागाराम के	01.04.2019
841	जेसी758776एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मांगी लाल एम	01.04.2019
842	जेसी765414एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मनोज कुमार	01.06.2019
843	जेसी760965एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मनोज कुमार सिंह	01.06.2019
844	जेसी758508एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एन कुमार आचार्य	01.06.2019
845	जेसी757594एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पी सीनी वी	01.02.2019
846	जेसी758384एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	पवन कुमार निशाद	01.05.2019
847	जेसी765501ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	प्रदीप के	01.08.2019
848	जेसी765237एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आर सुरेश	01.02.2019
849	जेसी757542पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजा राम	01.02.2019
850	जेसी763606एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार राय	01.03.2019
851	जेसी757546एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम बहादुर सिंह	01.02.2019
852	जेसी758695एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राम प्रताप	01.02.2019
853	जेसी763070ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रमेश कुमार कुशवाह	01.08.2019
854	जेसी757679एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रंजीत कुमार साहू	01.02.2019
855	जेसी757578एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	रवि शंकर कुमार	01.02.2019
856	जेसी758051एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ऋषि पाल सिंह	01.03.2019
857	जेसी758712ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शाबू के सी	01.02.2019
858	जेसी757892एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शेक दावूद	01.02.2019
859	जेसी765632एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शंकर सिंह	01.02.2019
860	जेसी758381के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	शीश पाल	01.06.2019
861	जेसी758625एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस कुमार	01.04.2019
862	जेसी757723ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुबाष चंद्रा पंदिद्या	01.03.2019
863	जेसी762953एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेन्द्र सिंह	01.03.2019
864	जेसी757700वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुरेश पाल सिंह	01.03.2019
865	जेसी760960पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सुसंता निओगी	01.06.2019
866	जेसी757729एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उमेद सिंह	01.03.2019
867	जेसी763454पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	उत्तातम सिंह	01.03.2019
868	जेसी758351एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	विद्यापाती पांडे	01.07.2019
869	जेसी760056एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	विन्ध्याचल उपाध्याय	01.03.2019
870	जेसी759561वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बिनोथन जी.	01.06.2019
871	जेसी766857ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अमिया कुमार पाल	01.07.2019

872	जेसी765550एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अर्विन्द सिंह	01.02.2019
873	जेसी766239पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार	01.02.2019
874	जेसी766232एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	बंसी लाल	01.02.2019
875	जेसी763195एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	भूप सिंह	01.03.2019
876	जेसी765007के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देश राज	01.03.2019
877	जेसी765557एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दिनबन्धु साहू	01.03.2019
878	जेसी765930एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	हिमांशु चंदा	01.02.2019
879	जेसी766075के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जय भगवान	01.04.2019
880	जेसी765305ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जितेन्द्र सिंह सिकरवार	01.03.2019
881	जेसी766081एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	लल्लन पण्डित	01.04.2019
882	जेसी767314ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मदन पाल	01.08.2019
883	जेसी765927एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	महेंद्र सिंह	01.04.2019
884	जेसी770699एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मजीद खान	01.03.2019
885	जेसी766079ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनिन्द्र कुमार देबनाथ	01.04.2019
886	जेसी765566एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरसिंह प्रसाद पांडे	01.04.2019
887	जेसी765312डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नरुसिंघा चरणा साहू	01.02.2019
888	जेसी762265वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रदीप कुमार	01.02.2019
889	जेसी766403एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रेम नारायण मिश्रा	01.04.2019
890	जेसी766080पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजीत कुमार झा	01.04.2019
891	जेसी764689एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिवनाथ सिंह बरवार	01.03.2019
892	जेसी765561पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सीता राम के	01.03.2019
893	जेसी761508एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमा शंकर निराला	01.04.2019
894	जेसी765306एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमेश सिंह	01.03.2019
895	जेसी765316एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमेश चंद्रा पांडे	01.03.2019
896	जेसी765942डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वी सिंह	01.02.2019
897	जेसी767638एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विनोद चन्द	01.03.2019

सेना शिक्षा पलटन

898	जेसी803662पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अनिल कुमार	01.07.2019
899	जेसी803798वाई	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	बिजेन्द्र सिंह	01.05.2019
900	जेसी803525डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धर्मेन्द्र पाल सिंह राठोर	01.05.2019
901	जेसी803884के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जय सिंह शेखावत	01.08.2019
902	जेसी803415एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जसपाल सिंह	01.03.2019
903	जेसी803682एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	आर गोदारा	01.06.2019
904	जेसी803592एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	ससेन्द्रणन वी के	01.06.2019
905	जेसी803857ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	सतींद्र सिंह	01.02.2019
906	जेसी804720ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गौतम चन्द	01.05.2019
907	जेसी804711वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रूप सिंह जे	01.04.2019
908	जेसी804474ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सीता राम	01.08.2019

घुड़ एवं पशुचिकित्सा पलटन

909	जेसी797517वाई	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	धर्म सिंह जाट	01.04.2019
910	जेसी797428ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मुरारी शर्मा	01.03.2019
911	जेसी797692एन	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	खान बहादुर	01.03.2019
912	जेसी797643एल	रिसालदार एवं अवैतनिक ले.	मल्कीत सिंह	01.06.2019

सेना आसूचना पलटन

913	जेसी811118एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	देवेंदर सिंह	01.03.2019
914	जेसी811038एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मगन पाल सिंह एस	01.02.2019
915	जेसी811537ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार मल्होत्रा	01.03.2019
916	जेसी811656डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	गुरदीप सिंह	01.02.2019
917	जेसी811574एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	इंद्र प्रकाश	01.06.2019
918	जेसी811582एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	एम रहमान	01.08.2019
919	जेसी811619एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रनबीर सिंह	01.04.2019

920	जेसी811557एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	साही राम बुदानिया	01.04.2019
921	जेसी811535पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	त्रिलोक सिंह	01.02.2019
922	जेसी811571ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वेद सिंह	01.05.2019
923	जेसी811649ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	वाइ मोहन सामी रेडी	01.06.2019

सेना पुलिस पलटन

924	जेसी819326एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	छथू कुट्टी टी	01.05.2019
925	जेसी819342के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	हरी शंकर सिंह	01.06.2019
926	जेसी819879एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्राथापन के	01.07.2019
927	जेसी819855वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राजेश कुमार	01.03.2019
928	जेसी819862पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रंजीत कुमार सिंह	01.04.2019
929	जेसी819870एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	उमेश सिंह	01.04.2019

सेना शारीरिक प्रशिक्षण पलटन

930	जेसी826211एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	एस मुरुगेसन	01.08.2019
-----	--------------	------------------------------	-------------	------------

अन्वेषक पलटन

931	जेसी829460एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	अशोक कुमार	01.08.2019
932	जेसी829447एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	मिथलेश कुमार सिंह	01.02.2019

रक्षा सुरक्षा पलटन

933	जेसी842061ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	गंगाधरन के	01.05.2019
934	जेसी842026एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	जगजीत सिंह	01.04.2019
935	जेसी841857के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक ले.	राजबीर सिंह	01.07.2019
936	जेसी843220वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ऐश नारायण सिंह	01.02.2019
937	जेसी843027एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देवासया पी पी	01.06.2019
938	जेसी842904एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	जी. मोहन दास	01.07.2019
939	जेसी842758एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ज्ञान बहादुर राय	01.07.2019
940	जेसी842179एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मधुसूधन्न सी	01.06.2019
941	जेसी842896पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मान मोहन लाल	01.04.2019
942	जेसी842279एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मनोहरन एम वी	01.04.2019
943	जेसी842686पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नेत्र पाल सिंह	01.06.2019
944	जेसी841122ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पी रामचन्द्रन	01.06.2019
945	जेसी842812डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रघुबीर सिंह	01.07.2019
946	जेसी843106एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	शिव कुमार	01.06.2019
947	जेसी841233एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	विनोदन बी पी	01.02.2019

प्रादेशिक सेना

948	टीजे5089एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	ब्रमा नन्द	01.08.2019
949	टीजे5559एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	दयाल सिंह	01.05.2019
950	टीजे5411एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	देश राज	01.08.2019
951	टीजे5336के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	डी. अमरूत वी	01.07.2019
952	टीजे5090डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	धर्म चन्द जे	01.08.2019
953	टीजे5582पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	कल्लप्पा डब्ल्यू	01.04.2019
954	टीजे5434के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	खरका बहादुर तमंग	01.04.2019
955	टीजे5033पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मूल चन्द शर्मा	01.03.2019
956	टीजे5282एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	मोराले बाबासाहेब	01.02.2019
957	टीजे4843एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नन्द लाल	01.08.2019
958	टीजे5766एन	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	नियाज अली	01.04.2019
959	टीजे5736डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	परशु राम बी	01.06.2019
960	टीजे5725के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	पवित्र पीके	01.05.2019
961	टीजे5227पी	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	फूल सिंह	01.02.2019
962	टीजे5537एच	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	प्रवीन राय	01.05.2019
963	टीजे5337एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम चन्द	01.04.2019

964	टीजे5018ए	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	राम राज	01.08.2019
965	टीजे5644के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रामआधार तिवारी	01.03.2019
966	टीजे5088वाई	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रण सिंह	01.08.2019
967	टीजे5661एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रणवीर सिंह	01.08.2019
968	टीजे5175एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	रोशन लाल	01.03.2019
969	टीजे5208एम	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सजीव कुमार ए	01.08.2019
970	टीजे5499एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	संजय कुमार सिंह	01.06.2019
971	टीजे5403के	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेंद्र कुमार	01.08.2019
972	टीजे5235डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	सुरेश कुमार एएम	01.08.2019
973	टीजे3997एल	सुबेदार एवं अवैतनिक ले.	तेजपाल सिंह चौहान	01.06.2019

अवैतनिक लैटिनेंट के रूप में (सेवा निवृत्ति पर)

62 अश्वारोही सेना

1	जेसी244076के	रिसालदार मेजर	मनजीत सिंह	01.05.2019
---	--------------	---------------	------------	------------

61 अश्वारोही सेना

2	जेसी242206एच	रिसालदार मेजर	सतार खान	01.02.2019
3	जेसी242207एल	रिसालदार मेजर	ताज मोहम्मद खान	01.03.2019

74 कवाचिक सैन्यदल

4	जेसी244376एल	रिसालदार मेजर	राजेंद्रा कुमार	01.07.2019
---	--------------	---------------	-----------------	------------

48 कवाचिक सैन्यदल

5	जेसी243893डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	राम प्रताप सिंह	01.04.2019
---	-------------------	---------------	-----------------	------------

13 कवाचिक सैन्यदल

6	जेसी244012वाई	रिसालदार मेजर	आजी कुमार के.एस	01.05.2019
7	जेसी243012एम	रिसालदार मेजर	सुरेश	01.03.2019

54 कवाचिक सैन्यदल

8	जेसी243775एच	रिसालदार मेजर	मोहन सिंह	01.08.2019
---	--------------	---------------	-----------	------------

9	जेसी244086एन	रिसालदार मेजर	पवन कुमार	01.04.2019
---	--------------	---------------	-----------	------------

कवाचिक पलटन

10	जेसी235666एफ	रिसालदार मेजर	बिशन दास	01.06.2019
11	जेसी243290ए	रिसालदार मेजर	सतिनदरजीत सिंह	01.07.2019

तोपखाना सैन्यदल

12	जेसी272206एक्स	सुबेदार मेजर	अरबिंद कुमार दुबे	01.08.2019
13	जेसी272999एल	सुबेदार मेजर	आशीम कुमार विश्वास	01.07.2019
14	जेसी269968ए	सुबेदार मेजर	दिनेश कुमार	01.06.2019
15	जेसी271448एन	सुबेदार मेजर	गजपाल सिंह	01.04.2019
16	जेसी271524पी	सुबेदार मेजर	गिरीश केपी	01.06.2019
17	जेसी270039एन	सुबेदार मेजर	जी. सिंह	01.06.2019
18	जेसी266668एन	सुबेदार मेजर	हवा सिंह	01.04.2019
19	जेसी272075एक्स	सुबेदार मेजर	हेम चन्द	01.07.2019
20	जेसी272566एन	सुबेदार मेजर	जाधव महेश नारायण	01.06.2019
21	जेसी269184वाई	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह	01.05.2019
22	जेसी272069के	सुबेदार मेजर	कैलाश चंद्रा पैटरो	01.06.2019
23	जेसी271684पी	सुबेदार मेजर	मनजीत सिंह	01.05.2019
24	जेसी266163एक्स	सुबेदार मेजर	मुरलीधरन के	01.04.2019

25	जेसी271558एच	सुबेदार मेजर	राजे गोड बीए	01.07.2019
26	जेसी271501एन	सुबेदार मेजर	राम सूरत	01.05.2019
27	जेसी273622एन	सुबेदार मेजर	आर एआर	01.06.2019
28	जेसी272441डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एस पलानीवल	01.07.2019
29	जेसी272127एच	सुबेदार मेजर	ससेन्द्रणन के	01.06.2019
30	जेसी272543एम	सुबेदार मेजर	सत्य प्रकाश	01.02.2019
31	जेसी269380वाई	सुबेदार मेजर	श्रवण कुमार शुक्ला	01.03.2019
32	जेसी271252ए	सुबेदार मेजर	शिशिर कुमार नायक	01.03.2019
33	जेसी267790डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह	01.08.2019
34	जेसी270484एम	सुबेदार मेजर	उमेश जे	01.05.2019
35	जेसी272179वाई	सुबेदार मेजर	विनोद सिंह	01.08.2019

सेना वायु सुरक्षा

36	जेसी299893एच	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह	01.02.2019
37	जेसी300451वाई	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा नारायण राउत	01.05.2019
38	जेसी300349डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजू एस	01.02.2019
39	जेसी300495डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रामानन्द	01.04.2019
40	जेसी300494एन	सुबेदार मेजर	सिवा कुमार जी.	01.05.2019

मद्रास यान्त्रिक समूह

41	जेसी308664एफ	सुबेदार मेजर	ए पलनिच्छामी	01.08.2019
42	जेसी308456एम	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार पांडे	01.03.2019
43	जेसी308549एफ	सुबेदार मेजर	बलवीर सिंह	01.07.2019
44	जेसी309103वाई	सुबेदार मेजर	बन्दी वेंकट रमनियाह	01.08.2019
45	जेसी308503वाई	सुबेदार मेजर	दुलाल चंद्रा अदक	01.04.2019
46	जेसी308524पी	सुबेदार मेजर	दुर्गा दात पांडे	01.07.2019
47	जेसी308121पी	सुबेदार मेजर	एलुमलाई एन	01.02.2019
48	जेसी308611एच	सुबेदार मेजर	घनशाम सिंह	01.07.2019
49	जेसी308506एम	सुबेदार मेजर	जी. सी वासूदेव	01.04.2019
50	जेसी308058एल	सुबेदार मेजर	इंग्ले अरुण गुलाबराव	01.02.2019
51	जेसी308378ए	सुबेदार मेजर	ज्योतिष केआर महंता	01.04.2019
52	जेसी308490एम	सुबेदार मेजर	कुमारा स्वामी देव जी.	01.02.2019
53	जेसी308457पी	सुबेदार मेजर	महारूब सुभानी शेक	01.04.2019
54	जेसी308301एक्स	सुबेदार मेजर	मलिखान सिंह	01.03.2019
55	जेसी309104एफ	सुबेदार मेजर	मन्जूनाथा बीसी	01.06.2019
56	जेसी308586पी	सुबेदार मेजर	मनोज के.एम	01.07.2019
57	जेसी308517वाई	सुबेदार मेजर	एन टिजे	01.06.2019
58	जेसी308401एच	सुबेदार मेजर	प्रवेश रंजन पंडा	01.02.2019
59	जेसी309107पी	सुबेदार मेजर	आर जे राव	01.06.2019
60	जेसी308349एल	सुबेदार मेजर	राज किशोर साहू	01.04.2019
61	जेसी308584के	सुबेदार मेजर	राम कुमार	01.07.2019
62	जेसी309055के	सुबेदार मेजर	एस सेन्थिलवेल	01.05.2019
63	जेसी330776एफ	सुबेदार मेजर	एस वेंकट रत्ना प्रसाद	01.04.2019
64	जेसी308337डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	संजय कुमार	01.03.2019
65	जेसी308550डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार एम	01.08.2019
66	जेसी308614डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एस के वी	01.08.2019
67	जेसी308616एफ	सुबेदार मेजर	सोहन लाल टी	01.08.2019
68	जेसी308566एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार	01.07.2019
69	जेसी308516डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	यूनूस एस	01.07.2019

बंगाल यान्त्रिक समूह

70	जेसी330967डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अच्युत रौय	01.06.2019
71	जेसी199935ए	सुबेदार मेजर	अजय कुमार	01.05.2019
72	जेसी331636एफ	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार एम	01.02.2019

73	जेसी330966एन	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार अवस्थी	01.06.2019
74	जेसी338579एन	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार	01.02.2019
75	जेसी327751एफ	सुबेदार मेजर	बाबू जी.	01.02.2019
76	जेसी331529ए	सुबेदार मेजर	बाबू एन	01.06.2019
77	जेसी338744एन	सुबेदार मेजर	बहादुर सिंह	01.07.2019
78	जेसी330964एच	सुबेदार मेजर	बलजिन्दर सिंह	01.05.2019
79	जेसी330579वाई	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह	01.03.2019
80	जेसी330875के	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह	01.07.2019
81	जेसी329689एफ	सुबेदार मेजर	बिजन कुमार पाल	01.06.2019
82	जेसी338879पी	सुबेदार मेजर	बूज किशोर	01.07.2019
83	जेसी330655ए	सुबेदार मेजर	ब्रिन्दाबन चंद्रा मैत्रा	01.07.2019
84	जेसी338830वाई	सुबेदार मेजर	दवेन्दर सिंह	01.07.2019
85	जेसी338888डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	देबेन्द्र नाथ दास	01.08.2019
86	जेसी331451ए	सुबेदार मेजर	देव कुमार महतो	01.05.2019
87	जेसी331506वाई	सुबेदार मेजर	देवा नन्द	01.02.2019
88	जेसी338890एन	सुबेदार मेजर	दिलीप कुमार मंडल	01.08.2019
89	जेसी199951एम	सुबेदार मेजर	दयानदेव रमा	01.03.2019
90	जेसी219588एल	सुबेदार मेजर	एलांगुवान जी.	01.03.2019
91	जेसी330975पी	सुबेदार मेजर	जी. श्रीनिवासुलु	01.04.2019
92	जेसी326698एक्स	सुबेदार मेजर	गंगा प्रसाद शर्मा	01.03.2019
93	जेसी327879पी	सुबेदार मेजर	गोतम भट्टाचारजी	01.02.2019
94	जेसी338877के	सुबेदार मेजर	हरे लाल यादव	01.06.2019
95	जेसी330585एम	सुबेदार मेजर	इंद्रजीत	01.04.2019
96	जेसी330768एच	सुबेदार मेजर	जे सिंह	01.06.2019
97	जेसी331079एन	सुबेदार मेजर	जय कंवर	01.04.2019
98	जेसी331007के	सुबेदार मेजर	जगदीशन पी	01.07.2019
99	जेसी330685एक्स	सुबेदार मेजर	जे कुलिया	01.06.2019
100	जेसी338513एक्स	सुबेदार मेजर	के रहमान लश्कर	01.02.2019
101	जेसी338760एल	सुबेदार मेजर	कृष्णा देव शाह	01.03.2019
102	जेसी331295एफ	सुबेदार मेजर	लल्लन सिंह कुशवाहा	01.02.2019
103	जेसी330953डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महमूद खान	01.04.2019
104	जेसी327877के	सुबेदार मेजर	मलय कुमार मजूमडेर	01.03.2019
105	जेसी331648डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एन विलास डी.	01.03.2019
106	जेसी338581एल	सुबेदार मेजर	नन्द किशोर	01.02.2019
107	जेसी331155पी	सुबेदार मेजर	नृपेन्द्रा बर्मन	01.03.2019
108	जेसी330590एक्स	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश सिंह यादव	01.05.2019
109	जेसी331663एल	सुबेदार मेजर	प्रद्युम्न कुमार	01.06.2019
110	जेसी338883एक्स	सुबेदार मेजर	पवार भरत काशिनाथ	01.08.2019
111	जेसी338889वाई	सुबेदार मेजर	पी दत्तू लक्ष्मन	01.08.2019
112	जेसी331635वाई	सुबेदार मेजर	प्रफुल्ल कुमार साहू	01.02.2019
113	जेसी330976एक्स	सुबेदार मेजर	प्रकाशन पी	01.04.2019
114	जेसी338758एन	सुबेदार मेजर	प्रेम कुमार	01.03.2019
115	जेसी330527एच	सुबेदार मेजर	आर वी रवि	01.04.2019
116	जेसी338723एक्स	सुबेदार मेजर	रबीन्द्र नाथ चक्रबर्ती	01.02.2019
117	जेसी338813वाई	सुबेदार मेजर	रघुनाथ प्रसाद सिन्हा	01.02.2019
118	जेसी338977पी	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह	01.08.2019
119	जेसी338814एफ	सुबेदार मेजर	राम बिलास	01.02.2019
120	जेसी338872एल	सुबेदार मेजर	राम करन सैनी	01.04.2019
121	जेसी331039एम	सुबेदार मेजर	राम सुख	01.04.2019
122	जेसी325703एल	सुबेदार मेजर	रमेश झा	01.02.2019
123	जेसी338818एक्स	सुबेदार मेजर	रमेश टीसी	01.03.2019
124	जेसी330945एक्स	सुबेदार मेजर	रणधीर सिंह	01.08.2019
125	जेसी331156एक्स	सुबेदार मेजर	संदीप सिंह जसरोतिया	01.02.2019
126	जेसी330581डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार भंडारी	01.04.2019

127	जेसी331140एम	सुबेदार मेजर	शाजू एमएफ	01.05.2019
128	जेसी330543ए	सुबेदार मेजर	श्यामा पाडा बेनरजी	01.06.2019
129	जेसी331059ए	सुबेदार मेजर	सुबोध कुमार शुक्ला	01.05.2019
130	जेसी327754एक्स	सुबेदार मेजर	सुधाकर सिन्हा	01.02.2019
131	जेसी339012के	सुबेदार मेजर	सुखवीर सिंह	01.08.2019
132	जेसी338761एन	सुबेदार मेजर	सुंदर सिंह	01.03.2019
133	जेसी330166पी	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार के	01.03.2019
134	जेसी331153के	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार पी	01.02.2019
135	जेसी330922डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	टी पी अनिल कुमार	01.08.2019
136	जेसी210494एम	सुबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह	01.05.2019
137	जेसी331067वाई	सुबेदार मेजर	टी अशोक मलप्पा	01.03.2019
138	जेसी331911डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	टेन्टू श्रीनिवास राव	01.06.2019

बॉम्बे यान्त्रिक समुह

139	जेसी349169एक्स	सुबेदार मेजर	अच्छे लाल	01.02.2019
140	जेसी350625के	सुबेदार मेजर	अजीत कृष्णा विश्वास	01.02.2019
141	जेसी350583एच	सुबेदार मेजर	अवधेश चंद्रा	01.07.2019
142	जेसी350327एन	सुबेदार मेजर	बाबू के टी	01.05.2019
143	जेसी350974एन	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह	01.04.2019
144	जेसी330715के	सुबेदार मेजर	चंद्र मोहन	01.04.2019
145	जेसी349226एन	सुबेदार मेजर	चव्हाण रमेश रामकृशना	01.02.2019
146	जेसी331343डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जाधव दिलीप रामदास	01.08.2019
147	जेसी350553एल	सुबेदार मेजर	के ए जिपसन	01.06.2019
148	जेसी350841एक्स	सुबेदार मेजर	काकडे रामचंद्र तुकाराम	01.07.2019
149	जेसी350159ए	सुबेदार मेजर	के बेहेरा	01.03.2019
150	जेसी350243ए	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह	01.03.2019
151	जेसी350684डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एल रघुनाथ किशन राव	01.02.2019
152	जेसी350390एच	सुबेदार मेजर	मदन लाल	01.07.2019
153	जेसी350968ए	सुबेदार मेजर	मल्कीत सिंह	01.05.2019
154	जेसी350426डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नक्का मारकंडा राव	01.02.2019
155	जेसी331339एन	सुबेदार मेजर	नारायण राम	01.06.2019
156	जेसी350636डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नरेश कुमार पनवर	01.02.2019
157	जेसी350466एक्स	सुबेदार मेजर	पवार मोहन विनायक	01.06.2019
158	जेसी350695एच	सुबेदार मेजर	प्रकाश चंद्रा श्रीवास्तव	01.08.2019
159	जेसी350541डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राज कुमार चतुर्वेदी	01.08.2019
160	जेसी350586डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजबीर सिंह	01.08.2019
161	जेसी350576एम	सुबेदार मेजर	राजेश यादव	01.05.2019
162	जेसी351001के	सुबेदार मेजर	शकील खान	01.08.2019
163	जेसी350324ए	सुबेदार मेजर	शालिग्राम यादव	01.05.2019
164	जेसी350730ए	सुबेदार मेजर	सोलन्के युवराज आर राव	01.05.2019
165	जेसी350200एल	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
166	जेसी350219के	सुबेदार मेजर	तिलक धारी	01.02.2019
167	जेसी350747एन	सुबेदार मेजर	विनसेट पी	01.06.2019

अधिसूचना पलटन

168	जेसी372196एन	सुबेदार मेजर	अच्छे लाल	01.05.2019
169	जेसी378523के	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह ठाकुर	01.08.2019
170	जेसी379263डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बिनोद कुमार सिंह	01.02.2019
171	जेसी378580एल	सुबेदार मेजर	बिपिन चंद्रा	01.02.2019
172	जेसी373445एन	सुबेदार मेजर	चांदना जी. राव	01.02.2019
173	जेसी377679पी	सुबेदार मेजर	चंद्र पाल	01.03.2019
174	जेसी378901एक्स	सुबेदार मेजर	चितरन्जन आचार्य	01.05.2019
175	जेसी377745एम	सुबेदार मेजर	देवी सिंह	01.04.2019
176	जेसी377408एक्स	सुबेदार मेजर	धर्मन्द्र सिंह चौहान	01.02.2019

177	जेसी377746पी	सुबेदार मेजर	जी. सेलवानारायनन	01.04.2019
178	जेसी376628पी	सुबेदार मेजर	घनशाम सिंह	01.02.2019
179	जेसी380434के	सुबेदार मेजर	गोकुल चन्द गुर्जर	01.07.2019
180	जेसी377888एम	सुबेदार मेजर	गोलम ए	01.05.2019
181	जेसी372404एक्स	सुबेदार मेजर	के लक्ष्मन गोर्धन भाई	01.08.2019
182	जेसी377930ए	सुबेदार मेजर	एल बालू जनार्दन	01.02.2019
183	जेसी377741डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	माधवन डी.	01.04.2019
184	जेसी372389एन	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह	01.06.2019
185	जेसी371974एफ	सुबेदार मेजर	एम यशवंत हिंदुराव	01.05.2019
186	जेसी372182एन	सुबेदार मेजर	मोहादेव घोस	01.04.2019
187	जेसी372186के	सुबेदार मेजर	नेमी चन्द	01.04.2019
188	जेसी372187एम	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार	01.05.2019
189	जेसी371956वाई	सुबेदार मेजर	पूरन लाल	01.05.2019
190	जेसी378105पी	सुबेदार मेजर	राजा शेखरन बी	01.06.2019
191	जेसी378925एफ	सुबेदार मेजर	राजबीर सिंह	01.08.2019
192	जेसी377815ए	सुबेदार मेजर	रमा कृष्णन पीकेटी	01.03.2019
193	जेसी378109एल	सुबेदार मेजर	रास बिहारी ओझा	01.07.2019
194	जेसी378856डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	संत राम	01.04.2019
195	जेसी378533एन	सुबेदार मेजर	सावन्त श्रीकांत महादेव	01.08.2019
196	जेसी377748ए	सुबेदार मेजर	सावंत सिंह	01.04.2019
197	जेसी378097एफ	सुबेदार मेजर	श्री कुमार आर	01.06.2019
198	जेसी372168एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश चन्द	01.02.2019
199	जेसी378858एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्रा	01.07.2019
200	जेसी378503डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	उत्पल खानिकार	01.03.2019
201	जेसी372390एच	सुबेदार मेजर	विस्वनाथन वी	01.06.2019
202	जेसी372173एम	सुबेदार मेजर	डब्ल्यू बी बी	01.03.2019

रक्षक सैन्यदल

203	जेसी404036के	सुबेदार मेजर	जसबिन्दर सिंह	01.05.2019
204	जेसी404127एन	सुबेदार मेजर	संजीव कुमार	01.03.2019
205	जेसी404109एल	सुबेदार मेजर	शमशाद आलम	01.05.2019

छाताधारी सैन्यदल

206	जेसी413150एच	सुबेदार मेजर	अनटोनी जे	01.04.2019
207	जेसी413178एच	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्रा	01.04.2019

यांत्रिक पैदल सैन्यदल

208	जेसी418014डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अशवनी कुमार पांडे	01.04.2019
209	जेसी420879एफ	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह	01.06.2019

पंजाब सैन्यदल

210	जेसी430221पी	सुबेदार मेजर	नन्द लाल	01.08.2019
211	जेसी429993ए	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार	01.05.2019
212	जेसी429992एक्स	सुबेदार मेजर	वाइ चिन्ना बाबू	01.05.2019

मद्रास सैन्यदल

213	जेसी439770डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एम पौलुराजू	01.04.2019
214	जेसी439706वाई	सुबेदार मेजर	पी श्रीनिवासुलु	01.07.2019
215	जेसी440099एक्स	सुबेदार मेजर	रत्नाकर दाश	01.08.2019

गोलाफोक सेना

216	जेसी450216एल	सुबेदार मेजर	लाला राम	01.04.2019
217	जेसी450534पी	सुबेदार मेजर	मोहम्मद शहीद	01.08.2019
218	जेसी449781डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहर सिंह यादव	01.03.2019

219	जेसी450423एक्स <u>मराठा लाई</u>	सुबेदार मेजर	सुदर्शन सिंह पठानिया	01.02.2019
220	जेसी459410एफ <u>राजपूताना बन्दूकधारी सेना</u>	सुबेदार मेजर	शिंदे सुनील शान्ताराम	01.06.2019
221	जेसी470119पी	सुबेदार मेजर	गोपा राम राठोर	01.02.2019
222	जेसी469739वाई <u>राजपूत सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	यादव ओम प्रकाशबाबूलाल	01.06.2019
223	जेसी480664एम	सुबेदार मेजर	मोहम्मद असलम	01.08.2019
224	जेसी480336वाई	सुबेदार मेजर	सर्वेश सिंह राठोर	01.06.2019
225	जेसी480045वाई <u>जाट सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	शैतान सिंह	01.07.2019
226	जेसी490389एल	सुबेदार मेजर	ए वीरास्वामी	01.04.2019
227	जेसी489582एल	सुबेदार मेजर	बलजीत सिंह	01.03.2019
228	जेसी490759एन	सुबेदार मेजर	जयपाल सिंह	01.04.2019
229	जेसी490450के <u>सिख सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	पुरुषोत्तमन पी	01.05.2019
230	जेसी499426पी <u>सिख लघु पैदल सेना</u>	सुबेदार मेजर	गुरमीत सिंह	01.04.2019
231	जेसी509607डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुरमीत सिंह	01.08.2019
232	जेसी509483एम	सुबेदार मेजर	परमजीत सिंह	01.08.2019
233	जेसी509340एम	सुबेदार मेजर	सैलेन्द्र सिंह	01.05.2019
234	जेसी509525एन <u>डोगरा सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	सुखविंदर सिंह	01.08.2019
235	जेसी520721एन	सुबेदार मेजर	अर्जन सिंह	01.03.2019
236	जेसी520670एल	सुबेदार मेजर	होशियार अली खान	01.04.2019
237	जेसी520500एफ	सुबेदार मेजर	मेहर चन्द	01.07.2019
238	जेसी520837के	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार तिवारी	01.05.2019
239	जेसी520526डब्ल्यू <u>गढवाल बन्दूकधारी सेना</u>	सुबेदार मेजर	विजय कुमार	01.07.2019
240	जेसी530377एफ <u>कुर्माँउ सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	सुमेर जीत	29.04.2019
241	जेसी540279पी <u>आसाम सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	सत्यवीर	01.04.2019
242	जेसी549628पी	सुबेदार मेजर	दिल बहादुर थापा	01.05.2019
243	जेसी549641वाई	सुबेदार मेजर	एस कुमार सिंघा	01.05.2019
244	जेसी549677एक्स <u>बिहार सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार	01.05.2019
245	जेसी559704के	सुबेदार मेजर	मदन सिंह	01.02.2019
246	जेसी559936एच	सुबेदार मेजर	प्रियतोश कान्ति डे	01.05.2019
247	जेसी559498एल <u>माहर सैन्यदल</u>	सुबेदार मेजर	रमा गादे महेंद्र साहदेओराव	01.03.2019
248	जेसी569905डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दिलबाग सिंह	01.05.2019

249	जेसी569884एल	सुबेदार मेजर	मणिकंदन पी एन	01.03.2019
250	जेसी569810डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार	01.02.2019
251	जेसी569823एन	सुबेदार मेजर	सत्यवीर सिंह	01.06.2019
जम्मू और कश्मीर बन्दूकधारी सेना				
252	जेसी580642एच	सुबेदार मेजर	पारस राम	01.05.2019
लदाख निरीक्षक				
253	जेसी588414पी	सुबेदार मेजर	तेसतान थिन्लस	01.03.2019
नागा सैन्यदल				
254	जेसी540177वाई	सुबेदार मेजर	गुरनाम सिंह	01.04.2019
1 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
255	जेसी602730एफ	सुबेदार मेजर	नकुला नंदा घोष	01.03.2019
4 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
256	जेसी612803डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बालाराम के नायर	01.06.2019
8 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
257	जेसी623709एम	सुबेदार मेजर	कृष्णा बहादुर थापा	01.02.2019
11 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
258	जेसी634637एन	सुबेदार मेजर	इन्द्रा बहादुर लिम्बू	01.06.2019
259	जेसी634666एच	सुबेदार मेजर	नारद मनी राय	01.03.2019
सेना सेवा पलटन दक्षिण				
260	जेसी665640पी	सुबेदार मेजर	बालम सिंह	01.07.2019
261	जेसी664980एल	सुबेदार मेजर	भरत चंद्रा साहू	01.05.2019
262	जेसी642900एच	सुबेदार मेजर	डॉकाना रमेश	01.02.2019
263	जेसी665221एक्स	सुबेदार मेजर	जगत सिंह	01.03.2019
264	जेसी642890के	सुबेदार मेजर	जगदीश सिंह अटवाल	01.03.2019
265	जेसी664278ए	सुबेदार मेजर	जयदेव प्रधान	01.05.2019
266	जेसी664812एम	सुबेदार मेजर	के एम बालासुब्रामन्यन	01.06.2019
267	जेसी643184पी	सुबेदार मेजर	कृष्ण भाई प्रेमजी भाईचौधरी	01.06.2019
268	जेसी665352एच	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह फर्सवान	01.04.2019
269	जेसी664148एक्स	सुबेदार मेजर	मल्कीत सिंह	01.07.2019
270	जेसी642789के	सुबेदार मेजर	मोहम्मद यूसुफ	01.02.2019
271	जेसी664221एल	सुबेदार मेजर	नन्द किशोर पांडे	01.07.2019
272	जेसी206462एम	सुबेदार मेजर	नरोाम त्रिपाठी	01.06.2019
273	जेसी665205ए	सुबेदार मेजर	प्रमिल प्रसाद सिंह	01.02.2019
274	जेसी660491एच	सुबेदार मेजर	प्रेम शंकर उपाध्याय	01.05.2019
275	जेसी664047के	सुबेदार मेजर	प्रेमन पी	01.07.2019
276	जेसी641949एम	सुबेदार मेजर	राजीव श्री	01.03.2019
277	जेसी642923के	सुबेदार मेजर	रशपाल सिंह	01.04.2019
278	जेसी665075एच	सुबेदार मेजर	रूप किशोर	01.02.2019
279	जेसी642915एल	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार साहू	01.04.2019
280	जेसी665036के	सुबेदार मेजर	शेख हजरत अली	01.05.2019
281	जेसी642914एच	सुबेदार मेजर	सुभाष सिंह	01.04.2019
282	जेसी641900डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	टी थामस	01.03.2019
283	जेसी642937के	सुबेदार मेजर	वेंकट नाग भुषनाम एम	01.08.2019

सेना सेवा पलटन पशु परिवहन

284	जेसी681157पी	रिसालदार मेजर	मोहम्मद शरीफ	01.05.2019
<u>सेना चिकित्सा पलटन</u>				
285	जेसी697938एम	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार सी वी	01.08.2019
286	जेसी696380डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बालन पिल्लई ए	01.04.2019
287	जेसी694192डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चितरंजन सिंह	01.04.2019
288	जेसी694835एच	सुबेदार मेजर	डी. के कृष्णन	01.02.2019
289	जेसी697950एन	सुबेदार मेजर	देव प्रोसाद होरे	01.03.2019
290	जेसी219984एफ	सुबेदार मेजर	हरी कीर्तन शुक्ला	01.08.2019
291	जेसी695074पी	सुबेदार मेजर	हरनाम सिंह	01.02.2019
292	जेसी697790वाई	सुबेदार मेजर	जे मोहाना राजू	01.03.2019
293	जेसी695574एम	सुबेदार मेजर	जया बी नामदेव करभरी	01.06.2019
294	जेसी694975पी	सुबेदार मेजर	जीत कुमार	01.06.2019
295	जेसी695982एक्स	सुबेदार मेजर	केशव कुमार सिंह	01.06.2019
296	जेसी695053वाई	सुबेदार मेजर	मलकियत सिंह	01.03.2019
297	जेसी219985के	सुबेदार मेजर	मोहेन्द्रा पुरोहित	01.06.2019
298	जेसी697052पी	सुबेदार मेजर	नवीन कुमार	01.05.2019
299	जेसी226709के	सुबेदार मेजर	प्रेम किशोर व्यास	01.02.2019
300	जेसी693738वाई	सुबेदार मेजर	राम कुमार	01.06.2019
301	जेसी226706डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतीश मानन शास्त्रा	01.06.2019

सेना आयुध पलटन

302	जेसी726331एल	सुबेदार मेजर	आत्मा सिंह	01.05.2019
303	जेसी728830वाई	सुबेदार मेजर	बी बाबूराव एम	01.06.2019
304	जेसी729303के	सुबेदार मेजर	हरीश सिंह	01.08.2019
305	जेसी729271एम	सुबेदार मेजर	करन सिंह	01.07.2019
306	जेसी728258डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	किशोर यू राव लुटे	01.03.2019
307	जेसी725915के	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह	01.03.2019
308	जेसी725460वाई	सुबेदार मेजर	राम स्वरूप	01.06.2019
309	जेसी727410एम	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह	01.08.2019
310	जेसी725501एक्स	सुबेदार मेजर	सामंत सरोज कुमार दास	01.07.2019
311	जेसी726334वाई	सुबेदार मेजर	श्री कांत पांडे	01.02.2019
312	जेसी725910एल	सुबेदार मेजर	सुल्तान सिंह	01.06.2019
313	जेसी224837एच	सुबेदार मेजर	त्रिभुवन त्रिपाठी	01.06.2019
314	जेसी729075एम	सुबेदार मेजर	यश पाल	01.05.2019

विद्युतिय एवं यात्रिक अभियन्ता पलटन

315	जेसी758570एन	सुबेदार मेजर	अखिलेश सिंह	01.05.2019
316	जेसी758543के	सुबेदार मेजर	दीवान सिंह	01.04.2019
317	जेसी758546एक्स	सुबेदार मेजर	जे समनत्रे	01.04.2019
318	जेसी765818पी	सुबेदार मेजर	कलमकर उत्तातम दत्तू	01.06.2019
319	जेसी763506ए	सुबेदार मेजर	मान सिंह	01.03.2019
320	जेसी757706ए	सुबेदार मेजर	मनोज कुमार सिंह	01.08.2019
321	जेसी765052डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नगेन्द्रा सिंह यादव	01.02.2019
322	जेसी763895एल	सुबेदार मेजर	नंदा दुलाल नायक	01.04.2019
323	जेसी759327एच	सुबेदार मेजर	ओमकार नाथ	01.04.2019
324	जेसी765854ए	सुबेदार मेजर	पी मधु	01.03.2019
325	जेसी765867एक्स	सुबेदार मेजर	पशुपति नाथ सिंह	01.07.2019
326	जेसी761690एक्स	सुबेदार मेजर	प्रदीप कुमार सिंह	01.04.2019
327	जेसी748048एक्स	सुबेदार मेजर	राधा कृष्णन द्विवेदी	01.05.2019
328	जेसी758576पी	सुबेदार मेजर	राम अवतार	01.06.2019
329	जेसी758848के	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द	01.08.2019

330	जेसी758453एच	सुबेदार मेजर	रामनाथ हरितवाल	01.05.2019
331	जेसी762094एक्स	सुबेदार मेजर	संजय कुमार	01.05.2019
332	जेसी757912के	सुबेदार मेजर	सर्बेश बाबू	01.04.2019
333	जेसी758014एक्स	सुबेदार मेजर	शशिकांत शुक्ला	01.04.2019
334	जेसी757911एफ	सुबेदार मेजर	शिंदे भीमराव खण्डु	01.04.2019
335	जेसी758536एन	सुबेदार मेजर	श्री सुभाष सिंह	01.06.2019
336	जेसी764324वाई	सुबेदार मेजर	याद राम	01.08.2019
337	जेसी758578ए	सुबेदार मेजर	यशवंत देशमुख	01.07.2019

सेना शिक्षा पलटन

338	जेसी803663एक्स	सुबेदार मेजर	अंजनी कुमार सिन्हा	01.07.2019
339	जेसी803695ए	सुबेदार मेजर	अविराम सिंघा	01.07.2019
340	जेसी803709पी	सुबेदार मेजर	गिरधारी लाल छोयाल	01.08.2019
341	जेसी803708एम	सुबेदार मेजर	कैलाश चंद्र	01.06.2019
342	जेसी804064के	सुबेदार मेजर	नंदन सिंह	01.08.2019
343	जेसी803524एन	सुबेदार मेजर	प्यार सिंह मनकोटिया	01.05.2019
344	जेसी803707के	सुबेदार मेजर	आर सिंह चौहान	01.04.2019
345	जेसी803875एच	सुबेदार मेजर	रत्नाकर दाश	01.06.2019
346	जेसी803683एल	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.06.2019
347	जेसी803681ए	सुबेदार मेजर	वाइ पी नारायण सिंह	01.05.2019
348	जेसी803885एम	सुबेदार मेजर	योगेन्द्रा सिंह	01.08.2019

घुड़ एवं पशुचिकित्सा पलटन

349	जेसी797504एफ	रिसालदार मेजर	जी. दुरई राज	01.03.2019
350	जेसी797588ए	रिसालदार मेजर	मित्तर देव	01.07.2019

सेना आसूचना पलटन

351	जेसी810395एफ	सुबेदार मेजर	मनोज वी नायर	01.06.2019
-----	--------------	--------------	--------------	------------

सेना पुलिस पलटन

352	जेसी819188डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अपूर्व चंद्रा घोष	01.06.2019
353	जेसी819398डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दिलीप कुमार सक्सेना	01.08.2019
354	जेसी819259एम	सुबेदार मेजर	होशियार सिंह	01.02.2019
355	जेसी819296ए	सुबेदार मेजर	समर पाल सिंह	01.03.2019
356	जेसी819405एफ	सुबेदार मेजर	स्वप्न कुमार दास	01.03.2019

अन्वेषक पलटन

357	जेसी829451के	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार	01.04.2019
-----	--------------	--------------	-------------	------------

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में(सेवा निवृत्ति पर)

1	जेसी510146 के राष्ट्रपति अंगरक्षक	सुबेदार	पाटिल विजय कुमार गुंडा	01.03.2019
---	--------------------------------------	---------	------------------------	------------

2	जेसी235066वाई	रिसालदार	बलजीत सिंह	01.04.2019
3	जेसी235067एफ	रिसालदार	धर्मंदर	01.02.2019

1 अश्व

4	जेसी245756डब्ल्यू	रिसालदार	बलजिन्दर सिंह	01.02.2019
---	-------------------	----------	---------------	------------

14 अश्व

5	जेसी244358एच	रिसालदार	गुरजंत सिंह संधू	01.05.2019
---	--------------	----------	------------------	------------

18 अश्वारोही सेना

6	जेसी244501के	रिसालदार	हाकम अली खान	01.03.2019
7	जेसी244050पी	रिसालदार	मुस्ताक अहमद अंसारी	01.04.2019

61 अश्वारोही सेना

8	जेसी243343एन	रिसालदार	गफार खान	01.03.2019
9	जेसी243812एल	रिसालदार	संजय गुन्दू जी.	01.08.2019

65 कवाचिक सैन्यदल

10	जेसी244071एल	रिसालदार	महेंद्र सिंह	01.05.2019
----	--------------	----------	--------------	------------

66 कवाचिक सैन्यदल

11	जेसी244661के	रिसालदार	मुकेश कुमार	01.03.2019
----	--------------	----------	-------------	------------

69 कवाचिक सैन्यदल

12	जेसी243215डब्ल्यू	रिसालदार	सहदेव सिंह	01.04.2019
----	-------------------	----------	------------	------------

70 कवाचिक सैन्यदल

13	जेसी243839एच	रिसालदार	अनिल कुमार	01.03.2019
14	जेसी244151एच	रिसालदार	गुमान सिंह	01.07.2019
15	जेसी243840एक्स	रिसालदार	विपन कुमार	01.03.2019

72 कवाचिक सैन्यदल

16	जेसी244360ए	रिसालदार	कष्णन नारायण सिंह	01.05.2019
17	जेसी244386पी	रिसालदार	मनोहर सिंह	01.05.2019
18	जेसी244517पी	रिसालदार	एस सिंह	01.07.2019

75 कवाचिक सैन्यदल

19	जेसी242562एच	रिसालदार	के रमेश	01.02.2019
20	जेसी244521एक्स	रिसालदार	कर्मवीर सिंह	01.04.2019

83 कवाचिक सैन्यदल

21	जेसी244021ए	रिसालदार	बी रमेश कृष्णा	01.02.2019
22	जेसी244422पी	रिसालदार	पी कुमार सरकार	01.05.2019
23	जेसी244421एम	रिसालदार	शंकर जी	01.03.2019

85 कवाचिक सैन्यदल

24	जेसी243602एल	रिसालदार	शांत राज सिंह	01.05.2019
----	--------------	----------	---------------	------------

86 कवाचिक सैन्यदल

25	जेसी243778डब्ल्यू	रिसालदार	अजितेश पात्रा	01.04.2019
26	जेसी243157एक्स	रिसालदार	कापसे विजय यमाजी	01.02.2019

87 कवाचिक सैन्यदल

27	जेसी243356एल	रिसालदार	पूरन सिंह	01.07.2019
----	--------------	----------	-----------	------------

41 कवाचिक सैन्यदल

28	जेसी243675एक्स	रिसालदार	जी. चंद्रा मोहन	01.07.2019
----	----------------	----------	-----------------	------------

43 कवाचिक सैन्यदल

29	जेसी244096एक्स	रिसालदार	आर करन जाट	01.03.2019
----	----------------	----------	------------	------------

44 कवाचिक सैन्यदल

30	जेसी243774ए	रिसालदार	अनिल कुमार	01.06.2019
31	जेसी243618डब्ल्यू	रिसालदार	मोहन लाल	01.04.2019

46 कवाचिक सैन्यदल

32	जेसी243885एक्स	रिसालदार	मदन पाल	01.03.2019
----	----------------	----------	---------	------------

47 कवाचिक सैन्यदल

33	जेसी243598एन	रिसालदार	राम नारायण यादव	01.04.2019
----	--------------	----------	-----------------	------------

49 कवाचिक सैन्यदल

34	जेसी245354वाई	रिसालदार	आनंद प्रकाश दीक्षित	01.03.2019
35	जेसी245355एफ	रिसालदार	तेज सिंह भदोरिया	01.03.2019

5 कवाचिक सैन्यदल

36	जेसी244003एक्स	रिसालदार	बिश्नु प्रसाद राना	01.03.2019
37	जेसी244736डब्ल्यू	रिसालदार	गोपाल सिंह	01.03.2019
38	जेसी244491एल	रिसालदार	राजपाल सिंह एन	01.02.2019

11 कवाचिक सैन्यदल

39	जेसी243694एच	रिसालदार	धीर सिंह	01.07.2019
----	--------------	----------	----------	------------

12 कवाचिक सैन्यदल

40	जेसी243625एम	रिसालदार	दया राम	01.06.2019
41	जेसी245070पी	रिसालदार	नरपत सिंह	01.03.2019
42	जेसी244758पी	रिसालदार	ओम प्रकाश	01.03.2019

13 कवाचिक सैन्यदल

43	जेसी243903पी	रिसालदार	सुरजीत सिंह	01.07.2019
----	--------------	----------	-------------	------------

19 कवाचिक सैन्यदल

44	जेसी245313पी	रिसालदार	अजीत कुमार यादव	01.02.2019
45	जेसी245340वाई	रिसालदार	मनोज कुमार	01.02.2019

50 कवाचिक सैन्यदल

46	जेसी245459एच	रिसालदार	अजय बीर सिंह चौहान	01.03.2019
47	जेसी245250एक्स	रिसालदार	एपी मधुसूधन्न	01.02.2019
48	जेसी245284एल	रिसालदार	बलवंत सिंह ब्रार	01.05.2019

51 कवाचिक सैन्यदल

49	जेसी244768वाई	रिसालदार	एम बालासाहेब सूर्यभान	01.05.2019
----	---------------	----------	-----------------------	------------

52 कवाचिक सैन्यदल

50	जेसी244643एफ	रिसालदार	विजेन्द्र सिंह	01.05.2019
51	जेसी244691एफ	रिसालदार	योगेन्द्रा सिंह	01.07.2019

53 कवाचिक सैन्यदल

52	जेसी243305एक्स	रिसालदार	दिनेश कुमार	01.05.2019
53	जेसी244888एक्स	रिसालदार	सुमेर सिंह	01.05.2019

54 कवाचिक सैन्यदल

54	जेसी244314एल	रिसालदार	जतिंद्र सिंह	01.08.2019
----	--------------	----------	--------------	------------

55 कवाचिक सैन्यदल

55	जेसी244833एन	रिसालदार	गुलाब सिंह चम्पावत	01.07.2019
----	--------------	----------	--------------------	------------

56 कवाचिक सैन्यदल

56	जेसी244540एच	रिसालदार	प्रवीनद्रा कुमार	01.05.2019
57	जेसी243646एच	रिसालदार	प्रेम सिंह	01.03.2019
58	जेसी243994के	रिसालदार	केशव दास यादव	01.05.2019

कवाचिक पलटन

59	जेसी244697एच	रिसालदार	अजीत सिंह शेखावत	01.08.2019
60	जेसी245201पी	रिसालदार	अम्बेश कुमार सिंह	01.03.2019
61	जेसी244425एच	रिसालदार	बद्धरुद्धीन	01.06.2019
62	जेसी243557के	रिसालदार	बसंत प्रसाद सिंह	01.04.2019
63	जेसी245426एक्स	रिसालदार	धर्मवीर सिंह बी	01.06.2019
64	जेसी236275एच	रिसालदार	दिनेश कुमार त्रिपाठी	01.08.2019
65	जेसी245853एन	रिसालदार	डी.ओ सुनील कुमार	01.03.2019
66	जेसी244173एफ	रिसालदार	हकीम यादव	01.03.2019
67	जेसी244650एक्स	रिसालदार	जयंत कुमार घोष	01.08.2019
68	जेसी245688एन	रिसालदार	खुशाल सिंह बिष्ट	01.04.2019
69	जेसी244200ए	रिसालदार	कृष्णा कुमार मिश्रा	01.02.2019
70	जेसी243832वाई	रिसालदार	लोखाण्डे अपासाहेब विश्वनाथ	01.06.2019
71	जेसी244197एल	रिसालदार	पी सिवा संकर राव	01.08.2019
72	जेसी243560के	रिसालदार	पुष्पेन्द्रा कुमावत	01.05.2019
73	जेसी244933वाई	रिसालदार	एस श्रीनिवास राव	01.07.2019
74	जेसी236747एन	रिसालदार	त्रिभुवन नारायण पांडे	01.03.2019
75	जेसी245637ए	रिसालदार	यशबीर चंद्र	01.05.2019

तोपखाना सैन्यदल

76	जेसी279339डब्ल्यू	सुबेदार	ए कुमार साह	01.07.2019
77	जेसी274938एम	सुबेदार	अभे सिंह राजपूत	01.04.2019
78	जेसी277844ए	सुबेदार	अजया कुमार ससमल	01.05.2019
79	जेसी275928पी	सुबेदार	आजी प्रसाद	01.05.2019
80	जेसी272944एफ	सुबेदार	अजमेर सिंह	01.07.2019
81	जेसी271230एफ	सुबेदार	अमर बहादुर सिंह	01.08.2019
82	जेसी282277एम	सुबेदार	अनिल कुमार सी	01.07.2019
83	जेसी274545डब्ल्यू	सुबेदार	अरुण कुमार	01.08.2019
84	जेसी270800ए	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2019
85	जेसी275569एम	सुबेदार	अवधेश यादव	01.03.2019
86	जेसी273233एन	सुबेदार	आजाद सिंह	01.07.2019
87	जेसी279589एक्स	सुबेदार	बाबू राम राना	01.07.2019
88	जेसी274036एक्स	सुबेदार	बलजिन्दर सिंह	01.07.2019
89	जेसी273561एफ	सुबेदार	बलकार सिंह	01.06.2019
90	जेसी276088एम	सुबेदार	बलकार सिंह	01.02.2019
91	जेसी276207एक्स	सुबेदार	बाना राम गुर्जर	01.07.2019
92	जेसी274875पी	सुबेदार	भगत राम धरन	01.03.2019
93	जेसी272352एक्स	सुबेदार	भीम राम	01.03.2019
94	जेसी275797पी	सुबेदार	बीजू कुमार डी.	01.08.2019
95	जेसी274587एच	सुबेदार	बी टीएस	01.07.2019
96	जेसी270409एच	सुबेदार	बिपन कुमार	01.03.2019
97	जेसी273762ए	सुबेदार	बी मंडल	01.02.2019
98	जेसी273430डब्ल्यू	सुबेदार	बीरी सिंह	01.06.2019
99	जेसी279168पी	सुबेदार	ब्रजेश कुमार	01.06.2019
100	जेसी279354एल	सुबेदार	सी डेविड राज	01.02.2019

101	जेसी280995के	सुबेदार	चंद्रा जीत सिंह	01.08.2019
102	जेसी276651एन	सुबेदार	सी सुदारसाने राव	01.05.2019
103	जेसी278967वाई	सुबेदार	सी नागराजू	01.03.2019
104	जेसी276396एम	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.07.2019
105	जेसी278361पी	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.03.2019
106	जेसी274762एम	सुबेदार	दया राम	01.03.2019
107	जेसी276044पी	सुबेदार	देबी चरण प्रजापति	01.07.2019
108	जेसी280971ए	सुबेदार	देश राज	01.02.2019
109	जेसी277530वाई	सुबेदार	धानक लक्ष्मन मालू	01.05.2019
110	जेसी276375डब्ल्यू	सुबेदार	धर्मपाल सिंह	01.05.2019
111	जेसी274793एम	सुबेदार	दुदेकूला पी	01.07.2019
112	जेसी277220एन	सुबेदार	दुर्गापादा दास	01.03.2019
113	जेसी281513डब्ल्यू	सुबेदार	डी. सिंह	01.04.2019
114	जेसी276528पी	सुबेदार	जी. विजया कुमार	01.08.2019
115	जेसी271823एन	सुबेदार	गडेकर अशोक रामकिशन	01.05.2019
116	जेसी276157एक्स	सुबेदार	गाधव प्रकाश बाबूराव	01.05.2019
117	जेसी273755के	सुबेदार	गावंदे नरेन्द्रा एम	01.02.201
118	जेसी272917एक्स	सुबेदार	जी. अनिल भास्कर	01.07.2019
119	जेसी277410ए	सुबेदार	गया प्रसाद	01.08.2019
120	जेसी273190के	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2019
121	जेसी277593एफ	सुबेदार	गोपी जी.	01.08.201
122	जेसी276484एच	सुबेदार	गुलाब प्रसाद	01.07.2019
123	जेसी276573एफ	सुबेदार	गुलाब सिंह	01.03.2019
124	जेसी280246एन	सुबेदार	ज्ञानेन्द्र सिंह	01.08.2019
125	जेसी277851डब्ल्यू	सुबेदार	एच सिंह तोमर	01.07.2019
126	जेसी275210एल	सुबेदार	हनुमान राम	01.07.2019
127	जेसी274792के	सुबेदार	हरेन्द्र यादव	01.03.2019
128	जेसी273062एम	सुबेदार	हरी बाबू	01.03.2019
129	जेसी275068एम	सुबेदार	हरी सधन मंडल	01.07.2019
130	जेसी273260एक्स	सुबेदार	हरी सिंह सोमरा	01.07.2019
131	जेसी275237एच	सुबेदार	हरीबा नरसिंह डब्ल्यू	01.07.2019
132	जेसी278388एम	सुबेदार	हवा सिंह	01.08.2019
133	जेसी272461के	सुबेदार	हयात सिंह सामंत	01.06.2019
134	जेसी271381ए	सुबेदार	हेम सिंह	01.06.2019
135	जेसी275439के	सुबेदार	हिमांशु शेखारा पंडा	01.07.2019
136	जेसी276358डब्ल्यू	सुबेदार	हसन लाल	01.06.2019
137	जेसी276005डब्ल्यू	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.05.2019
138	जेसी274478डब्ल्यू	सुबेदार	जाधव अर्जुन संधू	01.06.2019
139	जेसी274234एच	सुबेदार	जगमोहन शर्मा	01.06.2019
140	जेसी280658पी	सुबेदार	जनबंधु परमानंद रघुनाथ	01.08.2019
141	जेसी278579एफ	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.05.2019
142	जेसी276349पी	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.05.2019
143	जेसी276083एन	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.07.2019
144	जेसी276545पी	सुबेदार	जाटन सिंह	01.06.2019
145	जेसी273445वाई	सुबेदार	जयचन्द्रन वी	01.05.2019
146	जेसी277278एल	सुबेदार	जयराम प्रसाद गुप्ता	01.08.2019
147	जेसी281234एल	सुबेदार	जोगेन्द्र सिंह यादव	01.06.2019
148	जेसी277837के	सुबेदार	के वेंकटाचलम	01.07.2019
149	जेसी279311डब्ल्यू	सुबेदार	के विजया कुमार	01.05.2019
150	जेसी280868पी	सुबेदार	कमलजीत	01.07.2019
151	जेसी272939डब्ल्यू	सुबेदार	काना राम	01.05.2019
152	जेसी273557वाई	सुबेदार	कर्म सिंह	01.05.2019
153	जेसी275876के	सुबेदार	करन सिंह	01.02.2019
154	जेसी329830एक्स	सुबेदार	खेम पाल सिंह	01.08.2019

155	जेसी273746एच	सुबेदार	किरण पाल	01.08.2019
156	जेसी273456एल	सुबेदार	किष्णा बाबू	01.06.2019
157	जेसी273163ए	सुबेदार	कोमारा जगन्नाथा राव	01.06.2019
158	जेसी277110वाई	सुबेदार	के एस पलानीवल	01.03.2019
159	जेसी272112ए	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.07.2019
160	जेसी277602एक्स	सुबेदार	एल राधाकृष्ण	01.02.2019
161	जेसी276915के	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.03.2019
162	जेसी272114एल	सुबेदार	लाल अजीत कुमार सिंह	01.05.2019
163	जेसी279917ए	सुबेदार	लाल चन्द	01.08.2019
164	जेसी276281वाई	सुबेदार	एम चंद्रा मोहन	01.06.2019
165	जेसी275085एम	सुबेदार	महावीर सिंह	01.03.2019
166	जेसी277798डब्ल्यू	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.06.2019
167	जेसी275480ए	सुबेदार	एम राजू	01.03.2019
168	जेसी274310के	सुबेदार	मिलन कुमार गिरि	01.07.2019
169	जेसी275306एन	सुबेदार	मोहम्मद हाशिम अंसारी	01.04.2019
170	जेसी275491एम	सुबेदार	मोहिन्दर पौल	01.02.2019
171	जेसी274275एम	सुबेदार	मोटे राम चंद्रा एस	01.02.2019
172	जेसी275775डब्ल्यू	सुबेदार	एम जोर्ज राजू	01.03.2019
173	जेसी276607के	सुबेदार	मुकेश कुमार	01.03.2019
174	जेसी275467डब्ल्यू	सुबेदार	मुमताज अहमद अंसारी	01.02.2019
175	जेसी273205एफ	सुबेदार	मुरलीधर सेठी	01.07.2019
176	जेसी272780डब्ल्यू	सुबेदार	मुरुगन एम	01.07.2019
177	जेसी273018एच	सुबेदार	एम श्रीनिवास राव	01.08.2019
178	जेसी273348एफ	सुबेदार	नालांवाडे राजेंद्रा दत्तात्रिया	01.07.2019
179	जेसी273983एम	सुबेदार	नानक चन्द	01.04.2019
180	जेसी277170एन	सुबेदार	नन्द कुमार पी	01.03.2019
181	जेसी273554एल	सुबेदार	नरेश कुमार	01.05.2019
182	जेसी274912एक्स	सुबेदार	नसीरुद्दीन शेख	01.03.2019
183	जेसी273781एल	सुबेदार	एन आर बी	01.08.2019
184	जेसी277169वाई	सुबेदार	निर्मल चंद्रा सरकार	01.03.2019
185	जेसी264440वाई	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.06.2019
186	जेसी274358एक्स	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.04.2019
187	जेसी277345एल	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.07.2019
188	जेसी275322एल	सुबेदार	ओमपाल सिंह	01.02.2019
189	जेसी274577वाई	सुबेदार	पी जयसीलन	01.06.2019
190	जेसी276802एफ	सुबेदार	पी राजू	01.08.2019
191	जेसी277436पी	सुबेदार	पी विक्रम केशव राव	01.02.2019
192	जेसी278619एक्स	सुबेदार	पल्ला रमा राव	01.05.2019
193	जेसी276482एक्स	सुबेदार	पांडु	01.07.2019
194	जेसी275701एफ	सुबेदार	पी नारायण सुबाना	01.07.2019
195	जेसी274010एच	सुबेदार	पर्गत सिंह	01.08.2019
196	जेसी275713डब्ल्यू	सुबेदार	परमार विनोद कुमार पोल भाई	01.07.2019
197	जेसी276787एक्स	सुबेदार	परमिन्दर सिंह	01.05.2019
198	जेसी273841पी	सुबेदार	पट्टन मोलाली	01.05.2019
199	जेसी279522वाई	सुबेदार	पवन कुमार	01.07.2019
200	जेसी277995वाई	सुबेदार	प्रवीर कुमार डोन	01.07.2019
201	जेसी267025एच	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.03.2019
202	जेसी276585डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद कुमार पांडे	01.05.2019
203	जेसी273944एन	सुबेदार	प्रसन्नं पिल्लई के	01.06.2019
204	जेसी277037एल	सुबेदार	प्रसानथन एम	01.07.2019
205	जेसी276356एल	सुबेदार	प्रवीण कुमार	01.05.2019
206	जेसी278371वाई	सुबेदार	आर जयराज	01.03.2019

207	जेसी282125एल	सुबेदार	राज भान पटेल	01.07.2019
208	जेसी276589एम	सुबेदार	राज कुमार	01.05.2019
209	जेसी281345एच	सुबेदार	आर हीरामठ	01.04.2019
210	जेसी281445एन	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.02.2019
211	जेसी271970डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह भदोरिया	01.06.2019
212	जेसी277172वाई	सुबेदार	राजेश कुमार	01.05.2019
213	जेसी278390के	सुबेदार	राजेश टीके	01.08.2019
214	जेसी275780एफ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2019
215	जेसी278175वाई	सुबेदार	राजपाल	01.08.2019
216	जेसी280131ए	सुबेदार	राजपाल यादव	01.03.2019
217	जेसी276895एफ	सुबेदार	राजपूत पीराम बजरंग	01.07.2019
218	जेसी275041पी	सुबेदार	राकेश चंद्रा	01.05.2019
219	जेसी278913एक्स	सुबेदार	राम कृपाल	01.06.2019
220	जेसी281323के	सुबेदार	राम कष्णन	01.05.2019
221	जेसी276618डब्ल्यू	सुबेदार	राम नारायन	01.05.2019
222	जेसी277414डब्ल्यू	सुबेदार	राम सरन	01.04.2019
223	जेसी276359वाई	सुबेदार	राम सिंह बिष्ट	01.06.2019
224	जेसी280195एल	सुबेदार	रमा शंकर सिंह	01.02.2019
225	जेसी278442पी	सुबेदार	रमेश कुमार	01.06.2019
226	जेसी278739डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश लाल	01.06.2019
227	जेसी272008एम	सुबेदार	रमेश यादव	01.07.2019
228	जेसी279109एच	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.08.2019
229	जेसी269201एन	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.08.2019
230	जेसी275377पी	सुबेदार	रंजीत सिंह ग्रेवाल	01.05.2019
231	जेसी282091एच	सुबेदार	रनवीर सिंह यादव	01.05.2019
232	जेसी279487एफ	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.02.2019
233	जेसी278953वाई	सुबेदार	राय सिंह	01.07.2019
234	जेसी276376वाई	सुबेदार	आर सिबस्टियन	01.07.2019
235	जेसी275339वाई	सुबेदार	आर देव	01.02.2019
236	जेसी278137एच	सुबेदार	रोम सिंह	01.06.2019
237	जेसी277667एल	सुबेदार	आर यादव	01.03.2019
238	जेसी277590एन	सुबेदार	एस देविन्द्रन	01.03.2019
239	जेसी278657एन	सुबेदार	समय सिंह	01.06.2019
240	जेसी277171डब्ल्यू	सुबेदार	संतो कुमार एस	01.04.2019
241	जेसी277997के	सुबेदार	संतोष कुमार	01.08.2019
242	जेसी278431एच	सुबेदार	सत्यपाल	01.05.2019
243	जेसी280520ए	सुबेदार	सत्येन्द्र कुमार पांडे	01.05.2019
244	जेसी277134एच	सुबेदार	सेकार जी.	01.08.2019
245	जेसी273172एफ	सुबेदार	शेक नायब रसूल	01.08.2019
246	जेसी274906के	सुबेदार	शंकर के	01.05.2019
247	जेसी270106एन	सुबेदार	शारदा नन्द प्रसाद	01.03.2019
248	जेसी278959ए	सुबेदार	शशि कांत सिंह	01.02.2019
249	जेसी279702एफ	सुबेदार	शिव बहादुर	01.06.2019
250	जेसी272948एक्स	सुबेदार	शिव दर्शन सिंह	01.04.2019
251	जेसी269952पी	सुबेदार	शिव मुनि सिंह	01.07.2019
252	जेसी280795एन	सुबेदार	शेर बहादुर थापा	01.05.2019
253	जेसी274231पी	सुबेदार	शिके बालासाहेब बापू	01.07.2019
254	जेसी281168एन	सुबेदार	शिव करन यादव	01.08.2019
255	जेसी273056वाई	सुबेदार	श्री कांत प्रसाद	01.07.2019
256	जेसी274424पी	सुबेदार	श्यामा प्रसाद बी	01.04.2019
257	जेसी272249एम	सुबेदार	श्रीनिवास	01.06.2019
258	जेसी277816एन	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.08.2019
259	जेसी278960पी	सुबेदार	सुभाष के.बी	01.05.2019
260	जेसी277931एन	सुबेदार	सुभाष सिंह तोमर	01.07.2019

261	जेसी276614ए	सुबेदार	सुधा सिंधु नाथ	01.05.2019
262	जेसी274316एल	सुबेदार	एस कुमार	01.08.2019
263	जेसी274214पी	सुबेदार	सुकुमार प्रधान	01.07.2019
264	जेसी277996एफ	सुबेदार	सुनेज के	01.07.2019
265	जेसी276346एफ	सुबेदार	सुनील कुमार शर्मा	01.05.2019
266	जेसी276053डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.02.2019
267	जेसी276853पी	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.06.2019
268	जेसी280639के	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2019
269	जेसी272696डब्ल्यू	सुबेदार	सुसंता कुमार साहू	01.06.2019
270	जेसी273986ए	सुबेदार	तारा प्रसाद चौधुरी	01.06.2019
271	जेसी282040पी	सुबेदार	उदय राम यादव	01.06.2019
272	जेसी276825एच	सुबेदार	उल्लास पीके	01.05.2019
273	जेसी276444एफ	सुबेदार	उन्नी कृष्णा पिल्लई बी	01.07.2019
274	जेसी275499वाई	सुबेदार	उत्तातम चन्द	01.02.2019
275	जेसी271654एक्स	सुबेदार	वी धनासेकरण	01.02.2019
276	जेसी277925ए	सुबेदार	वी नारायणन	01.03.2019
277	जेसी273310एक्स	सुबेदार	वी सीनिवासन	01.05.2019
278	जेसी275700वाई	सुबेदार	वी बसागुली	01.02.2019
279	जेसी271969एफ	सुबेदार	विजय कुमार वशिष्ठ	01.02.2019
280	जेसी274509एल	सुबेदार	विजय शर्मा	01.07.2019
281	जेसी273088एफ	सुबेदार	विमलेश कुमार	01.03.2019
282	जेसी275537के	सुबेदार	विपिन कुमार दीक्षित	01.02.2019
283	जेसी273259एच	सुबेदार	वी लाल सैनी	01.07.2019

सेना वायु सुरक्षा

284	जेसी303357ए	सुबेदार	अजय कुमार पांडे	01.07.2019
285	जेसी300804एन	सुबेदार	अलंकार शर्मा	01.04.2019
286	जेसी302152वाई	सुबेदार	अमर सिंह	01.02.2019
287	जेसी301568के	सुबेदार	आनंद सिंह	01.06.2019
288	जेसी302560के	सुबेदार	अनिल कुमार रजाक	01.07.2019
289	जेसी302101एल	सुबेदार	अप्पला नायडू रेडी	01.05.2019
290	जेसी301743एन	सुबेदार	अशोक	01.04.2019
291	जेसी301446ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.06.2019
292	जेसी301719एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2019
293	जेसी302170एफ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2019
294	जेसी300865एल	सुबेदार	ए विजय दन्यानोबा	01.06.2019
295	जेसी302590एफ	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.03.2019
296	जेसी302766एफ	सुबेदार	भरत सिंह	01.05.2019
297	जेसी302492एफ	सुबेदार	भवानी सिंह शेखावत	01.06.2019
298	जेसी301411के	सुबेदार	बिजेन्द्र कुमार	01.03.2019
299	जेसी301081डब्ल्यू	सुबेदार	बिनोद बिहारी दास	01.02.2019
300	जेसी301761डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्रा पांडे	01.07.2019
301	जेसी302578ए	सुबेदार	ब्रज नंदन सिंह	01.08.2019
302	जेसी301573पी	सुबेदार	बी सिंह भदोरिया	01.07.2019
303	जेसी301841एन	सुबेदार	ब्रजेश कुमार त्रिपाठी	01.08.2019
304	जेसी302324एच	सुबेदार	बृज किशोर सिंह तोमर	01.08.2019
305	जेसी302322एक्स	सुबेदार	सी अजाघाशन	01.08.2019
306	जेसी302915के	सुबेदार	चमकौर सिंह राय	01.05.2019
307	जेसी301859के	सुबेदार	सी सी गोड़	01.07.2019
308	जेसी300771एन	सुबेदार	दीपक कुमार	01.08.2019
309	जेसी302316के	सुबेदार	दीनानाथ लाल	01.02.2019
310	जेसी623072एन	सुबेदार	दिनेश कुमार तिवारी	01.03.2019
311	जेसी302710पी	सुबेदार	ई सिवरामन	01.07.2019
312	जेसी301919एन	सुबेदार	जी. बाला सुब्रमनिअन	01.05.2019

313	जेसी302537डब्ल्यू	सुबेदार	जी. अशोक काचरू	01.05.2019
314	जेसी301796एफ	सुबेदार	गवई शान्ताराम श्रीराम	01.03.2019
315	जेसी301513ए	सुबेदार	घनशाम दास शर्मा	01.06.2019
316	जेसी302851के	सुबेदार	गुलबाग सिंह	01.07.2019
317	जेसी301900पी	सुबेदार	ज्ञान प्रकाश मिश्रा	01.06.2019
318	जेसी301001एन	सुबेदार	जी. कुमार राउत्रे	01.02.2019
319	जेसी302139पी	सुबेदार	हरदेव	01.07.2019
320	जेसी302150एन	सुबेदार	हरी कृष्णन वी	01.07.2019
321	जेसी302028एक्स	सुबेदार	हरिदासन के वी	01.07.2019
322	जेसी301198पी	सुबेदार	जयदेव सिंह	01.05.2019
323	जेसी302739एक्स	सुबेदार	जे सिंह	01.05.2019
324	जेसी302698वाई	सुबेदार	जे फुकन	01.03.2019
325	जेसी301208एन	सुबेदार	कैलाश	01.04.2019
326	जेसी302399ए	सुबेदार	करतार सिंह	01.06.2019
327	जेसी302424एन	सुबेदार	के सिंह	01.02.2019
328	जेसी302425डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णन कुमार	01.02.2019
329	जेसी301594एल	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.07.2019
330	जेसी302499एल	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.07.2019
331	जेसी301725एल	सुबेदार	ललित चंद्रा डेका	01.07.2019
332	जेसी302164एन	सुबेदार	एम पेरुमल	01.06.2019
333	जेसी302020एल	सुबेदार	एम सदाशिवम	01.05.2019
334	जेसी302535एल	सुबेदार	महेंद्र सिंह यादव	01.02.2019
335	जेसी302605वाई	सुबेदार	मनोज सिंह राठोड़	01.08.2019
336	जेसी301751एम	सुबेदार	एम श्रीनिवास राव	01.06.2019
337	जेसी302125पी	सुबेदार	एम गोगोई	01.03.2019
338	जेसी301946एक्स	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	01.07.2019
339	जेसी301264एम	सुबेदार	नरिंदर कुमार	01.02.2019
340	जेसी302788ए	सुबेदार	नीतानन्द	01.05.2019
341	जेसी302999एच	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.05.2019
342	जेसी302480एम	सुबेदार	पी रामचंद्र रेडी	01.08.2019
343	जेसी301135एम	सुबेदार	पी कुमार	01.04.2019
344	जेसी300605ए	सुबेदार	पवन सिंह सम्बयाल	01.08.2019
345	जेसी301724एच	सुबेदार	प्रमोद कुमार शुक्ला	01.05.2019
346	जेसी302115एल	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.06.2019
347	जेसी300415एन	सुबेदार	राजबीर सिंह भदोरिया	01.08.2019
348	जेसी300849एन	सुबेदार	राम कुमार तमंग	01.07.2019
349	जेसी302487डब्ल्यू	सुबेदार	राम निवास	01.06.2019
350	जेसी301483एन	सुबेदार	रामेन्द्र कुमार अधिकारी	01.03.2019
351	जेसी303516एम	सुबेदार	रमेश केस्ती	01.07.2019
352	जेसी302313डब्ल्यू	सुबेदार	एस सिंह	01.06.2019
353	जेसी301533एन	सुबेदार	साजी कुमार बी	01.03.2019
354	जेसी302536एन	सुबेदार	साजन मल	01.03.2019
355	जेसी302452ए	सुबेदार	सतीश कुमार	01.06.2019
356	जेसी302484एच	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.07.2019
357	जेसी302748वाई	सुबेदार	श्याम नारायण	01.05.2019
358	जेसी301671पी	सुबेदार	सुभास चंद्रा यादवा	01.04.2019
359	जेसी302765वाई	सुबेदार	सुभाष चन्द्र शर्मा	01.07.2019
360	जेसी301769एच	सुबेदार	एस सिंह	01.02.2019
361	जेसी300943एक्स	सुबेदार	सुशील कुमार द्विवेदी	01.02.2019
362	जेसी301831के	सुबेदार	वालसालान टीसी	01.02.2019
363	जेसी301623पी	सुबेदार	विजय कुमार प्रसाद	01.07.2019
364	जेसी302400के	सुबेदार	विनोद कुमार शर्मा	01.05.2019

सेना वायु पलटन

365	जेसी301947ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2019
366	जेसी274066पी	सुबेदार	गोलखा बिहारी एस	01.06.2019
367	जेसी302027पी	सुबेदार	हरिओम	01.06.2019
368	जेसी277952के	सुबेदार	जे सिंह यादव	01.07.2019
369	जेसी302832वाई	सुबेदार	सतीश कुमार	01.03.2019
370	जेसी301644एल	सुबेदार	सुब्रमनिअन एस	01.07.2019

मद्रास यान्त्रिक समूह

371	जेसी332306पी	सुबेदार	ए मुथुमानी	01.07.2019
372	जेसी311232एक्स	सुबेदार	ए रवि	01.07.2019
373	जेसी308807डब्ल्यू	सुबेदार	अब्बास अंसारी	01.08.2019
374	जेसी310422एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार ऐजी	01.07.2019
375	जेसी308453वाई	सुबेदार	अनिल कुमार आर	01.02.2019
376	जेसी310490एल	सुबेदार	अनिल कुमार एस	01.04.2019
377	जेसी310418पी	सुबेदार	अन्नपा पाटिल	01.06.2019
378	जेसी332296डब्ल्यू	सुबेदार	अंतर पाल	01.08.2019
379	जेसी310098एल	सुबेदार	अनू कुमार के.ए	01.04.2019
380	जेसी308518एफ	सुबेदार	ए लक्ष्मी कोंदिया	01.04.2019
381	जेसी310956एच	सुबेदार	अरुणाचलम एम	01.05.2019
382	जेसी310961एन	सुबेदार	ऐज पेरुमल	01.05.2019
383	जेसी308548वाई	सुबेदार	अशोक कुमार त्रिपाठी	01.04.2019
384	जेसी309922एच	सुबेदार	बी राजेन्द्रन	01.03.2019
385	जेसी310689एम	सुबेदार	बालमुरुगन ई	01.07.2019
386	जेसी309952ए	सुबेदार	बी तलवार	01.08.2019
387	जेसी310421पी	सुबेदार	बराथन ए	01.07.2019
388	जेसी310096ए	सुबेदार	बाथुला कृष्णदू	01.03.2019
389	जेसी310993डब्ल्यू	सुबेदार	बेन्नी के जोसफ	01.03.2019
390	जेसी309009पी	सुबेदार	बी संजय बापू राव	01.04.2019
391	जेसी310129ए	सुबेदार	सी जयसीलन	01.05.2019
392	जेसी310693पी	सुबेदार	सी आर रेडी	01.08.2019
393	जेसी310093एम	सुबेदार	च. वेंकट मुरली	01.05.2019
394	जेसी309981पी	सुबेदार	चान्द्राकान्त हुगेर	01.08.2019
395	जेसी309205पी	सुबेदार	चिदानन्द	01.08.2019
396	जेसी310960एल	सुबेदार	छेत्ते रंगा राव	01.05.2019
397	जेसी309004डब्ल्यू	सुबेदार	देव नारायन सिंह	01.03.2019
398	जेसी310412एन	सुबेदार	धनपालन ए	01.05.2019
399	जेसी310127पी	सुबेदार	दिनेश बाबू एसएस	01.05.2019
400	जेसी310663एक्स	सुबेदार	ई कनगराज	01.02.2019
401	जेसी310188एम	सुबेदार	घिसी राम	01.05.2019
402	जेसी310673एफ	सुबेदार	गोपीशट्टी वी चेन्नइया	01.06.2019
403	जेसी310973एच	सुबेदार	जी.पी.वी कृष्णा प्रसाद	01.08.2019
404	जेसी310491एन	सुबेदार	जी. श्रीनिवास राव	01.05.2019
405	जेसी309919एच	सुबेदार	एच नंदराव नागनाथ	01.04.2019
406	जेसी308507पी	सुबेदार	होरे निशीकान्त वामन राव	01.04.2019
407	जेसी310095एक्स	सुबेदार	आई सुधाकर राव	01.02.2019
408	जेसी310411एल	सुबेदार	जे मारिआ सेलवम	01.05.2019
409	जेसी309923एल	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.03.2019
410	जेसी310415एफ	सुबेदार	जयन एस	01.06.2019
411	जेसी310438एच	सुबेदार	जयप्रकश डी.	01.08.2019
412	जेसी310358एल	सुबेदार	जीत सिंह	01.03.2019
413	जेसी308450एल	सुबेदार	जोगेंद्र कुमार सविता	01.02.2019
414	जेसी310131एक्स	सुबेदार	के अनंतन	01.06.2019

415	जेसी310260एक्स	सुबेदार	के सतीश कुमार	01.07.2019
416	जेसी309653एफ	सुबेदार	के सेलवम	01.03.2019
417	जेसी310955ए	सुबेदार	के.ए. मेथ्यू	01.04.2019
418	जेसी330791डब्ल्यू	सुबेदार	के मुराहरी राव	01.03.2019
419	जेसी310414वाई	सुबेदार	कंचारला वेंकट रमना	01.06.2019
420	जेसी310665एच	सुबेदार	के गोविन्दू	01.03.2019
421	जेसी310688के	सुबेदार	कर्म चन्द	01.06.2019
422	जेसी310385पी	सुबेदार	कृष्णन टी	01.02.2019
423	जेसी311228पी	सुबेदार	के जैनार	01.06.2019
424	जेसी311219एन	सुबेदार	कुमारी कृष्णाहा	01.05.2019
425	जेसी310669वाई	सुबेदार	लक्ष्मन खोट	01.04.2019
426	जेसी309979एक्स	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह बिस्ट	01.04.2019
427	जेसी310478के	सुबेदार	एम ए एवर्ड पौल	01.07.2019
428	जेसी308686ए	सुबेदार	एम एजागुवेल	01.05.2019
429	जेसी309336ए	सुबेदार	एम किशन लाल	01.07.2019
430	जेसी310949एम	सुबेदार	एम सुरेश	01.02.2019
431	जेसी309007के	सुबेदार	मधुसूधन्न पिल्लई बी	01.03.2019
432	जेसी308523एम	सुबेदार	महेश प्रसाद	01.04.2019
433	जेसी310404पी	सुबेदार	एम रामाचन्द्ररुदु	01.04.2019
434	जेसी310951के	सुबेदार	मनोज कुमार पीवी	01.02.2019
435	जेसी332288एक्स	सुबेदार	एम विके सुधाकर	01.05.2019
436	जेसी308859एम	सुबेदार	एम शर्मा	01.02.2019
437	जेसी308660एल	सुबेदार	मोहन राज डी.	01.07.2019
438	जेसी330789वाई	सुबेदार	मूल राज	01.04.2019
439	जेसी308791डब्ल्यू	सुबेदार	एन मोरेश्वर रंभु	01.04.2019
440	जेसी308979एल	सुबेदार	एन रामचंद्र किसान	01.06.2019
441	जेसी310123वाई	सुबेदार	एन सिंह यादवा	01.04.2019
442	जेसी310403एम	सुबेदार	नीलामेगम के	01.03.2019
443	जेसी332112एम	सुबेदार	नीलप्पु वीडो. एन	01.05.2019
444	जेसी308489एक्स	सुबेदार	निमाई नाग	01.03.2019
445	जेसी309548एल	सुबेदार	एनएन सजीवन	01.04.2019
446	जेसी311184एच	सुबेदार	ओ रमझआ	01.03.2019
447	जेसी309951एक्स	सुबेदार	ओमबीर सिंह	01.04.2019
448	जेसी310435पी	सुबेदार	पी आनन्दन	01.07.2019
449	जेसी311269वाई	सुबेदार	पी रवींद्र कुमार	01.05.2019
450	जेसी310662पी	सुबेदार	पी सिल्वाराजू	01.02.2019
451	जेसी310691के	सुबेदार	पी सुब्रमण्यम	01.07.2019
452	जेसी309334पी	सुबेदार	पी थुकारमन	01.03.2019
453	जेसी310419एक्स	सुबेदार	पएला गोविन्द राव नायडू	01.07.2019
454	जेसी310666एल	सुबेदार	पंछानाथम एस	01.03.2019
455	जेसी310786के	सुबेदार	पी एल राव	01.03.2019
456	जेसी310084एल	सुबेदार	प्रदीप चन्द	01.04.2019
457	जेसी308487एम	सुबेदार	परशु राम सिंह	01.02.2019
458	जेसी309896एम	सुबेदार	पी वेंकट सिवा प्रसाद	01.07.2019
459	जेसी310132ए	सुबेदार	पुवारासन एम	01.07.2019
460	जेसी309568वाई	सुबेदार	प्रदीप कुमार के	01.08.2019
461	जेसी310094पी	सुबेदार	प्रदीप एमजी	01.02.2019
462	जेसी330790एन	सुबेदार	प्रसेन्नन पी डी.	01.06.2019
463	जेसी310410एच	सुबेदार	आर चंद्रन	01.05.2019
464	जेसी310406ए	सुबेदार	आर रवि	01.04.2019
465	जेसी330833एक्स	सुबेदार	राज कुमार	01.08.2019
466	जेसी310692एम	सुबेदार	राजीव केआर	01.07.2019
467	जेसी309100एल	सुबेदार	राजीव टीएस	01.05.2019
468	जेसी310407एच	सुबेदार	राजेंद्रा कुरुप आर	01.04.2019

469	जेसी308544एच	सुबेदार	राजेंद्रा नाथ	01.04.2019
470	जेसी309013एक्स	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह यादव	01.04.2019
471	जेसी310477एफ	सुबेदार	राम बीर	01.07.2019
472	जेसी310670एन	सुबेदार	रामप्पा गनी	01.05.2019
473	जेसी310667एन	सुबेदार	रवि एस	01.03.2019
474	जेसी310972ए	सुबेदार	एस बीजूकुमार	01.08.2019
475	जेसी310400वाई	सुबेदार	एस मनोहर	01.02.2019
476	जेसी309504एन	सुबेदार	एस पेरियासामी	01.03.2019
477	जेसी331867एक्स	सुबेदार	साजी टी जे	01.03.2019
478	जेसी332104एन	सुबेदार	सजीमोन थामस	01.05.2019
479	जेसी310394डब्ल्यू	सुबेदार	सालुंखे समभाजी नामदेव	01.07.2019
480	जेसी310676पी	सुबेदार	संतो कुमार टी वी	01.07.2019
481	जेसी332115ए	सुबेदार	संतो के वी	01.05.2019
482	जेसी307527डब्ल्यू	सुबेदार	सरवानन आर	01.08.2019
483	जेसी332091एफ	सुबेदार	एस वी गुलाब राव	01.05.2019
484	जेसी310966एम	सुबेदार	सत्यनारायना टी	01.07.2019
485	जेसी311227एम	सुबेदार	सैथिल कुमार एम	01.05.2019
486	जेसी310962डब्ल्यू	सुबेदार	शेक मेस्टन वाली	01.05.2019
487	जेसी311197ए	सुबेदार	शिवाबासप्पा डी.	01.03.2019
488	जेसी309754पी	सुबेदार	सिबी एनपी	01.05.2019
489	जेसी308488पी	सुबेदार	सितानाथ मंडल	01.03.2019
490	जेसी310970पी	सुबेदार	शिवदास एम	01.08.2019
491	जेसी310965के	सुबेदार	शिवदासन पुल्लानहिओत	01.07.2019
492	जेसी310953पी	सुबेदार	सिवप्रसाद वीएस	01.03.2019
493	जेसी310971एक्स	सुबेदार	सियाडू एम	01.08.2019
494	जेसी309678एन	सुबेदार	एस मिरियाला	01.07.2019
495	जेसी309030एक्स	सुबेदार	सुधीर तिगदी	01.08.2019
496	जेसी310194ए	सुबेदार	सुनील कुमार केके	01.05.2019
497	जेसी309921ए	सुबेदार	सुरेंद्रा कुमार सिंह	01.04.2019
498	जेसी310950एफ	सुबेदार	सुरेश वी	01.02.2019
499	जेसी310171वाई	सुबेदार	सुरूल्ली के	01.03.2019
500	जेसी310958एन	सुबेदार	टी रामास्वामी	01.05.2019
501	जेसी310436एक्स	सुबेदार	टी थिरुककुमारन	01.07.2019
502	जेसी309097डब्ल्यू	सुबेदार	थिरुप्पथी एम	01.05.2019
503	जेसी332109एम	सुबेदार	उदया कुमार के.एस	01.03.2019
504	जेसी310690एफ	सुबेदार	उन्नी पीवी	01.07.2019
505	जेसी310952एम	सुबेदार	वी यू रमना	01.02.2019
506	जेसी331599वाई	सुबेदार	वी वी रेडी	01.05.2019
507	जेसी331337एच	सुबेदार	वरघेसे पी एक्स	01.06.2019
508	जेसी309003एन	सुबेदार	विजय कुमार	01.02.2019
509	जेसी310967पी	सुबेदार	विजया कुमार एस	01.07.2019
510	जेसी310259एच	सुबेदार	विनोद कुमार टी	01.02.2019
511	जेसी310399पी	सुबेदार	वी रवीन्द्र बाबू	01.02.2019
512	जेसी310792एक्स	सुबेदार	वीएन सुनील	01.04.2019
513	जेसी309010के	सुबेदार	विलसन चको	01.04.2019
514	जेसी332290पी	सुबेदार	जेड भानुदास नाथू	01.05.2019

बंगाल यान्त्रिक समुह

515	जेसी331352एक्स	सुबेदार	ए थामस	01.03.2019
516	जेसी330667पी	सुबेदार	ए खान	01.04.2019
517	जेसी330708एन	सुबेदार	अचिंता कुमार अदक	01.03.2019
518	जेसी330507पी	सुबेदार	अजय कुमार विश्वास	01.04.2019
519	जेसी339924एच	सुबेदार	अलाउद्दीन खान	01.04.2019
520	जेसी331803एम	सुबेदार	अमित तिवारी	01.07.2019

521	जेसी340626वाई	सुबेदार	आनंद कुमार सिंह	01.03.2019
522	जेसी341150एफ	सुबेदार	आनंद सिंह	01.03.2019
523	जेसी339688एम	सुबेदार	अनिल कुमार	01.06.2019
524	जेसी199879एफ	सुबेदार	अनिल कुमार सी	01.04.2019
525	जेसी340018एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2019
526	जेसी340408ए	सुबेदार	अशोक गरई	01.02.2019
527	जेसी339930डब्ल्यू	सुबेदार	अतनु नाग	01.05.2019
528	जेसी339677ए	सुबेदार	बाबू लाल	01.05.2019
529	जेसी340628के	सुबेदार	बाली राम	01.04.2019
530	जेसी339958डब्ल्यू	सुबेदार	बंशीधर सेठी	01.06.2019
531	जेसी340158के	सुबेदार	भाबा पाठक	01.08.2019
532	जेसी339612एम	सुबेदार	बी नन्द जखवाल	01.03.2019
533	जेसी331801एफ	सुबेदार	भाट आनंदा बी	01.04.2019
534	जेसी339956एल	सुबेदार	बी च. बोरुह	01.05.2019
535	जेसी339932एफ	सुबेदार	देवेंद्र कुमार	01.05.2019
536	जेसी339933के	सुबेदार	दया नन्द सिंह	01.05.2019
537	जेसी339808ए	सुबेदार	देबराज परीद	01.03.2019
538	जेसी340155डब्ल्यू	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार मेहरा	01.03.2019
539	जेसी341045एन	सुबेदार	धनंजय कुमार सिंह	01.03.2019
540	जेसी340413एल	सुबेदार	दिनेश कुमार वर्मा	01.04.2019
541	जेसी199970एक्स	सुबेदार	गायकवाड भीमराव काकासाहेब	01.07.2019
542	जेसी339807एक्स	सुबेदार	गज़राज सिंह	01.02.2019
543	जेसी331528एक्स	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2019
544	जेसी330894पी	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.02.2019
545	जेसी330619पी	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01.08.2019
546	जेसी331881के	सुबेदार	हरविंदर सिंह	01.07.2019
547	जेसी339709एक्स	सुबेदार	इन्द्रजीत सिंह	01.06.2019
548	जेसी340439ए	सुबेदार	इकबाल सिंह	01.03.2019
549	जेसी331398ए	सुबेदार	जयवीर सिंह	01.06.2019
550	जेसी339753एफ	सुबेदार	जय सिंह	01.04.2019
551	जेसी339823पी	सुबेदार	जया नन्द जोशी	01.04.2019
552	जेसी330556एक्स	सुबेदार	जयंत कुमार दास	01.04.2019
553	जेसी340129पी	सुबेदार	जितेन्द्र कुमार शर्मा	01.02.2019
554	जेसी339928वाई	सुबेदार	जीवन चंद्रा	01.05.2019
555	जेसी340133एक्स	सुबेदार	जोगेश चंद्रा मंडल	01.02.2019
556	जेसी331638डब्ल्यू	सुबेदार	के बालाकृष्णन	01.07.2019
557	जेसी331174ए	सुबेदार	के आर पालिनेप्पन	01.03.2019
558	जेसी339618एन	सुबेदार	कल्याण सिंह	01.04.2019
559	जेसी339245एल	सुबेदार	कर्नल सिंह सिख	01.07.2019
560	जेसी331800वाई	सुबेदार	करुण कुमार	01.04.2019
561	जेसी339955एच	सुबेदार	खडक सिंह	01.05.2019
562	जेसी199876एन	सुबेदार	कुमारस्वामी आर	01.04.2019
563	जेसी339923ए	सुबेदार	लाल बिहारी झा	01.04.2019
564	जेसी340758एम	सुबेदार	लाल बिहारी यादवा	01.04.2019
565	जेसी331321एक्स	सुबेदार	मधु सुदान्न नायर	01.07.2019
566	जेसी340633पी	सुबेदार	महेश कुमार	01.06.2019
567	जेसी339879एफ	सुबेदार	मंगल सिंह	01.03.2019
568	जेसी331410डब्ल्यू	सुबेदार	मणिकंदन वी	01.06.2019
569	जेसी199871पी	सुबेदार	मनोहरन एम	01.04.2019
570	जेसी339925एल	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह	01.04.2019
571	जेसी340627एफ	सुबेदार	एम अली	01.03.2019
572	जेसी339610एफ	सुबेदार	मोहन बहादुर चन्द	01.03.2019
573	जेसी331242एच	सुबेदार	मोहम्मद शमीम खान	01.03.2019

574	जेसी331937एल	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.05.2019
575	जेसी330538पी	सुबेदार	नरेश धड़वाल	01.03.2019
576	जेसी331813डब्ल्यू	सुबेदार	नरुसिंधा प्रसाद पध्य	01.08.2019
577	जेसी199957एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2019
578	जेसी340630एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश सैनी	01.06.2019
579	जेसी339877डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.02.2019
580	जेसी339809एच	सुबेदार	पर्शोतम सिंह	01.03.2019
581	जेसी340038एल	सुबेदार	परशु राम	01.04.2019
582	जेसी339959वाई	सुबेदार	पवन कुमार सिंह	01.07.2019
583	जेसी331519डब्ल्यू	सुबेदार	फदातारे सुनील अप्पाजी	01.03.2019
584	जेसी340629एम	सुबेदार	प्रभाश कुमार	01.05.2019
585	जेसी199962वाई	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.07.2019
586	जेसी340410एक्स	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.03.2019
587	जेसी340415डब्ल्यू	सुबेदार	राजबिन्द्र सिंह पूनी	01.06.2019
588	जेसी340412एच	सुबेदार	राजीव कुमार त्रिवेदी	01.04.2019
589	जेसी340624एन	सुबेदार	राकेश कुमार शर्मा	01.02.2019
590	जेसी340187वाई	सुबेदार	राकेश कुमार श्रीवास्तवा	01.04.2019
591	जेसी340409एच	सुबेदार	राकेश सिंह	01.03.2019
592	जेसी325702एच	सुबेदार	राम नगीना पांडे	01.02.2019
593	जेसी340496एफ	सुबेदार	रंजीत दत्ता	01.03.2019
594	जेसी340156वाई	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.04.2019
595	जेसी340470एम	सुबेदार	रनवीर	01.02.2019
596	जेसी340032के	सुबेदार	रोहितअश्व कुमार	01.08.2019
597	जेसी224942वाई	सुबेदार	एस के अनटोनी	01.06.2019
598	जेसी339824एक्स	सुबेदार	साहब शरण सिंह	01.04.2019
599	जेसी199886एक्स	सुबेदार	साजन जोज़ सी	01.04.2019
600	जेसी219546वाई	सुबेदार	एस राज के	01.06.2019
601	जेसी340636एच	सुबेदार	संजय	01.08.2019
602	जेसी199964के	सुबेदार	संजय कुमार	01.07.2019
603	जेसी340407एक्स	सुबेदार	एस प्रकाश एकनाथ	01.02.2019
604	जेसी332076एम	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.05.2019
605	जेसी340157एफ	सुबेदार	सत्येन्द्र कुमार	01.04.2019
606	जेसी339233डब्ल्यू	सुबेदार	शोक शमशीर हुसैन	01.03.2019
607	जेसी339831एम	सुबेदार	शैलेश कुमार	01.08.2019
608	जेसी340136एल	सुबेदार	शीश राम यादव	01.05.2019
609	जेसी331250एफ	सुबेदार	शेर सिंह	01.04.2019
610	जेसी340446डब्ल्यू	सुबेदार	शिव चरण मंडल	01.07.2019
611	जेसी339613पी	सुबेदार	श्री चंद्रा	01.04.2019
612	जेसी328892एल	सुबेदार	सिबी सी जोसफ	01.07.2019
613	जेसी340521पी	सुबेदार	सिताब सिंह	01.03.2019
614	जेसी327690एक्स	सुबेदार	सुधांसु कुमार साहू	01.04.2019
615	जेसी340131एम	सुबेदार	सुजीत मन्न	01.02.2019
616	जेसी339806पी	सुबेदार	सुजाए मोन्दल	01.02.2019
617	जेसी339611के	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रताप सिंह	01.03.2019
618	जेसी330318एल	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.03.2019
619	जेसी328545एम	सुबेदार	सुरेश कुमार के	01.07.2019
620	जेसी339707एम	सुबेदार	टी कृष्णा मूर्थी	01.05.2019
621	जेसी340050एम	सुबेदार	तेज पाल सिंह पटवाल	01.04.2019
622	जेसी331974वाई	सुबेदार	थजूदीन एम	01.04.2019
623	जेसी332282डब्ल्यू	सुबेदार	उदया कुमार वीएस	01.04.2019
624	जेसी224941डब्ल्यू	सुबेदार	उमप प्रदीप भगवत	01.06.2019
625	जेसी332224एम	सुबेदार	उमेश बाबू अवस्थी	01.02.2019
626	जेसी339890ए	सुबेदार	वेद राम	01.06.2019
627	जेसी340033एम	सुबेदार	विनोद कुमार शर्मा	01.05.2019

बॉम्ब यान्त्रिक समूह

628	जेसी352308एफ	सुबेदार	अब्दुल हकीम खान	01.05.2019
629	जेसी352181के	सुबेदार	अधाव संजीवन रघुनाथ	01.03.2019
630	जेसी352263एम	सुबेदार	बन्दगर विठल बीरा	01.05.2019
631	जेसी351990एक्स	सुबेदार	बी सिंह घोसी	01.05.2019
632	जेसी352344एम	सुबेदार	भूत रमेश कुमार बाबू	01.06.2019
633	जेसी350845एन	सुबेदार	बिश्वनाथ प्रधान	01.04.2019
634	जेसी352342एफ	सुबेदार	चंद्रा किशोर	01.06.2019
635	जेसी351673डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा मनी प्रसाद त्रिपाठी	01.03.2019
636	जेसी352281पी	सुबेदार	चव्हाण अनिलकुमार केशव	01.08.2019
637	जेसी351996वाई	सुबेदार	चव्हाण एकनाथमछिन्द्रानाथ	01.05.2019
638	जेसी352339एफ	सुबेदार	सी संतोष केशव	01.05.2019
639	जेसी352276के	सुबेदार	डी. संजय पांडुरंग	01.07.2019
640	जेसी352436वाई	सुबेदार	दीना नाथ	01.05.2019
641	जेसी351902डब्ल्यू	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह यादव	01.03.2019
642	जेसी352269एन	सुबेदार	गवाली अशोक सुखदेव	01.05.2019
643	जेसी352028एन	सुबेदार	जी. लाल जाटव	01.08.2019
644	जेसी352350ए	सुबेदार	गोले राजकुमार शिवाजी	01.08.2019
644	जेसी352275एफ	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.06.2019
646	जेसी352352एल	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.08.2019
647	जेसी352715के	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.03.2019
648	जेसी352044एल	सुबेदार	इकबाल सिंह	01.08.2019
649	जेसी351675एफ	सुबेदार	इशफाक अली	01.04.2019
650	जेसी352328पी	सुबेदार	जगदीश सिंह घरू	01.04.2019
651	जेसी352307वाई	सुबेदार	जे शंकर नाना	01.05.2019
652	जेसी351995डब्ल्यू	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.05.2019
653	जेसी351857पी	सुबेदार	जीत सिंह	01.04.2019
654	जेसी353054एफ	सुबेदार	के लक्ष्मन एकनाथ	01.03.2019
655	जेसी349243एन	सुबेदार	के पोपट विश्वनाथ	01.05.2019
656	जेसी352273डब्ल्यू	सुबेदार	कुलवीर सिंह	01.05.2019
657	जेसी352006पी	सुबेदार	लक्खा सिंह	01.03.2019
658	जेसी351087एन	सुबेदार	मथार्ई थामस	01.06.2019
659	जेसी352278पी	सुबेदार	मोढ़ सलीम	01.08.2019
660	जेसी352309के	सुबेदार	मोहम्मद अमीन भाट	01.05.2019
661	जेसी352354डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद इरशाद अंसारी	01.08.2019
662	जेसी352080डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद आर अंसारी	01.08.2019
663	जेसी352008ए	सुबेदार	मोहम्मद साबिर	01.06.2019
664	जेसी352007एक्स	सुबेदार	मोरे विजयकुमार अशोकराव	01.06.2019
665	जेसी352140ए	सुबेदार	मुरुगन पी	01.05.2019
666	जेसी352356एफ	सुबेदार	नगेन्द्रा सिंह	01.08.2019
667	जेसी352345पी	सुबेदार	निकम सुनील आर	01.07.2019
668	जेसी350848एफ	सुबेदार	निरंजन दास	01.03.2019
669	जेसी352348एच	सुबेदार	पवार बालासाहेब सखाराम	01.08.2019
670	जेसी351994एन	सुबेदार	पवार संजय दशरथ	01.05.2019
671	जेसी353368एच	सुबेदार	पोकाले दिलीप लक्ष्मन	01.05.2019
672	जेसी352274वाई	सुबेदार	राजेंद्रा पांचाल	01.06.2019
673	जेसी352766एक्स	सुबेदार	राजिन्द्र सिंह	01.05.2019
674	जेसी351795ए	सुबेदार	रामबिनोद तिवारी	01.04.2019
675	जेसी350861एल	सुबेदार	एस के एम हक	01.04.2019
676	जेसी352027एल	सुबेदार	साहन सुकादयो बी	01.07.2019
677	जेसी353117वाई	सुबेदार	संजय कुमार	01.05.2019
678	जेसी351992एच	सुबेदार	सर्वेश चंद्रा	01.05.2019
679	जेसी352351एच	सुबेदार	सतेंद्र कुमार विष्वाकर्मा	01.08.2019

680	जेसी351449के	सुबेदार	शेख असगर एम	01.04.2019
681	जेसी352340डब्ल्यू	सुबेदार	शेलाखे मोहन श्रीहरी	01.06.2019
682	जेसी352280एम	सुबेदार	शिंदे अनिलकुमार दयान्देओ	01.08.2019
683	जेसी352306डब्ल्यू	सुबेदार	शिव नरेश पाल	01.05.2019
684	जेसी352353एन	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.08.2019
685	जेसी349131एन	सुबेदार	सुर्ती राम वैशनव	01.03.2019
686	जेसी351998के	सुबेदार	तसवीर सिंह	01.06.2019
687	जेसी351725एफ	सुबेदार	त्रिपाटी कुमार रमाकांत	01.08.2019
688	जेसी352347ए	सुबेदार	यू मनोज साहेब्रो	01.07.2019
689	जेसी348697पी	सुबेदार	उदय कुमार दास	01.08.2019
690	जेसी351993एल	सुबेदार	उतेकर सुनील सीताराम	01.05.2019
691	जेसी352391के	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.08.2019

अधिसूचना पलटन

692	जेसी377789के	सुबेदार	ए इसाकिअप्पन	01.06.2019
693	जेसी382904एच	सुबेदार	ए पी रमेश	01.03.2019
694	जेसी381474एक्स	सुबेदार	ए पेरिअनायागासामी	01.03.2019
695	जेसी382830वाई	सुबेदार	अब्दुल चन बाजी	01.07.2019
696	जेसी374133के	सुबेदार	अजीत कुमार के.एस	01.02.2019
697	जेसी379627एक्स	सुबेदार	अक्षय कुमार नायक	01.03.2019
698	जेसी383615ए	सुबेदार	अनिल कुमार बी	01.04.2019
699	जेसी376971एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार सी के	01.02.2019
700	जेसी374139एल	सुबेदार	अनिल कुमार सीपी	01.02.2019
701	जेसी382349ए	सुबेदार	अनिल कुमार के	01.02.2019
702	जेसी381428एच	सुबेदार	अनूप	01.04.2019
703	जेसी383133एल	सुबेदार	अरबिन्दा रौय	01.05.2019
704	जेसी380892ए	सुबेदार	अर्जुना प्रसाद तिवारी	01.03.2019
705	जेसी381938के	सुबेदार	अशोक कुमार बी	01.04.2019
706	जेसी382265एम	सुबेदार	अउद्धेश प्रसाद वर्मा	01.06.2019
707	जेसी383545एम	सुबेदार	बी गंगाधर पैटरो	01.05.2019
708	जेसी383589के	सुबेदार	बाबू लाल	01.07.2019
709	जेसी375024के	सुबेदार	बलबीर सिंह बोहरा	01.02.2019
710	जेसी379619वाई	सुबेदार	बी प्रधान	01.04.2019
711	जेसी383100ए	सुबेदार	भोसले गिरिधर बाबूराव	01.05.2019
712	जेसी375013एक्स	सुबेदार	बी साहू	01.02.2019
713	जेसी382678डब्ल्यू	सुबेदार	बिंदेश्वर साह	01.04.2019
714	जेसी382476पी	सुबेदार	बिरजू सिंह	01.03.2019
715	जेसी382769ए	सुबेदार	ब्रजेन्द्र कुमार	01.04.2019
716	जेसी382457के	सुबेदार	सी प्रभाहरन	01.03.2019
717	जेसी381136ए	सुबेदार	चैतन्य प्रधान	01.03.2019
718	जेसी373399के	सुबेदार	चंद्रा मोहानन नायर के	01.02.2019
719	जेसी381605एक्स	सुबेदार	चंद्रा पाल शुक्ला	01.08.2019
720	जेसी379380एफ	सुबेदार	चंद्रा सिंह	01.06.2019
721	जेसी375184के	सुबेदार	डी. प्रसाद	01.04.2019
722	जेसी381436एफ	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.06.2019
723	जेसी379632एच	सुबेदार	देश राज जसवाल	01.06.2019
724	जेसी382481ए	सुबेदार	डी. प्रसाद	01.04.2019
725	जेसी382121के	सुबेदार	देवेंद्र सिंह	01.03.2019
726	जेसी376223के	सुबेदार	देवेन्द्र प्रताप सिंह	01.06.2019
727	जेसी376057एफ	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह अधिकारी	01.02.2019
728	जेसी378302एक्स	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह परिहार	01.02.2019
729	जेसी383154एफ	सुबेदार	धर्मबीर	01.04.2019
730	जेसी384104एच	सुबेदार	डी. कुमार महाराना	01.05.2019
731	जेसी382720के	सुबेदार	दुकारे प्रदीप केशो	01.02.2019

732	जेसी375017एन	सुबेदार	दुलाल चंद्रा मंडल	01.03.2019
733	जेसी385132एफ	सुबेदार	दुर्गा प्रसाद राव आरधी	01.03.2019
734	जेसी379544एम	सुबेदार	जी. शण्मुगमै	01.06.2019
735	जेसी382679वाई	सुबेदार	गनेश पांडे	01.04.2019
736	जेसी382120एफ	सुबेदार	गनेश प्रसाद यादव	01.02.2019
737	जेसी373894एच	सुबेदार	गणेशन ई	01.02.2019
738	जेसी379034एल	सुबेदार	गरुड दत्तत्रे गोविंद	01.05.2019
739	जेसी376985एक्स	सुबेदार	गवाली नामदेव शिवाजी	01.05.2019
740	जेसी383575के	सुबेदार	गोवर्धन डी.	01.04.2019
741	जेसी380914एन	सुबेदार	गोविंद सिंह रावत	01.04.2019
742	जेसी380924एक्स	सुबेदार	ज्ञानेश जोशी	01.03.2019
743	जेसी382332एम	सुबेदार	हरीश चंद्रा सिंह	01.02.2019
744	जेसी383330एन	सुबेदार	हरीश कुमार चतुर्वेदी	01.02.2019
745	जेसी383313एन	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.04.2019
746	जेसी381434डब्ल्यू	सुबेदार	इम्तियाज़ अहमद	01.06.2019
747	जेसी380669डब्ल्यू	सुबेदार	इन्द्रा बहादुर थापा	01.04.2019
748	जेसी382183के	सुबेदार	जगत पाल सिंह	01.04.2019
749	जेसी373607एन	सुबेदार	जय प्रकाश	01.07.2019
750	जेसी379727एच	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.04.2019
751	जेसी383358एन	सुबेदार	जे अनिल राजाराम	01.07.2019
752	जेसी374434एन	सुबेदार	के लोगानाथन	01.04.2019
753	जेसी376601एक्स	सुबेदार	के रवि	01.05.2019
754	जेसी383473एन	सुबेदार	के वासुदेवन	01.07.2019
755	जेसी382448एच	सुबेदार	के अनिल बाबू	01.03.2019
756	जेसी381102एम	सुबेदार	कालू राम	01.08.2019
757	जेसी380668एन	सुबेदार	काम्बले जलिनंदर अर्जुन	01.04.2019
758	जेसी382348एक्स	सुबेदार	खडक सिंह	01.02.2019
759	जेसी382477एक्स	सुबेदार	किशोरी लाल	01.03.2019
760	जेसी374131वाई	सुबेदार	कष्णन यादव	01.04.2019
761	जेसी378296पी	सुबेदार	कुलामनी जैना	01.03.2019
762	जेसी384237वाई	सुबेदार	कुमुद कुमार	01.05.2019
763	जेसी381140एच	सुबेदार	कुमुद रंजन मल्लिक	01.08.2019
764	जेसी382464ए	सुबेदार	कुमुद रंजन साहू	01.03.2019
765	जेसी381814पी	सुबेदार	ललित मोहन सिंह शाही	01.04.2019
766	जेसी381085एक्स	सुबेदार	एल कुमार	01.08.2019
767	जेसी374433एल	सुबेदार	एम कुमारसन	01.04.2019
768	जेसी381295एक्स	सुबेदार	एम मुरुगन	01.03.2019
769	जेसी377796ए	सुबेदार	एम सतीश	01.03.2019
770	जेसी375020एन	सुबेदार	महेन्द्र नाथ चौहान	01.03.2019
771	जेसी375170के	सुबेदार	महेश कुमार सिंह	01.03.2019
772	जेसी380893एच	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह	01.04.2019
773	जेसी381433एन	सुबेदार	मस्के विक्रम भगवान	01.04.2019
774	जेसी374425एम	सुबेदार	माता प्रसाद शुक्ला	01.04.2019
775	जेसी381662वाई	सुबेदार	मोहम्मद एम अली	01.04.2019
776	जेसी381139एन	सुबेदार	एम भगवान एम	01.04.2019
777	जेसी383363वाई	सुबेदार	मोहन सिंह	01.08.2019
778	जेसी382478ए	सुबेदार	मोहन सिंह भाटी	01.03.2019
779	जेसी381931ए	सुबेदार	मोती लाल	01.04.2019
780	जेसी378670एम	सुबेदार	मृत्युंजय शर्मा	01.07.2019
781	जेसी382869एल	सुबेदार	मुकेश कुमार	01.04.2019
782	जेसी381313पी	सुबेदार	मुनेनदर पाल शर्मा	01.04.2019
783	जेसी375168एम	सुबेदार	मुथुसामी एस	01.05.2019
784	जेसी381719एच	सुबेदार	नरेंदर पाल सिंह	01.04.2019
785	जेसी383156एम	सुबेदार	नरेंदर कुमार	01.04.2019

786	जेसी382460के	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह पी	01.02.2019
787	जेसी377459एल	सुबेदार	नेत्रा पाल सिंह	01.03.2019
788	जेसी382461एम	सुबेदार	एन साहा	01.03.2019
789	जेसी377460ए	सुबेदार	निराकार बेहेरा	01.02.2019
790	जेसी375407डब्ल्यू	सुबेदार	निरंजन पात्रा	01.03.2019
791	जेसी381300एक्स	सुबेदार	नियामत अली	01.08.2019
792	जेसी380925ए	सुबेदार	ओमदत्त सिंह शिशोदिया	01.03.2019
793	जेसी381391एम	सुबेदार	पी इसाक	01.03.2019
794	जेसी382458एम	सुबेदार	पांडि ए	01.03.2019
795	जेसी382888डब्ल्यू	सुबेदार	पंकज कुमार पांडे	01.04.2019
796	जेसी381296ए	सुबेदार	परमिन्दर सिंह	01.06.2019
797	जेसी381476एच	सुबेदार	पतोले बालू पी	01.04.2019
798	जेसी376738के	सुबेदार	पवार बालासाहेब सामाराओ	01.05.2019
799	जेसी382463एक्स	सुबेदार	प्रभाकर मोहराना	01.03.2019
800	जेसी374431ए	सुबेदार	प्रदीप कुमार भदोरिया	01.02.2019
801	जेसी382383ए	सुबेदार	प्रकाश के	01.03.2019
802	जेसी381928ए	सुबेदार	प्रवीण कुमार	01.02.2019
803	जेसी374409पी	सुबेदार	प्रयाग दत्त	01.04.2019
804	जेसी381088एल	सुबेदार	प्रमोद कुमार मान	01.06.2019
805	जेसी383314डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन सिंह बिष्ट	01.04.2019
806	जेसी382470एन	सुबेदार	पुरुषोत्थम सैनी	01.03.2019
807	जेसी377487एक्स	सुबेदार	आर सैथिल कुमारन	01.05.2019
808	जेसी383562एम	सुबेदार	राधा कृष्णा पांडे	01.03.2019
809	जेसी382695डब्ल्यू	सुबेदार	राधाकृष्णा पिल्लई एस	01.07.2019
810	जेसी381604पी	सुबेदार	राघव जेआई दुबे	01.03.2019
811	जेसी381196पी	सुबेदार	राज कुमार	01.02.2019
812	जेसी373608डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.08.2019
813	जेसी374141एच	सुबेदार	राजीवन विके	01.02.2019
814	जेसी382347पी	सुबेदार	राजेंद्रा	01.02.2019
815	जेसी382541के	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार चन्द	01.03.2019
816	जेसी382168पी	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.02.2019
817	जेसी382310एन	सुबेदार	राजेश कुमार यादव	01.04.2019
818	जेसी377461एच	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2019
819	जेसी383320के	सुबेदार	रजनीश कोशल	01.07.2019
820	जेसी381090एच	सुबेदार	राजवीर सिंह	01.03.2019
821	जेसी373878एल	सुबेदार	राकेश चंद्रा ध्यानी	01.03.2019
822	जेसी380930एल	सुबेदार	राकेश कुमार जरवाल	01.04.2019
823	जेसी382172एक्स	सुबेदार	राम दत्त	01.04.2019
824	जेसी382379एक्स	सुबेदार	राम किशोर मिश्रा	01.03.2019
825	जेसी383344एन	सुबेदार	राम कुमार	01.02.2019
826	जेसी380877एल	सुबेदार	राम नरेश	01.04.2019
827	जेसी374146एफ	सुबेदार	राम निवास सिंह	01.02.2019
828	जेसी382455वाई	सुबेदार	रमेश चंद्रा जोशी	01.03.2019
829	जेसी383316एफ	सुबेदार	रमेश कुमार	01.04.2019
830	जेसी382224एच	सुबेदार	राना शोभा कांत सिंह	01.02.2019
831	जेसी382085के	सुबेदार	एस वेंकट राज	01.03.2019
832	जेसी374432एच	सुबेदार	शक्ति प्रसाद सत्पथी	01.03.2019
833	जेसी383467ए	सुबेदार	समशेर सिंह	01.04.2019
834	जेसी380874एक्स	सुबेदार	संग्राम केसरी राउत	01.03.2019
835	जेसी381860के	सुबेदार	संजय कुमार हल्दर	01.04.2019
836	जेसी377786डब्ल्यू	सुबेदार	संसार सिंह	01.04.2019
837	जेसी383288ए	सुबेदार	संतो कुमार एस	01.04.2019
838	जेसी381939एम	सुबेदार	संतोष सिंह	01.07.2019
839	जेसी383343एल	सुबेदार	संतराम बाबू पाटिल	01.02.2019

840	जेसी382264के	सुबेदार	सरोज कुमार पंडा	01.07.2019
841	जेसी381658डब्ल्यू	सुबेदार	एस दत्ताता	01.04.2019
842	जेसी382490एफ	सुबेदार	सर्वेश कुमार वर्मा	01.03.2019
843	जेसी383078ए	सुबेदार	शशि कुमार नायक	01.03.2019
844	जेसी383158एक्स	सुबेदार	सतबीर	01.04.2019
845	जेसी373606एल	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.07.2019
846	जेसी382459पी	सुबेदार	सतेंद्र सिंह	01.03.2019
847	जेसी383131ए	सुबेदार	सतीश कुमार	01.05.2019
848	जेसी382331के	सुबेदार	शेख सलीम अदम	01.02.2019
849	जेसी383621एन	सुबेदार	शम्भूनाथ तिवारी	01.04.2019
850	जेसी383157पी	सुबेदार	शिव पाल सिंह शर्मा	01.04.2019
851	जेसी373845ए	सुबेदार	शिव सिंह	01.03.2019
852	जेसी382305एच	सुबेदार	श्याम बिहारी	01.04.2019
853	जेसी382824एल	सुबेदार	सोमन सी एच	01.04.2019
854	जेसी382378पी	सुबेदार	सोमीसेठी नागराजू	01.03.2019
855	जेसी383271एम	सुबेदार	श्रीकान्त मंडल	01.03.2019
856	जेसी374136एक्स	सुबेदार	सूबे सिंह	01.02.2019
857	जेसी381821एल	सुबेदार	सुगाथन पीके	01.06.2019
858	जेसी379960डब्ल्यू	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.08.2019
859	जेसी383464एम	सुबेदार	सुखपाल सिंह	01.03.2019
860	जेसी383334के	सुबेदार	सुंदर सिंह सिरौला	01.05.2019
861	जेसी379910एल	सुबेदार	सुनील कुमार सिंह	01.03.2019
862	जेसी378679एफ	सुबेदार	सुनील कुमार वी सी	01.05.2019
863	जेसी383159ए	सुबेदार	सुरेंदरन नायर सी	01.04.2019
864	जेसी383155के	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2019
865	जेसी382834पी	सुबेदार	सुरेश कुमार एन	01.07.2019
866	जेसी380665ए	सुबेदार	सुरेश कुमार यादव	01.03.2019
867	जेसी383419ए	सुबेदार	स्वप्न कुमार चकर्बती	01.03.2019
868	जेसी386081एल	सुबेदार	तन्गी नागाभूशना राव	01.07.2019
869	जेसी382825एन	सुबेदार	तारक नाथ सिंह	01.04.2019
870	जेसी382374वाई	सुबेदार	तरुण कुमार रौय	01.02.2019
871	जेसी382768एक्स	सुबेदार	थामस के पी	01.02.2019
872	जेसी380894एल	सुबेदार	तोनदारे बी पी	01.04.2019
873	जेसी383319पी	सुबेदार	उमेश चंद्रा निसाद	01.05.2019
874	जेसी374414ए	सुबेदार	उत्तातम कुमार हर	01.04.2019
875	जेसी382456एफ	सुबेदार	वी सुब्रमण्यम राजू	01.03.2019
876	जेसी381126डब्ल्यू	सुबेदार	वरघेसे जाँब	01.04.2019
877	जेसी380929डब्ल्यू	सुबेदार	विद्यानंद झा	01.06.2019
878	जेसी382376के	सुबेदार	विजय कुमार	01.02.2019
879	जेसी382382एक्स	सुबेदार	विनीत यादव	01.03.2019
880	जेसी383128ए	सुबेदार	विनोद कुमार	01.02.2019
881	जेसी379840एक्स	सुबेदार	विपन कुमार	01.04.2019
882	जेसी382180डब्ल्यू	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.02.2019
883	जेसी383417पी	सुबेदार	विष्णु प्रसाद	01.02.2019
884	जेसी381945ए	सुबेदार	जिले सिंह	01.02.2019

रक्षक सैन्यदल

885	जेसी404934एच	सुबेदार	अजय कुमार नाथ	01.07.2019
886	जेसी404364एक्स	सुबेदार	आमोद कुमार सिंह	01.04.2019
887	जेसी405211ए	सुबेदार	बालम सिंह	01.03.2019
888	जेसी404962पी	सुबेदार	बी कैलास नाना	01.03.2019
889	जेसी404444पी	सुबेदार	भगवान चंद्रा साहू	01.05.2019
890	जेसी404611ए	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.04.2019
891	जेसी405076एक्स	सुबेदार	बी पांडुरंग भाउ	01.04.2019

892	जेसी405261एल	सुबेदार	बुल चंद्रा दास	01.05.2019
893	जेसी404963एक्स	सुबेदार	चंद्रमणि प्रसाद द्विवेदी	01.04.2019
894	जेसी405067डब्ल्यू	सुबेदार	दीप चन्द	01.03.2019
895	जेसी404999डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश कुमार अन्नादुराय ए	01.07.2019
896	जेसी405132एल	सुबेदार	हंसराज यादव	01.03.2019
897	जेसी404947ए	सुबेदार	इकबाल खान	01.04.2019
898	जेसी405313डब्ल्यू	सुबेदार	इंद्र सिंह खेरियत	01.05.2019
899	जेसी404837एल	सुबेदार	इन्द्रा मोहन कुमार	01.03.2019
900	जेसी404759वाई	सुबेदार	जय सिंह कुल्हाड़ी	01.03.2019
901	जेसी404761डब्ल्यू	सुबेदार	जंग बहादुर	01.03.2019
902	जेसी405176एच	सुबेदार	जाटन कुमार जेड	01.03.2019
903	जेसी404897ए	सुबेदार	करन पाल	01.07.2019
904	जेसी405384एक्स	सुबेदार	केशोब गोगोई	01.05.2019
905	जेसी404754ए	सुबेदार	खातिब सादिक साहेब हासन साहेब	01.04.2019
906	जेसी404599के	सुबेदार	कृष्णा दोरजी	01.05.2019
907	जेसी405330डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा कांता सूत्राधर	01.05.2019
908	जेसी405273ए	सुबेदार	लालू राम	01.05.2019
909	जेसी404454वाई	सुबेदार	मधु सुधन सिंह	01.04.2019
910	जेसी404548डब्ल्यू	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.03.2019
911	जेसी404878पी	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह यादव	01.04.2019
912	जेसी404363पी	सुबेदार	मनोज कुमार तिवारी	01.03.2019
913	जेसी404705एक्स	सुबेदार	नरेश कुमार	01.03.2019
914	जेसी405129एल	सुबेदार	नरेश कुमार	01.05.2019
915	जेसी405214एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2019
916	जेसी404740ए	सुबेदार	ओम प्रकाश यादव	01.05.2019
917	जेसी404927एम	सुबेदार	प्रणब कुमार मंडल	01.02.2019
918	जेसी405392डब्ल्यू	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.05.2019
919	जेसी404553एफ	सुबेदार	राज बहदुर	01.04.2019
920	जेसी405075पी	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.03.2019
921	जेसी405385ए	सुबेदार	राजेश प्रधान	01.06.2019
922	जेसी405082एल	सुबेदार	राम दुलारे	01.05.2019
923	जेसी405083एन	सुबेदार	राम जनक सिंह	01.05.2019
924	जेसी404493एक्स	सुबेदार	राम नरेश	01.04.2019
925	जेसी405101एल	सुबेदार	रमेश चंद्रा वर्मा	01.05.2019
926	जेसी404690ए	सुबेदार	रमेश कुमार, एम	01.03.2019
927	जेसी404755एच	सुबेदार	सदानन्दा सेठी	01.04.2019
928	जेसी404226डब्ल्यू	सुबेदार	शंकरसन नायक	01.06.2019
929	जेसी405092पी	सुबेदार	सतीश कुमार चेट्टरी	01.03.2019
930	जेसी404154एक्स	सुबेदार	सतवीर सिंह	01.03.2019
931	जेसी404549वाई	सुबेदार	शशि भूषण	01.04.2019
932	जेसी404879एक्स	सुबेदार	शेख मुस्तुफा भाई हासन भाई	01.03.2019
933	जेसी404722एक्स	सुबेदार	शिव बरन सिंह	01.02.2019
934	जेसी404877एम	सुबेदार	शिव प्रसाद प्रजापति	01.04.2019
935	जेसी404896एक्स	सुबेदार	श्री भगवान यादव	01.04.2019
936	जेसी405180एल	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.04.2019
937	जेसी404991के	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.04.2019
938	जेसी405192ए	सुबेदार	थापा संजीव कुमार सुरेन्द्रा कुमार	01.06.2019
939	जेसी404727डब्ल्यू	सुबेदार	टोडे राजेंद्रा हरी भाउ	01.04.2019
940	जेसी404845के	सुबेदार	विपन कुमार	01.05.2019
941	जेसी405000एक्स	सुबेदार	योगेन्द्रा पाल सिंह	01.08.2019

छाताधारी सैन्यदल

942	जेसी413450के	सुबेदार	बस्ती राम बिश्नोई	01.07.2019
943	जेसी413006एन	सुबेदार	जी. रमेश	01.05.2019
944	जेसी413358एल	सुबेदार	घोरापडे अनिल कुमारअन्ना	01.02.2019
945	जेसी413330एल	सुबेदार	हनामन्त एस	01.03.2019
946	जेसी413508डब्ल्यू	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.05.2019
947	जेसी413757पी	सुबेदार	के बल्लभ	01.07.2019
948	जेसी413515एम	सुबेदार	मदन सिंह	01.05.2019
949	जेसी413509वाई	सुबेदार	महेन्द्र सिंह राठोर	01.05.2019
950	जेसी413520एक्स	सुबेदार	मंगल सिंह रावत	01.08.2019
951	जेसी471255एक्स	सुबेदार	ओमबीर सिंह	01.03.2019
952	जेसी413733एल	सुबेदार	पी सिंह राथुर	01.04.2019
953	जेसी413775एक्स	सुबेदार	पी धनंजय राव	01.03.2019
954	जेसी413544एफ	सुबेदार	राम बाबू प्रसाद यादव	01.06.2019
955	जेसी413411एल	सुबेदार	राम लाल यादव	01.05.2019
956	जेसी413561एफ	सुबेदार	रमेशारे पुरी	01.06.2019
957	जेसी413412एन	सुबेदार	सरवानन आर	01.07.2019
958	जेसी413494एफ	सुबेदार	शियो कुमार यादव	01.06.2019
959	जेसी413731ए	सुबेदार	सुर सिंह	01.03.2019
960	जेसी413636एन	सुबेदार	सुरेश चन्द	01.07.2019
961	जेसी413397के	सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.06.2019
962	जेसी481439के	सुबेदार	विनोद सिंह	01.07.2019
963	जेसी413756एम	सुबेदार	विरपाल सिंह	01.05.2019
964	जेसी413007डब्ल्यू	सुबेदार	वी नारायना राव	01.06.2019

यांत्रिक पैदल सैन्यदल

965	जेसी421791के	सुबेदार	ए आइ सिंघा	01.02.2019
966	जेसी421673डब्ल्यू	सुबेदार	अजीत कुमार मिश्रा	01.04.2019
967	जेसी421537ए	सुबेदार	अखिलेश प्रसाद	01.06.2019
968	जेसी421255एफ	सुबेदार	अनूप सरकार	01.07.2019
969	जेसी421744एम	सुबेदार	अर्जुन के	01.05.2019
970	जेसी421825एम	सुबेदार	अर्विन्द कुमार साहू	01.07.2019
971	जेसी421419एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.06.2019
972	जेसी421602पी	सुबेदार	अशवनी कुमार	01.07.2019
973	जेसी421727एम	सुबेदार	अशवनी कुमार साहू	01.02.2019
974	जेसी420996एम	सुबेदार	बी श्रीनिवास राव	01.03.2019
975	जेसी421437पी	सुबेदार	चावड़ा रमा हमीर	01.04.2019
976	जेसी422058एल	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार मिश्रा	01.02.2019
977	जेसी422117एम	सुबेदार	देवेन्द्र पाल सिंह	01.08.2019
978	जेसी421751एच	सुबेदार	दिग्विजय सिंह	01.03.2019
979	जेसी421422एम	सुबेदार	दिलीप कुमार	01.05.2019
980	जेसी421132पी	सुबेदार	दिनेश कुमार शर्मा	01.03.2019
981	जेसी421692एफ	सुबेदार	दिनेश प्रसाद तिवारी	01.02.2019
982	जेसी421840एफ	सुबेदार	दिवाकर	01.05.2019
983	जेसी421669एन	सुबेदार	जी. चंद्रा बसुमा	01.04.2019
984	जेसी421489एल	सुबेदार	जी. रमना	01.06.2019
985	जेसी421539एल	सुबेदार	गोरख नाथ पांडे	01.02.2019
986	जेसी421565एम	सुबेदार	हरखू राम	01.02.2019
987	जेसी421490ए	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.08.2019
988	जेसी421599ए	सुबेदार	जाधव राजेंद्रा रामराव	01.04.2019
989	जेसी421484एम	सुबेदार	जगन नाथ प्रसाद	01.05.2019
990	जेसी422093एन	सुबेदार	जसवंत रावल	01.03.2019
991	जेसी421411ए	सुबेदार	जवान सिंह गुर्जर	01.07.2019

992	जेसी422145वाई	सुबेदार	के मुरुगेसन	01.04.2019
993	जेसी422230एफ	सुबेदार	के सुब्रमनिअन	01.03.2019
994	जेसी422142एल	सुबेदार	कमल साहा	01.03.2019
995	जेसी421471पी	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.03.2019
996	जेसी421560एन	सुबेदार	कृष्णानन्द सिंह	01.05.2019
997	जेसी421781ए	सुबेदार	लुतफुन हक	01.02.2019
998	जेसी421429डब्ल्यू	सुबेदार	महेश चंद्रा जेड	01.05.2019
999	जेसी421636एच	सुबेदार	महेश कुमार	01.07.2019
1000	जेसी421087एन	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.06.2019
1001	जेसी421826पी	सुबेदार	मानस पट्टा नायक	01.07.2019
1002	जेसी421967के	सुबेदार	मनोज कुमार मिश्रा	01.07.2019
1003	जेसी421254वाई	सुबेदार	एम हुक बरभुईया	01.08.2019
1004	जेसी422204ए	सुबेदार	मूल कुमार सिंह	01.05.2019
1005	जेसी421434एफ	सुबेदार	मृतुन्जय घोष	01.05.2019
1006	जेसी421106एन	सुबेदार	एन सिवेन्दरन	01.07.2019
1007	जेसी421902डब्ल्यू	सुबेदार	पी जयसीलन	01.07.2019
1008	जेसी421801एच	सुबेदार	पित्ताम वी सुब्बा रेडी	01.03.2019
1009	जेसी422363एक्स	सुबेदार	पूरन सिंह	01.05.2019
1010	जेसी422070एम	सुबेदार	प्रभात डेका	01.03.2019
1011	जेसी421333एन	सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.03.2019
1012	जेसी422384एन	सुबेदार	प्रेम पाल सिंह	01.05.2019
1013	जेसी421635ए	सुबेदार	प्यारे लाल जंगीर	01.03.2019
1014	जेसी421269एफ	सुबेदार	राजेश्वर सिंह	01.06.2019
1015	जेसी421922के	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.06.2019
1016	जेसी421986पी	सुबेदार	राम मोहन	01.05.2019
1017	जेसी422131वाई	सुबेदार	रामसेवक मिस्त्री	01.03.2019
1018	जेसी421526एन	सुबेदार	आर रामी नायडू	01.03.2019
1019	जेसी422234एक्स	सुबेदार	एस महेशा	01.05.2019
1020	जेसी422144डब्ल्यू	सुबेदार	साहनी एस एस	01.05.2019
1021	जेसी421984के	सुबेदार	सैम कन्नैडी डी.	01.07.2019
1022	जेसी421421के	सुबेदार	संजय कुमार	01.06.2019
1023	जेसी422328पी	सुबेदार	संजय कुमार	01.03.2019
1024	जेसी422534वाई	सुबेदार	साठे संजय किसान	01.05.2019
1025	जेसी422068पी	सुबेदार	सत्या पाल सिंह	01.02.2019
1026	जेसी422365एच	सुबेदार	शोक चिन्ना खालेशा	01.05.2019
1027	जेसी421222डब्ल्यू	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.08.2019
1028	जेसी421697ए	सुबेदार	शिव दयाल	01.07.2019
1029	जेसी421486एक्स	सुबेदार	एस पाल	01.08.2019
1030	जेसी421838के	सुबेदार	श्री कुमार पी	01.08.2019
1031	जेसी421671एल	सुबेदार	सुबेदार सिंह यादवा	01.04.2019
1032	जेसी421782एच	सुबेदार	सुधीर	01.08.2019
1033	जेसी422299एल	सुबेदार	वरिंदर कुमार	01.03.2019
1034	जेसी421159एम	सुबेदार	वीरेन्द्र प्रसाद	01.08.2019
1035	जेसी422488पी	सुबेदार	विजय कुमार चौधरी	01.03.2019
1036	जेसी421794एक्स	सुबेदार	विनोद कुमार	01.05.2019
1037	जेसी421428एन	सुबेदार	विष्णु बी	01.03.2019

पंजाब सैन्यदल

1038	जेसी431355ए	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.03.2019
1039	जेसी431588एफ	सुबेदार	अशोक कुसवाहा	01.02.2019
1040	जेसी431131ए	सुबेदार	अशवनी कुमार शर्मा	01.02.2019
1041	जेसी431422ए	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.03.2019
1042	जेसी431164एल	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.02.2019
1043	जेसी431658पी	सुबेदार	बलवान सिंह	01.04.2019

1044	जेसी431580पी	सुबेदार	भीम सिंह	01.07.2019
1045	जेसी430860डब्ल्यू	सुबेदार	भुल्ला सिंह	01.08.2019
1046	जेसी431241पी	सुबेदार	बिरांची पाल	01.06.2019
1047	जेसी431143पी	सुबेदार	बोरुदे नारायण दत्तत्रे	01.04.2019
1048	जेसी431075एम	सुबेदार	सी वसन्था कुमार	01.06.2019
1049	जेसी431136वाई	सुबेदार	चमकोर सिंह	01.02.2019
1050	जेसी431093पी	सुबेदार	सी सिंह	01.05.2019
1051	जेसी431281डब्ल्यू	सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.03.2019
1052	जेसी430889वाई	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.02.2019
1053	जेसी431443डब्ल्यू	सुबेदार	गुरिन्दर पाल सिंह	01.04.2019
1054	जेसी431579ए	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.07.2019
1055	जेसी431356एच	सुबेदार	जगतार सिंह	01.03.2019
1056	जेसी431641एफ	सुबेदार	जनक सिंह राना	01.02.2019
1057	जेसी431320के	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.03.2019
1058	जेसी431538डब्ल्यू	सुबेदार	जितेन्दर कुमार	01.02.2019
1059	जेसी430865पी	सुबेदार	जॉनसन पीटी	01.02.2019
1060	जेसी431417पी	सुबेदार	कुमार चन्द	01.07.2019
1061	जेसी431533एक्स	सुबेदार	एल सिंह	01.04.2019
1062	जेसी431561के	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.03.2019
1063	जेसी431369ए	सुबेदार	मोहन सिंह	01.03.2019
1064	जेसी430975के	सुबेदार	नैन सिंह	01.02.2019
1065	जेसी430805ए	सुबेदार	नरेंदर कुमार	01.02.2019
1066	जेसी431113एक्स	सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.02.2019
1067	जेसी431212ए	सुबेदार	नवल किशोर	01.02.2019
1068	जेसी430876एफ	सुबेदार	पी गुनाशेखरन	01.03.2019
1069	जेसी430985एन	सुबेदार	पंकज सिंह पुंदीर	01.04.2019
1070	जेसी431186के	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.07.2019
1071	जेसी430770पी	सुबेदार	प्रदीप कुमार	01.08.2019
1072	जेसी430986डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद कुमार बिस्वाल	01.06.2019
1073	जेसी431315वाई	सुबेदार	रघबीर सिंह	01.06.2019
1074	जेसी431451पी	सुबेदार	राजेश कुमार	01.04.2019
1075	जेसी431316एफ	सुबेदार	राम सरूप	01.02.2019
1076	जेसी431385एक्स	सुबेदार	संजीव कुमार	01.02.2019
1077	जेसी430965ए	सुबेदार	संतोख सिंह	01.08.2019
1078	जेसी430959एम	सुबेदार	सरत कुमार मिश्रा	01.03.2019
1079	जेसी431155के	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.02.2019
1080	जेसी430837एच	सुबेदार	शिंदे गजानन सुराव	01.02.2019
1081	जेसी431503ए	सुबेदार	सिरताज सिंह	01.05.2019
1082	जेसी431589के	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2019
1083	जेसी431158एक्स	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह कांग	01.03.2019
1084	जेसी430981एक्स	सुबेदार	ठाकर दास	01.02.2019
1085	जेसी431059पी	सुबेदार	वेद प्रकाश पांडे	01.07.2019

मद्रास सैन्यदल

1086	जेसी440529डब्ल्यू	सुबेदार	ए मुरुगन	01.07.2019
1087	जेसी440768एल	सुबेदार	आजी कुमार जे	01.03.2019
1088	जेसी440354वाई	सुबेदार	एके. प्रमाराजन	01.03.2019
1089	जेसी440593एन	सुबेदार	एके. रामचन्द्रन	01.04.2019
1090	जेसी440483वाई	सुबेदार	अनिल कुमार आरएस	01.06.2019
1091	जेसी440670एक्स	सुबेदार	एंथनी राज पी	01.08.2019
1092	जेसी440515डब्ल्यू	सुबेदार	बी पैटरो	01.04.2019
1093	जेसी440996एन	सुबेदार	बी राजारेडी	01.03.2019
1094	जेसी440108एन	सुबेदार	सी मुथु कुमार	01.03.2019
1095	जेसी440400एच	सुबेदार	चिन्नावेलू वी रामी रेडी	01.03.2019

1096	जेसी440736एच	सुबेदार	दीन दयाल	01.02.2019
1097	जेसी440503एफ	सुबेदार	दीना नाथ पंडा	01.04.2019
1098	जेसी440517एफ	सुबेदार	एलन्नो वी	01.07.2019
1099	जेसी440313पी	सुबेदार	एलुमलाई पी	01.07.2019
1100	जेसी440795पी	सुबेदार	जी. अरोकिनाथन	01.06.2019
1101	जेसी440374एम	सुबेदार	गन्ता बाबू राव	01.04.2019
1102	जेसी440887एफ	सुबेदार	जी. तेली	01.03.2019
1103	जेसी440692डब्ल्यू	सुबेदार	जे शंकर	01.03.2019
1104	जेसी440144वाई	सुबेदार	जया कुमार केआर	01.06.2019
1105	जेसी440836एन	सुबेदार	के रवि	01.03.2019
1106	जेसी440329ए	सुबेदार	किल्ली माधव राव	01.07.2019
1107	जेसी441229एफ	सुबेदार	के अब्दुल गफूर	01.04.2019
1108	जेसी440107एल	सुबेदार	मधू धर्मा राव	01.03.2019
1109	जेसी440460एक्स	सुबेदार	एम आनंद विठल	01.03.2019
1110	जेसी440427ए	सुबेदार	माने मधुकर सदासिव	01.03.2019
1111	जेसी440344पी	सुबेदार	माटा अप्पाराव	01.03.2019
1112	जेसी440553एम	सुबेदार	एन प्रेम कुमार	01.03.2019
1113	जेसी440938के	सुबेदार	पी रघुनाथन	01.03.2019
1114	जेसी440471के	सुबेदार	पी तिरुपती राव	01.05.2019
1115	जेसी439948एफ	सुबेदार	पी हुलूर	01.03.2019
1116	जेसी440426एक्स	सुबेदार	प्रदीप कुमार विश्वास	01.03.2019
1117	जेसी440420डब्ल्यू	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा सोमन	01.03.2019
1118	जेसी440609एन	सुबेदार	आर शंकर	01.08.2019
1119	जेसी440659वाई	सुबेदार	राजाडेसिंगू पी	01.03.2019
1120	जेसी439972एक्स	सुबेदार	राजा राजन के	01.08.2019
1121	जेसी440888के	सुबेदार	रयप्पा	01.03.2019
1122	जेसी440274एफ	सुबेदार	एस कुमार	01.03.2019
1123	जेसी440561एल	सुबेदार	एस लौरुधू सामी	01.05.2019
1124	जेसी440630डब्ल्यू	सुबेदार	संगप्पा जी.	01.03.2019
1125	जेसी440657एन	सुबेदार	सिद्धाप्पा धारवाड़	01.03.2019
1126	जेसी440893पी	सुबेदार	सिद्धाप्पा एम	01.03.2019
1127	जेसी441093एच	सुबेदार	शिवकुमार के	01.03.2019
1128	जेसी440421वाई	सुबेदार	एस मथद	01.03.2019
1129	जेसी440958एक्स	सुबेदार	सुन्दरा राजन ए	01.03.2019
1130	जेसी440693वाई	सुबेदार	सुनील कुमार टी डी	01.03.2019
1131	जेसी440312एम	सुबेदार	सुरेश बाबू पी	01.06.2019
1132	जेसी441137पी	सुबेदार	वी बालनरयना	01.03.2019
1133	जेसी440765एक्स	सुबेदार	विजय कुमार	01.04.2019
1134	जेसी441092ए	सुबेदार	विजय एसए	01.02.2019
1135	जेसी440431एच	सुबेदार	विजयन आर	01.04.2019
1136	जेसी440346ए	सुबेदार	वाइ यसकिअप्पन	01.06.2019
गोलफेंक सेना				
1137	जेसी451411पी	सुबेदार	अब्बास खान	01.08.2019
1138	जेसी451064एफ	सुबेदार	अंगद सिंह	01.02.2019
1139	जेसी449561एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2019
1140	जेसी451572एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.03.2019
1141	जेसी450999पी	सुबेदार	बी मोहम्मद	01.02.2019
1142	जेसी451000डब्ल्यू	सुबेदार	भ्रम प्रकाश	01.02.2019
1143	जेसी451251ए	सुबेदार	भंवर लाल सिनवार	01.03.2019
1144	जेसी451517एफ	सुबेदार	चन्नूपती श्रीनिवास राव	01.04.2019
1145	जेसी451674एल	सुबेदार	दर्शन कुमार शर्मा	01.05.2019
1146	जेसी451599पी	सुबेदार	घासी राम	01.06.2019
1147	जेसी451363ए	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.02.2019
1148	जेसी451544एल	सुबेदार	कबी सुरजय गोड़ा	01.04.2019

1149	जेसी451405एफ	सुबेदार	खगेंद्रा नाथ मैती	01.02.2019
1150	जेसी451828पी	सुबेदार	किशन सिंह	01.07.2019
1151	जेसी451039एच	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.02.2019
1152	जेसी451307एफ	सुबेदार	महावीर सिंह	01.03.2019
1153	जेसी451353डब्ल्यू	सुबेदार	मान सिंह शेखावत	01.07.2019
1154	जेसी451570एम	सुबेदार	मोहन दास एम	01.07.2019
1155	जेसी451401एल	सुबेदार	मोहम्मद आसिफ खान	01.04.2019
1156	जेसी451594डब्ल्यू	सुबेदार	नारंग सिंह	01.06.2019
1157	जेसी451573ए	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	01.03.2019
1158	जेसी451496डब्ल्यू	सुबेदार	नवाब अली	01.03.2019
1159	जेसी451449वाई	सुबेदार	पी सुधाकर सोपानराव	01.03.2019
1160	जेसी451734एक्स	सुबेदार	राज कुमार चौधरी	01.05.2019
1161	जेसी451403डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार राय	01.02.2019
1162	जेसी451404वाई	सुबेदार	राज कुमार शर्मा	01.03.2019
1163	जेसी452051डब्ल्यू	सुबेदार	राजेश कुमार	01.03.2019
1164	जेसी451485के	सुबेदार	राम खिलाड़ी	01.03.2019
1165	जेसी451776के	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.05.2019
1166	जेसी451629एफ	सुबेदार	साबीर अली	01.06.2019
1167	जेसी451015वाई	सुबेदार	सरूप सिंह	01.08.2019
1168	जेसी451355एफ	सुबेदार	शब्बीर अहमद	01.03.2019
1169	जेसी451939एम	सुबेदार	शिव बहादुर	01.04.2019
1170	जेसी451826के	सुबेदार	श्याम वीर सिंह तोमर	01.07.2019
1171	जेसी451686एच	सुबेदार	श्री मुख्तियार सिंह भदुरिया	01.03.2019
1172	जेसी451664के	सुबेदार	सुभाष मान	01.05.2019
1173	जेसी451406के	सुबेदार	सुब्रता कोनार	01.03.2019
1174	जेसी451494एल	सुबेदार	सुनील लक्ष्मणराव पी	01.04.2019
1175	जेसी451729एम	सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह मांगवा	01.03.2019
1176	जेसी451480एल	सुबेदार	उदार राजेंद्रा बाबूराव	01.03.2019
1177	जेसी451618पी	सुबेदार	विजय सिंह	01.03.2019
1178	जेसी451402एन	सुबेदार	याकूब अली	01.08.2019

मराठा लाई

1179	जेसी460283के	सुबेदार	बी अशोक धोन्दीराम	01.03.2019
1180	जेसी460721एफ	सुबेदार	भास्कर बी	01.03.2019
1181	जेसी460557के	सुबेदार	भीम सिंह	01.03.2019
1182	जेसी460132एल	सुबेदार	भोसले मानसिंग श्रीरंग	01.05.2019
1183	जेसी460545पी	सुबेदार	भोसले एस वाइ	01.02.2019
1184	जेसी459574एक्स	सुबेदार	दाते अनिल शंकर	01.02.2019
1185	जेसी460637एफ	सुबेदार	दयानन्द	01.03.2019
1186	जेसी460427एफ	सुबेदार	देशमुख प्रशांत ए	01.02.2019
1187	जेसी460104वाई	सुबेदार	डी. बलबन्त नारायण	01.02.2019
1188	जेसी460816एफ	सुबेदार	डी. टोरगल	01.07.2019
1189	जेसी460430एफ	सुबेदार	गायकवाड सुनील बाबूराव	01.08.2019
1190	जेसी459814के	सुबेदार	जी. सुभाष बाबू	01.02.2019
1191	जेसी460156पी	सुबेदार	गुंजाल अशोक जे	01.03.2019
1192	जेसी460284एम	सुबेदार	जाधव एन आत्माराम	01.05.2019
1193	जेसी460332एफ	सुबेदार	जाधव निवास रामचंद्र	01.03.2019
1194	जेसी460258एल	सुबेदार	जाधव साहेब्रो ए	01.04.2019
1195	जेसी460385ए	सुबेदार	जमदार सहाजी कृष्णा	01.03.2019
1196	जेसी460252के	सुबेदार	कालेल महादेव सुखादियो	01.03.2019
1197	जेसी460630एक्स	सुबेदार	करन सिंह	01.08.2019
1198	जेसी460199के	सुबेदार	कृपे दिलीप रामचंद्र	01.06.2019
1199	जेसी460468एल	सुबेदार	के संजय बालीराम	01.05.2019
1200	जेसी460272एक्स	सुबेदार	कोल्ते पण्डित पाटिलबा	01.03.2019

1201	जेसी460181एन	सुबेदार	एल बजरंग बालकृशना	01.03.2019
1202	जेसी460701एन	सुबेदार	लावान्द रमेश वसंत	01.03.2019
1203	जेसी460606एफ	सुबेदार	माधव कलिता	01.05.2019
1204	जेसी460186एम	सुबेदार	महेश देसे	01.05.2019
1205	जेसी459706ए	सुबेदार	एम विजयकुमार बाबूराव	01.03.2019
1206	जेसी460226एच	सुबेदार	मनोहर परब	01.08.2019
1207	जेसी460276एन	सुबेदार	मुन्ना	01.05.2019
1208	जेसी460000एक्स	सुबेदार	पाटिल यशवन्त रामचंद्र	01.06.2019
1209	जेसी460621डब्ल्यू	सुबेदार	पी रमा राव	01.07.2019
1210	जेसी460508एफ	सुबेदार	आर पी	01.04.2019
1211	जेसी460434एक्स	सुबेदार	रावूल गोविंद रामकृशना	01.03.2019
1212	जेसी460422एच	सुबेदार	सजीवन जी.	01.04.2019
1213	जेसी460913वाई	सुबेदार	सालुंखे सुरेश गोविंद	01.07.2019
1214	जेसी460631ए	सुबेदार	सतीश कुमार सिंह	01.08.2019
1215	जेसी460723एम	सुबेदार	सावंत विजय शान्ताराम	01.07.2019
1216	जेसी460549एल	सुबेदार	सुनील दत्ता शर्मा	01.03.2019
1217	जेसी459692एल	सुबेदार	तुकाराम शिंदे	01.05.2019
1218	जेसी460536एन	सुबेदार	वेदपाल सिंह	01.02.2019
1219	जेसी459948एच	सुबेदार	वेन्कटप्पा बी	01.02.2019
1220	जेसी460573एफ	सुबेदार	विजया कुमार कुरुप के	01.04.2019
1221	जेसी460421ए	सुबेदार	वाणी नरहरी करभरी	01.03.2019
1222	जेसी460363एफ	सुबेदार	यवाले दत्तत्रे विनायकराव	01.07.2019

राजपूताना बन्दूकधारी सेना

1223	जेसी470404एन	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.03.2019
1224	जेसी471080ए	सुबेदार	अजीत कुमार	01.04.2019
1225	जेसी470753एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	01.07.2019
1226	जेसी471211ए	सुबेदार	ए लाल	01.04.2019
1227	जेसी471052एन	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	01.03.2019
1228	जेसी470995ए	सुबेदार	अरुण कुमार सिंह	01.04.2019
1229	जेसी471081एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.06.2019
1230	जेसी471192ए	सुबेदार	अशोक सिंह	01.04.2019
1231	जेसी470966एल	सुबेदार	बाबू लाल खिलेरी	01.04.2019
1232	जेसी471006वाई	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.04.2019
1233	जेसी471249के	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2019
1234	जेसी471032ए	सुबेदार	भूप सिंह राठोड़	01.03.2019
1235	जेसी470189एन	सुबेदार	चतर सिंह	01.07.2019
1236	जेसी471407एन	सुबेदार	छगन सिंह	01.04.2019
1237	जेसी471163एल	सुबेदार	दोलत अली	01.06.2019
1238	जेसी470948एच	सुबेदार	दुर्गा प्रसाद	01.06.2019
1239	जेसी470346पी	सुबेदार	फतेह सिंह	01.03.2019
1240	जेसी470993पी	सुबेदार	गज राज	01.04.2019
1241	जेसी471105एफ	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.04.2019
1242	जेसी470972वाई	सुबेदार	इंदराज सिंह	01.03.2019
1243	जेसी471213एल	सुबेदार	इश्वर सिंह महाला	01.04.2019
1244	जेसी470757एन	सुबेदार	जबार सिंह	01.04.2019
1245	जेसी470934एच	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.03.2019
1246	जेसी470556पी	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.08.2019
1247	जेसी470986वाई	सुबेदार	जय प्रकाश	01.04.2019
1248	जेसी470974के	सुबेदार	जयवीर सिंह कुंडू	01.06.2019
1249	जेसी471055एफ	सुबेदार	जे सिंह	01.05.2019
1250	जेसी471107एम	सुबेदार	कमलेश सिंह	01.04.2019
1251	जेसी471261एल	सुबेदार	करन सिंह	01.03.2019
1252	जेसी471184एफ	सुबेदार	कृष्णा पाल सिंह	01.03.2019

1253	जेसी470935एल	सुबेदार	महाबीर सिंह	01.04.2019
1254	जेसी469668एच	सुबेदार	महेंद्र बहादुर सिंह	01.03.2019
1255	जेसी470831के	सुबेदार	महेश कुमार	01.06.2019
1256	जेसी471307एच	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.04.2019
1257	जेसी471404ए	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.05.2019
1258	जेसी471210एक्स	सुबेदार	मंगा राम जी.	01.04.2019
1259	जेसी471114एच	सुबेदार	मंगत सिंह	01.04.2019
1260	जेसी470306एन	सुबेदार	मातवर सिंह	01.05.2019
1261	जेसी471096एल	सुबेदार	मोहम्मद साबिर अली गाज़ी	01.03.2019
1262	जेसी470940डब्ल्यू	सुबेदार	नगेन्द्र कुमार	01.04.2019
1263	जेसी471099वाई	सुबेदार	नरेंद्र कुमार	01.03.2019
1264	जेसी470850पी	सुबेदार	नरेश सिंह तोमर	01.04.2019
1265	जेसी471217एफ	सुबेदार	नटवर सिंह	01.06.2019
1266	जेसी470181एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2019
1267	जेसी471019डब्ल्यू	सुबेदार	प्रदीप कुमार सिंह	01.03.2019
1268	जेसी470855एन	सुबेदार	प्रमोद कुमार राय	01.03.2019
1269	जेसी471095एच	सुबेदार	पी प्रताप सिंह	01.03.2019
1270	जेसी470893के	सुबेदार	प्रयाग सिंह	01.04.2019
1271	जेसी470666के	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.03.2019
1272	जेसी470924वाई	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.07.2019
1273	जेसी470555एम	सुबेदार	राज कुमार	01.06.2019
1274	जेसी470890डब्ल्यू	सुबेदार	राज सिंह	01.03.2019
1275	जेसी471320एम	सुबेदार	राजेश सिंह	01.04.2019
1276	जेसी470869एन	सुबेदार	राजेश सिंह तोमर	01.04.2019
1277	जेसी470689एल	सुबेदार	राम गोपाल	01.06.2019
1278	जेसी471238एक्स	सुबेदार	राम निवास गुर्जर	01.03.2019
1279	जेसी470954डब्ल्यू	सुबेदार	राम पाल सिंह शेखावत	01.04.2019
1280	जेसी470827एफ	सुबेदार	राम प्रवेश सिंह	01.02.2019
1281	जेसी470994एक्स	सुबेदार	रतन चंद्रा मंडल	01.04.2019
1282	जेसी470865एक्स	सुबेदार	साही राम झाझरिया	01.04.2019
1283	जेसी471229डब्ल्यू	सुबेदार	सरजीत सिंह गुर्जर	01.03.2019
1284	जेसी470881पी	सुबेदार	सत्य पाल	01.03.2019
1285	जेसी471151डब्ल्यू	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.04.2019
1286	जेसी471015ए	सुबेदार	शिव सर्जन सिंह	01.08.2019
1287	जेसी470984एन	सुबेदार	शेर सिंह	01.04.2019
1288	जेसी471371ए	सुबेदार	शीश राम गूजर	01.04.2019
1289	जेसी471475एफ	सुबेदार	शिव बहादुर सिंह बी	01.04.2019
1290	जेसी471038एफ	सुबेदार	शिव राज सिंह चौहान	01.02.2019
1291	जेसी470838एन	सुबेदार	श्री राम गुर्जर	01.03.2019
1292	जेसी470562एच	सुबेदार	श्री राम सिंह	01.06.2019
1293	जेसी471103डब्ल्यू	सुबेदार	सोहन लाल	01.06.2019
1294	जेसी471333के	सुबेदार	सुभाष चंद्रा के	01.03.2019
1295	जेसी470755एच	सुबेदार	सूरज भान सिंह	01.04.2019
1296	जेसी471248एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
1297	जेसी470507एम	सुबेदार	सुरेश बहादुर सिंह	01.03.2019
1298	जेसी471196डब्ल्यू	सुबेदार	उमेद सिंह	01.04.2019
1299	जेसी470864पी	सुबेदार	विजय सिंह	01.03.2019
1300	जेसी470977एक्स	सुबेदार	विजेश पाल सिंह	01.04.2019
1301	जेसी470814के	सुबेदार	विनय सिंह	01.03.2019
1302	जेसी471488वाई	सुबेदार	विनोद सिंह	01.03.2019
1303	जेसी470970एन	सुबेदार	वजीर सिंह	01.06.2019
1304	जेसी471296एफ	सुबेदार	योगेंद्र सिंह	01.03.2019
1305	जेसी470816पी	सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह	01.02.2019

राजपूत सैन्यदल

1306	जेसी481268एच	सुबेदार	ए पाल सिंह	01.03.2019
1307	जेसी481142एच	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.07.2019
1308	जेसी481003वाई	सुबेदार	बाबू लाल	01.02.2019
1309	जेसी481225एन	सुबेदार	बैज नाथ सिंह	01.05.2019
1310	जेसी480538ए	सुबेदार	बशिसटा मुनि	01.06.2019
1311	जेसी481084के	सुबेदार	भवानी सिंह	01.07.2019
1312	जेसी481035एफ	सुबेदार	ब्रज राज सिंह	01.03.2019
1313	जेसी480562डब्ल्यू	सुबेदार	दर्शन कुमार	01.07.2019
1314	जेसी481384एल	सुबेदार	हरज्ञान सिंह	01.03.2019
1315	जेसी480407पी	सुबेदार	हरी प्रकाश	01.02.2019
1316	जेसी481348ए	सुबेदार	मधु सूदन घोष	01.05.2019
1317	जेसी481363पी	सुबेदार	महेन्द्र सिंह गुर्जर	01.07.2019
1318	जेसी481109एल	सुबेदार	एम बाबाजी जी.	01.07.2019
1318	जेसी480343पी	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह, एसएम	01.05.2019
1320	जेसी480771एन	सुबेदार	मोहम्मद भूरे खान	01.02.2019
1321	जेसी481092एच	सुबेदार	मोहन सिंह	01.03.2019
1322	जेसी481137एक्स	सुबेदार	मुकेश कुमार शर्मा	01.04.2019
1323	जेसी480637एच	सुबेदार	मुन्ना तिवारी	01.07.2019
1324	जेसी481037एम	सुबेदार	एन कुमार के	01.03.2019
1325	जेसी480836डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2019
1326	जेसी480829ए	सुबेदार	पठान फिरोज खान	01.03.2019
1327	जेसी481519एफ	सुबेदार	प्रदीप सिंह	01.05.2019
1328	जेसी481107ए	सुबेदार	प्रमोद कुमार नायक	01.04.2019
1329	जेसी480503के	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.03.2019
1330	जेसी481360एफ	सुबेदार	राज सिंह माबी	01.05.2019
1331	जेसी481118एम	सुबेदार	रामवतार सिंह गुर्जर	01.07.2019
1332	जेसी480767एल	सुबेदार	एस सिंह गुर्जर	01.05.2019
1333	जेसी480412ए	सुबेदार	सिया राम	01.03.2019
1334	जेसी481004एफ	सुबेदार	एस आरएम	01.02.2019
1335	जेसी481420एल	सुबेदार	सुभास चंद्रा माजी	01.07.2019
1336	जेसी480429एन	सुबेदार	सुजय कुमार दास	01.04.2019
1337	जेसी481342वाई	सुबेदार	सुनील कुमार	01.03.2019
1338	जेसी480761के	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.07.2019
1339	जेसी481041पी	सुबेदार	वेद राम	01.08.2019
1340	जेसी480319वाई	सुबेदार	विजय पाल सिंह	01.03.2019
1341	जेसी481218एक्स	सुबेदार	विराम सिंह चौहान	01.07.2019

जाट सैन्यदल

1342	जेसी490781एल	सुबेदार	अमन सिंह	01.07.2019
1343	जेसी490842एक्स	सुबेदार	अमर चन्द दूत	01.05.2019
1344	जेसी490802डब्ल्यू	सुबेदार	अनिल कुमार	01.03.2019
1345	जेसी490887एक्स	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.04.2019
1346	जेसी490916एफ	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.07.2019
1347	जेसी490774पी	सुबेदार	बलबीर	01.03.2019
1348	जेसी490826ए	सुबेदार	बनवारी लाल	01.03.2019
1349	जेसी490923एक्स	सुबेदार	बिजया कुमार दाश	01.04.2019
1350	जेसी490968एक्स	सुबेदार	बीरपाल सिंह	01.02.2019
1351	जेसी490324एक्स	सुबेदार	गोपाल लाल बी	01.08.2019
1352	जेसी491085ए	सुबेदार	हंस राम	01.05.2019
1353	जेसी490702एल	सुबेदार	हरी सिंह	01.03.2019
1354	जेसी491131के	सुबेदार	हरी सिंह गुर्जर	01.05.2019
1355	जेसी490837एम	सुबेदार	हरजिन्द्र पाल	01.06.2019

1356	जेसी490676पी	सुबेदार	हरविंदर कुमार	01.07.2019
1357	जेसी490773एम	सुबेदार	जयंत बागची	01.02.2019
1358	जेसी490807पी	सुबेदार	जोज़ वी जॉन	01.04.2019
1359	जेसी491027डब्ल्यू	सुबेदार	एल राम चाहर	01.03.2019
1360	जेसी491134एक्स	सुबेदार	नंदा राम	01.07.2019
1361	जेसी490878डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2019
1362	जेसी490814एल	सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.04.2019
1363	जेसी490808एक्स	सुबेदार	राधा कृष्णा पिल्लई आर	01.04.2019
1364	जेसी490948के	सुबेदार	रामेश्वर लाल	01.06.2019
1365	जेसी490853के	सुबेदार	रनवीर सिंह	01.07.2019
1366	जेसी490777एच	सुबेदार	रेख सिंह गुर्जर	01.07.2019
1367	जेसी490718डब्ल्यू	सुबेदार	साही राम	01.03.2019
1368	जेसी490734एन	सुबेदार	संतोष कुमार	01.03.2019
1369	जेसी490880एन	सुबेदार	शियो लाल	01.03.2019
1370	जेसी490834वाई	सुबेदार	श्री भगवान	01.03.2019
1371	जेसी490889एच	सुबेदार	श्याम बाबू प्रसाद	01.03.2019
1372	जेसी489745एन	सुबेदार	शुभ करन सिंह	01.02.2019
1373	जेसी490988एल	सुबेदार	सुनील कुमार	01.07.2019
1374	जेसी490465एम	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.08.2019
1375	जेसी490624वाई	सुबेदार	विष्णु	01.02.2019

सिख सैन्यदल

1376	जेसी500543पी	सुबेदार	अजीत सिंह	01.03.2019
1377	जेसी500611एक्स	सुबेदार	बजिंदर सिंह	01.03.2019
1378	जेसी500281के	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.06.2019
1379	जेसी500286एच	सुबेदार	दलविन्दर सिंह	01.05.2019
1380	जेसी500430एम	सुबेदार	देविन्द्र सिंह	01.05.2019
1381	जेसी500093एच	सुबेदार	देशमुख दादाजी दत्तत्रे	01.03.2019
1382	जेसी500508एम	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.04.2019
1383	जेसी500402ए	सुबेदार	हरदेव सिंह	01.04.2019
1384	जेसी500536वाई	सुबेदार	हरदीप सिंह	01.04.2019
1385	जेसी500707ए	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.03.2019
1386	जेसी500522वाई	सुबेदार	हरमेल सिंह	01.04.2019
1387	जेसी499962एक्स	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.03.2019
1388	जेसी500666एफ	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.07.2019
1389	जेसी499963ए	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.03.2019
1390	जेसी500863के	सुबेदार	एम सिंह	01.03.2019
1391	जेसी500573एम	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.03.2019
1392	जेसी500115डब्ल्यू	सुबेदार	मान सिंह	01.04.2019
1393	जेसी500409के	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.07.2019
1394	जेसी500846के	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.03.2019
1395	जेसी500428पी	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.04.2019
1396	जेसी500387डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश महतो	01.04.2019
1397	जेसी500617वाई	सुबेदार	प्रेम सिंह संधू	01.03.2019
1398	जेसी500216के	सुबेदार	राजा राम शर्मा	01.05.2019
1399	जेसी500346एम	सुबेदार	रामनिवास गुर्जर	01.07.2019
1400	जेसी500511एम	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2019
1401	जेसी499825वाई	सुबेदार	रूपेन्द्र सिंह	01.04.2019
1402	जेसी500504डब्ल्यू	सुबेदार	सालविन्दर सिंह	01.04.2019
1403	जेसी500432वाई	सुबेदार	संसार सिंह	01.05.2019
1404	जेसी500962एम	सुबेदार	सर्बजीत सिंह	01.03.2019
1405	जेसी500422एन	सुबेदार	सतगुर सिंह	01.04.2019
1406	जेसी500096डब्ल्यू	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.03.2019
1407	जेसी500436एन	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.04.2019

1408	जेसी500469वाई	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.04.2019
1409	जेसी500427एम	सुबेदार	सुखदीप सिंह	01.02.2019
1410	जेसी500603वाई	सुबेदार	उमेश चंद्रा	01.07.2019
1411	जेसी500114एन	सुबेदार	विद्या सागर	01.04.2019

सिख लघु पैदल सेना

1412	जेसी510110एल	सुबेदार	अवतार सिंह	01.02.2019
1413	जेसी510107एल	सुबेदार	बलबीर सिंह जस्सल	01.04.2019
1414	जेसी509237एफ	सुबेदार	बलजिन्दर सिंह	01.02.2019
1415	जेसी510562एन	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.07.2019
1416	जेसी510051के	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.04.2019
1417	जेसी510160डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.04.2019
1418	जेसी510136ए	सुबेदार	बिकर सिंह राव	01.02.2019
1419	जेसी509530वाई	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.04.2019
1420	जेसी510153ए	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.04.2019
1421	जेसी510223एन	सुबेदार	जी. बी शम्भू गिरि	01.04.2019
1422	जेसी509921के	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.04.2019
1423	जेसी510037एक्स	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.02.2019
1424	जेसी509787के	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.04.2019
1425	जेसी510047एफ	सुबेदार	हरनेक सिंह	01.04.2019
1426	जेसी510132के	सुबेदार	जाधव विलास ईश्वर	01.03.2019
1427	जेसी509873पी	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.02.2019
1428	जेसी510001वाई	सुबेदार	जगजोध सिंह	01.04.2019
1429	जेसी509485एक्स	सुबेदार	जगरूप सिंह	01.02.2019
1430	जेसी510266एच	सुबेदार	जया कुमार एस	01.05.2019
1431	जेसी509992एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.04.2019
1432	जेसी510049एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.02.2019
1433	जेसी510268एन	सुबेदार	मेल सिंह	01.02.2019
1434	जेसी510090एच	सुबेदार	मुख्त्यार सिंह	01.02.2019
1435	जेसी509907एक्स	सुबेदार	नजर सिंह	01.02.2019
1436	जेसी510134पी	सुबेदार	पाटिल नंदराव वसन्तरव	01.03.2019
1437	जेसी510244के	सुबेदार	प्रकाश सी	01.04.2019
1438	जेसी510175वाई	सुबेदार	राजेश एन भट्ट	01.03.2019
1439	जेसी510126डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.02.2019
1440	जेसी509688एफ	सुबेदार	राम सिंह	01.04.2019
1441	जेसी510040एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.02.2019
1442	जेसी509967एम	सुबेदार	सरबजीत सिंह	01.02.2019
1443	जेसी510115के	सुबेदार	सतपाल सिंह	01.02.2019
1444	जेसी510168एच	सुबेदार	श्योराज सिंह राना	01.03.2019
1445	जेसी510199एच	सुबेदार	सिकंदर सिंह	01.07.2019
1446	जेसी510217ए	सुबेदार	सुखमिंदर सिंह	01.02.2019
1447	जेसी510147एम	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.02.2019
1448	जेसी510289के	सुबेदार	विजया कुमार वी वी	01.04.2019

डोगरा सैन्यदल

1449	जेसी521695के	सुबेदार	अजय सिंह	01.05.2019
1450	जेसी521684एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार	01.06.2019
1451	जेसी522056पी	सुबेदार	अनिल कुमार शर्मा	01.03.2019
1452	जेसी520986एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार ठाकुर	01.05.2019
1453	जेसी521549के	सुबेदार	अशोक कुमार	01.07.2019
1454	जेसी521809के	सुबेदार	अशवनी कुमार	01.02.2019
1455	जेसी521608एल	सुबेदार	बचिंदर कुमार	01.03.2019
1456	जेसी521703एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.08.2019
1457	जेसी521397एन	सुबेदार	बलदेव राज	01.07.2019

1458	जेसी521581वाई	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.06.2019
1459	जेसी521471के	सुबेदार	भरत भूषण	01.08.2019
1460	जेसी521576एन	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	01.03.2019
1461	जेसी521246पी	सुबेदार	सी सिंह चाहर	01.03.2019
1462	जेसी521472एम	सुबेदार	देश राज	01.07.2019
1463	जेसी522039पी	सुबेदार	दीदार सिंह	01.05.2019
1464	जेसी521662वाई	सुबेदार	जी. चन्द	01.03.2019
1465	जेसी522169एक्स	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2019
1466	जेसी521765एक्स	सुबेदार	गुरदयाल सिंह	01.03.2019
1467	जेसी521538एक्स	सुबेदार	हरदेव सिंह	01.05.2019
1468	जेसी521440के	सुबेदार	हरदयाल सिंह	01.06.2019
1469	जेसी521553एम	सुबेदार	हरीश चंद्र	01.06.2019
1470	जेसी521596एफ	सुबेदार	हीरा नन्द	01.08.2019
1471	जेसी521676वाई	सुबेदार	इकबाल सिंह	01.08.2019
1472	जेसी521928ए	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.03.2019
1473	जेसी522111ए	सुबेदार	जतिंद्र कुमार	01.05.2019
1474	जेसी520997के	सुबेदार	जीत सिंह	01.07.2019
1475	जेसी521237एन	सुबेदार	जीत सिंह	01.05.2019
1476	जेसी522010एम	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.03.2019
1477	जेसी521660एन	सुबेदार	कमलेश कुमार	01.03.2019
1478	जेसी521747पी	सुबेदार	कर्म सिंह	01.07.2019
1479	जेसी521563डब्ल्यू	सुबेदार	किशोर कुमार	01.05.2019
1480	जेसी520524एल	सुबेदार	कष्णन सिंह	01.05.2019
1481	जेसी521542ए	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.07.2019
1482	जेसी521957पी	सुबेदार	कुलदीप कुमार	01.03.2019
1483	जेसी521925एम	सुबेदार	मदन सिंह	01.07.2019
1484	जेसी521715एम	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.06.2019
1485	जेसी521259एम	सुबेदार	मोहम्मद एम एसके.	01.04.2019
1486	जेसी522101डब्ल्यू	सुबेदार	मोती सिंह	01.07.2019
1487	जेसी521663एफ	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	01.03.2019
1488	जेसी522058ए	सुबेदार	नरिंदर प्रकाश	01.03.2019
1489	जेसी521500एन	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.06.2019
1490	जेसी521728के	सुबेदार	पर्शोतम लाल	01.03.2019
1491	जेसी521395एच	सुबेदार	प्रताप चन्द	01.07.2019
1492	जेसी521282ए	सुबेदार	पवन कुमार	01.08.2019
1493	जेसी521737एल	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.03.2019
1494	जेसी521600वाई	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.06.2019
1495	जेसी521438एम	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.03.2019
1496	जेसी521735ए	सुबेदार	राजेश कुमार गुलेरिया	01.03.2019
1497	जेसी522157डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर देव सिंह	01.07.2019
1498	जेसी521673एल	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.08.2019
1499	जेसी520360ए	सुबेदार	राकेश चन्द	01.05.2019
1500	जेसी521446एल	सुबेदार	राकेश कुमार	01.03.2019
1501	जेसी521513एल	सुबेदार	राम कष्णन	01.04.2019
1502	जेसी521258के	सुबेदार	रमेशन नायर के	01.04.2019
1503	जेसी521714के	सुबेदार	रमेश कुमार	01.06.2019
1504	जेसी521653एक्स	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.03.2019
1505	जेसी521704ए	सुबेदार	संसार सिंह	01.02.2019
1506	जेसी521749ए	सुबेदार	संतोष कुमार राना	01.07.2019
1507	जेसी521151पी	सुबेदार	सरताज सिंह	01.03.2019
1508	जेसी521664के	सुबेदार	सतीश कुमार	01.05.2019
1509	जेसी521312एम	सुबेदार	सोहन लाल	01.06.2019
1510	जेसी521363ए	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.06.2019
1511	जेसी519863वाई	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.07.2019

1512	जेसी521406के	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2019
1513	जेसी522034डब्ल्यू	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.05.2019
1514	जेसी521597के	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह बद्राल	01.06.2019
1515	जेसी521670एक्स	सुबेदार	सुशील चन्द कटोच	01.07.2019
1516	जेसी521746एम	सुबेदार	तरसेम लाल	01.07.2019
1517	जेसी520382वाई	सुबेदार	उत्तातम चन्द	01.02.2019
1518	जेसी521953वाई	सुबेदार	विजय कुमार	01.05.2019
1519	जेसी521694एक्स	सुबेदार	विपिन कुमार	01.06.2019
1520	जेसी521748एक्स	सुबेदार	विश्वा मित्तर	01.07.2019
गढवाल बन्दूकधारी सेना				
1521	जेसी531164ए	सुबेदार	अजया कुमार मोहंती	01.04.2019
1522	जेसी531027एफ	सुबेदार	अनिल कुमार पोखरियाल	01.05.2019
1523	जेसी531494वाई	सुबेदार	अर्जुन सिंह नेगी	01.06.2019
1524	जेसी531441ए	सुबेदार	बचन सिंह रावत	01.04.2019
1525	जेसी531688एफ	सुबेदार	बलबीर सिंह रावत	01.07.2019
1526	जेसी531259ए	सुबेदार	बासुदेव सिंह	01.04.2019
1527	जेसी531165एच	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.05.2019
1528	जेसी531630के	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह नेगी	01.06.2019
1529	जेसी531704एन	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह रावत	01.06.2019
1530	जेसी531148एच	सुबेदार	चंद्रा मोहन सिंह	01.06.2019
1531	जेसी531681एक्स	सुबेदार	दया नन्द पी	01.06.2019
1532	जेसी531327एच	सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद	01.05.2019
1533	जेसी531660एफ	सुबेदार	धन सिंह	01.06.2019
1534	जेसी531589वाई	सुबेदार	धर्मन्द्र सिंह	01.03.2019
1535	जेसी531505ए	सुबेदार	दिनेश सिंह रावत	01.04.2019
1536	जेसी531634ए	सुबेदार	गौतम सिंह भंडारी	01.03.2019
1537	जेसी530136एफ	सुबेदार	गोपाल मनी	01.05.2019
1538	जेसी531140डब्ल्यू	सुबेदार	होशियार सिंह रावत	01.02.2019
1539	जेसी530484एच	सुबेदार	जयपाल सिंह	01.05.2019
1540	जेसी531275एक्स	सुबेदार	करन सिंह	01.03.2019
1541	जेसी530987एन	सुबेदार	केशर सिंह	01.08.2019
1542	जेसी531166एल	सुबेदार	कुशाल कुमार	01.07.2019
1543	जेसी531650एक्स	सुबेदार	लक्ष्मण सिंह	01.05.2019
1544	जेसी529923डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप सिंह यादव	01.02.2019
1545	जेसी531274पी	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.07.2019
1546	जेसी531127एम	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.03.2019
1547	जेसी531240एफ	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.06.2019
1548	जेसी531702एच	सुबेदार	राजेश कुमार	01.06.2019
1549	जेसी531371एम	सुबेदार	राजेश कुमार यादव	01.05.2019
1550	जेसी531599एच	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.03.2019
1551	जेसी531798डब्ल्यू	सुबेदार	राकेश प्रसाद	01.03.2019
1552	जेसी531653एल	सुबेदार	राम सिंह के	01.06.2019
1553	जेसी531842पी	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.07.2019
1554	जेसी531217एन	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.03.2019
1555	जेसी531474एल	सुबेदार	रोशन लाल	01.06.2019
1556	जेसी531260पी	सुबेदार	एस सिंह रावत	01.06.2019
1557	जेसी531309ए	सुबेदार	सुमन लाल	01.03.2019
1558	जेसी531466एम	सुबेदार	सुनील सिंह	01.03.2019
1559	जेसी531243पी	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.02.2019
1560	जेसी531438ए	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.03.2019
1561	जेसी531712एम	सुबेदार	सुरजीत सिंह रावत	01.06.2019
1562	जेसी531114पी	सुबेदार	तेजेन्द्र सिंह	01.02.2019
1563	जेसी531386पी	सुबेदार	उमा दत्त	01.03.2019

1564	जेसी531565पी	सुबेदार	विजय सिंह	01.03.2019
1565	जेसी531524एल	सुबेदार	विक्रम सिंह बिस्ट	01.08.2019
1566	जेसी531618एच	सुबेदार	विक्रम सिंह नेगी	01.04.2019
1567	जेसी531434के	सुबेदार	यदुनाथ सिंह	01.04.2019
1568	जेसी531548पी	सुबेदार	योगेश दत्ता शर्मा	01.05.2019
कुर्माँउ सैन्यदल				
1569	जेसी540970एन	सुबेदार	बाबू के वी	01.04.2019
1570	जेसी540880एम	सुबेदार	बस्ती राम यादव	01.04.2019
1571	जेसी541370एक्स	सुबेदार	भगवान सिंह	01.08.2019
1572	जेसी541052एन	सुबेदार	भरत सिंह	01.05.2019
1573	जेसी541227एल	सुबेदार	भूपाल सिंह राना	01.05.2019
1574	जेसी541106के	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.04.2019
1575	जेसी541346एफ	सुबेदार	डी. शंकर दयानदेव	01.04.2019
1576	जेसी541349पी	सुबेदार	दलीप सिंह	01.07.2019
1577	जेसी541024एफ	सुबेदार	देवकी नंदन	01.08.2019
1578	जेसी541098डब्ल्यू	सुबेदार	दीन दयाल	01.04.2019
1579	जेसी540554के	सुबेदार	दिनेश चंद्रा	01.06.2019
1580	जेसी541257एच	सुबेदार	दिनेश सिंह धामी	01.07.2019
1581	जेसी541131एच	सुबेदार	गिरीश चंद्रा जोशी	01.06.2019
1582	जेसी540839डब्ल्यू	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.06.2019
1583	जेसी541332एफ	सुबेदार	जाधव वसंत शीशराव	01.04.2019
1584	जेसी540244वाई	सुबेदार	जनक सिंह	01.02.2019
1585	जेसी540799ए	सुबेदार	जयपाल सिंह	01.03.2019
1586	जेसी541407एन	सुबेदार	खुशाहल सिंह चौहान	01.08.2019
1587	जेसी540907वाई	सुबेदार	लाल मनी	01.03.2019
1588	जेसी541343एन	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह रावत	01.03.2019
1589	जेसी541322एक्स	सुबेदार	माधव सिंह यादवा	01.05.2019
1590	जेसी541195एन	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.06.2019
1591	जेसी541149वाई	सुबेदार	महेंद्र सिंह रौतेला	01.08.2019
1592	जेसी540764के	सुबेदार	मुनिश्वर सिंह	01.02.2019
1593	जेसी541179डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.07.2019
1594	जेसी541439डब्ल्यू	सुबेदार	प्रवीन सिंह	01.08.2019
1595	जेसी541169एम	सुबेदार	पूरन सिंह	01.08.2019
1596	जेसी541268पी	सुबेदार	पूर्ण सिंह	01.02.2019
1597	जेसी541023वाई	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.08.2019
1598	जेसी541473डब्ल्यू	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.05.2019
1599	जेसी541545पी	सुबेदार	राज कुमार	01.04.2019
1600	जेसी541468एल	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह धौनी	01.05.2019
1601	जेसी541502ए	सुबेदार	रमा नन्द	01.05.2019
1602	जेसी541313डब्ल्यू	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.04.2019
1603	जेसी540730डब्ल्यू	सुबेदार	रोहिताश सिंह यादव	01.02.2019
1604	जेसी541166वाई	सुबेदार	तपन कुमार प्रधान	01.04.2019
1605	जेसी541022डब्ल्यू	सुबेदार	उमा कांत द्विवेदी	01.06.2019
1606	जेसी540906डब्ल्यू	सुबेदार	वी पद्मा कुमार	01.02.2019
1607	जेसी541261एल	सुबेदार	विनोद चन्द राजवर	01.08.2019
1608	जेसी541203एफ	सुबेदार	विरेंद्र सिंह यादव	01.05.2019
1609	जेसी541447पी	सुबेदार	वाइ कुमार	01.03.2019
आसाम सैन्यदल				
1610	जेसी550093वाई	सुबेदार	बाल बहादुर प्रधान	01.02.2019
1611	जेसी550588एल	सुबेदार	भागीरथ पौवदल	01.03.2019
1612	जेसी550598पी	सुबेदार	बिजय गोहीना	01.03.2019
1613	जेसी550381एल	सुबेदार	चन्दन केआर नाथ	01.03.2019

1614	जेसी550738डब्ल्यू	सुबेदार	सी के तंगखुल नाग	01.05.2019
1615	जेसी550394एच	सुबेदार	दामर बहादुर थापा	01.08.2019
1616	जेसी550745एम	सुबेदार	डी. देब बर्मा	01.03.2019
1617	जेसी550542एच	सुबेदार	डी. संग	01.06.2019
1618	जेसी550496वाई	सुबेदार	धनेश च. राय	01.07.2019
1619	जेसी550323एफ	सुबेदार	धनेश्वर ब्रमा	01.06.2019
1620	जेसी549999एक्स	सुबेदार	दिनेशन पी	01.06.2019
1621	जेसी550088एन	सुबेदार	गौतम बरथाकुर	01.05.2019
1622	जेसी549997एम	सुबेदार	गिरधारी लाल	01.02.2019
1623	जेसी550337एफ	सुबेदार	एच अजीत कुमार सिंह	01.05.2019
1624	जेसी550627वाई	सुबेदार	जे एस सी अनल	01.05.2019
1625	जेसी550296एच	सुबेदार	जापान च. हज़ारिका	01.07.2019
1626	जेसी550486पी	सुबेदार	कामेश्वर डेका	01.08.2019
1627	जेसी550431एल	सुबेदार	के बोरो	01.06.2019
1628	जेसी550571एक्स	सुबेदार	के इबूनगोटन सिंह	01.05.2019
1629	जेसी550216ए	सुबेदार	कुमजकप	01.06.2019
1630	जेसी550312पी	सुबेदार	एल के एमआईएल सामते	01.03.2019
1631	जेसी549749डब्ल्यू	सुबेदार	एल श्याम कुमार सिंह	01.02.2019
1632	जेसी548849पी	सुबेदार	लैशराम संजीत सिंह	01.08.2019
1633	जेसी549061के	सुबेदार	लालरिइतपुरई	01.07.2019
1634	जेसी550632के	सुबेदार	लालवाला	01.03.2019
1635	जेसी550052पी	सुबेदार	लंघू टी अनल	01.05.2019
1636	जेसी550391पी	सुबेदार	एल डायमारी	01.06.2019
1637	जेसी550513एन	सुबेदार	एलएच बेंगम अनल	01.05.2019
1638	जेसी550565के	सुबेदार	एलएच विलिअनगसन	01.03.2019
1639	जेसी550484के	सुबेदार	मान कुमार प्रधान	01.06.2019
1640	जेसी550473एक्स	सुबेदार	एन दिलीप कुमार सिंह	01.05.2019
1641	जेसी550317एन	सुबेदार	पी थॉग	01.05.2019
1642	जेसी549806एम	सुबेदार	पी कुकी	01.03.2019
1643	जेसी550572ए	सुबेदार	फोनीधार गोगोई	01.05.2019
1644	जेसी550564एफ	सुबेदार	आर लालथूपिआ	01.03.2019
1645	जेसी550102पी	सुबेदार	रोकिमा	01.03.2019
1646	जेसी550336वाई	सुबेदार	आर हमर	01.06.2019
1647	जेसी550672एल	सुबेदार	एस एस ए लमकंग नाग	01.03.2019
1648	जेसी550265एच	सुबेदार	साबित बरुयह	01.07.2019
1649	जेसी550471एम	सुबेदार	सचिन कुमार राय	01.02.2019
1650	जेसी550440एम	सुबेदार	शनतोश शर्मा	01.03.2019
1651	जेसी550436के	सुबेदार	एस अली मजुमदार	01.05.2019
1652	जेसी550464डब्ल्यू	सुबेदार	एस जी.	01.08.2019
1653	जेसी550469पी	सुबेदार	सोमल बसुमा	01.05.2019
1654	जेसी550673एन	सुबेदार	एसआर लवजॉय अनल	01.03.2019
1655	जेसी550411एक्स	सुबेदार	एस ब्रमा	01.06.2019
1656	जेसी550599एक्स	सुबेदार	डब्ल्यू एस एल अनल	01.05.2019
1657	जेसी550254डब्ल्यू	सुबेदार	वाहेन्नाबम आइ सिंह	01.06.2019
1658	जेसी550402डब्ल्यू	सुबेदार	वाइ एच सिंघा	01.06.2019
1659	जेसी550010एच	सुबेदार	वाइ राजेंद्रा सिंह	01.02.2019

बिहार सैन्यदल

1660	जेसी560673एफ	सुबेदार	अजय कुमार बिमल	01.03.2019
1661	जेसी560891ए	सुबेदार	अमर नाथ सिंह	01.04.2019
1662	जेसी560910ए	सुबेदार	अनिल कुमार मिंज	01.04.2019
1663	जेसी560300एन	सुबेदार	एंथनी सोरन	01.04.2019
1664	जेसी559812एन	सुबेदार	अर्विन्द कुमार भारती	01.03.2019
1665	जेसी560528के	सुबेदार	ए कुमार गोछयात	01.03.2019

1666	जेसी560581पी	सुबेदार	अशोक कुमार पांडे	01.06.2019
1667	जेसी560884के	सुबेदार	बाल राम कुमार राय	01.03.2019
1668	जेसी560546एम	सुबेदार	बलराम	01.08.2019
1669	जेसी560734एन	सुबेदार	भंवर सिंह	01.03.2019
1670	जेसी560369एक्स	सुबेदार	भूलेश्वर प्रधान	01.04.2019
1671	जेसी560804एफ	सुबेदार	चंद्र देव प्रसाद यादव	01.03.2019
1672	जेसी560527एफ	सुबेदार	धनंजय कुमार पांडे	01.04.2019
1673	जेसी560790एम	सुबेदार	धर्मन्द्र कुमार सिंह	01.07.2019
1674	जेसी560791पी	सुबेदार	धीरेन्द्र कुमार	01.07.2019
1675	जेसी560964एफ	सुबेदार	दिनेश सिंह	01.04.2019
1676	जेसी560706एफ	सुबेदार	गजेन्द्र कुमार द्विवेदी	01.04.2019
1677	जेसी560928डब्ल्यू	सुबेदार	गौतम कुमार सिंह	01.06.2019
1678	जेसी560881डब्ल्यू	सुबेदार	कैलाश सिंह	01.03.2019
1679	जेसी560807पी	सुबेदार	कमलेश कुमार	01.07.2019
1680	जेसी560650ए	सुबेदार	करुणाकर दास	01.04.2019
1681	जेसी560179एल	सुबेदार	कृष्णा चंद्रा साहू	01.02.2019
1682	जेसी560794एच	सुबेदार	कृष्णा प्रसाद साह	01.07.2019
1683	जेसी560828एल	सुबेदार	लक्ष्मन साह	01.08.2019
1684	जेसी560600पी	सुबेदार	लाल मोहन सिद्धू	01.04.2019
1685	जेसी560570एच	सुबेदार	एम मुरुगन	01.02.2019
1686	जेसी560829एन	सुबेदार	मदन तिग्गा	01.07.2019
1687	जेसी560430डब्ल्यू	सुबेदार	मान मोहन नायक	01.07.2019
1688	जेसी561221एल	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह	01.04.2019
1689	जेसी560885एम	सुबेदार	मिटू सिंह	01.03.2019
1690	जेसी559865एम	सुबेदार	मोहेन्द्रा नाथ हेमब्रोम	01.03.2019
1691	जेसी560571एल	सुबेदार	मोहम्मद शमीम	01.03.2019
1692	जेसी560216एन	सुबेदार	नीला माधव प्रधान	01.04.2019
1693	जेसी560786के	सुबेदार	प्रेम कुमार	01.03.2019
1694	जेसी561075डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम कुमार चौधरी	01.05.2019
1695	जेसी561249एल	सुबेदार	प्रेम कुमार सिंह	01.06.2019
1696	जेसी560822के	सुबेदार	राधा कांत पांडे	01.03.2019
1697	जेसी560360एच	सुबेदार	राजेश बक्सला	01.02.2019
1698	जेसी560739एम	सुबेदार	राम लाल तिवारी	01.04.2019
1699	जेसी560727एक्स	सुबेदार	आर डुन्ना भाई पंजा भाई	01.04.2019
1700	जेसी560612के	सुबेदार	एस ओरान	01.07.2019
1701	जेसी561043एन	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.02.2019
1702	जेसी560765एन	सुबेदार	शैलेश कुमार	01.04.2019
1703	जेसी560788पी	सुबेदार	शम्भू कुमार सिंह	01.07.2019
1704	जेसी561054ए	सुबेदार	शशि कांत श्रीवास्तवा	01.08.2019
1705	जेसी561121ए	सुबेदार	शियोजी सिंह	01.04.2019
1706	जेसी560789एक्स	सुबेदार	शोभ नाथ सिंह	01.07.2019
1707	जेसी560764एल	सुबेदार	सिवा कुमार के	01.04.2019
1708	जेसी560388एच	सुबेदार	एस कुमार प्रधान	01.04.2019
1709	जेसी560718डब्ल्यू	सुबेदार	सुनील ताम्बा	01.08.2019
1710	जेसी560067एल	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	01.07.2019
1711	जेसी560860ए	सुबेदार	उमेश प्रसाद यादव	01.02.2019
1712	जेसी560648एच	सुबेदार	उपेंद्र राय	01.03.2019
1713	जेसी560622एन	सुबेदार	वी पाल सिंह	01.03.2019

माहर सैन्यदल

1714	जेसी570299एक्स	सुबेदार	अहीरे मधुकर भागचंद	01.02.2019
1715	जेसी570764वाई	सुबेदार	अलोक रौय	01.02.2019
1716	जेसी570912वाई	सुबेदार	आनंद सिंह	01.03.2019
1717	जेसी570565एल	सुबेदार	अरुण कुमार सिंह	01.04.2019

1718	जेसी570856एल	सुबेदार	बाबू लाल कुशवाहा	01.07.2019
1719	जेसी570760एच	सुबेदार	बहादुर सिंह धामी	01.05.2019
1720	जेसी570663एल	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.03.2019
1721	जेसी570989एफ	सुबेदार	भंडारे राजेंद्रा गोरोबा	01.07.2019
1722	जेसी569994ए	सुबेदार	बिश्वजीत चक्रबती	01.02.2019
1723	जेसी570066डब्ल्यू	सुबेदार	दया राम	01.05.2019
1724	जेसी571113पी	सुबेदार	देवेन्द्र दत्त	01.07.2019
1725	जेसी570661ए	सुबेदार	देवेन्द्र दत्त भट्ट	01.03.2019
1726	जेसी570682डब्ल्यू	सुबेदार	धनवीर सिंह	01.03.2019
1727	जेसी570906एल	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह तोमर	01.03.2019
1728	जेसी570705एम	सुबेदार	गनेश चंद्रा साहू	01.03.2019
1729	जेसी570730एल	सुबेदार	गंगा दत्त	01.03.2019
1730	जेसी570620डब्ल्यू	सुबेदार	गवई भगवान भीकाजी	01.05.2019
1731	जेसी570957वाई	सुबेदार	गेंदा लाल	01.07.2019
1732	जेसी570629एल	सुबेदार	जी. उत्तातम रंगनाथ	01.03.2019
1733	जेसी571107एफ	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.07.2019
1734	जेसी570749के	सुबेदार	हकीम सिंह सोलंकी	01.03.2019
1735	जेसी571064एक्स	सुबेदार	हरीश चंद्रा जोशी	01.07.2019
1736	जेसी570483एच	सुबेदार	हेत राम सिंह	01.04.2019
1737	जेसी570867एक्स	सुबेदार	जगपाल सिंह	01.07.2019
1738	जेसी570966ए	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.07.2019
1739	जेसी570985एल	सुबेदार	काम्बले दिगम्बर नामदेवराव	01.08.2019
1740	जेसी570598डब्ल्यू	सुबेदार	काम्बले विष्णु गंगाराम	01.08.2019
1741	जेसी570718के	सुबेदार	कश्मीर लाल	01.05.2019
1742	जेसी570872एच	सुबेदार	के श्री कृष्णा सुखदेव	01.05.2019
1743	जेसी570891एन	सुबेदार	के अंकुश आनंदा राव	01.04.2019
1744	जेसी570813डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	01.07.2019
1745	जेसी570563ए	सुबेदार	कुंवर पाल सिंह	01.04.2019
1746	जेसी570987डब्ल्यू	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.07.2019
1747	जेसी570900के	सुबेदार	ललित मोहन सिंह सेठी	01.07.2019
1748	जेसी571132ए	सुबेदार	मनवीर सिंह	01.07.2019
1749	जेसी571188एम	सुबेदार	परशोतम सिंह	01.07.2019
1750	जेसी570771पी	सुबेदार	प्रमोद कुमार तिवारी	01.05.2019
1751	जेसी570964पी	सुबेदार	पुष्पराज सिंह बिस्ट	01.07.2019
1752	जेसी570540वाई	सुबेदार	राज किशोर सिंह	01.03.2019
1753	जेसी571125के	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह पोखरिया	01.07.2019
1754	जेसी570789एल	सुबेदार	राम पौल	01.03.2019
1755	जेसी570799पी	सुबेदार	राम सिंह यादव	01.07.2019
1756	जेसी570688एक्स	सुबेदार	रोहतक सिंह	01.07.2019
1757	जेसी570765एफ	सुबेदार	रोमेश चंद्र	01.07.2019
1758	जेसी570731एन	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.05.2019
1759	जेसी570557एम	सुबेदार	संजीव कुमार भारद्वाज	01.06.2019
1760	जेसी570590के	सुबेदार	संजीव दम	01.04.2019
1761	जेसी570650एन	सुबेदार	सावंत दत्तत्रे भगवान	01.02.2019
1762	जेसी570660एक्स	सुबेदार	शाम लाल	01.03.2019
1763	जेसी570952ए	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.07.2019
1764	जेसी571179एल	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.07.2019
1765	जेसी570719एम	सुबेदार	एस सिंह ददवाल	01.06.2019
1766	जेसी570768पी	सुबेदार	शोभान सिंह	01.03.2019
1767	जेसी570421एच	सुबेदार	श्याम सिंह	01.05.2019
1768	जेसी570456वाई	सुबेदार	सोनवाने राजेश धाना	01.05.2019
1769	जेसी570711ए	सुबेदार	एस राउत	01.05.2019
1770	जेसी571041डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.07.2019
1771	जेसी570592पी	सुबेदार	सुनील कुमार हरित	01.08.2019

1772	जेसी570922एच	सुबेदार	सुरेन्द्र कुमार यादव	01.05.2019
1773	जेसी571135एन	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.07.2019
1774	जेसी570849पी	सुबेदार	सूर्यवंशी लक्ष्मण गोविंद	01.05.2019
1775	जेसी570712एच	सुबेदार	उम्मेद सिंह रावत	01.05.2019
1776	जेसी569987के	सुबेदार	उत्तातम सिंह भदोरिया	01.05.2019
1777	जेसी570797के	सुबेदार	विजय कुमार	01.03.2019
1778	जेसी570301के	सुबेदार	विकास यशवन्त काम्बले	01.02.2019
1779	जेसी571129ए	सुबेदार	विक्रम चन्द	01.06.2019

जम्मू और कश्मीर बन्दूकधारी सेना

1780	जेसी581230एन	सुबेदार	अब्दुल रहमान	01.07.2019
1781	जेसी581053वाई	सुबेदार	अलोक दास	01.03.2019
1782	जेसी581595एच	सुबेदार	अमरजीत सिंह	01.05.2019
1783	जेसी581824एच	सुबेदार	अनिल कुमार	01.05.2019
1784	जेसी581453एल	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.03.2019
1785	जेसी581611पी	सुबेदार	अशानी कुमार	01.07.2019
1786	जेसी581799पी	सुबेदार	बाबू राम	01.03.2019
1787	जेसी581166एफ	सुबेदार	बचन सिंह	01.03.2019
1788	जेसी581738एक्स	सुबेदार	बलकार सिंह	01.08.2019
1789	जेसी581677एल	सुबेदार	बसंत राम	01.06.2019
1790	जेसी582086डब्ल्यू	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.07.2019
1791	जेसी581405एल	सुबेदार	बिरेन्द्रा प्रधान	01.04.2019
1792	जेसी580297ए	सुबेदार	चंद्रा शेखर आचार्य	01.04.2019
1793	जेसी580395ए	सुबेदार	ई खान	01.07.2019
1794	जेसी581350एम	सुबेदार	गुरजंत सिंह	01.06.2019
1795	जेसी581720एफ	सुबेदार	हेम राज	01.06.2019
1796	जेसी581730एल	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.06.2019
1797	जेसी581054एफ	सुबेदार	जगाधले संजय महादेव	01.03.2019
1798	जेसी581291एल	सुबेदार	जगदीश राज	01.02.2019
1799	जेसी581538एफ	सुबेदार	जग्गा राम	01.08.2019
1800	जेसी581485एन	सुबेदार	जॉन के वी	01.04.2019
1801	जेसी581032एच	सुबेदार	कमल सिंह थापा	01.03.2019
1802	जेसी581662एच	सुबेदार	कमल थापा	01.02.2019
1803	जेसी581473वाई	सुबेदार	किशोरी लाल शर्मा	01.02.2019
1804	जेसी581582एल	सुबेदार	कोरादा एल	01.07.2019
1805	जेसी581439वाई	सुबेदार	मदन लाल	01.03.2019
1806	जेसी581069के	सुबेदार	मणीराज केपी	01.04.2019
1807	जेसी581594ए	सुबेदार	एम कुमार राज	01.06.2019
1808	जेसी581787ए	सुबेदार	मोहन थापा	01.03.2019
1809	जेसी581756ए	सुबेदार	नगीन चन्द	01.03.2019
1810	जेसी581707एक्स	सुबेदार	नारायण सिंह	01.03.2019
1811	जेसी581718के	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.03.2019
1812	जेसी581474एफ	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.02.2019
1813	जेसी581598डब्ल्यू	सुबेदार	रछपाल सिंह	01.05.2019
1814	जेसी581503एल	सुबेदार	राज कुमार	01.02.2019
1815	जेसी581579एल	सुबेदार	राज सिंह	01.02.2019
1816	जेसी581822एक्स	सुबेदार	राजीव कुमार राना	01.04.2019
1817	जेसी581561पी	सुबेदार	राजू थापा	01.02.2019
1818	जेसी581599वाई	सुबेदार	राकेश सिंह	01.03.2019
1819	जेसी581455डब्ल्यू	सुबेदार	राम जीत राजपूत	01.04.2019
1820	जेसी581849पी	सुबेदार	राम पौल शर्मा	01.07.2019
1821	जेसी581208एच	सुबेदार	रशीद खान	01.03.2019
1822	जेसी581247एफ	सुबेदार	रवि कुमार	01.08.2019
1823	जेसी581785पी	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.04.2019

1824	जेसी581708ए	सुबेदार	आर लाल	01.04.2019
1825	जेसी581739ए	सुबेदार	रोमेश चंद्र	01.08.2019
1826	जेसी581736एम	सुबेदार	रोशन लाल	01.06.2019
1827	जेसी581402एक्स	सुबेदार	एस बालमुरुगन	01.04.2019
1828	जेसी581588एम	सुबेदार	सईयद नौशाद अहमद	01.05.2019
1829	जेसी581977एम	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.02.2019
1830	जेसी581675ए	सुबेदार	सोकत अली	01.06.2019
1831	जेसी581024के	सुबेदार	शिव प्रसाद जांगीड़	01.03.2019
1832	जेसी581969एन	सुबेदार	श्याम लाल पाल	01.03.2019
1833	जेसी581425वाई	सुबेदार	सिकंदर सिंह	01.07.2019
1834	जेसी581775एल	सुबेदार	सोहन लाल	01.02.2019
1835	जेसी581580ए	सुबेदार	सुभाष चन्द शर्मा	01.02.2019
1836	जेसी581362एफ	सुबेदार	सुख राम	01.02.2019
1837	जेसी581182वाई	सुबेदार	सूरज प्रकाश	01.02.2019
1838	जेसी581581एच	सुबेदार	स्वर्ण चन्द	01.06.2019
1839	जेसी580925के	सुबेदार	टेक सिंह	01.02.2019
1840	जेसी581067वाई	सुबेदार	वीर वसंत रामराव	01.03.2019
1841	जेसी580844के	सुबेदार	विजय कुमार	01.02.2019
1842	जेसी582024डब्ल्यू	सुबेदार	विजय कुमार	01.03.2019
1843	जेसी581484एल	सुबेदार	विजया शंकर सिंह यादवा	01.04.2019
1844	जेसी581584डब्ल्यू	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार	01.04.2019

लदाख निरीक्षक

1845	जेसी588560पी	सुबेदार	बलराम शर्मा	01.05.2019
1846	जेसी588581एल	सुबेदार	के नमगैल	01.02.2019
1847	जेसी588617वाई	सुबेदार	मिगमार सेरिंग	01.08.2019
1848	जेसी588592एक्स	सुबेदार	मुरुप दोरजय	01.08.2019
1849	जेसी588648वाई	सुबेदार	नमगैल डोरजे	01.02.2019
1850	जेसी588558एक्स	सुबेदार	नवंग वाइ	01.05.2019
1851	जेसी588590एम	सुबेदार	पद्मा रिगजिन	01.02.2019
1852	जेसी588562ए	सुबेदार	राधे श्याम	01.02.2019
1853	जेसी588613एच	सुबेदार	राजेश कुमार	01.04.2019
1854	जेसी588574पी	सुबेदार	रिगजिन ओ	01.02.2019
1855	जेसी588559ए	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.05.2019
1856	जेसी588671एम	सुबेदार	सकाराम नमगैल	01.08.2019
1857	जेसी588572के	सुबेदार	सोनम सी	01.02.2019
1858	जेसी588635एफ	सुबेदार	सोनम सी	01.05.2019
1859	जेसी588561एक्स	सुबेदार	सोनम जी.	01.05.2019
1860	जेसी588542एम	सुबेदार	एस सेरिंग	01.06.2019
1861	जेसी588553वाई	सुबेदार	ताशी डोरजे	01.02.2019
1862	जेसी588548एन	सुबेदार	सेरिंग अंगचौक	01.08.2019
1863	जेसी588586के	सुबेदार	सेरिंग ताशी	01.05.2019
1864	जेसी588655पी	सुबेदार	सेरिंग तोनदुप	01.08.2019
1865	जेसी588679वाई	सुबेदार	तसेवांग डोरजे	01.02.2019
1866	जेसी588609ए	सुबेदार	तसेवांग एन	01.03.2019

नागा सैन्यदल

1867	जेसी590326एक्स	सुबेदार	ए सोलोमन	01.07.2019
1868	जेसी590342पी	सुबेदार	हीरा सिंह	01.08.2019
1869	जेसी590288एम	सुबेदार	एच सेमा	01.08.2019
1870	जेसी590310एम	सुबेदार	रमेश सिंह	01.02.2019
1871	जेसी540921एल	सुबेदार	सुंदर लाल यादव	01.03.2019

जम्मू और कश्मीर लघु पैदल सेना

1872	जेसी594071ए	सुबेदार	अब्दुल हमीद जेओओ	01.07.2019
1873	जेसी593904एम	सुबेदार	धीरेन्द्रा सिंह	01.05.2019
1874	जेसी594268डब्ल्यू	सुबेदार	जी एच नबी शेख	01.07.2019
1875	जेसी594356एम	सुबेदार	गनी शाम	01.03.2019
1876	जेसी594183ए	सुबेदार	हरिन्द्र सिंह	01.02.2019
1877	जेसी594582के	सुबेदार	आइ अहमद	01.04.2019
1878	जेसी594209के	सुबेदार	कमल राज	01.05.2019
1879	जेसी594120एक्स	सुबेदार	कृष्णापाल सिंह सी	01.02.2019
1880	जेसी594117एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.02.2019
1881	जेसी594484के	सुबेदार	लखबिन्दर सिंह	01.08.2019
1882	जेसी594472पी	सुबेदार	लयाकत अली	01.05.2019
1883	जेसी594132एम	सुबेदार	मोहम्मद रफीक	01.04.2019
1884	जेसी594215एक्स	सुबेदार	मोहम्मद सादिक खान	01.08.2019
1885	जेसी593593के	सुबेदार	मोहम्मद शरीफ	01.03.2019
1886	जेसी594167एच	सुबेदार	मुल्तान सिंह	01.04.2019
1887	जेसी594761के	सुबेदार	राकेश शर्मा	01.03.2019
1888	जेसी593967पी	सुबेदार	रूप चन्द	01.03.2019
1889	जेसी594032एफ	सुबेदार	शशि कुमार	01.03.2019
1890	जेसी594069एच	सुबेदार	शैल्लो राम	01.02.2019
1891	जेसी593840एम	सुबेदार	एस अली	01.06.2019
1892	जेसी594202ए	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.03.2019
1893	जेसी593472एच	सुबेदार	सुधीर कुमार	01.06.2019
1894	जेसी594179एक्स	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.04.2019
1895	जेसी594037ए	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.08.2019
1896	जेसी594033के	सुबेदार	स्वर्ण दास	01.03.2019
1897	जेसी594051एम	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.02.2019
1898	जेसी594275एम	सुबेदार	तेज राम	01.03.2019

1 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1899	जेसी603030ए	सुबेदार	अरुणा कुमार राउत्रे	01.04.2019
1900	जेसी603014एच	सुबेदार	बाल बहादुर थापा	01.02.2019
1901	जेसी602917एन	सुबेदार	बी मान गुरंग	01.03.2019
1902	जेसी603020डब्ल्यू	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार सेन	01.02.2019
1903	जेसी603048डब्ल्यू	सुबेदार	करण बहादुर थापा	01.06.2019
1904	जेसी612881एन	सुबेदार	करन थापा	01.04.2019
1905	जेसी603079डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर टी पुन	01.07.2019
1906	जेसी603008पी	सुबेदार	महेन्द्र कुमार गुरंग	01.05.2019
1907	जेसी603061ए	सुबेदार	नंदा बहादुर थापा	01.07.2019
1908	जेसी603045एच	सुबेदार	नार बहादुर गुरंग	01.07.2019
1909	जेसी602982एन	सुबेदार	नरवीर सिंह	01.03.2019
1910	जेसी602884एन	सुबेदार	सचिदा नंदा आर	01.06.2019
1911	जेसी603015एल	सुबेदार	तुला राम अले मगर	01.02.2019
1912	जेसी603013ए	सुबेदार	याम बहादुर थापा	01.05.2019

3 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1913	जेसी607952ए	सुबेदार	घान बहादुर थापा	01.07.2019
1914	जेसी608008वाई	सुबेदार	श्याम सिंह	01.03.2019

4 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1915	जेसी612891एक्स	सुबेदार	बोम बिकाश पुन	01.07.2019
1916	जेसी612859एच	सुबेदार	चुम बहादुर पुन	01.06.2019
1917	जेसी612948एफ	सुबेदार	कमलेश द्विवेदी	01.04.2019

1918	जेसी612877एल	सुबेदार	करण बहादुर गुरंग	01.02.2019
1919	जेसी612945एन	सुबेदार	माम चन्द गुर्जर	01.03.2019
1920	जेसी612790के	सुबेदार	राम कुमार शर्मा	01.02.2019
1921	जेसी612944एल	सुबेदार	रेवी कुमार के.डी.	01.02.2019

5 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1922	जेसी618031ए	सुबेदार	भुवन बहादुर गुरंग	01.04.2019
1923	जेसी618148वाई	सुबेदार	छाम बहादुर थापा	01.05.2019
1924	जेसी618188ए	सुबेदार	दुर्गा बहादुर अले	01.02.2019
1925	जेसी618168एम	सुबेदार	हेम बहादुर अले	01.06.2019
1926	जेसी618224ए	सुबेदार	होम बहादुर थापा	01.04.2019
1927	जेसी618196वाई	सुबेदार	झबी लाल रसकोटी	01.05.2019
1928	जेसी618020एन	सुबेदार	केश बहादुर पुन	01.07.2019
1929	जेसी617921एन	सुबेदार	कुमार थापा	01.02.2019
1930	जेसी618304एक्स	सुबेदार	एनयूएम बहादुर थापा	01.07.2019
1931	जेसी618017एन	सुबेदार	ओम बहादुर थापा	01.03.2019
1932	जेसी617944पी	सुबेदार	प्रेम बहादुर थापा	01.04.2019
1933	जेसी618144एच	सुबेदार	पूरन गुरंग	01.04.2019
1934	जेसी618024के	सुबेदार	राम लल्लन पटेल	01.06.2019
1935	जेसी618223एक्स	सुबेदार	टेक बहादुर गुरंग	01.03.2019
1936	जेसी618009पी	सुबेदार	याम बहादुर पुन	01.02.2019

8 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1937	जेसी624053पी	सुबेदार	अकबाल	01.04.2019
1938	जेसी624147एम	सुबेदार	भक्ता बहादुर थापा	01.08.2019
1939	जेसी624015वाई	सुबेदार	भीम लाल थापा	01.06.2019
1940	जेसी623897वाई	सुबेदार	चंद्रा शेखर रौय	01.04.2019
1941	जेसी624099एक्स	सुबेदार	दामोदर राना	01.08.2019
1942	जेसी624114एफ	सुबेदार	दान बहादुर गुरंग	01.03.2019
1943	जेसी624060एल	सुबेदार	देव बहादुर राना	01.03.2019
1944	जेसी623905एम	सुबेदार	देव नारायण यादव	01.04.2019
1945	जेसी623912एच	सुबेदार	गज बहादुर गुरंग	01.06.2019
1946	जेसी624071एक्स	सुबेदार	गोबिंदा बहादुर घरती	01.03.2019
1947	जेसी624025एच	सुबेदार	गन बहादुर गुरंग	01.08.2019
1948	जेसी624108एन	सुबेदार	होम बहादुर गुरंग	01.08.2019
1949	जेसी624017के	सुबेदार	होम बहादुर राना	01.08.2019
1950	जेसी624082के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	01.04.2019
1951	जेसी624083एम	सुबेदार	कुमार थापा	01.04.2019
1952	जेसी623965एफ	सुबेदार	लील बहादुर गुरंग	01.03.2019
1953	जेसी624069ए	सुबेदार	मिथलेश कुमार मिश्रा	01.04.2019
1954	जेसी624100एफ	सुबेदार	नरेन्द्रा बहादुर थापा	01.08.2019
1955	जेसी623919एम	सुबेदार	नरेन्द्रा पण्डित	01.04.2019
1956	जेसी624073एच	सुबेदार	पेहल सिंह थापा	01.08.2019
1957	जेसी630076एम	सुबेदार	प्रदीप खत्री	01.03.2019
1958	जेसी624066एम	सुबेदार	राजू गुरंग, एसएम	01.05.2019
1959	जेसी624038ए	सुबेदार	शिव कुमार बी	01.04.2019
1960	जेसी624049एम	सुबेदार	सोम बहादुर गुरंग	01.06.2019
1961	जेसी623901डब्ल्यू	सुबेदार	सूरज गुरंग	01.06.2019
1962	जेसी623885के	सुबेदार	विजयन पिल्लई आर	01.02.2019

9 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1963	जेसी630071एन	सुबेदार	जी.ईएस बहादुर जी.टी	01.03.2019
1964	जेसी630033एक्स	सुबेदार	किशन छत्री	01.03.2019
1965	जेसी629961एफ	सुबेदार	प्रमोद कुमार चौरसिया	01.03.2019

1966	जेसी630000एम	सुबेदार	प्रेम बहादुर बाम	01.03.2019
1967	जेसी630055डब्ल्यू	सुबेदार	पुष्पा राज थापा	01.03.2019
1968	जेसी629939डब्ल्यू	सुबेदार	साबू आर	01.02.2019
1969	जेसी630054एन	सुबेदार	टांक प्रसाद पोउदेल	01.03.2019

11 गोरखा बन्दूकधारी सेना

1970	जेसी635245एम	सुबेदार	अशोक कुमार राय	01.04.2019
1971	जेसी635222एल	सुबेदार	भीम कुमार राय	01.04.2019
1972	जेसी635148पी	सुबेदार	भीम सेन	01.03.2019
1973	जेसी635325के	सुबेदार	भूमि राज राय	01.03.2019
1974	जेसी635281एक्स	सुबेदार	बी राम लिम्बू	01.03.2019
1975	जेसी635284एल	सुबेदार	डी. के एल लिम्बू	01.03.2019
1976	जेसी635108एन	सुबेदार	दादन प्रसाद यादव	01.03.2019
1977	जेसी635110एल	सुबेदार	देवा कुमार राय	01.03.2019
1978	जेसी635285एन	सुबेदार	दिनेश सुब्बा	01.04.2019
1979	जेसी635219एल	सुबेदार	फिरोज प्रधान	01.04.2019
1980	जेसी635330पी	सुबेदार	गुप्ता बहादुर खंड	01.04.2019
1981	जेसी635226एफ	सुबेदार	केशर प्रसाद हेंग एस लिम्बू	01.06.2019
1982	जेसी635175वाई	सुबेदार	कुल बहादुर लिम्बू	01.03.2019
1983	जेसी635183एक्स	सुबेदार	मान कुमार राय	01.03.2019
1984	जेसी635282ए	सुबेदार	मान सेर राय	01.03.2019
1985	जेसी635188डब्ल्यू	सुबेदार	मनी राय	01.03.2019
1986	जेसी635213के	सुबेदार	एनएजे बदन राय	01.04.2019
1987	जेसी635150एम	सुबेदार	नथुनी सिंह	01.03.2019
1988	जेसी635112डब्ल्यू	सुबेदार	पी बी लवाती लिम्बू	01.03.2019
1989	जेसी635166एक्स	सुबेदार	पवन राय	01.04.2019
1990	जेसी635221एच	सुबेदार	प्रेम सुंदर राय	01.04.2019
1991	जेसी635220ए	सुबेदार	राजेश राय	01.04.2019
1992	जेसी635038ए	सुबेदार	राम बहादुर तमंग	01.07.2019
1993	जेसी635126डब्ल्यू	सुबेदार	रत्ना बहादुर थापा	01.03.2019
1994	जेसी635093डब्ल्यू	सुबेदार	सांता कुमार राय	01.03.2019
1995	जेसी635097एम	सुबेदार	श्याम बहादुर तमंग	01.06.2019
1996	जेसी635227के	सुबेदार	सूरज कुमार लिम्बू	01.05.2019
1997	जेसी635111एन	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह लिम्बू	01.03.2019
1998	जेसी635264एक्स	सुबेदार	टीईजेड बहादुर प्रधान	01.04.2019
1999	जेसी635010ए	सुबेदार	तीर्थ कुमार राय	01.06.2019
2000	जेसी635119ए	सुबेदार	तोरन कुमार श्रेष्ठा	01.03.2019
2001	जेसी635199एच	सुबेदार	यू कुमार राय	01.07.2019

सेना सेवा पलटन दक्षिण

2002	जेसी670145ए	सुबेदार	अभीमन्नु राम खरवार	01.08.2019
2003	जेसी670105वाई	सुबेदार	अभिमन्नु उपाध्याय	01.07.2019
2004	जेसी667351वाई	सुबेदार	अजय कुमार आरएस	01.03.2019
2005	जेसी669250के	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.02.2019
2006	जेसी667266डब्ल्यू	सुबेदार	ए कुमारा स्वामी	01.03.2019
2007	जेसी667265एन	सुबेदार	अमर चन्द	01.07.2019
2008	जेसी665826वाई	सुबेदार	आनंद कुमार पांडे	01.04.2019
2009	जेसी665905एन	सुबेदार	अनिल कुमार	01.08.2019
2010	जेसी668264एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार पांडे	01.04.2019
2011	जेसी665229के	सुबेदार	अनिल कुमार सिंहभादौरिया	01.04.2019
2012	जेसी667261एक्स	सुबेदार	अनिरुध सिंह	01.04.2019
2013	जेसी667864एन	सुबेदार	अनीस उद्दीन खान	01.03.2019
2014	जेसी669276वाई	सुबेदार	ए अली खान	01.06.2019
2015	जेसी668193एफ	सुबेदार	अनूप कुमार घोष	01.02.2019

2016	जेसी668667एक्स	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.04.2019
2017	जेसी668575एल	सुबेदार	अरुण कुमार शर्मा	01.03.2019
2018	जेसी667558वाई	सुबेदार	अरुण कुमार ठाकुर	01.02.2019
2019	जेसी668571पी	सुबेदार	अशोक कुमार घोष	01.03.2019
2020	जेसी668254एन	सुबेदार	ए शंकर केदारी	01.04.2019
2021	जेसी667805एफ	सुबेदार	बालाराम दत्ता	01.02.2019
2022	जेसी667529के	सुबेदार	बाना बिहारी साहू	01.06.2019
2023	जेसी667185डब्ल्यू	सुबेदार	बसंता कुमार जया सिंह	01.05.2019
2024	जेसी668474एक्स	सुबेदार	भरत चौगले	01.07.2019
2025	जेसी669988एफ	सुबेदार	भरत सिंह	01.07.2019
2026	जेसी667598ए	सुबेदार	भोसले दत्तत्रे हनुमंत	01.08.2019
2027	जेसी669738ए	सुबेदार	भोसले पांडुरंग अप्पा	01.02.2019
2028	जेसी667381डब्ल्यू	सुबेदार	बिधान चंद्रा मंडल	01.05.2019
2029	जेसी668641एच	सुबेदार	बिजया कुमार दाश	01.06.2019
2030	जेसी667154डब्ल्यू	सुबेदार	बिकाश कर्माकर	01.03.2019
2031	जेसी668654ए	सुबेदार	बिनोद शारंगी	01.03.2019
2032	जेसी668069ए	सुबेदार	बीरबल सिंह	01.07.2019
2033	जेसी665439के	सुबेदार	सी बालाजी मानिक राव	01.03.2019
2034	जेसी669465एच	सुबेदार	चौहान तेजपाल	01.02.2019
2035	जेसी668226एफ	सुबेदार	छवी नाथ सिंह	01.03.2019
2036	जेसी667710एफ	सुबेदार	ददही बाल	01.04.2019
2037	जेसी667304एफ	सुबेदार	डी. राम	01.03.2019
2038	जेसी667485एक्स	सुबेदार	देबासिस बीईजे	01.07.2019
2039	जेसी669179एफ	सुबेदार	देवा प्रसाद डे	01.08.2019
2040	जेसी668805एन	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार कुशवाह	01.03.2019
2041	जेसी665311वाई	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.04.2019
2042	जेसी670115एच	सुबेदार	डी. सिंह	01.08.2019
2043	जेसी665440वाई	सुबेदार	धर्मन्द्र कुमार	01.04.2019
2044	जेसी668699ए	सुबेदार	दिगर सिंह कन्याल	01.04.2019
2045	जेसी665639ए	सुबेदार	दीपक कुमार बेरा	01.03.2019
2046	जेसी667257पी	सुबेदार	डी. किसान सूर्या भान	01.04.2019
2047	जेसी669025पी	सुबेदार	गज़राज सिंह यादव	01.08.2019
2048	जेसी668437के	सुबेदार	गनेश्वर के	01.08.2019
2049	जेसी668399वाई	सुबेदार	गायाधारा जी.	01.06.2019
2050	जेसी667571एच	सुबेदार	जी. सिंह	01.04.2019
2051	जेसी669965ए	सुबेदार	गोहिल रघुवीर खुमान सिंह	01.07.2019
2052	जेसी665165के	सुबेदार	गोपाकुमारन पिल्लई बी	01.04.2019
2053	जेसी669994पी	सुबेदार	गौरांग चक्रबती	01.07.2019
2054	जेसी667167एन	सुबेदार	हरी प्रसाद डी.	01.03.2019
2055	जेसी668588एच	सुबेदार	हरिहर मौर्या	01.04.2019
2056	जेसी664805डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.04.2019
2057	जेसी670071डब्ल्यू	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.04.2019
2058	जेसी665697के	सुबेदार	हुकम सिंह	01.02.2019
2059	जेसी668315ए	सुबेदार	इंद्र प्रसाद तिवारी	01.04.2019
2060	जेसी669871एच	सुबेदार	इन्द्रा सिंह कुम्हार	01.06.2019
2061	जेसी668723एल	सुबेदार	जाधव गजानन कृशान्त	01.05.2019
2062	जेसी668381एच	सुबेदार	जाधव सुखदेव सम्पत	01.08.2019
2063	जेसी668471के	सुबेदार	जे महाराना	01.07.2019
2064	जेसी668658डब्ल्यू	सुबेदार	जगन्ध पंडा	01.06.2019
2065	जेसी670163एच	सुबेदार	जगत नारायण गुप्ता	01.08.2019
2066	जेसी664804एन	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.02.2019
2067	जेसी669702एफ	सुबेदार	जगजीवन दास पी	01.03.2019
2068	जेसी670114ए	सुबेदार	जय प्रकाश गुप्ता	01.08.2019
2069	जेसी667841एम	सुबेदार	जय प्रकाश सौ	01.04.2019

2070	जेसी668584एम	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.04.2019
2071	जेसी668374एम	सुबेदार	जलालुद्दीन	01.03.2019
2072	जेसी667826एक्स	सुबेदार	जसबीर सिंह	01.03.2019
2073	जेसी668579एफ	सुबेदार	जैथार रामनाथ धमाजी	01.04.2019
2074	जेसी668351एल	सुबेदार	जे राम एनओएल	01.07.2019
2075	जेसी668057एल	सुबेदार	कदम सदासिव विलास राव	01.08.2019
2076	जेसी665846एम	सुबेदार	कैलाश कुमार	01.04.2019
2077	जेसी669840एच	सुबेदार	काम्बले मधुकर रंगाराव	01.07.2019
2078	जेसी665161एन	सुबेदार	कामेश्वर राय	01.02.2019
2079	जेसी669985एन	सुबेदार	कमलेश कुमार गुर्जर	01.07.2019
2080	जेसी667157के	सुबेदार	कमलेश्वर प्रसाद वर्मा	01.03.2019
2081	जेसी665096वाई	सुबेदार	कंचन सिंह	01.03.2019
2082	जेसी667263एच	सुबेदार	के संधू बलवंता	01.04.2019
2083	जेसी669610पी	सुबेदार	कान्ति कुमार	01.04.2019
2084	जेसी667944एल	सुबेदार	कंवर सिंह	01.08.2019
2085	जेसी665454वाई	सुबेदार	कारंदे सदा शिव धोंडिबा	01.06.2019
2086	जेसी668041ए	सुबेदार	के प्रकाश बाबन राव	01.07.2019
2087	जेसी668940एफ	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.06.2019
2088	जेसी668700के	सुबेदार	केशव चंद्रा मोन्दल	01.06.2019
2089	जेसी667176पी	सुबेदार	किशन लाल	01.03.2019
2090	जेसी667242एम	सुबेदार	किशोर कुमार जैना	01.03.2019
2091	जेसी665323एन	सुबेदार	के संतोष बाबन राव	01.04.2019
2092	जेसी668578वाई	सुबेदार	कृष्णापालानी राजू एनदास	01.04.2019
2093	जेसी668661डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णन कुमार	01.08.2019
2094	जेसी668358पी	सुबेदार	क्षेत्रिय प्रसाद	01.03.2019
2095	जेसी668349एन	सुबेदार	कुलदीप	01.08.2019
2096	जेसी668573ए	सुबेदार	कुंदन कुमार	01.03.2019
2097	जेसी665305एल	सुबेदार	लवाते एकानाथ शंकर	01.04.2019
2098	जेसी668190एन	सुबेदार	लक्ष्मन प्रसाद	01.03.2019
2099	जेसी668937एफ	सुबेदार	मधुसूदन नायर वीएस	01.06.2019
2100	जेसी669986डब्ल्यू	सुबेदार	महा राज सिंह	01.07.2019
2101	जेसी668327पी	सुबेदार	महाराज सिंह	01.04.2019
2102	जेसी668262एम	सुबेदार	महेंद्र कुमार	01.05.2019
2103	जेसी669728डब्ल्यू	सुबेदार	महेश कुमार एस	01.05.2019
2104	जेसी668322डब्ल्यू	सुबेदार	महिंद्र पाल	01.08.2019
2105	जेसी669401एक्स	सुबेदार	मानक चन्द आर	01.07.2019
2106	जेसी667625वाई	सुबेदार	माने रामचंद्र दत्तात्रिया	01.06.2019
2107	जेसी668708डब्ल्यू	सुबेदार	मनी राम सिंह	01.03.2019
2108	जेसी665103के	सुबेदार	मनोज कुमार	01.04.2019
2109	जेसी668630डब्ल्यू	सुबेदार	मनोज कुमार दीक्षित	01.04.2019
2110	जेसी669984एल	सुबेदार	मैरी रमा कृष्णा	01.07.2019
2111	जेसी667190एफ	सुबेदार	एम लाल	01.08.2019
2112	जेसी669521डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद आर पाशा	01.02.2019
2113	जेसी668265ए	सुबेदार	मोहम्मद डब्ल्यू बक्श	01.06.2019
2114	जेसी670104डब्ल्यू	सुबेदार	मेराजुल हक शाह	01.07.2019
2115	जेसी668942एम	सुबेदार	मेशराम ताराचंद सी	01.04.2019
2116	जेसी668693वाई	सुबेदार	मोहन यादव	01.04.2019
2117	जेसी668452वाई	सुबेदार	एम मरोती चंद्रा भान	01.04.2019
2118	जेसी669493पी	सुबेदार	मुकेश कुमार	01.02.2019
2119	जेसी668377ए	सुबेदार	मुरलीधरन जी.	01.04.2019
2120	जेसी669674ए	सुबेदार	नाबा कुमार जाना	01.04.2019
2121	जेसी668252एच	सुबेदार	नागेश कोनी	01.04.2019
2122	जेसी669934ए	सुबेदार	नायडू अशोक कप्पूस्वामी	01.03.2019
2123	जेसी665307डब्ल्यू	सुबेदार	नंदा किशोर शर्मा	01.04.2019

2124	जेसी668260एफ	सुबेदार	नन्द कुमार पांडे	01.04.2019
2125	जेसी664834एल	सुबेदार	नारायण सिंह	01.08.2019
2126	जेसी670169के	सुबेदार	निज़ाम उद्दीन	01.07.2019
2127	जेसी668188डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.03.2019
2128	जेसी668187एन	सुबेदार	ओंकार प्रसाद रौय	01.03.2019
2129	जेसी668246पी	सुबेदार	ओनी कृष्णन नायर एम टी	01.03.2019
2130	जेसी669995एक्स	सुबेदार	पी शिवा शंकर	01.07.2019
2131	जेसी668413ए	सुबेदार	पी विश्वास	01.08.2019
2132	जेसी669722पी	सुबेदार	परिमल राय	01.05.2019
2133	जेसी670108एम	सुबेदार	परमजीत	01.08.2019
2134	जेसी668493एच	सुबेदार	पटेल अयूबखान बी	01.04.2019
2135	जेसी666011के	सुबेदार	पाटिल जे पांडुरंग	01.02.2019
2136	जेसी669884ए	सुबेदार	पाटिल जे भीमराव	01.03.2019
2137	जेसी665157एल	सुबेदार	पवार सुनील मुरलीधर	01.04.2019
2138	जेसी669721एम	सुबेदार	प्यारा लाल	01.05.2019
2139	जेसी668220ए	सुबेदार	पितांबर पंडा	01.03.2019
2140	जेसी664337एफ	सुबेदार	पूआहिया के सी	01.03.2019
2141	जेसी667198एन	सुबेदार	प्रवीर कुमार सिन्हा महापात्रा	01.03.2019
2142	जेसी668162एफ	सुबेदार	प्रदीप कुमार मंडल	01.06.2019
2143	जेसी668770एच	सुबेदार	प्रकाश चन्द गुर्जर	01.05.2019
2144	जेसी668191डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद कुमार राठोड़	01.03.2019
2145	जेसी667859एच	सुबेदार	प्रणब कुमार दास	01.06.2019
2146	जेसी668195एम	सुबेदार	प्रसांत कुमार गिरि	01.03.2019
2147	जेसी668245एम	सुबेदार	प्रसांत कुमार सान्याल	01.02.2019
2148	जेसी669252पी	सुबेदार	प्रेम बाबू	01.02.2019
2149	जेसी668414एच	सुबेदार	प्रेम कुमार प्रसाद	01.03.2019
2150	जेसी669987वाई	सुबेदार	प्रेम सिंह गुर्जर	01.07.2019
2151	जेसी667283डब्ल्यू	सुबेदार	पृथ्वी सिंह चौहान	01.02.2019
2152	जेसी670300डब्ल्यू	सुबेदार	प्रीतपाल सिंह	01.07.2019
2153	जेसी668521के	सुबेदार	पूरन सिंह	01.03.2019
2154	जेसी668360एम	सुबेदार	आर एस अनिल कुमार	01.03.2019
2155	जेसी668289के	सुबेदार	रबीनारायन बेहेरा	01.04.2019
2156	जेसी670113एक्स	सुबेदार	रबीन्द्र कुमार सिंह	01.08.2019
2157	जेसी668418वाई	सुबेदार	राधे श्याम प्रजापत	01.04.2019
2158	जेसी667871के	सुबेदार	राज चंदेल	01.03.2019
2159	जेसी668321एन	सुबेदार	राजा राम प्रसाद चौरसिया	01.08.2019
2160	जेसी669666एफ	सुबेदार	राजबीर	01.07.2019
2161	जेसी665464एच	सुबेदार	राजीव चरण	01.04.2019
2162	जेसी667279एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.03.2019
2163	जेसी669675एच	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार	01.04.2019
2164	जेसी668236एल	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद राम	01.08.2019
2165	जेसी670117एन	सुबेदार	राजीव नयन	01.08.2019
2166	जेसी668165पी	सुबेदार	रजनीश कुमार मिन्हास	01.02.2019
2167	जेसी668567एम	सुबेदार	राकेश कुमार	01.03.2019
2168	जेसी641948के	सुबेदार	राकेश सिंह यादव	01.04.2019
2169	जेसी670111एम	सुबेदार	राम बृक्ष सिंह यादवा	01.08.2019
2170	जेसी669022एफ	सुबेदार	राम चंद्र	01.06.2019
2171	जेसी665232के	सुबेदार	राम चंद्रा पटेल	01.07.2019
2172	जेसी665238एल	सुबेदार	राम चरण	01.03.2019
2173	जेसी669953एल	सुबेदार	राम खिलावन	01.06.2019
2174	जेसी667031के	सुबेदार	राम कुमार	01.06.2019
2175	जेसी668669एच	सुबेदार	रमा चंद्रा भाट	01.08.2019
2176	जेसी669956वाई	सुबेदार	रमणी कांता बारो	01.07.2019

2177	जेसी669471डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश	01.02.2019
2178	जेसी668657एन	सुबेदार	रमेश चन्द	01.04.2019
2179	जेसी669178वाई	सुबेदार	रामवतार	01.02.2019
2180	जेसी665718पी	सुबेदार	रणधीर	01.02.2019
2181	जेसी670112पी	सुबेदार	रणधीर कुमार सिंह	01.08.2019
2182	जेसी669952एच	सुबेदार	रंजन बरुयह	01.07.2019
2183	जेसी665698एम	सुबेदार	आर रमेश शंकर	01.04.2019
2184	जेसी667590एन	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.04.2019
2185	जेसी668880एक्स	सुबेदार	रवीन्द्र के	01.08.2019
2186	जेसी669982ए	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.07.2019
2187	जेसी667925ए	सुबेदार	रूप राम गन्वार	01.08.2019
2188	जेसी668371वाई	सुबेदार	एस महम्मद रफी	01.02.2019
2189	जेसी667433एफ	सुबेदार	साबू थामस	01.04.2019
2190	जेसी670140एफ	सुबेदार	साहदेओ सिंह	01.08.2019
2191	जेसी668420डब्ल्यू	सुबेदार	सजीव आर	01.03.2019
2192	जेसी665234पी	सुबेदार	समरेन्द्र बिस्वाल	01.03.2019
2193	जेसी667164ए	सुबेदार	संजय कुमार पांडे	01.06.2019
2194	जेसी670109पी	सुबेदार	संजय कुमार शर्मा	01.08.2019
2195	जेसी665395एक्स	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.02.2019
2196	जेसी668255डब्ल्यू	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.04.2019
2197	जेसी665337एन	सुबेदार	संजीव सिंह	01.02.2019
2198	जेसी666097एन	सुबेदार	एस पिल्लई एन	01.06.2019
2199	जेसी667054एल	सुबेदार	संतो कुमार पीके	01.04.2019
2200	जेसी668583के	सुबेदार	श्रवण कुमार शर्मा	01.04.2019
2201	जेसी668194के	सुबेदार	एस मंडल	01.03.2019
2202	जेसी669904एच	सुबेदार	शशि भूषण कुमार	01.06.2019
2203	जेसी669902एक्स	सुबेदार	शेक नायब रसूल	01.06.2019
2204	जेसी665397एच	सुबेदार	शाजी टी एन	01.06.2019
2205	जेसी665408के	सुबेदार	शाम लाल	01.08.2019
2206	जेसी668253एल	सुबेदार	शम्भू दयाल	01.04.2019
2207	जेसी669472वाई	सुबेदार	शर्मा सौ	01.03.2019
2208	जेसी668401एल	सुबेदार	शशांका नायक एस	01.06.2019
2209	जेसी670197डब्ल्यू	सुबेदार	शशि भूषण शर्मा	01.08.2019
2210	जेसी665094एन	सुबेदार	शशि कांत भद्रा काली	01.02.2019
2211	जेसी668281एक्स	सुबेदार	शिव राज सिंह यादव	01.04.2019
2212	जेसी667441ए	सुबेदार	एस घोष	01.04.2019
2213	जेसी670116एल	सुबेदार	शियो मुनि सिंह	01.08.2019
2214	जेसी668604पी	सुबेदार	शीश पाल	01.04.2019
2215	जेसी667184एन	सुबेदार	शिव दत्त द्विवेदी	01.04.2019
2216	जेसी669491के	सुबेदार	शिव सिंह	01.02.2019
2217	जेसी668251ए	सुबेदार	शिवप्पा तिप्पन्नावर	01.04.2019
2218	जेसी667865डब्ल्यू	सुबेदार	शोभा राम अहीरवर	01.03.2019
2219	जेसी642428एल	सुबेदार	श्री प्रकाश भारद्वाज	01.02.2019
2220	जेसी667258एक्स	सुबेदार	श्यामा पाडा घोष	01.03.2019
2221	जेसी670151एन	सुबेदार	सिराज उद्दीन बरभुईया	01.08.2019
2222	जेसी669003डब्ल्यू	सुबेदार	सोनवाने प्रभाकर बाबू	01.04.2019
2223	जेसी668627डब्ल्यू	सुबेदार	श्री हरी राव वी	01.02.2019
2224	जेसी668285एन	सुबेदार	सुबे सिंह गोथवाल	01.05.2019
2225	जेसी667245ए	सुबेदार	सुबाष चन्द	01.04.2019
2226	जेसी665230वाई	सुबेदार	सुबोध बेनरजी	01.03.2019
2227	जेसी668697पी	सुबेदार	सुकान्त सी	01.02.2019
2228	जेसी669980पी	सुबेदार	सुख देव	01.07.2019
2229	जेसी667489एन	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.08.2019
2230	जेसी668139एन	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.02.2019

2231	जेसी668810वाई	सुबेदार	सुनाकर जैना	01.06.2019
2232	जेसी668403डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.08.2019
2233	जेसी667195ए	सुबेदार	सुरेश बी ए	01.02.2019
2234	जेसी668318एन	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.04.2019
2235	जेसी665306एन	सुबेदार	सुरेश कुमार कर्मा	01.03.2019
2236	जेसी669720के	सुबेदार	सुरेश कुमार ओझा	01.05.2019
2237	जेसी665159डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार पांडे	01.03.2019
2238	जेसी668286डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार पीएस	01.06.2019
2239	जेसी668141एल	सुबेदार	सुरेश एन	01.04.2019
2240	जेसी669676एल	सुबेदार	सुरेश राय	01.04.2019
2241	जेसी667631एम	सुबेदार	सुरेश शिवाजी वी	01.06.2019
2242	जेसी668241डब्ल्यू	सुबेदार	सुशील पौल शर्मा	01.08.2019
2243	जेसी665099एम	सुबेदार	सुशील कुमार पांडे	01.04.2019
2244	जेसी668938के	सुबेदार	टी रमेश कुमार राव	01.07.2019
2245	जेसी668574एच	सुबेदार	तपन सरकार	01.02.2019
2246	जेसी668457एक्स	सुबेदार	तेज पाल सिंह	01.03.2019
2247	जेसी670087एफ	सुबेदार	टी आर	01.08.2019
2248	जेसी668284एल	सुबेदार	थामस पी जॉन	01.03.2019
2249	जेसी669955डब्ल्यू	सुबेदार	तोगा राम चौधरी	01.07.2019
2250	जेसी667264एल	सुबेदार	टोन भीम राव अंकुश	01.04.2019
2251	जेसी667229एच	सुबेदार	त्रिलोक चन्द कलिता	01.08.2019
2252	जेसी670150एल	सुबेदार	उदय नारायण गौद	01.08.2019
2253	जेसी668572एक्स	सुबेदार	उमा शंकर सिंह	01.03.2019
2254	जेसी666008के	सुबेदार	उमेश कुमार सिंह	01.04.2019
2255	जेसी670139एम	सुबेदार	उमेश रजाक	01.08.2019
2256	जेसी670220वाई	सुबेदार	उपेंद्र कुमार सिंह	01.08.2019
2257	जेसी667194एक्स	सुबेदार	उत्पल नाथ	01.02.2019
2258	जेसी668827एम	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.08.2019
2259	जेसी665338डब्ल्यू	सुबेदार	विद्या धर	01.07.2019
2260	जेसी668204एच	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.02.2019

सेना सेवा पलटन पशु परिवहन

2261	जेसी681481एम	रिसालदार	आजी कुमार डी.	01.08.2019
2262	जेसी681439एन	रिसालदार	भगवान सिंह	01.03.2019
2263	जेसी681490एन	रिसालदार	डोइफोडे महादेव बाबूराव	01.08.2019
2264	जेसी681475वाई	रिसालदार	दुर्गा राम	01.08.2019
2265	जेसी681491डब्ल्यू	रिसालदार	ग्रीस चंद्रा	01.08.2019
2266	जेसी681459एफ	रिसालदार	हरीश चन्द	01.04.2019
2267	जेसी681471एच	रिसालदार	हरीशंकर सिंह यादव	01.04.2019
2268	जेसी681488डब्ल्यू	रिसालदार	जगत चन्द	01.08.2019
2269	जेसी681431एफ	रिसालदार	के कलियप्पन	01.02.2019
2270	जेसी681483एक्स	रिसालदार	कुंदन सिंह मेहता	01.08.2019
2271	जेसी680737एक्स	रिसालदार	निर्मल चंद्रा दत्ता	01.07.2019
2272	जेसी681440एच	रिसालदार	ओमकार सिंह	01.04.2019
2273	जेसी681494के	रिसालदार	पी एन उन्नी कृष्णन	01.08.2019
2274	जेसी681470ए	रिसालदार	प्रताप सिंह	01.06.2019
2275	जेसी681506एन	रिसालदार	राजेश कुमार यादव	01.08.2019
2276	जेसी681460डब्ल्यू	रिसालदार	राम आधार	01.04.2019
2277	जेसी681435एक्स	रिसालदार	एस एन सिंह	01.03.2019
2278	जेसी681472एल	रिसालदार	सागर गोड	01.04.2019
2279	जेसी681495एम	रिसालदार	श्री आर वीरा आर	01.08.2019
2280	जेसी681434पी	रिसालदार	सुनील कुमार कयबर्ता	01.03.2019
2281	जेसी681467ए	रिसालदार	एस सिंह	01.05.2019

सेना चिकित्सा पलटन

2282	जेसी700281एन	सुबेदार	अबुल हुसैन लश्कर	01.04.2019
2283	जेसी700288एक्स	सुबेदार	अफज़ल हुसैन	01.06.2019
2284	जेसी699951पी	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.02.2019
2285	जेसी696746एच	सुबेदार	अजीत कुमार	01.03.2019
2286	जेसी700253एफ	सुबेदार	अखिलेश चंद्रा दुबे	01.04.2019
2287	जेसी696532एम	सुबेदार	आनंदा कुमार एस	01.03.2019
2288	जेसी699855ए	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.03.2019
2289	जेसी699946के	सुबेदार	अश्विनी कुमार दास	01.03.2019
2290	जेसी700046पी	सुबेदार	बी नामदेव नारायण	01.04.2019
2291	जेसी700385पी	सुबेदार	बनमाली साहू	01.08.2019
2292	जेसी699983एक्स	सुबेदार	बिभास चंद्रा घोष	01.02.2019
2293	जेसी700399पी	सुबेदार	बिंदा प्रसाद पाल	01.04.2019
2294	जेसी699744एच	सुबेदार	ब्रजेन्द्र सिंह	01.04.2019
2295	जेसी699504एल	सुबेदार	चितरन्जन गोड़ा	01.03.2019
2296	जेसी699999एच	सुबेदार	चोगले शिवाजी केरू	01.04.2019
2297	जेसी700065ए	सुबेदार	डी. रवि कुमार	01.02.2019
2298	जेसी698698एम	सुबेदार	देव नंदन प्रसाद मांझी	01.06.2019
2299	जेसी699743ए	सुबेदार	देवकाटे युवराज त्रिम्बक राव	01.04.2019
2300	जेसी700254के	सुबेदार	देवारी लाल	01.04.2019
2301	जेसी699505एन	सुबेदार	धर्मेन्द्र	01.04.2019
2302	जेसी699755पी	सुबेदार	ध्वारे गंगाधर बालाभीम	01.04.2019
2303	जेसी699188एक्स	सुबेदार	दिलीप कुमार सिंह	01.06.2019
2304	जेसी699695एल	सुबेदार	दिनेश कुमार कुशवाहा	01.02.2019
2305	जेसी699998ए	सुबेदार	गवाली दत्तत्रे जलिनंदर	01.04.2019
2306	जेसी699993एफ	सुबेदार	जी. रामचंद्र गमपति	01.04.2019
2307	जेसी700847डब्ल्यू	सुबेदार	गोड़ हरी गिरि	01.05.2019
2308	जेसी699732एन	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.02.2019
2309	जेसी700839एक्स	सुबेदार	इराप्पा	01.05.2019
2310	जेसी698400एक्स	सुबेदार	जे नन्द किशोर नामदेवराव	01.06.2019
2311	जेसी699146एल	सुबेदार	जया प्रकाश एम	01.06.2019
2312	जेसी699312एन	सुबेदार	जितेन्द्रा सिंह जी.	01.07.2019
2313	जेसी698666के	सुबेदार	कमल कुमार	01.04.2019
2314	जेसी700384एम	सुबेदार	करुणा मई शर्मा	01.07.2019
2315	जेसी701669एल	सुबेदार	के नूरुल अमीन	01.03.2019
2316	जेसी700270एफ	सुबेदार	कुम्भार कृशान्त गणपति	01.06.2019
2317	जेसी700222एफ	सुबेदार	एम सेट्टू	01.03.2019
2318	जेसी697174वाई	सुबेदार	एम वेंकटेश्वर रेडी	01.03.2019
2319	जेसी699996पी	सुबेदार	एम प्रसाद काशी नाथ	01.04.2019
2320	जेसी698936एन	सुबेदार	मान सिंह भदोरिया	01.06.2019
2321	जेसी700406ए	सुबेदार	मंगौनकर प्रकाश बाबूराव	01.04.2019
2322	जेसी700023एन	सुबेदार	मनोज कुमार	01.02.2019
2323	जेसी700340पी	सुबेदार	मनोज कुमार महाराना	01.03.2019
2324	जेसी698889एफ	सुबेदार	मनोज कुमार शर्मा	01.06.2019
2325	जेसी700096ए	सुबेदार	मिचेल वाइ ए	01.03.2019
2326	जेसी700279डब्ल्यू	सुबेदार	मुकेश कुमार	01.03.2019
2327	जेसी700517एक्स	सुबेदार	मुरली धरन पिल्लई के	01.03.2019
2328	जेसी699945एफ	सुबेदार	नारायण पाणिग्रही	01.03.2019
2329	जेसी700226एक्स	सुबेदार	नरेश कुमार	01.04.2019
2330	जेसी699509के	सुबेदार	नरपत सिंह	01.07.2019
2331	जेसी696742एम	सुबेदार	एनजी. प्रकाश	01.04.2019
2332	जेसी700233एन	सुबेदार	उमनाकुट्टन पिल्लई आर	01.04.2019

2333	जेसी696542डब्ल्यू	सुबेदार	पबि कुमार सामल	01.03.2019
2334	जेसी699987एन	सुबेदार	परमजीत कुमार	01.02.2019
2335	जेसी700289ए	सुबेदार	प्राण अहमद	01.06.2019
2336	जेसी697325एम	सुबेदार	परमा नन्द कुमार	01.07.2019
2337	जेसी699789एच	सुबेदार	परमानंद राय	01.04.2019
2338	जेसी698777एफ	सुबेदार	प्रभुनाथ राजभर	01.05.2019
2339	जेसी700389एल	सुबेदार	प्रकाश के पिल्लई	01.08.2019
2340	जेसी700063पी	सुबेदार	प्रमोद कुमार शर्मा	01.04.2019
2341	जेसी699506डब्ल्यू	सुबेदार	प्रसांत कुमार नायक	01.06.2019
2342	जेसी700236एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.04.2019
2343	जेसी699077ए	सुबेदार	आर जयरामन	01.03.2019
2344	जेसी699736के	सुबेदार	आर जे	01.02.2019
2345	जेसी699565एच	सुबेदार	राज कुमार	01.08.2019
2346	जेसी700252वाई	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.04.2019
2347	जेसी696543वाई	सुबेदार	राजीव कुमार	01.04.2019
2348	जेसी700380डब्ल्यू	सुबेदार	राजेश कुमार	01.07.2019
2349	जेसी700292ए	सुबेदार	राम बी रमा राव	01.07.2019
2350	जेसी697028वाई	सुबेदार	राम करन	01.07.2019
2351	जेसी699819पी	सुबेदार	राम नरेश पटेल	01.06.2019
2352	जेसी700267एफ	सुबेदार	राम नाथ सिंह यादव	01.04.2019
2353	जेसी700154वाई	सुबेदार	रमेश चंद्रा मिश्रा	01.04.2019
2354	जेसी700062एम	सुबेदार	रमेश पाल	01.04.2019
2355	जेसी698696एफ	सुबेदार	राना अनिलकुमार गजेन्द्र सिंह	01.06.2019
2356	जेसी700386एक्स	सुबेदार	राटोड़ शिव राम एल	01.08.2019
2357	जेसी700379एफ	सुबेदार	रुद्रा प्रताप सिंह	01.07.2019
2358	जेसी699729एन	सुबेदार	आर अमीन विश्वास	01.02.2019
2359	जेसी700028एम	सुबेदार	सजीवन पिल्लई के	01.03.2019
2360	जेसी697755डब्ल्यू	सुबेदार	साजू के पी	01.06.2019
2361	जेसी699727एच	सुबेदार	संदीप कुमार गौड़	01.02.2019
2362	जेसी700533पी	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2019
2363	जेसी700390ए	सुबेदार	एस कुमार	01.08.2019
2364	जेसी700286एम	सुबेदार	सीपाना सत्यनारायना	01.06.2019
2365	जेसी700410एच	सुबेदार	शेख बशीर नजीर	01.06.2019
2366	जेसी700381वाई	सुबेदार	शाम सिंह	01.07.2019
2367	जेसी699902एम	सुबेदार	शिव पाल सिंह पाल	01.02.2019
2368	जेसी699818एम	सुबेदार	शिव शंकर सिंह	01.02.2019
2369	जेसी698396ए	सुबेदार	शिवा प्रसाद बी आर	01.08.2019
2370	जेसी699756एक्स	सुबेदार	सीदाराय बी	01.03.2019
2371	जेसी700516पी	सुबेदार	सिद्ध नाथ सिंह यादव	01.04.2019
2372	जेसी699728एल	सुबेदार	सिवा कुमार पी	01.02.2019
2373	जेसी700556डब्ल्यू	सुबेदार	सुभास चंद्रा	01.05.2019
2374	जेसी699943डब्ल्यू	सुबेदार	सुभास मोन्दल	01.03.2019
2375	जेसी700896वाई	सुबेदार	सुधीर कुमार डी.	01.07.2019
2376	जेसी700291एक्स	सुबेदार	सुलेन्द्र कुमार	01.07.2019
2377	जेसी699742एक्स	सुबेदार	सुमित भोमिक	01.03.2019
2378	जेसी699576पी	सुबेदार	सुन्दरा वेदीवेल एन	01.08.2019
2379	जेसी697025एल	सुबेदार	सुंदरम नायक	01.06.2019
2380	जेसी700221वाई	सुबेदार	सुनील डे आशी	01.03.2019
2381	जेसी700388एच	सुबेदार	सुनील कुमार आर	01.08.2019
2382	जेसी697916एन	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.08.2019
2383	जेसी699507वाई	सुबेदार	सुरिन्द्र सिंह	01.06.2019
2384	जेसी700059एम	सुबेदार	तालेकर दिनेश्वर यशवन्त	01.04.2019
2385	जेसी700234डब्ल्यू	सुबेदार	उदय भान पटेल	01.04.2019

2386	जेसी700230ए	सुबेदार	उदयभानु वी कान्दी	01.04.2019
2387	जेसी700391एच	सुबेदार	उमेश यादव	01.08.2019
2388	जेसी698280के	सुबेदार	वी लक्ष्मना मूर्ती	01.06.2019
2389	जेसी699745एल	सुबेदार	वैद्या संजय कुमार	01.04.2019
2390	जेसी699854एक्स	सुबेदार	विनोद कुमार शर्मा	01.02.2019
2391	जेसी699746एन	सुबेदार	यादव यतेन्द्र सिंह आर	01.04.2019
2392	जेसी699875एन	सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह	01.04.2019
2393	जेसी699944वाई	सुबेदार	योगराम बी	01.02.2019

सेना आयुध पलटन

2394	जेसी730049एक्स	सुबेदार	आद्या प्रसाद यादव	01.04.2019
2395	जेसी730357एक्स	सुबेदार	एके राम	01.08.2019
2396	जेसी730512एन	सुबेदार	अजय कुमार	01.06.2019
2397	जेसी730240वाई	सुबेदार	अकबर अली	01.07.2019
2398	जेसी730278एच	सुबेदार	अमिया कुमार मोन्डल	01.02.2019
2399	जेसी730420एफ	सुबेदार	अनिल कुमार	01.07.2019
2400	जेसी730507एच	सुबेदार	अनिल वर्मा	01.03.2019
2401	जेसी730285वाई	सुबेदार	अरबिंद उपाध्या	01.05.2019
2402	जेसी730187वाई	सुबेदार	अवधेश प्रसाद पटेल	01.04.2019
2403	जेसी730505एक्स	सुबेदार	भागीरथी नायक	01.08.2019
2404	जेसी730127के	सुबेदार	भोला नाथ दास	01.05.2019
2405	जेसी729942एल	सुबेदार	भोसले रामचंद्र जलिन्दर	01.08.2019
2406	जेसी729941एच	सुबेदार	भृगु नाथ साह	01.08.2019
2407	जेसी727250एक्स	सुबेदार	बिनोद कुमार जैना	01.02.2019
2408	जेसी731063डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह चौहान	01.06.2019
2409	जेसी729933के	सुबेदार	बीरेन्द्रा सिंह	01.02.2019
2410	जेसी730828ए	सुबेदार	बिश्वनाथ ठाकुर	01.08.2019
2411	जेसी731367एन	सुबेदार	चंद्रा प्रकाश सिंह	01.08.2019
2412	जेसी730398एफ	सुबेदार	चंद्रन एम	01.07.2019
2413	जेसी730356पी	सुबेदार	सी गोपाल कृष्णा	01.06.2019
2414	जेसी730509एन	सुबेदार	छोटे लाल मालवीयप्रजापति	01.08.2019
2415	जेसी727260एफ	सुबेदार	देवेन्द्र प्रताप सिंह	01.03.2019
2416	जेसी731137ए	सुबेदार	धर्म बीर	01.03.2019
2417	जेसी731473एम	सुबेदार	दिवाकर तिवारी	01.04.2019
2418	जेसी730101पी	सुबेदार	गनेश राम	01.08.2019
2419	जेसी728427एम	सुबेदार	गौतम बरुआ	01.02.2019
2420	जेसी731183पी	सुबेदार	गिरीश चंद्रा	01.05.2019
2421	जेसी730279एल	सुबेदार	गोतम सूत्राधर	01.06.2019
2422	जेसी731336एन	सुबेदार	हरीश चंद्र	01.05.2019
2423	जेसी729931वाई	सुबेदार	एच लाल सिंह	01.08.2019
2424	जेसी730120ए	सुबेदार	आइ सुधाकर नाना	01.06.2019
2425	जेसी727156एन	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.04.2019
2426	जेसी730126एफ	सुबेदार	इश्वर देव यादव	01.07.2019
2427	जेसी731641ए	सुबेदार	इश्वर लाल शाह	01.05.2019
2428	जेसी730343एक्स	सुबेदार	जलवा खान	01.07.2019
2429	जेसी729940ए	सुबेदार	जनार्दन सिंह	01.08.2019
2430	जेसी730167एल	सुबेदार	जस राम सिंह	01.08.2019
2431	जेसी731182एम	सुबेदार	जितेन्द्र	01.05.2019
2432	जेसी730040एच	सुबेदार	जितेन्द्रा कुमार	01.03.2019
2433	जेसी730334डब्ल्यू	सुबेदार	जोगेश्वर पधान	01.07.2019
2434	जेसी729475वाई	सुबेदार	जे जेवियर	01.07.2019
2435	जेसी730332एल	सुबेदार	कदम शिवाजी गमपति	01.06.2019
2436	जेसी730585ए	सुबेदार	काले पोपट एकानाथ	01.04.2019
2437	जेसी731555पी	सुबेदार	कालीदास बर्मन	01.05.2019

2438	जेसी729994एफ	सुबेदार	के प्रसाद पांडे	01.08.2019
2439	जेसी730105एल	सुबेदार	कप्पाला पी राव	01.02.2019
2440	जेसी730749एल	सुबेदार	मनदीप सिंह	01.05.2019
2441	जेसी730254वाई	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.08.2019
2442	जेसी729929एफ	सुबेदार	मनोज कुमार	01.04.2019
2443	जेसी730396डब्ल्यू	सुबेदार	मैथ्यूज टी	01.04.2019
2444	जेसी730397वाई	सुबेदार	एम संजय शेषराव	01.08.2019
2445	जेसी729638एफ	सुबेदार	मोहम्मद बी इस्लाम	01.07.2019
2446	जेसी731175डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद अब्राहिम नोबी	01.02.2019
2447	जेसी731019एम	सुबेदार	एम सुरेश बाबू	01.02.2019
2448	जेसी728044ए	सुबेदार	मोहन लाल वर्मा	01.08.2019
2449	जेसी731785एच	सुबेदार	मोहन सिंह	01.07.2019
2450	जेसी729554एन	सुबेदार	मोहन सिंह चौहान	01.08.2019
2451	जेसी730141डब्ल्यू	सुबेदार	मोती सिंह चौहान	01.07.2019
2452	जेसी731467वाई	सुबेदार	नालांवाडे दिलीप गणपति	01.05.2019
2453	जेसी731704एक्स	सुबेदार	नालवदे संजू सम्पत	01.05.2019
2454	जेसी730676के	सुबेदार	एन नारासईयह	01.03.2019
2455	जेसी731787एन	सुबेदार	नंदन सिंह	01.07.2019
2456	जेसी730238एफ	सुबेदार	नरेंदर सिंह	01.05.2019
2457	जेसी730301एल	सुबेदार	नरेंदर सिंह	01.07.2019
2458	जेसी731074एच	सुबेदार	एन बाला साहेब शिताराम	01.03.2019
2459	जेसी731541पी	सुबेदार	नाजरुल हक	01.05.2019
2460	जेसी730853वाई	सुबेदार	निकम सुरेश तुकाराम	01.05.2019
2461	जेसी730779एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.08.2019
2462	जेसी731652एम	सुबेदार	प्रताप कुमार नायक	01.05.2019
2463	जेसी731425एम	सुबेदार	राज कुमार	01.05.2019
2464	जेसी730366वाई	सुबेदार	राज कुमार तिवारी	01.08.2019
2465	जेसी729495एम	सुबेदार	राजीवन के	01.03.2019
2466	जेसी730222डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार यादव	01.06.2019
2467	जेसी730345एच	सुबेदार	राजू	01.02.2019
2468	जेसी730413एल	सुबेदार	राम अवधा यादव	01.08.2019
2469	जेसी730368के	सुबेदार	राम बाबू सिंह	01.07.2019
2470	जेसी729553एल	सुबेदार	राम बाली सिंह	01.07.2019
2471	जेसी730203एल	सुबेदार	राम नरेश प्रसाद	01.08.2019
2472	जेसी730192के	सुबेदार	राम पाल सिंह	01.08.2019
2473	जेसी729930डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार	01.06.2019
2474	जेसी730028एफ	सुबेदार	रमेश प्रसाद	01.06.2019
2475	जेसी730121एच	सुबेदार	रामेश्वर लाल चौधरी	01.07.2019
2476	जेसी729474डब्ल्यू	सुबेदार	रामजी लाल	01.07.2019
2477	जेसी730188एफ	सुबेदार	रंजीत सिंह परिहार	01.04.2019
2478	जेसी730752एल	सुबेदार	आर जोधा भीमा	01.05.2019
2479	जेसी730186डब्ल्यू	सुबेदार	रवि कुमार	01.04.2019
2480	जेसी731239डब्ल्यू	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार भारद्वाज	01.05.2019
2481	जेसी729482पी	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी	01.04.2019
2482	जेसी730243एम	सुबेदार	रतना कुमार पीएन	01.06.2019
2483	जेसी730631के	सुबेदार	आर अहम्मद पी	01.08.2019
2484	जेसी730525एल	सुबेदार	सनिल कुमार वीएस	01.08.2019
2485	जेसी730164एक्स	सुबेदार	संतोख सिंह	01.07.2019
2486	जेसी730415डब्ल्यू	सुबेदार	सरत कुमार स्वेन	01.03.2019
2487	जेसी730416वाई	सुबेदार	एस दास	01.08.2019
2488	जेसी728555के	सुबेदार	सतीश पी के	01.06.2019
2489	जेसी730305एफ	सुबेदार	सत्य प्रकाश सक्सेना	01.03.2019
2490	जेसी730149एच	सुबेदार	सैयद जी. एस	01.04.2019
2491	जेसी730218एन	सुबेदार	एस नाना रमा	01.06.2019

2492	जेसी730058वाई	सुबेदार	शिव शंकर सिंह	01.03.2019
2493	जेसी730191एफ	सुबेदार	शिमू सिंह	01.07.2019
2494	जेसी730484एम	सुबेदार	शिव चंद्रा झा	01.06.2019
2495	जेसी731506एम	सुबेदार	सिकंदर सिंह	01.03.2019
2496	जेसी731049के	सुबेदार	सोम नाथ मिश्रा	01.06.2019
2497	जेसी731322एन	सुबेदार	सुधाकरन पीआर	01.08.2019
2498	जेसी728048डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2019
2499	जेसी729928वाई	सुबेदार	सुरेश प्रसाद द्विवेदी	01.04.2019
2500	जेसी730354के	सुबेदार	सुरेश श्रीमंत सुतार	01.06.2019
2501	जेसी730202एच	सुबेदार	टी रहमान	01.05.2019
2502	जेसी730479एफ	सुबेदार	उन्नीकृष्णा कुरुप श्री	01.08.2019
2503	जेसी731613एन	सुबेदार	उत्पल दत्ताता	01.05.2019
2504	जेसी730150एक्स	सुबेदार	उत्पल कुंडू	01.06.2019
2505	जेसी730348डब्ल्यू	सुबेदार	वी लोगानाथन	01.08.2019
2506	जेसी731546एन	सुबेदार	वी पी मनोज	01.03.2019
2507	जेसी730433वाई	सुबेदार	वी वेन्कटेश्वारलु	01.07.2019
2508	जेसी730100एम	सुबेदार	वीर नारायण सिंह	01.06.2019
2509	जेसी730346एल	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.05.2019
2510	जेसी728240ए	सुबेदार	डब्ल्यू श्रीकृष्णा भगवत	01.08.2019
2511	जेसी730078एम	सुबेदार	वाइ पण्डित	01.04.2019

विधुतिय एवं यांत्रिक अभियन्ता पलटन

2512	जेसी768073एक्स	सुबेदार	अब्दुल हफीज़ खान	01.06.2019
2513	जेसी767088एन	सुबेदार	अच्छे राम	01.02.2019
2514	जेसी765938एन	सुबेदार	अखिला चंद्रा गिरि	01.02.2019
2515	जेसी766464के	सुबेदार	अनिल कुमार द्विवेदी	01.04.2019
2516	जेसी767349डब्ल्यू	सुबेदार	अनिल कुमार के पी	01.04.2019
2517	जेसी767086एच	सुबेदार	अनिल कुमार मिश्रा	01.02.2019
2518	जेसी767640एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.06.2019
2519	जेसी768289वाई	सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2019
2520	जेसी768480ए	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.07.2019
2521	जेसी765314एफ	सुबेदार	असीम माहालदर	01.02.2019
2522	जेसी766417एम	सुबेदार	असित बरन मोन्डल	01.06.2019
2523	जेसी766072डब्ल्यू	सुबेदार	असित कुमार पात्रा	01.03.2019
2524	जेसी770574डब्ल्यू	सुबेदार	बच्छा लाल	01.02.2019
2525	जेसी765568वाई	सुबेदार	बनवारी लाल शर्मा	01.04.2019
2526	जेसी765815एफ	सुबेदार	भरतेंद्रा सिंह परिहार	01.04.2019
2527	जेसी769165डब्ल्यू	सुबेदार	भूवन चंद्रा जोशी	01.02.2019
2528	जेसी765562एक्स	सुबेदार	विभूति भूसेन पी	01.03.2019
2529	जेसी763199एन	सुबेदार	बिजेंद्र सिंह रौतेला	01.08.2019
2530	जेसी768072पी	सुबेदार	बिमल सिन्हा	01.05.2019
2531	जेसी773271एम	सुबेदार	चंद्रा शेखर सीएन	01.05.2019
2532	जेसी763239के	सुबेदार	डी. नारायनन	01.04.2019
2533	जेसी766124एफ	सुबेदार	दलीप कुमार सिंह	01.04.2019
2534	जेसी768375के	सुबेदार	डी. जयन के	01.07.2019
2535	जेसी763378एन	सुबेदार	दीना नाथ सिंह	01.02.2019
2536	जेसी767480एन	सुबेदार	दिलीप सिंह	01.08.2019
2537	जेसी766514के	सुबेदार	दिलीप कुमार गोड़ा	01.02.2019
2538	जेसी767508एच	सुबेदार	दिनेश	01.02.2019
2539	जेसी767315एच	सुबेदार	दिवाकर राव डी.	01.08.2019
2540	जेसी765006एफ	सुबेदार	दुला राम	01.03.2019
2541	जेसी765558पी	सुबेदार	फूल चन्द एस के	01.03.2019
2542	जेसी763060डब्ल्यू	सुबेदार	जी. राजेश	01.05.2019
2543	जेसी762266एफ	सुबेदार	गजराज	01.03.2019

2544	जेसी767515वाई	सुबेदार	गनेश चौधरी	01.08.2019
2545	जेसी770302डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश नैटियाल	01.08.2019
2546	जेसी766465एम	सुबेदार	गनेश प्रसाद सिंह	01.03.2019
2547	जेसी770697एन	सुबेदार	जोर्ज पीए	01.03.2019
2548	जेसी763196ए	सुबेदार	गोहिल पी बी	01.03.2019
2549	जेसी764683एम	सुबेदार	गोरख नाथ गुप्ता	01.02.2019
2550	जेसी766298एफ	सुबेदार	जी. वर्मा	01.03.2019
2551	जेसी768037एम	सुबेदार	हरी नारायण	01.04.2019
2552	जेसी768075एच	सुबेदार	हरिहर प्रसाद	01.08.2019
2553	जेसी760728के	सुबेदार	ईपिली नारायणा राव	01.03.2019
2554	जेसी765567डब्ल्यू	सुबेदार	जगेश्वर सेन	01.04.2019
2555	जेसी767539एच	सुबेदार	जे सिंह	01.07.2019
2556	जेसी762647एच	सुबेदार	जया कुमार आर	01.02.2019
2557	जेसी768474एम	सुबेदार	जयंत पाल	01.07.2019
2558	जेसी768070के	सुबेदार	जितेन्द्रा शर्मा	01.04.2019
2559	जेसी767485एम	सुबेदार	जुगेन्द्र सिंह	01.03.2019
2560	जेसी767313एक्स	सुबेदार	कैलाश चंद्रा सैनी	01.07.2019
2561	जेसी772257एन	सुबेदार	कांडी नरसिम्हा रेडी	01.03.2019
2562	जेसी766230ए	सुबेदार	कंवर सिंह	01.04.2019
2563	जेसी767922एफ	सुबेदार	कोदे श्रीनिवास राव	01.02.2019
2564	जेसी766859एल	सुबेदार	लांडेगे दिलीप अर्जुन	01.07.2019
2565	जेसी766125के	सुबेदार	एम विजयन	01.08.2019
2566	जेसी770694पी	सुबेदार	मदन पाल	01.02.2019
2567	जेसी763379डब्ल्यू	सुबेदार	मधु सूधानन पिल्लई सी	01.04.2019
2568	जेसी766297वाई	सुबेदार	मगर शंकर बाबा	01.06.2019
2569	जेसी768477ए	सुबेदार	महाराज सिंह यादव	01.07.2019
2570	जेसी766233एन	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.04.2019
2571	जेसी766303एफ	सुबेदार	महेंद्र सिंह भादौरिया	01.04.2019
2572	जेसी769739एक्स	सुबेदार	महेश चंद्रा	01.04.2019
2573	जेसी763197एच	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.06.2019
2574	जेसी767472पी	सुबेदार	मानिक कर्माकर	01.05.2019
2575	जेसी768876के	सुबेदार	मोहम्मद एस अंसारी	01.04.2019
2576	जेसी766406ए	सुबेदार	मलिक दिनकर छंगदयो	01.07.2019
2577	जेसी762506एन	सुबेदार	एन के अनिल कुमार	01.03.2019
2578	जेसी763519एक्स	सुबेदार	निताइ चंद्रा घोष	01.07.2019
2579	जेसी768034वाई	सुबेदार	पगारे सुनील पोपट	01.04.2019
2580	जेसी766453एक्स	सुबेदार	पटेल मुकेश कुमार रतिलाल	01.02.2019
2581	जेसी768370एल	सुबेदार	पटेल राजेंद्रा कुमार मोती भाई	01.07.2019
2582	जेसी769536एन	सुबेदार	पाटिल विष्णु नाना	01.08.2019
2583	जेसी766126एम	सुबेदार	प्रवीर कुमार मोन्डल	01.03.2019
2584	जेसी765939डब्ल्यू	सुबेदार	प्रदीप कुमार रौय	01.04.2019
2585	जेसी766235वाई	सुबेदार	प्रदीप कुमार टी आर	01.04.2019
2586	जेसी762531एम	सुबेदार	प्रसांत कुमार पंडा	01.05.2019
2587	जेसी766234डब्ल्यू	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.08.2019
2588	जेसी768273एन	सुबेदार	राम कुमार	01.05.2019
2589	जेसी765563ए	सुबेदार	राम प्रकाश शर्मा	01.03.2019
2590	जेसी750701वाई	सुबेदार	राम प्रवेश मिश्रा	01.02.2019
2591	जेसी770696ए	सुबेदार	राम प्रवेश सिंह वर्मा	01.03.2019
2592	जेसी770701ए	सुबेदार	राम वीर	01.04.2019
2593	जेसी767464डब्ल्यू	सुबेदार	रमा चंद्रा साहू	01.02.2019
2594	जेसी767286वाई	सुबेदार	रमा चंद्रा स्वेन	01.04.2019
2595	जेसी767193के	सुबेदार	रामकृष्ण एम	01.08.2019
2596	जेसी773678एच	सुबेदार	रामकृष्ण एस	01.05.2019

2597	जेसी768119पी	सुबेदार	रामजी तिवारी	01.08.2019
2598	जेसी768369डब्ल्यू	सुबेदार	राउत सुनील मारुति	01.07.2019
2599	जेसी768536एफ	सुबेदार	एस के नेमुद्दीन	01.02.2019
2600	जेसी766885एम	सुबेदार	एस राजा कुमार	01.07.2019
2601	जेसी770700एक्स	सुबेदार	सागर श्रीकृष्णा भीखम सिंह	01.04.2019
2602	जेसी766415एफ	सुबेदार	सलीमुद्दीन मल्लिक	01.02.2019
2603	जेसी768036के	सुबेदार	समीरन कुमार दास	01.04.2019
2604	जेसी767311एम	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.04.2019
2605	जेसी767509एल	सुबेदार	संतोष कुमार पांडे	01.02.2019
2606	जेसी766407एच	सुबेदार	सतीश चंद्र	01.06.2019
2607	जेसी765013एक्स	सुबेदार	सत्येन्द्र नाथ मंडल	01.03.2019
2608	जेसी765941एन	सुबेदार	शैलेश कुमार वाणी	01.04.2019
2609	जेसी768074ए	सुबेदार	शाजी आर	01.08.2019
2610	जेसी761168पी	सुबेदार	शम्भू सिंह यादव	01.08.2019
2611	जेसी766077पी	सुबेदार	शीश पाल	01.04.2019
2612	जेसी767476एल	सुबेदार	सुभाष चंद्रा सैनी	01.07.2019
2613	जेसी768684एम	सुबेदार	सुबीर कुमार पौल	01.04.2019
2614	जेसी769083एन	सुबेदार	सुनील कुमार द्विवेदी	01.06.2019
2615	जेसी768695वाई	सुबेदार	सुनील कुमार सिंह	01.02.2019
2616	जेसी769703वाई	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह परिहार	01.04.2019
2617	जेसी765009पी	सुबेदार	सुरेश कुमार ओझा	01.03.2019
2618	जेसी768591एक्स	सुबेदार	सुरेश ठाकुर	01.04.2019
2619	जेसी765926वाई	सुबेदार	सूर्या देव प्रसाद	01.04.2019
2620	जेसी767347एल	सुबेदार	सुशील कुमार	01.02.2019
2621	जेसी761129डब्ल्यू	सुबेदार	तेजेन्द्र सिंह	01.03.2019
2622	जेसी763576वाई	सुबेदार	वी सुन्दरा राजन	01.04.2019
2623	जेसी768266एक्स	सुबेदार	विमल कुमार गुप्ता	01.05.2019
2624	जेसी750704एम	सुबेदार	विनोद कुमार	01.08.2019
2625	जेसी766238एम	सुबेदार	विनोद प्रसाद शर्मा	01.04.2019
2626	जेसी765317पी	सुबेदार	योगेन्द्रा प्रसाद गौतम	01.03.2019
2627	जेसी765008एम	सुबेदार	योगेश्वर कांत यादवा	01.03.2019

सेना शिक्षा पलटन

2628	जेसी804331ए	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.02.2019
2629	जेसी804595एफ	सुबेदार	अजीत कुमार बिर्सोई	01.02.2019
2630	जेसी804589एन	सुबेदार	अजीत सिंह	01.02.2019
2631	जेसी804598पी	सुबेदार	आनंद बल्लभ	01.03.2019
2632	जेसी804615के	सुबेदार	आनंद सिंह एल	01.07.2019
2633	जेसी804666एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार पी	01.06.2019
2634	जेसी804613वाई	सुबेदार	भगवान सिंह थापा	01.07.2019
2635	जेसी804716एक्स	सुबेदार	भूप मनी पांडे	01.04.2019
2636	जेसी804622ए	सुबेदार	भूप सिंह	01.08.2019
2637	जेसी804621एक्स	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह रौतेला	01.08.2019
2638	जेसी804712एफ	सुबेदार	भुवनेश्वर ठाकुर	01.04.2019
2639	जेसी804597एम	सुबेदार	ब्रजेश कुमार सिंह	01.03.2019
2640	जेसी804607एल	सुबेदार	ब्रहमानन्दा बिनोद	01.05.2019
2641	जेसी804344एक्स	सुबेदार	चौधरी सुभाष चंद्रा	01.08.2019
2642	जेसी804466एफ	सुबेदार	चेरियन बीआरसी	01.06.2019
2643	जेसी804645एफ	सुबेदार	देवेंद्र कुमार	01.04.2019
2644	जेसी804453के	सुबेदार	धनिक हरेन्द्र सिंह मानसिंह	01.04.2019
2645	जेसी804586ए	सुबेदार	धर्मवीर	01.02.2019
2646	जेसी804723एन	सुबेदार	गोपा कुमार एस	01.06.2019
2647	जेसी804738डब्ल्यू	सुबेदार	गोपालाकृष्णन के	01.08.2019
2648	जेसी804727के	सुबेदार	गोरी संकर पध्य	01.07.2019

2649	जेसी804715पी	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.04.2019
2650	जेसी804722एल	सुबेदार	एच जयरमण	01.06.2019
2651	जेसी804447डब्ल्यू	सुबेदार	हरिनाम सिंह	01.02.2019
2652	जेसी804729पी	सुबेदार	इंदराज सिंह परिहार	01.07.2019
2653	जेसी804717ए	सुबेदार	जगदीश कुमार	01.04.2019
2654	जेसी804709एफ	सुबेदार	जीवन कुमार	01.02.2019
2655	जेसी804873के	सुबेदार	जितेन्द्रा कुमार	01.08.2019
2656	जेसी804591एल	सुबेदार	जितेन्द्रा सिंह तोमर	01.02.2019
2657	जेसी804471एम	सुबेदार	के वेनु गोपाल	01.07.2019
2658	जेसी804340एफ	सुबेदार	के चंद्रा प्रधान	01.07.2019
2659	जेसी804730के	सुबेदार	कृष्णा प्रताप सिंह	01.07.2019
2660	जेसी804708वाई	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.02.2019
2661	जेसी804728एम	सुबेदार	कुंदन लाल	01.07.2019
2662	जेसी804644वाई	सुबेदार	ललित कुमार	01.02.2019
2663	जेसी804612डब्ल्यू	सुबेदार	ललित नारायण	01.07.2019
2664	जेसी804338के	सुबेदार	एम एस रेडी	01.07.2019
2665	जेसी804713के	सुबेदार	मदन मिश्रा	01.04.2019
2666	जेसी804452एफ	सुबेदार	मंसा चंद्रा राउत	01.04.2019
2667	जेसी804592एन	सुबेदार	मनोज कुमार पांडे	01.02.2019
2668	जेसी804748ए	सुबेदार	मांटू कुमार विश्वास	01.04.2019
2669	जेसी804448वाई	सुबेदार	मुन्ना लाल	01.02.2019
2670	जेसी804475एच	सुबेदार	मुरलीधरन पी	01.08.2019
2671	जेसी804718एच	सुबेदार	पी रवीन्द्र वी	01.05.2019
2672	जेसी804468एम	सुबेदार	पी वैद्यानाथन	01.06.2019
2673	जेसी804725वाई	सुबेदार	पियू चकर्बती	01.06.2019
2674	जेसी804749एच	सुबेदार	पी कुमार जे	01.08.2019
2675	जेसी804618एक्स	सुबेदार	पी सिंह	01.07.2019
2676	जेसी804588एल	सुबेदार	प्रमोद कुमार परीद	01.02.2019
2677	जेसी804348एन	सुबेदार	रबीन्द्र प्रसाद	01.04.2019
2678	जेसी804605ए	सुबेदार	राजीव कुमार पांडे	01.04.2019
2679	जेसी804617पी	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार	01.07.2019
2680	जेसी804590एच	सुबेदार	राम चन्द	01.02.2019
2681	जेसी804665पी	सुबेदार	राम देव सिंह	01.05.2019
2682	जेसी804610एल	सुबेदार	राम किशन	01.06.2019
2683	जेसी804623एच	सुबेदार	राम कुमार मौर्या	01.08.2019
2684	जेसी804445एल	सुबेदार	रत्नेश कुमार	01.02.2019
2685	जेसी804451वाई	सुबेदार	संजय कुमार	01.03.2019
2686	जेसी804454एम	सुबेदार	संजीव कुमार	01.05.2019
2687	जेसी804731एम	सुबेदार	सनवंत सिंह यादव	01.08.2019
2688	जेसी804619ए	सुबेदार	सर्वेश सिंह	01.07.2019
2689	जेसी804726एफ	सुबेदार	सत्य पाल	01.07.2019
2690	जेसी804664एम	सुबेदार	सत्य पाल सिंह	01.03.2019
2691	जेसी804458एच	सुबेदार	शिबू बी	01.05.2019
2692	जेसी804467के	सुबेदार	सिधरन एस	01.06.2019
2693	जेसी804747एक्स	सुबेदार	सीमांचल पात्रा	01.04.2019
2694	जेसी804608एन	सुबेदार	श्री अर्विन्द कुमार द्विवेदी	01.05.2019
2695	जेसी804710डब्ल्यू	सुबेदार	सुदेश कुमार	01.02.2019
2696	जेसी804719एल	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.05.2019
2697	जेसी804599एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा नारायण	01.03.2019
2698	जेसी804596के	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.03.2019
2699	जेसी804724डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश कुमार के एस	01.06.2019
2700	जेसी804461एच	सुबेदार	श्यामा सुंदर नायक	01.06.2019
2701	जेसी804735एच	सुबेदार	तापस मन्न	01.03.2019
2702	जेसी804602एम	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	01.04.2019

2703	जेसी804587एच	सुबेदार	उदय वीर सिंह	01.02.2019
2704	जेसी804337एफ	सुबेदार	वी सुधाकर सी	01.07.2019
2705	जेसी804714एम	सुबेदार	विजय कुमार जग्गी	01.04.2019
2706	जेसी804721एच	सुबेदार	विपिन कुमार चौधरी	01.05.2019
2707	जेसी804603पी	सुबेदार	यश पाल शर्मा	01.04.2019
2708	जेसी804473एक्स	सुबेदार	योगेन्द्रा कुमार सिंह	01.07.2019

घुड़ एवं पशुचिकित्सा पलटन

2709	जेसी797707एल	रिसालदार	चंद्रा प्रकाश	01.07.2019
2710	जेसी797642एच	रिसालदार	धनंजय सिंह	01.06.2019
2711	जेसी797645डब्ल्यू	रिसालदार	एच लाल गूजर	01.04.2019
2712	जेसी797616एफ	रिसालदार	एच बिशोई	01.06.2019
2713	जेसी797650एफ	रिसालदार	जगवीर सिंह	01.05.2019
2714	जेसी797654एक्स	रिसालदार	प्रविंद्र कुमार	01.07.2019
2715	जेसी797657एल	रिसालदार	राजन कुमार	01.06.2019
2716	जेसी797671एक्स	रिसालदार	राकेश कुमार तिवारी	01.04.2019
2717	जेसी797617के	रिसालदार	राम रूप जाटव	01.07.2019
2718	जेसी797656एच	रिसालदार	संजय कुमार दुबे	01.05.2019
2719	जेसी797628डब्ल्यू	रिसालदार	सतीश कुमार जी.	01.06.2019
2720	जेसी797679के	रिसालदार	सुबोध भास्कर नेगी	01.05.2019

सेना आसूचना पलटन

2721	जेसी811647पी	सुबेदार	भरत दत्ताता	01.03.2019
2722	जेसी811545वाई	सुबेदार	ब्रम देव मिश्रा	01.03.2019
2723	जेसी811820एन	सुबेदार	ब्रज मोहन पंडा	01.05.2019
2724	जेसी811661एफ	सुबेदार	चेल्लादुराई के	01.05.2019
2725	जेसी811610एन	सुबेदार	देव नारायण	01.02.2019
2726	जेसी811573एल	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.05.2019
2727	जेसी811612वाई	सुबेदार	जाधव विष्णु रानू	01.03.2019
2728	जेसी811542एल	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.03.2019
2729	जेसी811721एल	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.07.2019
2730	जेसी811579एम	सुबेदार	जया चंद्रन के	01.07.2019
2731	जेसी811660वाई	सुबेदार	कृष्णा मूर्ती आर	01.05.2019
2732	जेसी811576वाई	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.07.2019
2733	जेसी811577एफ	सुबेदार	मलप्पा बी	01.07.2019
2734	जेसी811559वाई	सुबेदार	मेहताब सिंह	01.04.2019
2735	जेसी811568ए	सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2019
2736	जेसी811581के	सुबेदार	नगर मल यादव	01.07.2019
2737	जेसी811770एन	सुबेदार	नवीन एचएन	01.07.2019
2738	जेसी811547के	सुबेदार	ओ सिंह	01.04.2019
2739	जेसी811608डब्ल्यू	सुबेदार	पारस सिंह यादव	01.05.2019
2740	जेसी811808एम	सुबेदार	राजेश कुमार	01.03.2019
2741	जेसी811556एल	सुबेदार	राम बचन सिंह यादव	01.04.2019
2742	जेसी811733ए	सुबेदार	आर नायक	01.06.2019
2743	जेसी811567एक्स	सुबेदार	सतीश कुमार यादव	01.02.2019
2744	जेसी811622एच	सुबेदार	सुब्रमनिअन जी.	01.03.2019
2745	जेसी811561डब्ल्यू	सुबेदार	सुखपाल सिंह	01.04.2019
2746	जेसी811534एम	सुबेदार	टी वेन्कट रमन दास	01.02.2019
2747	जेसी811648एक्स	सुबेदार	उदय कुमार मिश्रा	01.03.2019
2748	जेसी811731पी	सुबेदार	उमेश कुमार कारपेंटर	01.08.2019
2749	जेसी811536एक्स	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.02.2019
2750	जेसी811802एल	सुबेदार	विष्णु दत्ता	01.04.2019
2751	जेसी811650पी	सुबेदार	वीआर श्री कुमार	01.06.2019

सेना पुलिस पलटन

2752	जेसी819714के	सुबेदार	अलोक कुमार मैटी	01.04.2019
2753	जेसी819869वाई	सुबेदार	अमर कुमार सिंह	01.03.2019
2754	जेसी819857के	सुबेदार	अनिल कुमार नायक	01.03.2019
2755	जेसी819881ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.08.2019
2756	जेसी819856एफ	सुबेदार	बारिया तख्त सिंह चंद्रासिंह	01.03.2019
2757	जेसी819838वाई	सुबेदार	बिजित कुमार बोराह	01.02.2019
2758	जेसी819854डब्ल्यू	सुबेदार	बीजू पीएस	01.03.2019
2759	जेसी819873एफ	सुबेदार	बिरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2019
2760	जेसी819880एक्स	सुबेदार	बिश्नु राम नाथ	01.08.2019
2761	जेसी819843के	सुबेदार	ब्रिजेश कुमार दुबे	01.02.2019
2762	जेसी819708डब्ल्यू	सुबेदार	सी राव सिंह	01.03.2019
2763	जेसी819859पी	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार उपाध्याय	01.04.2019
2764	जेसी819872वाई	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.07.2019
2765	जेसी819882एच	सुबेदार	गिगि वीजे	01.08.2019
2766	जेसी819868डब्ल्यू	सुबेदार	इन्द्रा कमल तमुली	01.04.2019
2767	जेसी819861एम	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह	01.04.2019
2768	जेसी819864ए	सुबेदार	मोहम्मद ओ इस्लाम	01.05.2019
2769	जेसी819860के	सुबेदार	मोहन कुमार सिंह	01.04.2019
2770	जेसी819848एच	सुबेदार	मोहन लाल	01.03.2019
2771	जेसी819863एक्स	सुबेदार	मुनेनदर नारायण सिंह	01.04.2019
2772	जेसी819877एक्स	सुबेदार	निशाद घनशाम गंगाराम	01.05.2019
2773	जेसी819851एच	सुबेदार	पवन कुमार	01.03.2019
2774	जेसी819866एल	सुबेदार	प्रदीप कुमार परीद	01.05.2019
2775	जेसी819734एक्स	सुबेदार	राधे श्याम	01.03.2019
2776	जेसी819875एम	सुबेदार	राम अवतार मिश्रा	01.07.2019
2777	जेसी819867एन	सुबेदार	राम जीत यादवा	01.05.2019
2778	जेसी819736एच	सुबेदार	रामवतार बी	01.07.2019
2779	जेसी819892एम	सुबेदार	रणवीर सिंह	01.06.2019
2780	जेसी819878ए	सुबेदार	रवीन्द्र पर्ई	01.05.2019
2781	जेसी819840डब्ल्यू	सुबेदार	एस मुरुगेशन	01.02.2019
2782	जेसी819858एम	सुबेदार	शैलेन्द्र सिंह	01.04.2019
2783	जेसी819874के	सुबेदार	सतेंद्र सिंह नेगी	01.07.2019
2784	जेसी819871डब्ल्यू	सुबेदार	सत्येन्द्र कुमार	01.06.2019
2785	जेसी819735ए	सुबेदार	शशि भूषण एस	01.04.2019
2786	जेसी819709वाई	सुबेदार	सोना लाल साह	01.04.2019
2787	जेसी819841वाई	सुबेदार	सुभाष सिंह	01.02.2019
2788	जेसी819852एल	सुबेदार	सुशील कुमार	01.03.2019
2789	जेसी819847ए	सुबेदार	विन्धयाचल सिंह कुशवाहा	01.02.2019
2790	जेसी819836एन	सुबेदार	यादव सुल्तान सिंह रामनरायण	01.02.2019

सेना शारीरिक प्रशिक्षण पलटन

2791	जेसी826270एन	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.03.2019
2792	जेसी826255वाई	सुबेदार	हरिंद्रा कुमार सिंह	01.04.2019
2793	जेसी826251एच	सुबेदार	जोगेन्द्र सिंह	01.06.2019
2794	जेसी826297एल	सुबेदार	एस हिम्मत बी	01.07.2019

अन्वेषक पलटन

2795	जेसी829591डब्ल्यू	सुबेदार	अर्जुन कुमार मोन्दल	01.05.2019
2796	जेसी829597एक्स	सुबेदार	अरुणेश कुमार	01.08.2019
2797	जेसी829506एच	सुबेदार	अशोक सिंह	01.08.2019
2798	जेसी829514एफ	सुबेदार	भोपाल सिंह	01.08.2019

2799	जेसी829502एम	सुबेदार	धनेश्वर सामल	01.08.2019
2800	जेसी829628एम	सुबेदार	धूप सिंह	01.05.2019
2801	जेसी829550एम	सुबेदार	हरिकेश	01.06.2019
2802	जेसी829581एम	सुबेदार	के रहमान	01.04.2019
2803	जेसी829510एल	सुबेदार	कुंवर सिंह रावत	01.08.2019
2804	जेसी829613के	सुबेदार	एम कुमार	01.08.2019
2805	जेसी829495एफ	सुबेदार	नगेन्द्रा शर्मा	01.04.2019
2806	जेसी829520पी	सुबेदार	फिलिप हिरन्ज	01.06.2019
2807	जेसी829551पी	सुबेदार	प्रसांत कर्माकर	01.08.2019
2808	जेसी829548पी	सुबेदार	राजेश सिंह	01.08.2019
2809	जेसी829512डब्ल्यू	सुबेदार	राम नाथ	01.08.2019
2810	जेसी829552एक्स	सुबेदार	रतन सिंह	01.08.2019
2811	जेसी829555एल	सुबेदार	श्री रत्नेश सिंह	01.03.2019
2812	जेसी829585एच	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.08.2019
2813	जेसी829549एक्स	सुबेदार	तरुण देबनाथ	01.08.2019
2814	जेसी829553ए	सुबेदार	ठाकुर उमेश सिंह राम पाल सिंह	01.04.2019
2815	जेसी829576एफ	सुबेदार	वी सिंह	01.08.2019

रक्षा सुरक्षा पलटन

2816	जेसी842490एफ	सुबेदार	सी रमेश कुमार	01.05.2019
2817	जेसी843507डब्ल्यू	सुबेदार	दलीप सिंह बोरा	01.06.2019
2818	जेसी843100ए	सुबेदार	के तमिल सेलवन	01.08.2019
2819	जेसी842104के	सुबेदार	कुमार निचल लक्ष्मन दासा	01.06.2019
2820	जेसी843115एच	सुबेदार	मोहन लाल	01.02.2019
2821	जेसी843544के	सुबेदार	नारायण महादेव डोंगरे	01.06.2019
2822	जेसी843539वाई	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.06.2019
2823	जेसी843577पी	सुबेदार	एस चिश्तराज	01.08.2019
2824	जेसी843273एक्स	सुबेदार	एस वेन्काटेश्वरन	01.04.2019
2825	जेसी843342एच	सुबेदार	श्री चन्द	01.08.2019
2826	जेसी842761एन	सुबेदार	श्रीनिवास पटेल	01.06.2019

प्रादेशिक सेना

2827	टीजे5651ए	सुबेदार	चंद्रा कांता हज़ारिका	01.07.2019
2828	टीजे5728एक्स	सुबेदार	घान श्याम	01.02.2019
2829	टीजे5578एम	सुबेदार	कुन्हिकृष्णा एएम	01.05.2019
2830	टीजे4825एच	सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2019
2831	टीजे5576एफ	सुबेदार	शशि डब्ल्यू	01.05.2019
2832	टीजे5724एफ	सुबेदार	सिधा नाथ मिश्रा	01.02.2019
2833	टीजे5443एल	सुबेदार	सुधीर कुमार एमपी	01.05.2019

रिसालदार/सुबेदार के रूप में**राष्ट्रपति अंगरक्षक**

1	जेसी235097वाई	नायब रिसालदार	हुकम सिंह	01.02.2019
2	जेसी235096डब्ल्यू	नायब रिसालदार	वी सिंह	01.02.2019

तोपखाना सैन्यदल

3	जेसी283572एफ	नायब सूबेदार	अभिमान्यु यादव	01.07.2019
4	जेसी283421एच	नायब सूबेदार	अनिल कुमार	01.08.2019
5	जेसी281290के	नायब सूबेदार	अशोक उपाध्याय	01.03.2019
6	जेसी276801वाई	नायब सूबेदार	बालकृशना सुतार	01.07.2019

7	जेसी278010ए	नायब सूबेदार	बी नजीर खान एस खान	01.07.2019
8	जेसी275601डब्ल्यू	नायब सूबेदार	च. वेंकटेश्वर राव	01.07.2019
9	जेसी280212ए	नायब सूबेदार	दलविंदर सिंह	01.07.2019
10	जेसी286020वाई	नायब सूबेदार	देवानंद सनापला	01.07.2019
11	जेसी281933डब्ल्यू	नायब सूबेदार	धन राज सिंह	01.07.2019
12	जेसी283683वाई	नायब सूबेदार	धर्मन्द्र कुमार यादव	01.02.2019
13	जेसी278872वाई	नायब सूबेदार	जी. फुकन	01.07.2019
14	जेसी281152एच	नायब सूबेदार	गिरवर सिंह	01.05.2019
15	जेसी286317ए	नायब सूबेदार	गोपाल चंद्रा मलिक	01.03.2019
16	जेसी285618एक्स	नायब सूबेदार	गुन्दू गोविन्द राव	01.07.2019
17	जेसी276388एन	नायब सूबेदार	हरविंदर सिंह	01.08.2019
18	जेसी282564डब्ल्यू	नायब सूबेदार	जवाहर प्रसाद	01.07.2019
19	जेसी282043एच	नायब सूबेदार	करन सिंह	01.05.2019
20	जेसी281389ए	नायब सूबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2019
21	जेसी276202वाई	नायब सूबेदार	मोतीलाल सिंह	01.03.2019
22	जेसी281892एक्स	नायब सूबेदार	प्रमोदन के	01.02.2019
23	जेसी278224डब्ल्यू	नायब सूबेदार	राजेश कुमार मिश्रा	01.03.2019
24	जेसी283416एक्स	नायब सूबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2019
25	जेसी276470एच	नायब सूबेदार	रवि एस	01.03.2019
26	जेसी278754एल	नायब सूबेदार	एस कानन्न	01.05.2019
27	जेसी280596ए	नायब सूबेदार	संकर जी.	01.07.2019
28	जेसी279345के	नायब सूबेदार	श्रवण कुमार राय	01.07.2019
29	जेसी283219पी	नायब सूबेदार	श्रवण सिंह	01.07.2019
30	जेसी284017ए	नायब सूबेदार	श्री राम	01.07.2019
31	जेसी282656एच	नायब सूबेदार	श्री रनवीर सिंह भदोरिया	01.03.2019
32	जेसी277845एच	नायब सूबेदार	सुबीर कुमार सेन	01.05.2019
33	जेसी283711ए	नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.08.2019
34	जेसी280340एक्स	नायब सूबेदार	तापस कुमार कोले	01.07.2019
35	जेसी279755ए	नायब सूबेदार	उमेश चंद्रा	01.07.2019
36	जेसी281166एच	नायब सूबेदार	वी वी थिरुमालईयाह	01.07.2019
37	जेसी280653डब्ल्यू	नायब सूबेदार	विजय सिंह यादव	01.04.2019
38	जेसी282721एक्स	नायब सूबेदार	विनोद कुमार आर	01.07.2019

सेना वायु सुरक्षा

39	जेसी302653वाई	नायब सूबेदार	धन सिंह	01.05.2019
40	जेसी303777ए	नायब सूबेदार	प्रशांत तालेकर	01.07.2019
41	जेसी303099एल	नायब सूबेदार	शेख इलियास इब्राहिम	01.07.2019

मद्रास यान्त्रिक समूह

42	जेसी311720ए	नायब सूबेदार	अब्बास मोहम्मद	01.05.2019
43	जेसी311366डब्ल्यू	नायब सूबेदार	अंबालागन ए	01.05.2019
44	जेसी310196एल	नायब सूबेदार	बी वेनूगोपाला राव	01.05.2019
45	जेसी312176डब्ल्यू	नायब सूबेदार	जे आर दोस	01.07.2019
46	जेसी312300एम	नायब सूबेदार	एम एम मारिआ ए	01.05.2019
47	जेसी311848एल	नायब सूबेदार	रविचन्द्रन एस	01.05.2019
48	जेसी311034एम	नायब सूबेदार	आर ए	01.03.2019
49	जेसी311834एल	नायब सूबेदार	एस अरोकियासामी	01.03.2019
50	जेसी311642एन	नायब सूबेदार	सत्य पाल	01.06.2019
51	जेसी310512वाई	नायब सूबेदार	सुनील कुमार पीआर	01.07.2019
52	जेसी312177वाई	नायब सूबेदार	वी पांडिथुरै	01.07.2019

बंगाल यान्त्रिक समुह

53	जेसी341377एक्स	नायब सूबेदार	अरबिंद कुमार सिंह	01.04.2019
54	जेसी341860एफ	नायब सूबेदार	छेनी राम सोनोवाल	01.07.2019
55	जेसी341859एम	नायब सूबेदार	धनबीर सिंह	01.03.2019
56	जेसी342096एन	नायब सूबेदार	दिनो बंधु मोन्डल	01.05.2019
57	जेसी353170के	नायब सूबेदार	गुरनाम सिंह	01.04.2019
58	जेसी340541एच	नायब सूबेदार	कालंदी साहू	01.05.2019
59	जेसी353510एफ	नायब सूबेदार	के वजीर बादशा आइ	01.03.2019
60	जेसी341816एक्स	नायब सूबेदार	महेश कुमार	01.04.2019
61	जेसी353979एक्स	नायब सूबेदार	माखन सिंह	01.07.2019
62	जेसी341129एफ	नायब सूबेदार	मिश्रा अशोक कुमार एस	01.04.2019
63	जेसी353943वाई	नायब सूबेदार	मोहम्मद रफीक	01.03.2019
64	जेसी342011एम	नायब सूबेदार	नीरज कुमार	01.03.2019
65	जेसी353682डब्ल्यू	नायब सूबेदार	राम बचन सिंह यादवा	01.03.2019
66	जेसी341862एम	नायब सूबेदार	संतोष कुमार सिंह	01.07.2019
67	जेसी341089एल	नायब सूबेदार	सत्येंद्र	01.06.2019

बॉम्बे यान्त्रिक समुह

68	जेसी353691एक्स	नायब सूबेदार	अमरजीत	01.05.2019
69	जेसी353910एन	नायब सूबेदार	अतर सिंह गुर्जर	01.05.2019
70	जेसी353984एच	नायब सूबेदार	भजन सिंह	01.07.2019
71	जेसी353690पी	नायब सूबेदार	मनोहर सिंह	01.04.2019
72	जेसी354386एक्स	नायब सूबेदार	मोहन जी.	01.05.2019
73	जेसी353653एफ	नायब सूबेदार	मुकेश सिंह	01.03.2019
74	जेसी354206के	नायब सूबेदार	नफीस अहमद	01.07.2019
75	जेसी353485एन	नायब सूबेदार	पाटिल समभाजी नयाकू	01.07.2019
76	जेसी353717एफ	नायब सूबेदार	प्यारा सिंह	01.05.2019
77	जेसी353369एल	नायब सूबेदार	सत नारायन	01.07.2019
78	जेसी341838डब्ल्यू	नायब सूबेदार	उदित नारायन तिवारी	01.04.2019

अधिसूचना पलटन

79	जेसी384331एच	नायब सूबेदार	ए सरवानन	01.07.2019
80	जेसी384783एल	नायब सूबेदार	अमित बेनरजी	01.04.2019
81	जेसी384786वाई	नायब सूबेदार	दुलाल सरमा	01.03.2019
82	जेसी384421के	नायब सूबेदार	ई एस खान	01.03.2019
83	जेसी386816के	नायब सूबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.07.2019
84	जेसी384877एच	नायब सूबेदार	कमलजीत सिंह	01.07.2019
85	जेसी385282एक्स	नायब सूबेदार	मनोज सिंह यादव	01.06.2019
86	जेसी384869के	नायब सूबेदार	निरंजन मंडल	01.07.2019
87	जेसी385262के	नायब सूबेदार	पवन कुमार शर्मा	01.05.2019
88	जेसी385553के	नायब सूबेदार	प्रेम सिंह पटवाल	01.06.2019
89	जेसी385087ए	नायब सूबेदार	रबी कुमार झा	01.03.2019
90	जेसी386211एच	नायब सूबेदार	रघबीर सिंह	01.07.2019
91	जेसी383999ए	नायब सूबेदार	राम सुमन द्विवेदी	01.05.2019
92	जेसी385172एच	नायब सूबेदार	रमेश चंद्रा	01.04.2019
93	जेसी385263एम	नायब सूबेदार	रंजीत सिंह राजवर	01.06.2019
94	जेसी385505के	नायब सूबेदार	रेयथी एच राव	01.03.2019
95	जेसी385164के	नायब सूबेदार	समर कुमार गन्ताईत	01.03.2019
96	जेसी383844एल	नायब सूबेदार	शहादत अली	01.05.2019
97	जेसी383140एफ	नायब सूबेदार	श्री लक्ष्मी दत्त	01.07.2019
98	जेसी385462ए	नायब सूबेदार	उमेश चंद्रा	01.04.2019

99	जेसी384784एन	नायब सूबेदार	विनोद कुमार दास	01.03.2019
पंजाब सैन्यदल				
100	जेसी431990एल	नायब सूबेदार	यश पाल	01.02.2019
राजपूताना बन्दूकधारी सेना				
101	जेसी471754एम	नायब सूबेदार	रमजान खान	01.04.2019
राजपूत सैन्यदल				
102	जेसी481774एन	नायब सूबेदार	कैलाश चंद्रा	01.06.2019
103	जेसी481730डब्ल्यू	नायब सूबेदार	श्री उपेंद्र सिंह परिहार	01.08.2019
104	जेसी481567एफ	नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा सिंह हांडा	01.05.2019
105	जेसी481738एच	नायब सूबेदार	सुरेन्द्रा सिंह शेखावत	01.08.2019
सिख लघु पैदल सेना				
106	जेसी510771एल	नायब सूबेदार	अवतार सिंह	01.06.2019
107	जेसी510413ए	नायब सूबेदार	राजिन्दर सिंह	01.06.2019
डोगरा सैन्यदल				
108	जेसी522484एन	नायब सूबेदार	हेम सिंह	01.05.2019
गढवाल बन्दूकधारी सेना				
109	जेसी532152एक्स	नायब सूबेदार	रामपाल सिंह	01.07.2019
आसाम सैन्यदल				
110	जेसी551088ए	नायब सूबेदार	एस आधो	01.08.2019
जम्मू और कश्मीर बन्दूकधारी सेना				
111	जेसी582397के	नायब सूबेदार	डी. कुमार	01.05.2019
112	जेसी581974वाई	नायब सूबेदार	सरोज कुमार चौहान	01.03.2019
5 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
113	जेसी618482ए	नायब सूबेदार	देव प्रसाद गुरंग	01.05.2019
114	जेसी618363के	नायब सूबेदार	सुमन गुरंग	01.02.2019
8 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
115	जेसी618460एफ	नायब सूबेदार	छबि लाल गुरंग	01.08.2019
116	जेसी624159एफ	नायब सूबेदार	सी बहादुर गुरंग	01.04.2019
117	जेसी624233एक्स	नायब सूबेदार	कैलाश नाथ	01.04.2019
11 गोरखा बन्दूकधारी सेना				
118	जेसी635397एन	नायब सूबेदार	बुध्दा कुमार श्रेष्ठा	01.08.2019
119	जेसी635413ए	नायब सूबेदार	ईमान सिंग राय	01.03.2019
सेना सेवा पलटन दक्षिण				
120	जेसी672312के	नायब सूबेदार	अनंता कुमार राय	01.07.2019
121	जेसी670012के	नायब सूबेदार	अरुण कुमार	01.08.2019
122	जेसी670896एफ	नायब सूबेदार	बी जी.	01.07.2019
123	जेसी668896के	नायब सूबेदार	बाला कृष्णन एन	01.03.2019

124	जेसी670297एफ	नायब सूबेदार	बी सिंह	01.07.2019
125	जेसी670848एफ	नायब सूबेदार	बिक्रमा साह	01.08.2019
126	जेसी671092वाई	नायब सूबेदार	डी. कृष्णा रेडी	01.03.2019
127	जेसी670174पी	नायब सूबेदार	धर्मन्द्र तिवारी	01.04.2019
128	जेसी670188पी	नायब सूबेदार	फूल चन्द मोन्डल	01.06.2019
129	जेसी670362डब्ल्यू	नायब सूबेदार	जगत पाल	01.06.2019
130	जेसी670417पी	नायब सूबेदार	जय शंकर सिंह यादव	01.05.2019
131	जेसी670374एल	नायब सूबेदार	कुलदीप चन्द	01.08.2019
132	जेसी670781एन	नायब सूबेदार	मनोज कुमार राना	01.07.2019
133	जेसी670411एन	नायब सूबेदार	एम वी रमना रेडी	01.07.2019
134	जेसी670846डब्ल्यू	नायब सूबेदार	नरेश कुमार	01.08.2019
135	जेसी668564वाई	नायब सूबेदार	नवीन चंद्रा भट्ट	01.04.2019
136	जेसी670016ए	नायब सूबेदार	नवीन चंद्रा जोशी	01.02.2019
137	जेसी670847वाई	नायब सूबेदार	नेत राम	01.08.2019
138	जेसी670614एक्स	नायब सूबेदार	ओम प्रकाश यादव	01.07.2019
139	जेसी670960एन	नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार	01.08.2019
140	जेसी670822एम	नायब सूबेदार	प्रेमचंद यादव	01.07.2019
141	जेसी671372एम	नायब सूबेदार	रबी रंजन कुमार सिंह	01.05.2019
142	जेसी670888एच	नायब सूबेदार	राज कुमार रौय	01.07.2019
143	जेसी671121एच	नायब सूबेदार	राजेश कुमार त्रिपाठी	01.04.2019
144	जेसी669329एम	नायब सूबेदार	रंजन कुमार	01.05.2019
145	जेसी671339पी	नायब सूबेदार	सत्य पाल सिंह	01.04.2019
146	जेसी670452एक्स	नायब सूबेदार	शशि भूषण सिंह	01.04.2019
147	जेसी670827एल	नायब सूबेदार	श्याम सिंह	01.08.2019
148	जेसी668900ए	नायब सूबेदार	सुमेर सिंह	01.04.2019
149	जेसी669084एफ	नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	01.06.2019
150	जेसी669504डब्ल्यू	नायब सूबेदार	उमेश चंद्रा त्रिपाठी	01.04.2019

सेना सेवा पलटन पशु परिवहन

151	जेसी681628एक्स	नायब रिसालदार	कानापर्थी वेंकटेश्वर रेडी	01.04.2019
152	जेसी681656के	नायब रिसालदार	मेहेत्रा रामदास भागुजी	01.07.2019
153	जेसी681695एच	नायब रिसालदार	आर एम गोदल	01.03.2019

सेना चिकित्सा पलटन

154	जेसी703219एम	नायब सूबेदार	ए अरोकियादास	01.03.2019
155	जेसी701753एल	नायब सूबेदार	अजीथा कुमार जे	01.05.2019
156	जेसी702115वाई	नायब सूबेदार	बोरुदे विजय सीताराम	01.07.2019
157	जेसी700108के	नायब सूबेदार	सी रवि	01.05.2019
158	जेसी702212डब्ल्यू	नायब सूबेदार	हवा सिंह	01.07.2019
159	जेसी702077एन	नायब सूबेदार	मेथ्यू एम वरघेसे	01.03.2019
160	जेसी703461एफ	नायब सूबेदार	शिंदे सुनील रामचंद्र	01.07.2019

सेना आयुध पलटन

161	जेसी731728एफ	नायब सूबेदार	ए राजामणिकम	01.05.2019
162	जेसी731658एन	नायब सूबेदार	अब्दुल मानन	01.05.2019
163	जेसी732217के	नायब सूबेदार	अभ्या कुमार भूयान	01.05.2019
164	जेसी732670एफ	नायब सूबेदार	आनंद सिंह	01.04.2019
165	जेसी731636पी	नायब सूबेदार	बच्चू सिंह	01.06.2019
166	जेसी731269एन	नायब सूबेदार	भोसले तानाजी शंकर	01.02.2019
167	जेसी732083डब्ल्यू	नायब सूबेदार	बिजय कुमार खटुआ	01.05.2019
168	जेसी732532ए	नायब सूबेदार	देबाशीश मंडल	01.05.2019
169	जेसी731955एफ	नायब सूबेदार	जी. पनीर सेलवम	01.03.2019
170	जेसी731558एच	नायब सूबेदार	गोबिंदा चंद्रा टूडू	01.05.2019

171	जेसी732728एन	नायब सूबेदार	हरी ओम	01.04.2019
172	जेसी732081एल	नायब सूबेदार	हरीश कुमार रेखी	01.05.2019
173	जेसी731959एक्स	नायब सूबेदार	इंद्रेश कुमार	01.06.2019
174	जेसी731113डब्ल्यू	नायब सूबेदार	जगताप फक्काद रामु	01.05.2019
175	जेसी731648के	नायब सूबेदार	जनक मोन्डल	01.05.2019
176	जेसी732007के	नायब सूबेदार	झाबार मल	01.07.2019
177	जेसी731741एल	नायब सूबेदार	जोगिंदर	01.05.2019
178	जेसी731441के	नायब सूबेदार	कदम विजय यलप्पा	01.05.2019
179	जेसी731975पी	नायब सूबेदार	कमलेश सरकार	01.05.2019
180	जेसी731610ए	नायब सूबेदार	कमलेश चंद्रा	01.06.2019
181	जेसी733040एन	नायब सूबेदार	कमलेश कुमार	01.06.2019
182	जेसी731431ए	नायब सूबेदार	केशर सिंह खनगरोट	01.05.2019
183	जेसी732703एफ	नायब सूबेदार	माने शंकर विष्णु	01.05.2019
184	जेसी731711एन	नायब सूबेदार	मनोज कुमार	01.07.2019
185	जेसी731721एक्स	नायब सूबेदार	मोहम्मद नजिरुद्दीन इस्लाम	01.05.2019
186	जेसी732216एफ	नायब सूबेदार	मोहम्मद एस अली मोन्डल	01.05.2019
187	जेसी732084वाई	नायब सूबेदार	एन मुथु सामी	01.03.2019
188	जेसी732258एन	नायब सूबेदार	नायक सोलोमेन राज	01.05.2019
189	जेसी732109ए	नायब सूबेदार	पी अलफोसे	01.03.2019
190	जेसी731654एक्स	नायब सूबेदार	प्रेम कुमार पी जी.	01.05.2019
191	जेसी731956के	नायब सूबेदार	पुष्पेन्द्र सिंह रावत	01.03.2019
192	जेसी732264एफ	नायब सूबेदार	राज कुमार	01.07.2019
193	जेसी732218एम	नायब सूबेदार	राम पाडा गुछैत	01.05.2019
194	जेसी731664एफ	नायब सूबेदार	राम सेवक	01.07.2019
195	जेसी732165वाई	नायब सूबेदार	रमाकांत मोहंती	01.05.2019
196	जेसी731957एम	नायब सूबेदार	रमेश कुमार साहू	01.05.2019
197	जेसी732178डब्ल्यू	नायब सूबेदार	रंगा रेडी अन्नपा रेडी	01.04.2019
198	जेसी732584डब्ल्यू	नायब सूबेदार	आर के सरवन कुमार	01.05.2019
199	जेसी732809एन	नायब सूबेदार	संजय कुमार	01.04.2019
200	जेसी732162एल	नायब सूबेदार	सरीफुद्दीन खान	01.05.2019
201	जेसी732085एफ	नायब सूबेदार	सतीश कुमार	01.06.2019
202	जेसी732082एन	नायब सूबेदार	एस कुमार बीईजे	01.05.2019
203	जेसी732167के	नायब सूबेदार	शब्बीर अहमद	01.05.2019
204	जेसी732163एन	नायब सूबेदार	शशि कुमार	01.05.2019
205	जेसी731493ए	नायब सूबेदार	शिव बहादुर	01.05.2019
206	जेसी732222पी	नायब सूबेदार	शिव राज जाट	01.05.2019
207	जेसी732219पी	नायब सूबेदार	सुजाए रौय	01.05.2019
208	जेसी731720पी	नायब सूबेदार	तारा शंकर गांधी	01.05.2019
209	जेसी733312एच	नायब सूबेदार	थूबे संतोष लक्ष्मन	01.08.2019
210	जेसी732166एफ	नायब सूबेदार	विजय कुमार	01.06.2019
211	जेसी732453एल	नायब सूबेदार	विमलेश कुमार	01.02.2019
212	जेसी732295एफ	नायब सूबेदार	विष्णु सिंह	01.02.2019
213	जेसी731489एक्स	नायब सूबेदार	जेड शशील ज्योतिराम	01.03.2019

विद्युतिय एवं यांत्रिक अभियन्ता पलटन

214	जेसी772715वाई	नायब सूबेदार	अजया कुमार सिंह	01.03.2019
215	जेसी773572डब्ल्यू	नायब सूबेदार	अनन्त सिंह	01.05.2019
216	जेसी772884ए	नायब सूबेदार	अनिल के.एच	01.03.2019
217	जेसी772292डब्ल्यू	नायब सूबेदार	अनिल कुमार आर	01.07.2019
218	जेसी773138के	नायब सूबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.05.2019
219	जेसी771608एल	नायब सूबेदार	बाशा सैयद	01.07.2019
220	जेसी773723के	नायब सूबेदार	चंदमौली प्रसाद के	01.05.2019
221	जेसी773812एच	नायब सूबेदार	चितरंजन राय	01.07.2019
222	जेसी771128एफ	नायब सूबेदार	दिलीप कुमार सिंह	01.05.2019

223	जेसी772969डब्ल्यू	नायब सूबेदार	जाधव सुभास मारुति	01.02.2019
224	जेसी773224पी	नायब सूबेदार	लालजी चौहान	01.07.2019
225	जेसी772167एम	नायब सूबेदार	एम मरियप्पन	01.07.2019
226	जेसी774158के	नायब सूबेदार	मुकेश कुमार सिंह	01.07.2019
227	जेसी773817एफ	नायब सूबेदार	मुथुरामालिनाम जी.	01.05.2019
228	जेसी770895एन	नायब सूबेदार	निम्बा राम देदर	01.05.2019
229	जेसी773690के	नायब सूबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2019
230	जेसी773268एम	नायब सूबेदार	पी कुमार ठाकुर	01.05.2019
231	जेसी773820एफ	नायब सूबेदार	राजेश कुमार बोहरा	01.06.2019
232	जेसी773603एल	नायब सूबेदार	राम के राम	01.07.2019
233	जेसी772160एच	नायब सूबेदार	साजल मजूमदार	01.05.2019
234	जेसी771408पी	नायब सूबेदार	सतिश केपी	01.07.2019
235	जेसी773296वाई	नायब सूबेदार	शशिकांत प्रजापति	01.07.2019
236	जेसी769234एफ	नायब सूबेदार	सुबुधि बेहेरा	01.05.2019
237	जेसी773108एम	नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	01.05.2019
238	जेसी772899एच	नायब सूबेदार	तरुण कुमार	01.02.2019
239	जेसी773233डब्ल्यू	नायब सूबेदार	उमेश चंद्रा तिवारी	01.03.2019

सेना आसूचना पलटन

240	जेसी812092एल	नायब सूबेदार	माने रमेश सम्पत	01.03.2019
241	जेसी812101एफ	नायब सूबेदार	श्री विशाल कुमार नाहर	01.05.2019
242	जेसी812110एच	नायब सूबेदार	सुरजीत सिंह	01.08.2019

रक्षा सुरक्षा पलटन

243	जेसी844566पी	नायब सूबेदार	ए अप्पान्ना	01.02.2019
244	जेसी843564एक्स	नायब सूबेदार	ए जॉन अरोचिया दास	01.06.2019
245	जेसी843899पी	नायब सूबेदार	अभिराम नायक	01.04.2019
246	जेसी844430एल	नायब सूबेदार	अजीत सिंह	01.08.2019
247	जेसी844537ए	नायब सूबेदार	अनिल कुमार के	01.08.2019
248	जेसी843553एल	नायब सूबेदार	अवतार सिंह	01.05.2019
249	जेसी843855एक्स	नायब सूबेदार	अवतार सिंह	01.08.2019
250	जेसी843620एल	नायब सूबेदार	बलबीर सिंह	01.02.2019
251	जेसी843977एफ	नायब सूबेदार	भागीरथ	01.02.2019
252	जेसी843881वाई	नायब सूबेदार	चक्रधर प्रधान	01.06.2019
253	जेसी843593एम	नायब सूबेदार	चव्हाण प्रकाश	01.04.2019
254	जेसी844390पी	नायब सूबेदार	डी. मोहराना	01.06.2019
255	जेसी843985ए	नायब सूबेदार	देवचंद महादु गंगुरदे	01.06.2019
256	जेसी844158के	नायब सूबेदार	दिबाकर पंडा	01.06.2019
257	जेसी843933के	नायब सूबेदार	दुर्गा प्रसाद द्विवेदी	01.03.2019
258	जेसी844350एन	नायब सूबेदार	जी. सत्यनारायण	01.07.2019
259	जेसी844152एच	नायब सूबेदार	गिरीश कुमार	01.02.2019
260	जेसी843920एम	नायब सूबेदार	गोपा बंधु जैना	01.05.2019
261	जेसी843671वाई	नायब सूबेदार	गोपाल कृष्णन नायर के	01.02.2019
262	जेसी843572डब्ल्यू	नायब सूबेदार	गोविंद	01.07.2019
263	जेसी844068एच	नायब सूबेदार	जया कुमार बी	01.06.2019
264	जेसी844160एफ	नायब सूबेदार	के कृष्णन कुट्टी	01.06.2019
265	जेसी843795एन	नायब सूबेदार	कल्याण सिंह	01.07.2019
266	जेसी843956एल	नायब सूबेदार	करन सिंह	01.08.2019
267	जेसी844311पी	नायब सूबेदार	करन सिंह	01.06.2019
268	जेसी843816वाई	नायब सूबेदार	केशू राम	01.06.2019
269	जेसी843646ए	नायब सूबेदार	केवल चन्द	01.04.2019
270	जेसी844272एफ	नायब सूबेदार	किशन राम	01.06.2019
271	जेसी844304वाई	नायब सूबेदार	कृष्णन आर	01.06.2019
272	जेसी843872एक्स	नायब सूबेदार	कुन्ही रमन केके	01.07.2019
273	जेसी843687के	नायब सूबेदार	कुजू मोहम्मद पी	01.06.2019

274	जेसी843844एल	नायब सूबेदार	महेश प्रसाद तिवारी	01.05.2019
275	जेसी843632ए	नायब सूबेदार	महिंद्र कुमार	01.02.2019
276	जेसी843991एन	नायब सूबेदार	माने किसान रमा	01.06.2019
277	जेसी843648एल	नायब सूबेदार	मिथलेश प्रसाद	01.04.2019
278	जेसी843786एम	नायब सूबेदार	मोहन सिंह रावत	01.02.2019
279	जेसी844026डब्ल्यू	नायब सूबेदार	मोरे रमेश	01.08.2019
280	जेसी843546पी	नायब सूबेदार	मुन्ना सिंह	01.03.2019
281	जेसी844502के	नायब सूबेदार	एन श्रीनिवासन	01.06.2019
282	जेसी844055एल	नायब सूबेदार	नाइक मारुति	01.08.2019
283	जेसी844194पी	नायब सूबेदार	निवारुती महादु एम	01.07.2019
284	जेसी844320डब्ल्यू	नायब सूबेदार	पी अंसारी	01.04.2019
285	जेसी843684डब्ल्यू	नायब सूबेदार	पी बालचन्द्रन	01.08.2019
286	जेसी844013वाई	नायब सूबेदार	पाटिल तुकाराम बापू	01.07.2019
287	जेसी844078एम	नायब सूबेदार	आर गजेन्द्रन	01.05.2019
288	जेसी843629ए	नायब सूबेदार	राज कुमार	01.02.2019
289	जेसी843712एक्स	नायब सूबेदार	राजेंद्रा कुमार सीजी.	01.06.2019
290	जेसी843980एफ	नायब सूबेदार	राम चन्द	01.08.2019
291	जेसी843826एच	नायब सूबेदार	राम दिया	01.05.2019
292	जेसी844324एम	नायब सूबेदार	राम कष्णन	01.03.2019
293	जेसी843774वाई	नायब सूबेदार	राम कुमार	01.05.2019
294	जेसी844564के	नायब सूबेदार	राम फल	01.03.2019
295	जेसी844357एक्स	नायब सूबेदार	राम शरण	01.08.2019
296	जेसी843871पी	नायब सूबेदार	राम विलास	01.08.2019
297	जेसी843749वाई	नायब सूबेदार	रतन सिंह	01.08.2019
298	जेसी844515एफ	नायब सूबेदार	रवीन्द्रन पुथिया पीके	01.07.2019
299	जेसी843651एल	नायब सूबेदार	रेवात सिंह	01.07.2019
300	जेसी844134ए	नायब सूबेदार	रोशपाल	01.07.2019
301	जेसी844290के	नायब सूबेदार	एस सिंह	01.07.2019
302	जेसी843876एन	नायब सूबेदार	सत्या पाल	01.04.2019
303	जेसी844143एफ	नायब सूबेदार	सावन्त आर भीमराव	01.06.2019
304	जेसी843813के	नायब सूबेदार	शिव चरन	01.06.2019
305	जेसी844087एन	नायब सूबेदार	श्रीकांत देसे	01.06.2019
306	जेसी844589डब्ल्यू	नायब सूबेदार	श्याम बाबू सिन्हा	01.07.2019
307	जेसी843874एच	नायब सूबेदार	श्याम सुंदर राम	01.07.2019
308	जेसी843950के	नायब सूबेदार	सोमन के.ए	01.08.2019
309	जेसी844450वाई	नायब सूबेदार	सुभाष चंद्र	01.06.2019
310	जेसी844150एक्स	नायब सूबेदार	सुरेसन सी	01.06.2019
311	जेसी843895वाई	नायब सूबेदार	सुरजीत सिंह	01.06.2019
312	जेसी844023एच	नायब सूबेदार	सुरवासे वामन राव	01.06.2019
313	जेसी844451एफ	नायब सूबेदार	टी धोजो सिंह	01.04.2019
314	जेसी843708पी	नायब सूबेदार	तेज बहादुर अधिकारी	01.02.2019
315	जेसी843619डब्ल्यू	नायब सूबेदार	वीरेंद्र नाथ यादव	01.02.2019
316	जेसी843679एल	नायब सूबेदार	युवराज सिंह राना	01.03.2019

[सं. बी./43432/आई डी-19/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

अश्विनी कुमार, ले. जनरल एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2019

No. 10(E) dated 15 August 2019.—The President is pleased to grant honorary ranks to the under mentioned Honorary Lieutenants and JCOs on the eve of **Independence Day 2019** on retirement under Para 179 of the Regulation for the Army 1987, with effect from the dates shown against their names:-

TO BE HONORARY CAPTAINS (ON RETIREMENT)**17 HORSE**

1	JC 244898F	RIS & HONY LT	KAPTAN SINGH SHEKHAWAT	1/5/2019
---	------------	---------------	------------------------	----------

14 HORSE

2	JC 244503P	RIS MAJ & HONY LT	KARMJIT SINGH	1/7/2019
---	------------	-------------------	---------------	----------

CENTRAL INDIA HORSE

3	JC 243562P	RIS MAJ & HONY LT	RAMESH SINGH	1/7/2019
---	------------	-------------------	--------------	----------

65 ARMoured REGIMENT

4	JC 243905A	RIS MAJ & HONY LT	DHANPAT SINGH	1/7/2019
---	------------	-------------------	---------------	----------

5	JC 243534H	RIS MAJ & HONY LT	KRIPAL SINGH	1/7/2019
---	------------	-------------------	--------------	----------

70 ARMoured REGIMENT

6	JC 243845W	RIS MAJ & HONY LT	MANGU SINGH	1/8/2019
---	------------	-------------------	-------------	----------

72 ARMoured REGIMENT

7	JC 244155Y	RIS MAJ & HONY LT	ANAND SINGH	1/6/2019
---	------------	-------------------	-------------	----------

75 ARMoured REGIMENT

8	JC 244306M	RIS & HONY LT	SANJIV KUMAR	1/2/2019
---	------------	---------------	--------------	----------

41 ARMoured REGIMENT

9	JC 243385A	RIS MAJ & HONY LT	RAJBIR	1/5/2019
---	------------	-------------------	--------	----------

42 ARMoured REGIMENT

10	JC 243715N	RIS MAJ & HONY LT	SURESH SINGH	1/5/2019
----	------------	-------------------	--------------	----------

44 ARMoured REGIMENT

11	JC 243872A	RIS & HONY LT	G JOSEPH LAWRENCE	1/7/2019
----	------------	---------------	-------------------	----------

47 ARMoured REGIMENT

12	JC 243422H	RIS MAJ & HONY LT	RAM KUMAR GUPTA	1/7/2019
----	------------	-------------------	-----------------	----------

13	JC 243801Y	RIS & HONY LT	NARAD MUNI PANDEY	1/4/2019
----	------------	---------------	-------------------	----------

14	JC 243802F	RIS & HONY LT	VRAJ MOHAN	1/6/2019
----	------------	---------------	------------	----------

54 ARMoured REGIMENT

15	JC 243387L	RIS MAJ & HONY LT	CG MURUGAIYAN	1/4/2019
----	------------	-------------------	---------------	----------

55 ARMoured REGIMENT

16	JC 243881F	RIS MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR	1/3/2019
----	------------	-------------------	--------------	----------

58 ARMoured REGIMENT

17	JC 243995M	RIS & HONY LT	SANDEEP KUMAR	1/5/2019
----	------------	---------------	---------------	----------

ARMoured CORPS

18	JC 243260H	RIS MAJ & HONY LT	CHANDRA MOHAN KERDVAL	1/8/2019
----	------------	-------------------	-----------------------	----------

19	JC 245030N	RIS MAJ & HONY LT	PARWAT SINGH RAJAWAT	1/3/2019
----	------------	-------------------	----------------------	----------

20	JC 243069F	RIS & HONY LT	BHOOPENDRA SINGH	1/4/2019
----	------------	---------------	------------------	----------

21	JC 243836P	RIS & HONY LT	BINOD BUARTI	1/3/2019
----	------------	---------------	--------------	----------

22	JC 244553A	RIS & HONY LT	DALJEET KUMAR	1/4/2019
----	------------	---------------	---------------	----------

23	JC 241740N	RIS & HONY LT	KIROD CHANDRA MISHRA	1/6/2019
----	------------	---------------	----------------------	----------

24	JC 244199W	RIS & HONY LT	LAL BACHAN YADAVA	1/7/2019
----	------------	---------------	-------------------	----------

REGIMENT OF ARTILLERY

25	JC 270534M	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH	1/6/2019
----	------------	-------------------	---------------	----------

26	JC 210088M	SUB MAJ & HONY LT	BHOLA NATH PANDEY	1/3/2019
----	------------	-------------------	-------------------	----------

27	JC 272398A	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAMJIT SINGH	1/8/2019
28	JC 266743M	SUB MAJ & HONY LT	D PANDURENGAN	1/2/2019
29	JC 271976X	SUB MAJ & HONY LT	DAYA SHANKER PANDEY	1/5/2019
30	JC 272161H	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM PAL	1/6/2019
31	JC 269597H	SUB MAJ & HONY LT	GOPALAKRISHNAN K	1/8/2019
32	JC 267988P	SUB MAJ & HONY LT	HARI OM	1/8/2019
33	JC 266525N	SUB MAJ & HONY LT	JOTENDER SINGH CHANDEL	1/4/2019
34	JC 266512W	SUB MAJ & HONY LT	K KUPPAN	1/2/2019
35	JC 269729L	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH	1/7/2019
36	JC 271720P	SUB MAJ & HONY LT	M MATHIYALAGAN	1/6/2019
37	JC 273199Y	SUB MAJ & HONY LT	M TRINADHA RAO	1/7/2019
38	JC 270903Y	SUB MAJ & HONY LT	MANOJ KUMAR SINGH	1/8/2019
39	JC 264597Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHAMMAD MAHE ALAM	1/2/2019
40	JC 265654F	SUB MAJ & HONY LT	MOOL SINGH RAJAWAT	1/4/2019
41	JC 268545A	SUB MAJ & HONY LT	NARENDER KUMAR	1/8/2019
42	JC 267018M	SUB MAJ & HONY LT	RAJ SINGH	1/5/2019
43	JC 268835X	SUB MAJ & HONY LT	RAMAWATAR MEENA	1/8/2019
44	JC 267976A	SUB MAJ & HONY LT	S ARUMAI DOSS	1/7/2019
45	JC 270613F	SUB MAJ & HONY LT	SATYENDRA KUMAR SINGH	1/6/2019
46	JC 273149N	SUB MAJ & HONY LT	SHAMBHU PD YADAV	1/8/2019
47	JC 273235Y	SUB MAJ & HONY LT	SHER BAHADUR KHATRI	1/8/2019
48	JC 273137Y	SUB MAJ & HONY LT	SHIMAGE SANJAY KUMAR GUNDOPANT	1/6/2019
49	JC 269370P	SUB MAJ & HONY LT	SHIV PRAKASH	1/2/2019
50	JC 269123F	SUB MAJ & HONY LT	SOMANATH R	1/8/2019
51	JC 270182A	SUB MAJ & HONY LT	SUNDR PAL	1/6/2019
52	JC 271703P	SUB MAJ & HONY LT	TAMMIREDDI RAMAKRISHNA	1/6/2019
53	JC 277071L	SUB & HONY LT	A JEYARAJ RATHINAM	1/7/2019
54	JC 276316K	SUB & HONY LT	A MARIA AROCKIA DASS	1/6/2019
55	JC 276253M	SUB & HONY LT	AJAY SINGH	1/7/2019
56	JC 278919Y	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	1/6/2019
57	JC 278052M	SUB & HONY LT	BELI RAM	1/6/2019
58	JC 277168W	SUB & HONY LT	BENNY T ABRAHAM	1/3/2019
59	JC 274167H	SUB & HONY LT	BHAGIRATH GHOSH	1/3/2019
60	JC 275895P	SUB & HONY LT	BHARAT CHANDRA BARMAN	1/7/2019
61	JC 276380F	SUB & HONY LT	CHARAN DASS	1/4/2019
62	JC 281126F	SUB & HONY LT	DEV BAHADUR GURUNG	1/5/2019
63	JC 274786W	SUB & HONY LT	DHANI RAM	1/3/2019
64	JC 281053A	SUB & HONY LT	DINESH KUMAR	1/6/2019
65	JC 276682N	SUB & HONY LT	DWIPEN KONWAR	1/4/2019
66	JC 273490L	SUB & HONY LT	EDAMAKANTI RANGA REDDY	1/6/2019
67	JC 273530F	SUB & HONY LT	EDULA MOHAN REDDY	1/5/2019
68	JC 275673A	SUB & HONY LT	GANESH DATT CHOUSALI	1/5/2019
69	JC 277936M	SUB & HONY LT	GUPTA JAGDISH PRASAD RAM ,SM	1/7/2019
70	JC 272299X	SUB & HONY LT	GURMEJ SINGH	1/2/2019
71	JC 270077K	SUB & HONY LT	JAGGA	1/3/2019

72	JC 275398L	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH	1/3/2019
73	JC 276178N	SUB & HONY LT	JAI CHAND	1/6/2019
74	JC 276209H	SUB & HONY LT	JASVIR SINGH	1/2/2019
75	JC 277825P	SUB & HONY LT	JAYA KUMAR S	1/6/2019
76	JC 277412L	SUB & HONY LT	K PRABHAKARAN	1/5/2019
77	JC 272702Y	SUB & HONY LT	KARNAIL SINGH	1/4/2019
78	JC 277561Y	SUB & HONY LT	KESAHAV SINGH TOMAR	1/7/2019
79	JC 258751W	SUB & HONY LT	KRISHNA DEO PATHAK	1/7/2019
80	JC 279595L	SUB & HONY LT	KRISHNA DEV	1/8/2019
81	JC 275266X	SUB & HONY LT	KRISHNA PRASAD K	1/3/2019
82	JC 276903P	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	1/8/2019
83	JC 275621K	SUB & HONY LT	MADAN LAL	1/3/2019
84	JC 281813X	SUB & HONY LT	MAHAVIR SINGH TOMAR	1/6/2019
85	JC 277296N	SUB & HONY LT	MANOJ KM	1/5/2019
86	JC 274732P	SUB & HONY LT	N SIVANARAYANA REDDY	1/5/2019
87	JC 256699A	SUB & HONY LT	ONKAR NATH TIWARI	1/8/2019
88	JC 273511W	SUB & HONY LT	PARAMJIT SINGH	1/8/2019
89	JC 276505N	SUB & HONY LT	PAUL K DANIEL	1/4/2019
90	JC 274817L	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH CHOUHAN	1/7/2019
91	JC 277803W	SUB & HONY LT	RAKESH KUMAR	1/6/2019
92	JC 528245P	SUB & HONY LT	RAKESH KUMAR SHARMA	1/7/2019
93	JC 278280P	SUB & HONY LT	RAM SHANKAR PANDEY	1/3/2019
94	JC 278483Y	SUB & HONY LT	RAM SINGH	1/3/2019
95	JC 273883F	SUB & HONY LT	RANVIR SINGH	1/4/2019
96	JC 277813A	SUB & HONY LT	SANJU BABAR	1/8/2019
97	JC 276219M	SUB & HONY LT	SATENDAR TIWARY	1/6/2019
98	JC 274802H	SUB & HONY LT	SATENDRA KUMAR	1/3/2019
99	JC 274590H	SUB & HONY LT	SEETA RAM	1/2/2019
100	JC 280405A	SUB & HONY LT	SHAJI L	1/3/2019
101	JC 273397K	SUB & HONY LT	SHASHI PRAKASH PANDEY	1/2/2019
102	JC 275658L	SUB & HONY LT	SHOKIN KATHAT	1/3/2019
103	JC 276759L	SUB & HONY LT	SUKHJINDER SINGH	1/2/2019
104	JC 275917H	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH	1/5/2019
105	JC 278155L	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/3/2019
106	JC 270897W	SUB & HONY LT	SURINDER MOHAN	1/4/2019
107	JC 272295F	SUB & HONY LT	UMESH DAS	1/5/2019

ARMY AIR DEFENCE

108	JC 300286Y	SUB MAJ & HONY LT	BHOPAL YADAV	1/4/2019
109	JC 300400L	SUB MAJ & HONY LT	DALIP KUMAR	1/2/2019
110	JC 300359A	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR	1/2/2019
111	JC 300456X	SUB MAJ & HONY LT	SHAJI K V	1/5/2019
112	JC 300363H	SUB MAJ & HONY LT	VINDRA PRASAD SHUKLA	1/2/2019
113	JC 302700L	SUB & HONY LT	ASHWANI KUMAR	1/2/2019
114	JC 301739L	SUB & HONY LT	AVDHESH SINGH	1/8/2019
115	JC 302667Y	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	1/5/2019

116	JC 301775W	SUB & HONY LT	BIRENDER SINGH	1/4/2019
117	JC 302697W	SUB & HONY LT	CHHOTAY BHAYA	1/7/2019
118	JC 302112X	SUB & HONY LT	DALER SINGH	1/4/2019
119	JC 302745L	SUB & HONY LT	DHARAM CHAND	1/4/2019
120	JC 302899X	SUB & HONY LT	GIRI BABU MALLARPU	1/7/2019
121	JC 302397P	SUB & HONY LT	LAKHVINDER SINGH	1/3/2019
122	JC 301165K	SUB & HONY LT	M RAMA CHANDRA REDDY	1/8/2019
123	JC 302727H	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	1/7/2019
124	JC 302633L	SUB & HONY LT	PARMESHVAR DIN MISHRA	1/3/2019
125	JC 302934P	SUB & HONY LT	RAVINDRA SINGH	1/7/2019
126	JC 301170P	SUB & HONY LT	SATNAM SINGH	1/3/2019
127	JC 301152M	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/3/2019
128	JC 300686L	SUB & HONY LT	V VENKATESAN	1/2/2019

ARMY AVIATION CORPS

129	JC 274385F	SUB & HONY LT	AMRIT LAL	1/6/2019
130	JC 274405K	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR YADAV	1/6/2019
131	JC 274359A	SUB & HONY LT	SINGARA SINGH	1/3/2019

MADRAS ENGINEER GROUP

132	JC 309160A	SUB MAJ & HONY LT	J KUMAR	1/4/2019
133	JC 309101N	SUB MAJ & HONY LT	JAYSON GEORGE	1/8/2019
134	JC 309109A	SUB MAJ & HONY LT	KP MADHU	1/8/2019
135	JC 308384N	SUB MAJ & HONY LT	MOHAMMED SADIQUE T	1/3/2019
136	JC 308519K	SUB MAJ & HONY LT	MOTI GIR GOSWAMI	1/6/2019
137	JC 309090M	SUB MAJ & HONY LT	S HABEEB AHMED	1/8/2019
138	JC 308640X	SUB MAJ & HONY LT	SAGAYARAYAN MS	1/8/2019
139	JC 311051M	SUB & HONY LT	BALKRISHNA CHOUGULE	1/5/2019
140	JC 310969A	SUB & HONY LT	BONIBASS C	1/7/2019
141	JC 310672Y	SUB & HONY LT	C INDURAJ	1/5/2019
142	JC 309446P	SUB & HONY LT	DAS PM	1/2/2019
143	JC 309821P	SUB & HONY LT	DHYAN SINGH	1/4/2019
144	JC 310408L	SUB & HONY LT	JANARDHAN PRASAD YADAV	1/4/2019
145	JC 310791P	SUB & HONY LT	K KANNAN	1/4/2019
146	JC 310964F	SUB & HONY LT	K MANI	1/7/2019
147	JC 310963Y	SUB & HONY LT	K MANICKAM	1/5/2019
148	JC 310090Y	SUB & HONY LT	KOTA KARUNAKAR REDDY	1/2/2019
149	JC 308447L	SUB & HONY LT	MARATHE ANIL KUMAR MANGARU	1/4/2019
150	JC 310668W	SUB & HONY LT	N LAKSHMEE NARAYANA	1/3/2019
151	JC 310664A	SUB & HONY LT	PONNANA SIMHACHALAM	1/2/2019
152	JC 309679W	SUB & HONY LT	RAJESH NAIK	1/8/2019
153	JC 310671W	SUB & HONY LT	RAJESH SINGH	1/5/2019
154	JC 311196X	SUB & HONY LT	RUDRAPPA KEDARI	1/3/2019
155	JC 310959W	SUB & HONY LT	S R SRINIVASAN	1/5/2019
156	JC 310409N	SUB & HONY LT	S SUBBARAMAN	1/4/2019
157	JC 310954X	SUB & HONY LT	SHAJAHAN K	1/4/2019

158	JC 310602A	SUB & HONY LT	SHAJIMON KC	1/6/2019
159	JC 311243K	SUB & HONY LT	SURESH K	1/7/2019

BENGAL ENGINEER GROUP

160	JC 331077H	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR SHARMA	1/8/2019
161	JC 330684P	SUB MAJ & HONY LT	BABY JOSEPH T	1/7/2019
162	JC 338875Y	SUB MAJ & HONY LT	BAL KRISHNA YADAV	1/5/2019
163	JC 338285A	SUB MAJ & HONY LT	DAYA KRASHAN BHATT	1/3/2019
164	JC 330588A	SUB MAJ & HONY LT	EKGHARE ATUL SURESH	1/4/2019
165	JC 191551L	SUB MAJ & HONY LT	HEM CHANDRA DIMRI	1/2/2019
166	JC 191571Y	SUB MAJ & HONY LT	HIRDAY BHUSHAN NEGI	1/2/2019
167	JC 199965M	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH	1/3/2019
168	JC 338715Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN GIRI	1/6/2019
169	JC 331633N	SUB MAJ & HONY LT	NAR SINGH	1/2/2019
170	JC 338781F	SUB MAJ & HONY LT	NETRA PAL SINGH	1/6/2019
171	JC 327721M	SUB MAJ & HONY LT	PRATAP SINGH BORA	1/5/2019
172	JC 338328K	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA SINGH	1/3/2019
173	JC 186228M	SUB MAJ & HONY LT	RANBIR SINGH	1/5/2019
174	JC 329936K	SUB MAJ & HONY LT	SATYABIR SINGH	1/8/2019
175	JC 330033Y	SUB MAJ & HONY LT	SUBRATA KONER	1/2/2019
176	JC 338969W	SUB MAJ & HONY LT	SUDHAKER MANI PANDEY	1/8/2019
177	JC 328989W	SUB MAJ & V	SUKH DAVE SINGH BAIS	1/7/2019
178	JC 339992W	SUB & HONY LT	BISWA NATH MONDAL	1/8/2019
179	JC 340406P	SUB & HONY LT	BRAHMA CHATTOPADHYAY	1/2/2019
180	JC 340631K	SUB & HONY LT	HARBINDER SINGH	1/6/2019
181	JC 339926N	SUB & HONY LT	KHUSHAL SINGH DHAMI	1/4/2019
182	JC 339922X	SUB & HONY LT	KULVIR SINGH	1/4/2019
183	JC 340447Y	SUB & HONY LT	KULWANT SINGH	1/7/2019
184	JC 339572W	SUB & HONY LT	MADHUSUDAN MOHANTY	1/3/2019
185	JC 340625W	SUB & HONY LT	MRITUNJAY PRASAD SINGH	1/2/2019
186	JC 339876N	SUB & HONY LT	NACHHATAR SINGH	1/2/2019
187	JC 339929F	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH	1/5/2019
188	JC 340416Y	SUB & HONY LT	NAURANG SINGH	1/6/2019
189	JC 340501F	SUB & HONY LT	NAVDIP SINGH	1/5/2019
190	JC 340634X	SUB & HONY LT	NITUL KONWAR	1/6/2019
191	JC 339841X	SUB & HONY LT	PARGAT SINGH	1/4/2019
192	JC 339573Y	SUB & HONY LT	PRAMOD KUMAR CHOBEY	1/3/2019
193	JC 340119L	SUB & HONY LT	RADHAKANTA JENA	1/6/2019
194	JC 339778N	SUB & HONY LT	RAKESH BAHADUR SINGH	1/4/2019
195	JC 339931Y	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	1/5/2019
196	JC 340632M	SUB & HONY LT	RAVINDER KUMAR	1/6/2019
197	JC 340411A	SUB & HONY LT	SANJAI KUMAR PANDEY	1/4/2019
198	JC 340686N	SUB & HONY LT	SUBHAS RAM	1/8/2019
199	JC 340504P	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/7/2019
200	JC 339619W	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/5/2019
201	JC 339606Y	SUB & HONY LT	SWAPAN KUMAR GHOSH	1/2/2019

202	JC 340635A	SUB & HONY LT	UMESH PRASAD	1/8/2019
<u>BOMBAY ENGINEER GROUP</u>				
203	JC 350400F	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH SHEKHAWAT	1/7/2019
204	JC 350323X	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA THAMI	1/4/2019
205	JC 349033N	SUB MAJ & HONY LT	MANABENDRA CHAKRABORTY	1/2/2019
206	JC 350766Y	SUB MAJ & HONY LT	NIRMAL SINGH	1/3/2019
207	JC 350349M	SUB MAJ & HONY LT	SHAJI P G	1/6/2019
208	JC 352045N	SUB & HONY LT	ADSUL SHARAD LAXMAN	1/8/2019
209	JC 352231K	SUB & HONY LT	ASAM DEEN	1/3/2019
210	JC 352754H	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	1/5/2019
211	JC 352305N	SUB & HONY LT	BRIJ LAL PATEL	1/4/2019
212	JC 352043H	SUB & HONY LT	GULZAR SINGH	1/8/2019
213	JC 352772L	SUB & HONY LT	JASWINDER SINGH	1/7/2019
214	JC 352057H	SUB & HONY LT	KAMBLE SANJAY RAMU	1/5/2019
215	JC 352755L	SUB & HONY LT	KHORATE RAMESH PARVATA	1/5/2019
216	JC 352346X	SUB & HONY LT	LAL BAHADUR SINGH	1/7/2019
217	JC 353095L	SUB & HONY LT	MANGAL SINGH	1/4/2019
218	JC 352271L	SUB & HONY LT	MUHAMMAD SIRAJUDDIN	1/5/2019
219	JC 352270H	SUB & HONY LT	PATIL BANDU SADASHIV	1/5/2019
220	JC 352054P	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	1/5/2019
221	JC 352277M	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR PATEL	1/8/2019
222	JC 352302A	SUB & HONY LT	RAVI SHANKAR	1/2/2019
223	JC 351955P	SUB & HONY LT	REDEKAR ARJUN BHIMARAO	1/7/2019
224	JC 352272N	SUB & HONY LT	SAMANT PRATAP SINGH	1/5/2019
225	JC 353100L	SUB & HONY LT	SARVAR ALI	1/7/2019
226	JC 352343K	SUB & HONY LT	SHINDE BALASAHEB SONERAO	1/6/2019
227	JC 352821H	SUB & HONY LT	SHIV MANGAL VERMA	1/8/2019
228	JC 351702A	SUB & HONY LT	SHIV PRASAD YADAV	1/3/2019
229	JC 352304L	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/2/2019
230	JC 351997F	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH LOHTIA	1/6/2019
231	JC 352017F	SUB & HONY LT	VINOD KUMAR GUPTA	1/7/2019
232	JC 351674Y	SUB & HONY LT	ZIA ULLAH KHAN	1/4/2019
<u>CORPS OF SIGNALS</u>				
233	JC 378108H	SUB MAJ & HONY LT	AMARA RAM	1/7/2019
234	JC 370968F	SUB MAJ & HONY LT	BAL RAJ	1/2/2019
235	JC 377739Y	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV SINGH	1/3/2019
236	JC 378808W	SUB MAJ & HONY LT	BASANGOUDA VEERANGOUDA PATIL	1/7/2019
237	JC 379831W	SUB MAJ & HONY LT	DEVENDAR KUMAR SHARMA	1/7/2019
238	JC 372395F	SUB MAJ & HONY LT	GOVINDAN K	1/6/2019
239	JC 377423M	SUB MAJ & HONY LT	JITENDER SINGH RAWAT	1/3/2019
240	JC 372172K	SUB MAJ & HONY LT	KAMLESH KUMAR PATHAK	1/4/2019
241	JC 378089H	SUB MAJ & HONY LT	KARNAIL SINGH	1/6/2019
242	JC 379975Y	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN PAL	1/3/2019
243	JC 377547F	SUB MAJ & HONY LT	MOHANAN PILLAI CK	1/6/2019

244	JC 372179N	SUB MAJ & HONY LT	OM PARKASH	1/5/2019
245	JC 372193A	SUB MAJ & HONY LT	PARMJIT SINGH	1/5/2019
246	JC 378783P	SUB MAJ & HONY LT	PRADEEP S	1/6/2019
247	JC 377866N	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUNADHAN M	1/5/2019
248	JC 372177H	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA PRASAD	1/4/2019
249	JC 378534W	SUB MAJ & HONY LT	RAM KISHAN	1/7/2019
250	JC 378529L	SUB MAJ & HONY LT	RAM NATH OJHA	1/8/2019
251	JC 378480A	SUB MAJ & HONY LT	SHINDE JANARDAN BALIRAM	1/7/2019
252	JC 372195L	SUB MAJ & HONY LT	SHIV RAJ ABASARA	1/6/2019
253	JC 377846A	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR S	1/4/2019
254	JC 380526W	SUB MAJ & HONY LT	YADAV RAJENDRA KUMAR BACHULAL	1/3/2019
255	JC 383132H	SUB & HONY LT	AMARNATH JHA	1/4/2019
256	JC 381705H	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR M R	1/5/2019
257	JC 382657A	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR PV	1/7/2019
258	JC 380240F	SUB & HONY LT	DEVA NAND PANT	1/4/2019
259	JC 383465P	SUB & HONY LT	GEEGA RAM	1/5/2019
260	JC 382377M	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH	1/2/2019
261	JC 373852W	SUB & HONY LT	HARI DAS KS	1/3/2019
262	JC 382725H	SUB & HONY LT	JAISH RAM YADAV	1/4/2019
263	JC 382479H	SUB & HONY LT	JITENDER KUMAR CHOUDHARY	1/3/2019
264	JC 379464P	SUB & HONY LT	KAMAL CHANDEL	1/4/2019
265	JC 382536Y	SUB & HONY LT	KAMLESH CHANDRA	1/4/2019
266	JC 382462P	SUB & HONY LT	KHETRABASI PANDA	1/3/2019
267	JC 382707A	SUB & HONY LT	M MARICHAMY	1/5/2019
268	JC 383087F	SUB & HONY LT	MAHESH CHANDRA	1/4/2019
269	JC 377795X	SUB & HONY LT	MANDEEP SINGH	1/4/2019
270	JC 381180K	SUB & HONY LT	NABENDU DAN	1/7/2019
271	JC 382380M	SUB & HONY LT	NAGENDRA PRATAP	1/3/2019
272	JC 383317K	SUB & HONY LT	NARESH KUMAR	1/4/2019
273	JC 375018W	SUB & HONY LT	PANNIR SELVAM S	1/3/2019
274	JC 382939Y	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	1/2/2019
275	JC 383416M	SUB & HONY LT	RAMAVTAR SINGH	1/2/2019
276	JC 383068W	SUB & HONY LT	SEBASTIAN JOSEPH	1/5/2019
277	JC 382480X	SUB & HONY LT	TARA SHANKAR SINGH	1/3/2019
278	JC 384153L	SUB & HONY LT	TARUN KUMAR SINGH	1/8/2019
279	JC 380867F	SUB & HONY LT	VIRENDER KUMAR	1/4/2019
280	JC 384494W	SUB & HONY LT	YALLANKI SRINIVASA RAO	1/7/2019
281	JC 382330F	SUB & HONY LT	ZALA SAHDEV SINH DHIRUBHA	1/2/2019

THE BRIGADE OF GUARDS

282	JC 404416H	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA PRAKASH	1/6/2019
283	JC 402002X	SUB MAJ & HONY LT	MRIDUL KUMAR	1/2/2019
284	JC 403635X	SUB MAJ & HONY LT	NEMI CHAND	1/8/2019
285	JC 405248F	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	1/5/2019
286	JC 405270M	SUB & HONY LT	DUSHANT KUMAR	1/5/2019

287	JC 405146L	SUB & HONY LT	HARAGOBINDA SAIKIA	1/5/2019
288	JC 404823L	SUB & HONY LT	HARJIT SINGH	1/3/2019
289	JC 405247Y	SUB & HONY LT	MADAN GOPAL	1/5/2019
290	JC 404526X	SUB & HONY LT	MANI RAM BHHATRAI	1/4/2019
291	JC 405091M	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	1/3/2019
292	JC 405275L	SUB & HONY LT	SHAMSHER SINGH	1/5/2019
293	JC 405244L	SUB & HONY LT	TARANGA RAMCHIARY	1/5/2019

THE PARACHUTE REGIMENT

294	JC 413258A	SUB MAJ & HONY LT	SEWAK SINGH	1/6/2019
295	JC 413367M	SUB & HONY LT	AJAY ALE	1/7/2019
296	JC 413381Y	SUB & HONY LT	KOLATE SAMBHAJI MURALIDHAR	1/3/2019
297	JC 413427W	SUB & HONY LT	LAXMI NARAYAN MANJUSA ARJAN BHAI GOGAN BHAI	1/5/2019
298	JC 413326H	SUB & HONY LT	BHAI	1/2/2019
299	JC 413335K	SUB & HONY LT	MORE MANSARAM JAGANNATH	1/3/2019
300	JC 413554L	SUB & HONY LT	P CHENTHIL KUMAR	1/3/2019
301	JC 471201W	SUB & HONY LT	RANA DIGVIJAY SINGH	1/4/2019
302	JC 481048Y	SUB & HONY LT	SRI MUKESH SINGH BHADAURIA	1/5/2019
303	JC 413451M	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	1/7/2019

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

304	JC 421042N	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER	1/5/2019
305	JC 421625W	SUB MAJ & HONY LT	P RAJA PANDIAN	1/8/2019
306	JC 421157F	SUB MAJ & HONY LT	PARVINDER KUMAR	1/5/2019
307	JC 421179A	SUB MAJ & HONY LT	SUDERS B	1/6/2019
308	JC 420963F	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDRA SINGH	1/4/2019
309	JC 421893A	SUB & HONY LT	AKHADE RAMCHANDRA VITTHAL	1/7/2019
310	JC 421588N	SUB & HONY LT	ATAKARI VENKATESWARLU	1/7/2019
311	JC 421674Y	SUB & HONY LT	FIROJ KHAN	1/5/2019
312	JC 421478Y	SUB & HONY LT	JADAB GOSWAMI	1/7/2019
313	JC 421786Y	SUB & HONY LT	KARANGIA PABRAT BHAYA	1/4/2019
314	JC 422034F	SUB & HONY LT	KONJENBAM NABA CHANDRA SINGH	1/7/2019
315	JC 421336F	SUB & HONY LT	PRAMOD KUMAR	1/4/2019
316	JC 421541H	SUB & HONY LT	RAJ PAL	1/8/2019
317	JC 420966P	SUB & HONY LT	RAJU THAPA	1/6/2019
318	JC 421313A	SUB & HONY LT	RAM ASHISH YADAV	1/5/2019
319	JC 421582M	SUB & HONY LT	RANJEET SINGH	1/6/2019
320	JC 422183P	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/5/2019
321	JC 421696X	SUB & HONY LT	VIRENDRA KUMAR SINGH	1/2/2019

THE PUNJAB REGIMENT

322	JC 430667K	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS LAL	1/8/2019
323	JC 429535K	SUB MAJ & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	1/3/2019
324	JC 430524K	SUB MAJ & HONY LT	PAWANJEET RANA	1/4/2019
325	JC 429647K	SUB MAJ & HONY LT	SATPAL SINGH	1/4/2019

326	JC 430905L	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	1/2/2019
327	JC 431028P	SUB & HONY LT	BIKASH SAHA	1/4/2019
328	JC 431187M	SUB & HONY LT	GURJANT SINGH	1/3/2019
329	JC 430769A	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	1/2/2019
330	JC 431310A	SUB & HONY LT	MAJOR SINGH	1/7/2019
331	JC 431539Y	SUB & HONY LT	NARENDER SINGH	1/6/2019
332	JC 428252W	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD SHARMA	1/2/2019
333	JC 431519L	SUB & HONY LT	RESHAM SINGH	1/3/2019
334	JC 431031P	SUB & HONY LT	SUSHIL KUMAR	1/3/2019

THE MADRAS REGIMENT

335	JC 439917F	SUB MAJ & HONY LT	A AROCKIASWAMY	1/8/2019
336	JC 439540H	SUB MAJ & HONY LT	ARAVA GOPI	1/6/2019
337	JC 439668N	SUB MAJ & HONY LT	DEVIS AJ	1/7/2019
338	JC 439843X	SUB MAJ & HONY LT	JAYARAJAN OV	1/4/2019
339	JC 439582P	SUB MAJ & HONY LT	M KANDASAMY	1/4/2019
340	JC 440049M	SUB MAJ & HONY LT	PADMAPP HULAMANI	1/8/2019
341	JC 439714X	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH AL	1/4/2019
342	JC 439664X	SUB MAJ & HONY LT	RATHINAVEL R	1/6/2019
343	JC 439667L	SUB MAJ & HONY LT	S ARUMUGAM	1/6/2019
344	JC 439775P	SUB MAJ & HONY LT	V MUTHUSAMY	1/5/2019
345	JC 440973M	SUB & HONY LT	B ELANGO VAN	1/3/2019
346	JC 440750P	SUB & HONY LT	CHANDRAKANT DESAI	1/7/2019
347	JC 440439P	SUB & HONY LT	KALAGOUDA MALAGE	1/3/2019
348	JC 440381H	SUB & HONY LT	KOSHY MATHEW	1/6/2019
349	JC 440380A	SUB & HONY LT	N PETCHI MUTHU PANDI	1/4/2019
350	JC 440093W	SUB & HONY LT	R SUBRAMANI	1/2/2019
351	JC 440136A	SUB & HONY LT	S CHANDRASEKARAN	1/5/2019
352	JC 440357M	SUB & HONY LT	SANJAYA	1/3/2019
353	JC 439055N	SUB & HONY LT	SATHEESH KUMAR AK	1/2/2019
354	JC 440726Y	SUB & HONY LT	SHANKARAPPA TELI	1/3/2019
355	JC 440522M	SUB & HONY LT	VELLINGIRIEASAN V	1/3/2019

THE GRENADIERS

356	JC 450327H	SUB MAJ & HONY LT	AHSAN ALI	1/4/2019
357	JC 450489N	SUB MAJ & HONY LT	BAHDUR SINGH	1/8/2019
358	JC 450042W	SUB MAJ & HONY LT	BANWARI LAL	1/7/2019
359	JC 450550M	SUB MAJ & HONY LT	LAL BAHADUR SINGH	1/7/2019
360	JC 450517P	SUB MAJ & HONY LT	MOHAMMAD JUBAIR	1/8/2019
361	JC 450634A	SUB MAJ & HONY LT	RAJBIR SINGH	1/4/2019
362	JC 451881A	SUB & HONY LT	ALLADEEN KHAN	1/3/2019
363	JC 451205L	SUB & HONY LT	AMZAD HUSSAIN	1/2/2019
364	JC 451482W	SUB & HONY LT	ANANTA CHARAN PALEI	1/3/2019
365	JC 451143W	SUB & HONY LT	BIRENDRA TIWARI	1/3/2019
366	JC 450273M	SUB & HONY LT	CHAUDHARI RAMESH BHAI RAMJI BHAI	1/2/2019

367	JC 451595Y	SUB & HONY LT	DEVI SINGH	1/5/2019
368	JC 451386F	SUB & HONY LT	DHARAM PAL SINGH MEENA	1/2/2019
369	JC 451461A	SUB & HONY LT	JAI SINGH	1/4/2019
370	JC 451725W	SUB & HONY LT	JITENDER KUMAR	1/3/2019
371	JC 451078F	SUB & HONY LT	LAL CHAND MEENA	1/4/2019
372	JC 451305W	SUB & HONY LT	MUKESH KUMAR	1/2/2019
373	JC 451525A	SUB & HONY LT	RAM JEET SINGH	1/3/2019
374	JC 452114N	SUB & HONY LT	RAVEE KARAN	1/5/2019

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

375	JC 458038H	SUB MAJ & HONY LT	AMAR NATH PRASAD	1/6/2019
376	JC 459306N	SUB MAJ & HONY LT	SHINDE SANJAY SAKHARAM	1/4/2019
377	JC 459438F	SUB MAJ & HONY LT	THORAT MANIK BHAU	1/7/2019
378	JC 460607K	SUB & HONY LT	ANCHAL SINGH	1/4/2019
379	JC 459998N	SUB & HONY LT	BABAR LALASAHEB ANANDRAO	1/5/2019
380	JC 459873W	SUB & HONY LT	BODKE RAJESH KRISHNA	1/5/2019
381	JC 460596H	SUB & HONY LT	GIREESH KUMAR K	1/4/2019
382	JC 460397P	SUB & HONY LT	HARIDAS P	1/3/2019
383	JC 460433P	SUB & HONY LT	PATIL RAVINDRA SHAMRAO	1/7/2019
384	JC 459959P	SUB & HONY LT	RAEES KHAN	1/5/2019
385	JC 460403X	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR RAI	1/2/2019
386	JC 460231N	SUB & HONY LT	SHIRKE MILIND KESHAV	1/3/2019
387	JC 459969Y	SUB & HONY LT	SIRSATH MADHAV HARIBA,SM	1/3/2019
388	JC 460597L	SUB & HONY LT	SUJIT KUMAR SAHA	1/4/2019
389	JC 460567N	SUB & HONY LT	UTEKAR RAJESH DINKAR	1/3/2019

THE RAJPUTANA RIFLES

390	JC 470113N	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR	1/5/2019
391	JC 468056Y	SUB MAJ & HONY LT	DHARNIDHAR PAREEK	1/6/2019
392	JC 470263K	SUB MAJ & HONY LT	RICHPAL SINGH JODHA	1/8/2019
393	JC 470483N	SUB MAJ & HONY LT	SATISH SINGH	1/8/2019
394	JC 470288W	SUB MAJ & HONY LT	SATYPAL SINGH	1/5/2019
395	JC 470582W	SUB MAJ & HONY LT	UDAI PRATAP SINGH	1/8/2019
396	JC 470489P	SUB & HONY LT	BHIK CHAND	1/3/2019
397	JC 471102N	SUB & HONY LT	BUDDHIMAN SINGH	1/2/2019
398	JC 471306A	SUB & HONY LT	GULAB SINGH	1/4/2019
399	JC 471173P	SUB & HONY LT	HARI PAL SINGH	1/3/2019
400	JC 470135M	SUB & HONY LT	KRISHN PAL SINGH	1/8/2019
401	JC 471283K	SUB & HONY LT	LAXMAN SINGH	1/3/2019
402	JC 471036W	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	1/4/2019
403	JC 471335P	SUB & HONY LT	NATHU SINGH	1/4/2019
404	JC 469733X	SUB & HONY LT	NAWAL SINGH	1/4/2019
405	JC 471395K	SUB & HONY LT	NETRA PAL	1/4/2019
406	JC 469721H	SUB & HONY LT	OM SINGH	1/4/2019
407	JC 471018N	SUB & HONY LT	PARMAL SINGH	1/3/2019
408	JC 471308L	SUB & HONY LT	RAJ KARAN	1/3/2019

409	JC 471075P	SUB & HONY LT	RAMDHAN BORKH	1/3/2019
410	JC 470310W	SUB & HONY LT	RAWAT MAL	1/4/2019
411	JC 471252K	SUB & HONY LT	SHEEL KUMAR	1/6/2019
412	JC 471354A	SUB & HONY LT	SHIV SINGH	1/3/2019
413	JC 470709N	SUB & HONY LT	SHRI PAL SINGH	1/3/2019
414	JC 470923W	SUB & HONY LT	SORAN SINGH	1/3/2019
415	JC 471212H	SUB & HONY LT	SURESH CHANDRA	1/4/2019
416	JC 471111P	SUB & HONY LT	SURESH SINGH TOMAR	1/3/2019
417	JC 470998N	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH BHATI	1/5/2019
418	JC 470914P	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH CHAHAR	1/4/2019
419	JC 470983L	SUB & HONY LT	VIRESH KUMAR	1/3/2019

THE RAJPUT REGIMENT

420	JC 479684N	SUB MAJ & HONY LT	DILA RAM	1/3/2019
421	JC 479912L	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM SINGH	1/7/2019
422	JC 481146Y	SUB & HONY LT	ARUN KUMAR SINGH	1/4/2019
423	JC 480753L	SUB & HONY LT	BIRENDRA SINGH GURJAR	1/3/2019
424	JC 480740N	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH CHAUHAN	1/5/2019
425	JC 481190H	SUB & HONY LT	HEM CHAND	1/2/2019
426	JC 480598P	SUB & HONY LT	JAG RAM SINGH KHATANA	1/4/2019
427	JC 481073X	SUB & HONY LT	KOKODE RANJIT FAGOSING	1/4/2019
428	JC 480796A	SUB & HONY LT	PANKAJ SHARMA	1/7/2019
429	JC 480828X	SUB & HONY LT	PUSHPENDRA SINGH	1/3/2019
430	JC 480707W	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR	1/3/2019
431	JC 481099M	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	1/3/2019
432	JC 481235X	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	1/3/2019
433	JC 481166M	SUB & HONY LT	RAM BIR SINGH GURJAR	1/5/2019
434	JC 481168X	SUB & HONY LT	RAM CHANDER SINGH	1/4/2019
435	JC 481117K	SUB & HONY LT	RAM SINGH	1/3/2019
436	JC 481356Y	SUB & HONY LT	RANJEET SINGH CHAUHAN	1/5/2019
437	JC 481274W	SUB & HONY LT	RATAN PAL SINGH	1/4/2019
438	JC 480175F	SUB & HONY LT	SHISHRAM KHATANA	1/4/2019
439	JC 481108H	SUB & HONY LT	ZAKIR HUSAIN	1/4/2019

THE JAT REGIMENT

440	JC 499508X	SUB MAJ & HONY LT	BALJEET SINGH	1/2/2019
441	JC 489650N	SUB MAJ & HONY LT	BIJENDRA SINGH	1/4/2019
442	JC 488097K	SUB MAJ & HONY LT	DEV PRAKASH SHASTRI	1/5/2019
443	JC 489807H	SUB MAJ & HONY LT	RAM NIWAS SOLANKI	1/6/2019
444	JC 490390A	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/7/2019
445	JC 489836X	SUB MAJ & HONY LT	UMED SINGH	1/8/2019
446	JC 490919P	SUB & HONY LT	BANWARI LAL KHYALIA	1/3/2019
447	JC 490785F	SUB & HONY LT	BIJENDER KUMAR	1/3/2019
448	JC 491021P	SUB & HONY LT	HANS RAJ	1/7/2019
449	JC 490930N	SUB & HONY LT	HARBEER SINGH	1/4/2019
450	JC 490888A	SUB & HONY LT	HARPHOOL SINGH	1/5/2019

451	JC 491010H	SUB & HONY LT	INDRAJ SINGH	1/3/2019
452	JC 489256H	SUB & HONY LT	KAPOOR SINGH GIL	1/2/2019
453	JC 490752W	SUB & HONY LT	MAGHA RAM	1/6/2019
454	JC 490762A	SUB & HONY LT	RAKESH KUMAR	1/3/2019
455	JC 490928W	SUB & HONY LT	RAM KISHOR DUDI	1/3/2019
456	JC 490902F	SUB & HONY LT	RAN VIR SINGH	1/6/2019
457	JC 490771F	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/3/2019
458	JC 490778L	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH	1/4/2019

THE SIKH REGIMENT

459	JC 499467Y	SUB MAJ & HONY LT	HARDEEP SINGH	1/5/2019
460	JC 499440F	SUB MAJ & HONY LT	LAKHBIR SINGH	1/8/2019
461	JC 499512A	SUB MAJ & HONY LT	SUKHWINDER SINGH	1/8/2019
462	JC 500225L	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	1/5/2019
463	JC 500136M	SUB & HONY LT	ARJINDER SINGH	1/3/2019
464	JC 500320X	SUB & HONY LT	BACHAN SINGH	1/4/2019
465	JC 500723X	SUB & HONY LT	BALJINDER SINGH	1/4/2019
466	JC 500403H	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH	1/4/2019
467	JC 500447A	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	1/4/2019
468	JC 500519Y	SUB & HONY LT	GURMEET SINGH	1/7/2019
469	JC 500317X	SUB & HONY LT	HARBAKSH SINGH	1/4/2019
470	JC 500523F	SUB & HONY LT	JASBIR SINGH	1/7/2019
471	JC 500658H	SUB & HONY LT	JATINDER SINGH	1/3/2019
472	JC 500441Y	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	1/4/2019
473	JC 500373W	SUB & HONY LT	KULWINDER SINGH	1/4/2019
474	JC 500457K	SUB & HONY LT	SUKHPAL SINGH JATANA	1/4/2019

THE SIKH LIGHT INFANTRY

475	JC 509565P	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV SINGH	1/8/2019
476	JC 509401Y	SUB MAJ & HONY LT	BALVIR SINGH	1/3/2019
477	JC 509260P	SUB MAJ & HONY LT	DARA SINGH	1/4/2019
478	JC 509611Y	SUB MAJ & HONY LT	DILBAG SINGH	1/2/2019
479	JC 509450F	SUB MAJ & HONY LT	PIRTHIPAL SINGH	1/6/2019
480	JC 510015Y	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	1/2/2019
481	JC 510131F	SUB & HONY LT	BAKSHISH SINGH	1/4/2019
482	JC 510000W	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH	1/4/2019
483	JC 509961L	SUB & HONY LT	CHARANJIT SINGH	1/4/2019
484	JC 510229P	SUB & HONY LT	CHITTARANJAN MISHRA	1/4/2019
485	JC 509786F	SUB & HONY LT	DEEP SINGH	1/2/2019
486	JC 510139N	SUB & HONY LT	GURDEEP SINGH	1/4/2019
487	JC 509790K	SUB & HONY LT	JASBIR SINGH	1/7/2019
488	JC 509460L	SUB & HONY LT	MANJIT SINGH	1/4/2019
489	JC 510208Y	SUB & HONY LT	NARANJAN SINGH	1/5/2019
490	JC 509613K	SUB & HONY LT	NIRMAL SINGH	1/4/2019
491	JC 509528F	SUB & HONY LT	PARAMJIT SINGH	1/2/2019
492	JC 510213K	SUB & HONY LT	PARWINDER SINGH	1/4/2019

493	JC 510298L	SUB & HONY LT	SUKHVIRPAL SINGH	1/6/2019
494	JC 510138L	SUB & HONY LT	TAJINDER SINGH	1/4/2019

THE DOGRA REGIMENT

495	JC 520803W	SUB MAJ & HONY LT	KISHAN CHAND VAIDYA	1/7/2019
496	JC 520940P	SUB MAJ & HONY LT	MADAN LAL THAKUR	1/7/2019
497	JC 521429L	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	1/3/2019
498	JC 521580W	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	1/7/2019
499	JC 521690L	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	1/7/2019
500	JC 521344P	SUB & HONY LT	BALVINDER SINGH	1/6/2019
501	JC 521981L	SUB & HONY LT	CHAIN SINGH	1/7/2019
502	JC 521744F	SUB & HONY LT	GARJAN SINGH	1/7/2019
503	JC 521820H	SUB & HONY LT	GURVINDER SINGH	1/8/2019
504	JC 521565F	SUB & HONY LT	HARVINDER SINGH RANA	1/7/2019
505	JC 521607H	SUB & HONY LT	HITLER	1/7/2019
506	JC 521491X	SUB & HONY LT	HOSHIAR SINGH	1/3/2019
507	JC 521798H	SUB & HONY LT	JAI LAL	1/6/2019
508	JC 521499K	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	1/7/2019
509	JC 521772N	SUB & HONY LT	KAMAL KISHORE	1/5/2019
510	JC 521682M	SUB & HONY LT	KULDEEP SINGH	1/6/2019
511	JC 521515W	SUB & HONY LT	MOHENDER SINGH	1/6/2019
512	JC 521541X	SUB & HONY LT	NARINDER SINGH	1/7/2019
513	JC 522041M	SUB & HONY LT	NIKKA RAM	1/5/2019
514	JC 521381H	SUB & HONY LT	OM PARKASH DOGRA	1/6/2019
515	JC 521908M	SUB & HONY LT	PAWAN KUMAR	1/2/2019
516	JC 521480L	SUB & HONY LT	PRADEEP KUMAR	1/7/2019
517	JC 521733P	SUB & HONY LT	PRADEEP KUMAR	1/6/2019
518	JC 521543H	SUB & HONY LT	PREM LAL	1/6/2019
519	JC 521387K	SUB & HONY LT	RADHA KRISHAN	1/8/2019
520	JC 521906F	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR	1/5/2019
521	JC 521933L	SUB & HONY LT	RUP CHAND	1/3/2019
522	JC 521732M	SUB & HONY LT	SANTOKH SINGH	1/5/2019
523	JC 521323Y	SUB & HONY LT	SAWANT HEMANT LAHU	1/4/2019
524	JC 521745K	SUB & HONY LT	SHAM LAL	1/7/2019
525	JC 521912P	SUB & HONY LT	SOM RAJ	1/7/2019
526	JC 521980H	SUB & HONY LT	SUBASH CHANDER	1/7/2019
527	JC 522168P	SUB & HONY LT	SUMESH PAL RANA	1/7/2019
528	JC 521463L	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR	1/7/2019
529	JC 521372F	SUB & HONY LT	SUTINDER SINGH	1/3/2019
530	JC 522060X	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	1/7/2019
531	JC 521439P	SUB & HONY LT	UJAGAR MAL	1/5/2019

THE GARHWAL RIFLES

532	JC 530441N	SUB MAJ & HONY LT	ANAND PRAKASH	1/2/2019
533	JC 529997L	SUB MAJ & HONY LT	BHARAT SINGH	1/6/2019
534	JC 528145K	SUB MAJ & HONY LT	HARIHAR PRASAD PANDEY	1/2/2019

535	JC 530204K	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH SINGH	1/8/2019
536	JC 530029A	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH	1/3/2019
537	JC 530245N	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH	1/3/2019
538	JC 530452A	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA DATT	1/5/2019
539	JC 531391A	SUB & HONY LT	ARJUN SINGH	1/6/2019
540	JC 531258X	SUB & HONY LT	DIGPAL PURI	1/3/2019
541	JC 531041N	SUB & HONY LT	DINESH KUMAR	1/3/2019
542	JC 531257P	SUB & HONY LT	JAGMOHAN SINGH	1/3/2019
543	JC 531619L	SUB & HONY LT	MADAN SINGH	1/6/2019
544	JC 531523H	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH	1/3/2019
545	JC 531346N	SUB & HONY LT	MAN SINGH	1/2/2019
546	JC 531384K	SUB & HONY LT	MUKUND SINGH NEGI	1/8/2019
547	JC 531652H	SUB & HONY LT	NEETU KUMAR	1/6/2019
548	JC 531252W	SUB & HONY LT	NIHAL SINGH	1/2/2019
549	JC 531654N	SUB & HONY LT	PRAKASH SINGH	1/6/2019
550	JC 531473H	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	1/5/2019
551	JC 531663P	SUB & HONY LT	SARDAR SINGH	1/3/2019
552	JC 531624W	SUB & HONY LT	SATENDRA SINGH GUSAIN	1/4/2019
553	JC 531162P	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH	1/6/2019

THE KUMAON REGIMENT

554	JC 540923W	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	1/2/2019
555	JC 540556P	SUB & HONY LT	BASANT GIRI	1/8/2019
556	JC 541323A	SUB & HONY LT	BHUWAN CHANDRA	1/6/2019
557	JC 541152Y	SUB & HONY LT	HARISH SINGH	1/6/2019
558	JC 540988K	SUB & HONY LT	HUKAM SINGH YADAV	1/5/2019
559	JC 541209H	SUB & HONY LT	HUKUM SINGH	1/8/2019
560	JC 541066N	SUB & HONY LT	HUKUM SINGH PARIHAR	1/8/2019
561	JC 541297K	SUB & HONY LT	KANWAR SINGH YADAV	1/5/2019
562	JC 541154K	SUB & HONY LT	KESHAB DATT	1/5/2019
563	JC 541168K	SUB & HONY LT	KUNDAN SINGH	1/6/2019
564	JC 541183Y	SUB & HONY LT	LOK NATH SINGH	1/5/2019
565	JC 541181N	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR	1/5/2019
566	JC 541319X	SUB & HONY LT	RAM SHIROMANI	1/3/2019
567	JC 541046A	SUB & HONY LT	SAMSHER SINGH	1/8/2019
568	JC 540528H	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	1/2/2019
569	JC 541180L	SUB & HONY LT	VIRENDER SINGH	1/5/2019

THE ASSAM REGIMENT

570	JC 549440A	SUB MAJ & HONY LT	SONTASWAR ROY	1/6/2019
571	JC 550573H	SUB & HONY LT	ARUN CHANDRA ROY	1/6/2019
572	JC 550415N	SUB & HONY LT	ASEM MANICHANDRA SINGH	1/7/2019
573	JC 550560L	SUB & HONY LT	B D PETER ANAL	1/3/2019
574	JC 550462L	SUB & HONY LT	CHINGAKHAM JADHOUMANI	1/2/2019
575	JC 550295A	SUB & HONY LT	DIPAK CHANDRA TALUKDAR	1/5/2019
576	JC 549834Y	SUB & HONY LT	GHANA KANTA GOGOI	1/6/2019

577	JC 550489H	SUB & HONY LT	HMANGROTHANG HMAR	1/7/2019
578	JC 550326P	SUB & HONY LT	JATIN CHANDRA BASUMATARY	1/6/2019
579	JC 549468A	SUB & HONY LT	LALIN SAUGA	1/3/2019
580	JC 548150W	SUB & HONY LT	LALZAWMLIEN PANGAMTE	1/3/2019
581	JC 549664A	SUB & HONY LT	SARAT CHANDRA NATH	1/4/2019
582	JC 549750L	SUB & HONY LT	TEK BAHADUR THAPA	1/5/2019
583	JC 550034M	SUB & HONY LT	UDAY CHANDRA NATH	1/7/2019

THE BIHAR REGIMENT

584	JC 559752K	SUB MAJ & HONY LT	PRABHASH KUMAR JHA	1/4/2019
585	JC 559753M	SUB MAJ & HONY LT	RAM ASHISH RAI	1/4/2019
586	JC 561109Y	SUB & HONY LT	AKHILESHWAR KUMAR SINGH	1/4/2019
587	JC 561119H	SUB & HONY LT	ARVIND YADAV	1/4/2019
588	JC 560760P	SUB & HONY LT	BACHA SINGH	1/4/2019
589	JC 560841P	SUB & HONY LT	BIRDI SINGH	1/4/2019
590	JC 560988L	SUB & HONY LT	BIRENDRA KUMAR	1/4/2019
591	JC 561015F	SUB & HONY LT	BIRENDRA NATH SINGH	1/4/2019
592	JC 560455H	SUB & HONY LT	BRIJ KISHORE KHALKHO	1/3/2019
593	JC 561016K	SUB & HONY LT	DHANANJAY SINGH	1/4/2019
594	JC 560948K	SUB & HONY LT	EMANUEL TOPNO	1/3/2019
595	JC 560866F	SUB & HONY LT	JAGNATH SHARMA	1/4/2019
596	JC 561105H	SUB & HONY LT	KANHAIYA SINGH	1/4/2019
597	JC 560890X	SUB & HONY LT	MANOJ N	1/4/2019
598	JC 560746H	SUB & HONY LT	MITHILESH KUMAR SINGH	1/4/2019
599	JC 560892H	SUB & HONY LT	PRADEEP KUMAR PATRO	1/7/2019
600	JC 560729H	SUB & HONY LT	PRASANNA KUMAR GIRI	1/3/2019
601	JC 561174Y	SUB & HONY LT	SANJAY KUMAR SINGH	1/8/2019
602	JC 560951K	SUB & HONY LT	SURAJ KUMAR BESRA	1/7/2019
603	JC 560150H	SUB & HONY LT	SURINDER KUMAR	1/4/2019

THE MAHAR REGIMENT

604	JC 569911K	SUB MAJ & HONY LT	KURANE SANJAY SHANKAR	1/2/2019
605	JC 569917L	SUB MAJ & HONY LT	PURAN SINGH	1/6/2019
606	JC 570516H	SUB & HONY LT	CHANDRAKANT BHIVA GAIKWAD	1/8/2019
607	JC 570427K	SUB & HONY LT	GODAVARI MAHARANA	1/3/2019
608	JC 570786X	SUB & HONY LT	HARVINDER SINGH	1/3/2019
609	JC 570657X	SUB & HONY LT	JAGJIWAN SINGH	1/8/2019
610	JC 570498L	SUB & HONY LT	JITENDRA RAY	1/8/2019
611	JC 570841H	SUB & HONY LT	KAMBLE TUKARAM YALLAPA	1/3/2019
612	JC 571090Y	SUB & HONY LT	MADAN SINGH	1/7/2019
613	JC 570312W	SUB & HONY LT	MITAN SINGH	1/2/2019
614	JC 570681N	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	1/7/2019
615	JC 570002L	SUB & HONY LT	RATTAN KUMAR KANOJIA	1/6/2019
616	JC 570806A	SUB & HONY LT	SATYAVEER SINGH JHANG	1/7/2019
617	JC 570649Y	SUB & HONY LT	TARA CHAND	1/3/2019
618	JC 570469W	SUB & HONY LT	VANKAR MAGAN BHAI JAGA BHAI	1/3/2019
619	JC 570676H	SUB & HONY LT	VIR BAHADUR YADAVA	1/5/2019

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

620	JC 581308N	SUB MAJ & HONY LT	GURPAL SINGH	1/6/2019
621	JC 580740H	SUB MAJ & HONY LT	MADAN SINGH	1/5/2019
622	JC 580645W	SUB MAJ & HONY LT	UJJAGGAR SINGH	1/8/2019
623	JC 581466H	SUB & HONY LT	ASHWANI KUMAR CHAUDHARY	1/8/2019
624	JC 581394K	SUB & HONY LT	AVNISH KUMAR SHARMA	1/6/2019
625	JC 581457F	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	1/7/2019
626	JC 581420A	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	1/3/2019
627	JC 581209L	SUB & HONY LT	BIJENDER THAPA	1/5/2019
628	JC 581705M	SUB & HONY LT	CHAMAN SINGH	1/6/2019
629	JC 581691X	SUB & HONY LT	DAWA BAHADUR GURUNG	1/2/2019
630	JC 581472W	SUB & HONY LT	DESH RAJ	1/2/2019
631	JC 581479A	SUB & HONY LT	GURNAM SINGH	1/2/2019
632	JC 581536W	SUB & HONY LT	HAQUMAT RAJ	1/2/2019
633	JC 581661A	SUB & HONY LT	HARJIT SINGH	1/8/2019
634	JC 581233F	SUB & HONY LT	INDER SINGH	1/2/2019
635	JC 581795Y	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH	1/8/2019
636	JC 581719M	SUB & HONY LT	JOGINDER PAL	1/3/2019
637	JC 581873L	SUB & HONY LT	MOHD RASHID	1/4/2019
638	JC 581467L	SUB & HONY LT	NAND LAL	1/3/2019
639	JC 581693H	SUB & HONY LT	PRATAP CHAND	1/6/2019
640	JC 581548L	SUB & HONY LT	RACHHPAL DASS	1/2/2019
641	JC 581195W	SUB & HONY LT	RAM LAL	1/2/2019
642	JC 581184K	SUB & HONY LT	ROMESH SINGH	1/2/2019
643	JC 581687P	SUB & HONY LT	SHIV KUMAR	1/8/2019
644	JC 581183F	SUB & HONY LT	SURAM SINGH	1/2/2019
645	JC 581381M	SUB & HONY LT	SURINDER SINGH	1/2/2019
646	JC 581683Y	SUB & HONY LT	SURJEET SINGH	1/2/2019
647	JC 581620W	SUB & HONY LT	SUSIL SINGH	1/3/2019
648	JC 581692A	SUB & HONY LT	TEJ BAHADUR	1/2/2019
649	JC 581520L	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	1/2/2019
650	JC 581560M	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR ALE	1/2/2019
651	JC 581767M	SUB & HONY LT	VIRENDER KUMAR	1/8/2019

THE LADAKH SCOUTS

652	JC 588377M	SUB MAJ & HONY LT	CHHERING DORJE	1/3/2019
653	JC 588627H	SUB & HONY LT	DORJAY RAFTAN	1/2/2019
654	JC 588614L	SUB & HONY LT	STANZIN CHOSPHAL	1/6/2019
655	JC 588646N	SUB & HONY LT	TASHI NAMGYAL	1/3/2019
656	JC 588575X	SUB & HONY LT	THUGJAY NAMGIAL	1/8/2019
657	JC 588520N	SUB & HONY LT	TSEWANG TASHI	1/5/2019

THE NAGA REGIMENT

658	JC 540444P	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH BHANDARI	1/3/2019
659	JC 590313A	SUB & HONY LT	N ATHIKHO JOHN	1/7/2019

660	JC 590360X	SUB & HONY LT	VIRENDRA THAPA	1/2/2019
<u>THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY</u>				
661	JC 593360H	SUB MAJ & HONY LT	ARJAN KUMAR	1/8/2019
662	JC 593951K	SUB MAJ & HONY LT	ASHWANI KUMAR	1/7/2019
663	JC 593141F	SUB MAJ & HONY LT	M RAJAN	1/7/2019
664	JC 593437A	SUB MAJ & HONY LT	RAM PAUL	1/8/2019
665	JC 594243K	SUB & HONY LT	BALDEV RAJ	1/5/2019
666	JC 594148X	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	1/4/2019
667	JC 594298N	SUB & HONY LT	KABIR HUSSAIN	1/2/2019
668	JC 593870K	SUB & HONY LT	KAFIL AHMED	1/2/2019
669	JC 593473L	SUB & HONY LT	L VINOD KUMAR	1/4/2019
670	JC 594519P	SUB & HONY LT	MANJEET SINGH	1/7/2019
671	JC 594151X	SUB & HONY LT	MOHD RAYAZ	1/6/2019
672	JC 593916F	SUB & HONY LT	MOHD SHAFI	1/8/2019
673	JC 594242F	SUB & HONY LT	MOHINDER PAUL SHARMA	1/3/2019
674	JC 593407H	SUB & HONY LT	MOHITE DILIP GANPAT	1/2/2019
675	JC 594250A	SUB & HONY LT	OMKAR SINGH	1/3/2019
676	JC 594041H	SUB & HONY LT	RAMESH LAL SALGOTRA	1/2/2019
677	JC 594459L	SUB & HONY LT	SAT PAUL	1/7/2019
678	JC 594035P	SUB & HONY LT	SUBHASH CHANDER	1/8/2019
679	JC 594147P	SUB & HONY LT	SURESH PAUL	1/3/2019
680	JC 594053X	SUB & HONY LT	SWARN SINGH CHARK	1/3/2019
681	JC 594200P	SUB & HONY LT	UTTAM SINGH	1/2/2019
682	JC 593917K	SUB & HONY LT	ZARYAT HUSSAIN	1/4/2019
<u>1 GORKHA RIFLES</u>				
683	JC 602671A	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR THAPA	1/4/2019
684	JC 612820W	SUB & HONY LT	DEEPAK KUMAR RANA	1/7/2019
685	JC 603060X	SUB & HONY LT	KARNA BAHADUR PUN	1/7/2019
686	JC 603010M	SUB & HONY LT	RAJESH THAPA	1/4/2019
<u>3 GORKHA RIFLES</u>				
687	JC 607957Y	SUB & HONY LT	BHAKTA BAHADUR THAPA	1/7/2019
688	JC 607728N	SUB & HONY LT	MAN BAHADUR PALLI	1/8/2019
689	JC 607906L	SUB & HONY LT	YAM BAHADUR ROKA	1/7/2019
<u>4 GORKHA RIFLES</u>				
690	JC 612641W	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL BAHADUR GURUNG	1/7/2019
691	JC 612804Y	SUB & HONY LT	BHIM DARSHAN THAPA	1/2/2019
692	JC 612817W	SUB & HONY LT	BISHNU BIR RANA	1/7/2019
<u>5 GORKHA RIFLES</u>				
693	JC 617861K	SUB MAJ & HONY LT	BHIM SINGH GURUNG	1/5/2019
694	JC 617894P	SUB MAJ & HONY LT	ROMAN SINGH THAPA	1/5/2019

695	JC 618104F	SUB & HONY LT	GIR BAHADUR SARU	1/4/2019
696	JC 618132N	SUB & HONY LT	LAL BAHADUR RANA	1/8/2019
697	JC 618004W	SUB & HONY LT	YES BAHADUR GURUNG	1/2/2019

8 GORKHA RIFLES

698	JC 623952K	SUB & HONY LT	HARSHA BAHADUR ALE	1/6/2019
699	JC 624113Y	SUB & HONY LT	KESHAR BAHADUR THAPA	1/8/2019
700	JC 624059W	SUB & HONY LT	KUMAR GURUNG	1/3/2019
701	JC 623932W	SUB & HONY LT	MILAN THAPA	1/8/2019
702	JC 623877L	SUB & HONY LT	NANDA BAHADUR THAPA	1/4/2019
703	JC 623913L	SUB & HONY LT	NARAYAN BAHADUR THAPA	1/6/2019
704	JC 624074L	SUB & HONY LT	PADAM BAHADUR RANA	1/4/2019
705	JC 624146K	SUB & HONY LT	PADAM BAHADUR THAPA	1/4/2019
706	JC 624109W	SUB & HONY LT	PURNA BAHADUR SARU	1/2/2019
707	JC 623922M	SUB & HONY LT	RAMANAND PODDAR	1/6/2019

9 GORKHA RIFLES

708	JC 629936H	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR THAPA	1/4/2019
709	JC 629890L	SUB & HONY LT	BHAGAWAN MALLA	1/3/2019
710	JC 630029P	SUB & HONY LT	DURGA BAHADUR KHATRI	1/2/2019
711	JC 630077P	SUB & HONY LT	MIN BAHADUR PANTA	1/3/2019
712	JC 630081X	SUB & HONY LT	RESHAM BAHADUR ADHIKARI	1/5/2019

11 GORKHA RIFLES

713	JC 635352N	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR TAMANG	1/4/2019
714	JC 603007M	SUB & HONY LT	DHAN MAN THAPA	1/4/2019
715	JC 635094Y	SUB & HONY LT	GANESH ANGDEMBA LIMBU	1/3/2019
716	JC 635323Y	SUB & HONY LT	KEWAL MAN RAI	1/3/2019
717	JC 635233X	SUB & HONY LT	MAHENDRA KUMAR LIMBU	1/3/2019

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

718	JC 665351A	SUB MAJ & HONY LT	ASHIS DAS	1/4/2019
719	JC 664215X	SUB MAJ & HONY LT	D CHANDRA SEKARAN	1/6/2019
720	JC 665226W	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH RAWAT	1/3/2019
721	JC 665143L	SUB MAJ & HONY LT	JAGDEESH MAURYA	1/6/2019
722	JC 642909X	SUB MAJ & HONY LT	KALA CHAND MISTRY	1/4/2019
723	JC 665571K	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH NEGI	1/4/2019
724	JC 663140Y	SUB MAJ & HONY LT	RADHEY SHYAM	1/5/2019
725	JC 665220P	SUB MAJ & HONY LT	RAJU MICHAEL	1/3/2019
726	JC 217190X	SUB MAJ & HONY LT	SACHCHIDANAND TIWARI	1/3/2019
727	JC 642906K	SUB MAJ & HONY LT	SOMANATH MAHARANA	1/3/2019
728	JC 665346P	SUB MAJ & HONY LT	SUBA SINGH YADAV	1/3/2019
729	JC 664143Y	SUB MAJ & HONY LT	SUSHIL KUMAR YADAV	1/6/2019
730	JC 668804L	SUB & HONY LT	AMRIT SINGH	1/8/2019
731	JC 665326F	SUB & HONY LT	DEV RAJ TRIPATHI	1/2/2019
732	JC 665400X	SUB & HONY LT	FULTARIYA MADHULAL SHIV LAL	1/4/2019

BHAI

733	JC 669963P	SUB & HONY LT	HARI SHANKAR DUTTA	1/7/2019
734	JC 670166W	SUB & HONY LT	JITENDRA KUMAR SARMA	1/8/2019
735	JC 669962M	SUB & HONY LT	NAMEIRAKPAM KOMOLJIT SINGH	1/7/2019
736	JC 669981X	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	1/7/2019
737	JC 668601F	SUB & HONY LT	SHAHUL HAMEED V E	1/3/2019
738	JC 668826K	SUB & HONY LT	SHER SINGH	1/5/2019
739	JC 668560H	SUB & HONY LT	TAPAS KUMAR MONDAL	1/3/2019

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

740	JC 681482P	RIS & HONY LT	ABHIMANYU SINGH	1/4/2019
741	JC 681473N	RIS & HONY LT	ARIF KHAN	1/4/2019
742	JC 681485H	RIS & HONY LT	BASAPPA PATIL	1/8/2019
743	JC 681469L	RIS & HONY LT	BISHWAMBHAR KUMAR	1/5/2019
744	JC 681489Y	RIS & HONY LT	CHATE DEEPAK DNYANOBA	1/8/2019
745	JC 681492Y	RIS & HONY LT	GAJJU LAL	1/8/2019
746	JC 681441L	RIS & HONY LT	GANGA DIN KORI	1/4/2019
747	JC 681474W	RIS & HONY LT	KAMBALE SATAPPA	1/8/2019
748	JC 681496P	RIS & HONY LT	KOPPULA NARASIMHULU	1/8/2019
749	JC 681444Y	RIS & HONY LT	LAL BAHADUR PRASAD	1/4/2019
750	JC 681436A	RIS & HONY LT	NARAYAN RAJAGOLI	1/3/2019
751	JC 681480K	RIS & HONY LT	NAYANPAL SINGH BISHT	1/8/2019
752	JC 681476F	RIS & HONY LT	PARAMA RAM	1/8/2019
753	JC 681462F	RIS & HONY LT	RAJ KISHOR	1/4/2019
754	JC 681487N	RIS & HONY LT	RAJENDRA SINGH RAWAT	1/8/2019
755	JC 681478M	RIS & HONY LT	RAMENDER KUMAR RATHORE	1/8/2019
756	JC 681497X	RIS & HONY LT	SHAIK JUNNA SAHEB	1/8/2019
757	JC 681468H	RIS & HONY LT	SUBODH KUMAR	1/5/2019
758	JC 681464M	RIS & HONY LT	SUNIL KUMAR	1/4/2019
759	JC 681493F	RIS & HONY LT	YENNE JAGANNADHA RAO	1/8/2019

ARMY MEDICAL CORPS

760	JC 694775Y	SUB MAJ & HONY LT	BASANT KUMAR SAHU	1/2/2019
761	JC 693713M	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWATI PRASAD	1/5/2019
762	JC 695824H	SUB MAJ & HONY LT	CHANDAR SHEKHAR	1/6/2019
763	JC 696129A	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH	1/2/2019
764	JC 696811X	SUB MAJ & HONY LT	JASPAL SINGH	1/2/2019
765	JC 697940K	SUB MAJ & HONY LT	LALA RAM	1/8/2019
766	JC 696525W	SUB MAJ & HONY LT	RADHA KRISHNA PANICKER TP	1/5/2019
767	JC 694852H	SUB MAJ & HONY LT	SIKANDAR IQBAL	1/2/2019
768	JC 694976X	SUB MAJ & HONY LT	SIVA PRASAD S	1/5/2019
769	JC 695214W	SUB MAJ & HONY LT	SRI MONEY K	1/6/2019
770	JC 694100Y	SUB MAJ & HONY LT	TAPAN KUMAR GAYEN	1/6/2019
771	JC 694110H	SUB MAJ & HONY LT	UMESH CHANDRA	1/4/2019
772	JC 699992Y	SUB & HONY LT	AMBRE SANJAY HARISH CHANDRA	1/4/2019
773	JC 700271K	SUB & HONY LT	ARUN KUMAR	1/8/2019
774	JC 700284F	SUB & HONY LT	BHUPEN NATH	1/5/2019

775	JC 700224M	SUB & HONY LT	CHAUBEY RAVINDRA KUMAR RAJA RAM	1/3/2019
776	JC 700027K	SUB & HONY LT	DEVA RAJU D S	1/3/2019
777	JC 700032P	SUB & HONY LT	DHANNA RAM YADAV	1/3/2019
778	JC 700061K	SUB & HONY LT	DHENDE ARJUN NIVRUTTI	1/4/2019
779	JC 700223K	SUB & HONY LT	G APPALA NAIDU	1/3/2019
780	JC 699853P	SUB & HONY LT	GOPAL SHARAN BHARDWAJ	1/2/2019
781	JC 699991W	SUB & HONY LT	JADHAV DILEEP VILAS RAO	1/4/2019
782	JC 699769P	SUB & HONY LT	PATIL VISHWAS RAJARAM	1/4/2019
783	JC 700034A	SUB & HONY LT	RAVINDER RANA	1/6/2019
784	JC 699683W	SUB & HONY LT	S KARTHIKEYAN	1/3/2019
785	JC 700030K	SUB & HONY LT	SANJAY KUMAR	1/3/2019
786	JC 700295N	SUB & HONY LT	SANJAY KUMAR CHAUBEY	1/4/2019
787	JC 696978F	SUB & HONY LT	SANTOKH SINGH	1/5/2019
788	JC 700031M	SUB & HONY LT	SATYENDRA CHAUHAN	1/3/2019
789	JC 700272M	SUB & HONY LT	SHRI KRISHNA VERMA	1/8/2019
790	JC 700225P	SUB & HONY LT	SUKHBIR SINGH	1/3/2019
791	JC 696977Y	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	1/8/2019
792	JC 700066H	SUB & HONY LT	SUNDER LAL	1/4/2019
793	JC 700026F	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR SINGH	1/3/2019
794	JC 700235Y	SUB & HONY LT	SURENDRA KUMAR PATEL	1/4/2019
795	JC 700262H	SUB & HONY LT	UMESH KUMAR	1/4/2019
796	JC 700064X	SUB & HONY LT	VINAY KUMAR	1/4/2019
797	JC 699503H	SUB & HONY LT	VINOD KUMAR SHARMA	1/3/2019

ARMY ORDNANCE CORPS

798	JC 724945P	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR	1/4/2019
799	JC 725351M	SUB MAJ & HONY LT	DEBANANDA RAJAGURU	1/5/2019
800	JC 728723X	SUB MAJ & HONY LT	JAGANNATH BERA	1/6/2019
801	JC 725459K	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH RAJAURIA	1/5/2019
802	JC 728670K	SUB MAJ & HONY LT	RAM DEO	1/7/2019
803	JC 729003H	SUB MAJ & HONY LT	RASHPAL SINGH	1/5/2019
804	JC 730079P	SUB & HONY LT	BHAGBANT SINGH	1/2/2019
805	JC 729949P	SUB & HONY LT	DESH RAJ	1/8/2019
806	JC 730390P	SUB & HONY LT	DEVINDER SINGH	1/7/2019
807	JC 727708W	SUB & HONY LT	DHEPLE RAMA MANJAJI	1/6/2019
808	JC 730154N	SUB & HONY LT	DIL KUMAR RAI	1/7/2019
809	JC 730404K	SUB & HONY LT	DILIP SINGH	1/3/2019
810	JC 728582N	SUB & HONY LT	G SANTHOSH KUMAR	1/3/2019
811	JC 728148F	SUB & HONY LT	GHANASHYAM MALLICK	1/3/2019
812	JC 730410X	SUB & HONY LT	HARPREET SINGH	1/2/2019
813	JC 728585F	SUB & HONY LT	JAIT SINGH	1/3/2019
814	JC 730190Y	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH	1/6/2019
815	JC 730284W	SUB & HONY LT	RAJ RISHI	1/4/2019
816	JC 730294A	SUB & HONY LT	RAM BHAGAT SAHOO	1/2/2019
817	JC 728220M	SUB & HONY LT	SANJAYA KUMAR SAHOO	1/8/2019

818	JC 730558W	SUB & HONY LT	SATYA PRAKASH YADAVA	1/3/2019
819	JC 729343L	SUB & HONY LT	SHAJI JM	1/7/2019
820	JC 730444L	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR CHAUDHARY	1/3/2019
821	JC 729992W	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR YADAV	1/6/2019
822	JC 728150Y	SUB & HONY LT	SURAT SINGH	1/4/2019
823	JC 730405M	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	1/3/2019
824	JC 728050N	SUB & HONY LT	VIRENDRA KUMAR RAJBHAR	1/3/2019

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

825	JC 757722X	SUB MAJ & HONY LT	ADHIKARLA PREMA KUMAR	1/2/2019
826	JC 758175A	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH	1/3/2019
827	JC 757678Y	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR	1/3/2019
828	JC 757836H	SUB MAJ & HONY LT	ANSARI ABUL HASAN NURU HASAN	1/3/2019
829	JC 758523W	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR MAAN	1/5/2019
830	JC 764363X	SUB MAJ & HONY LT	BASANT KUMAR	1/6/2019
831	JC 757512X	SUB MAJ & HONY LT	BIRBAL RAM	1/2/2019
832	JC 758527M	SUB MAJ & HONY LT	DEVI DEEN YADAV	1/6/2019
833	JC 758718F	SUB MAJ & HONY LT	DHARMARAJ NAHAK	1/8/2019
834	JC 757734M	SUB MAJ & HONY LT	DHARMENDRA SINGH	1/3/2019
835	JC 760949W	SUB MAJ & HONY LT	GAJENDRA KUMAR BOITEI	1/5/2019
836	JC 760979N	SUB MAJ & HONY LT	HARI OUM	1/2/2019
837	JC 757735P	SUB MAJ & HONY LT	JADHAV ARUN MANOHAR	1/2/2019
838	JC 759157K	SUB MAJ & HONY LT	JAYA BALAN N	1/3/2019
839	JC 758452A	SUB MAJ & HONY LT	KAMLESH KUMAR SHUKLA	1/5/2019
840	JC 758185K	SUB MAJ & HONY LT	MAGARAM KARAWASRA	1/4/2019
841	JC 758776L	SUB MAJ & HONY LT	MANGI LAL MOBARSA	1/4/2019
842	JC 765414M	SUB MAJ & HONY LT	MANOJ KUMAR	1/6/2019
843	JC 760965N	SUB MAJ & HONY LT	MANOJ KUMAR SINGH	1/6/2019
844	JC 758508F	SUB MAJ & HONY LT	NAVENDU KUMAR ACHARYA	1/6/2019
845	JC 757594L	SUB MAJ & HONY LT	P SEENI VASAGAN	1/2/2019
846	JC 758384X	SUB MAJ & HONY LT	PAWAN KUMAR NISHAD	1/5/2019
847	JC 765501A	SUB MAJ & HONY LT	PRADEEP K	1/8/2019
848	JC 765237X	SUB MAJ & HONY LT	R SURESH	1/2/2019
849	JC 757542P	SUB MAJ & HONY LT	RAJA RAM	1/2/2019
850	JC 763606L	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR RAI	1/3/2019
851	JC 757546L	SUB MAJ & HONY LT	RAM BAHADUR SINGH	1/2/2019
852	JC 758695L	SUB MAJ & HONY LT	RAM PRATAP	1/2/2019
853	JC 763070A	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH KUMAR KUSHWAH	1/8/2019
854	JC 757679F	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT KUMAR SAHOO	1/2/2019
855	JC 757578N	SUB MAJ & HONY LT	RAVI SHANKAR KUMAR	1/2/2019
856	JC 758051L	SUB MAJ & HONY LT	RISHI PAL SINGH	1/3/2019
857	JC 758712A	SUB MAJ & HONY LT	SHABU K C	1/2/2019
858	JC 757892F	SUB MAJ & HONY LT	SHAIK DAVOOD	1/2/2019
859	JC 765632L	SUB MAJ & HONY LT	SHANKER SINGH	1/2/2019
860	JC 758381K	SUB MAJ & HONY LT	SHISH PAL	1/6/2019
861	JC 758625M	SUB MAJ & HONY LT	STISH KUMAR	1/4/2019

862	JC 757723A	SUB MAJ & HONY LT	SUBASH CHANDRA PANDIA	1/3/2019
863	JC 762953X	SUB MAJ & HONY LT	SURENDAR SINGH	1/3/2019
864	JC 757700Y	SUB MAJ & HONY LT	SURESH PAL SINGH	1/3/2019
865	JC 760960P	SUB MAJ & HONY LT	SUSANTA NEOGI	1/6/2019
866	JC 757729F	SUB MAJ & HONY LT	UMED SINGH	1/3/2019
867	JC 763454P	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM SINGH	1/3/2019
868	JC 758351M	SUB MAJ & HONY LT	VIDYAPATI PANDEY	1/7/2019
869	JC 760056H	SUB MAJ & HONY LT	VINDHYACHAL UPADHYAY	1/3/2019
870	JC 759561Y	SUB MAJ & HONY LT	VINOTHAN G	1/6/2019
871	JC 766857A	SUB & HONY LT	AMIYA KUMAR PAL	1/7/2019
872	JC 765550H	SUB & HONY LT	ARVIND SINGH	1/2/2019
873	JC 766239P	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	1/2/2019
874	JC 766232L	SUB & HONY LT	BANSI LAL	1/2/2019
875	JC 763195X	SUB & HONY LT	BHOOP SINGH	1/3/2019
876	JC 765007K	SUB & HONY LT	DESH RAJ	1/3/2019
877	JC 765557M	SUB & HONY LT	DINABANDHU SAHU	1/3/2019
878	JC 765930F	SUB & HONY LT	HIMANSU CHANDA	1/2/2019
879	JC 766075K	SUB & HONY LT	JAI BHAGWAN	1/4/2019
880	JC 765305A	SUB & HONY LT	JITENDER SINGH SIKARWAR	1/3/2019
881	JC 766081X	SUB & HONY LT	LALLAN PANDIT	1/4/2019
882	JC 767314A	SUB & HONY LT	MADAN PAL	1/8/2019
883	JC 765927F	SUB & HONY LT	MAHENDER SINGH	1/4/2019
884	JC 770699N	SUB & HONY LT	MAJID KHAN	1/3/2019
885	JC 766079A	SUB & HONY LT	MANINDRA KUMAR DEBNATH	1/4/2019
886	JC 765566N	SUB & HONY LT	NARSINGH PRASAD PANDEY	1/4/2019
887	JC 765312W	SUB & HONY LT	NRUSINGHA CHARANA SAHOO	1/2/2019
888	JC 762265Y	SUB & HONY LT	PARDEEP KUMAR	1/2/2019
889	JC 766403M	SUB & HONY LT	PREM NARAYAN MISHRA	1/4/2019
890	JC 766080P	SUB & HONY LT	SANJEET KUMAR JHA	1/4/2019
891	JC 764689N	SUB & HONY LT	SHIVNATH SINGH BARWAR	1/3/2019
892	JC 765561P	SUB & HONY LT	SITA RAM KELWA	1/3/2019
893	JC 761508M	SUB & HONY LT	UMA SHANKAR NIRALA	1/4/2019
894	JC 765306H	SUB & HONY LT	UMED SINGH	1/3/2019
895	JC 765316M	SUB & HONY LT	UMESH CHANDRA PANDEY	1/3/2019
896	JC 765942W	SUB & HONY LT	VARAMESHWAR SINGH	1/2/2019
897	JC 767638L	SUB & HONY LT	VINOD CHAND	1/3/2019

ARMY EDUCATION CORPS

898	JC 803662P	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR	1/7/2019
899	JC 803798Y	SUB MAJ & HONY LT	BIJENDER SINGH	1/5/2019
900	JC 803525W	SUB MAJ & HONY LT	DHARMENDRA PAL SINGH RATHAUR	1/5/2019
901	JC 803884K	SUB MAJ & HONY LT	JAI SINGH SHEKHAWAT	1/8/2019
902	JC 803415F	SUB MAJ & HONY LT	JASPAL SINGH	1/3/2019
903	JC 803682H	SUB MAJ & HONY LT	RAMJIRAM GODARA	1/6/2019
904	JC 803592F	SUB MAJ & HONY LT	SASEENDRAN V K	1/6/2019

905	JC 803857A	SUB MAJ & HONY LT	SATINDER SINGH	1/2/2019
906	JC 804720A	SUB & HONY LT	GAUTAM CHAND	1/5/2019
907	JC 804711Y	SUB & HONY LT	ROOP SINGH JAITAWAT	1/4/2019
908	JC 804474A	SUB & HONY LT	SITA RAM	1/8/2019

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

909	JC 797517Y	RIS MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH JAT	1/4/2019
910	JC 797428A	RIS MAJ & HONY LT	MURARI SHARMA	1/3/2019
911	JC 797692N	RIS & HONY LT	KHAN BAHADUR	1/3/2019
912	JC 797643L	RIS & HONY LT	MALKIT SINGH	1/6/2019

THE INTELLIGENCE CORPS

913	JC 811118H	SUB MAJ & HONY LT	DEVENDER SINGH	1/3/2019
914	JC 811038L	SUB MAJ & HONY LT	MAGAN PAL SINGH SILAYACH	1/2/2019
915	JC 811537A	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR MALHOTRA	1/3/2019
916	JC 811656W	SUB & HONY LT	GURDEEP SINGH	1/2/2019
917	JC 811574N	SUB & HONY LT	INDER PRAKASH	1/6/2019
918	JC 811582M	SUB & HONY LT	MOZIBAR RAHMAN	1/8/2019
919	JC 811619H	SUB & HONY LT	RANBIR SINGH	1/4/2019
920	JC 811557N	SUB & HONY LT	SAHI RAM BUDANIA	1/4/2019
921	JC 811535P	SUB & HONY LT	TRILOK SINGH	1/2/2019
922	JC 811571A	SUB & HONY LT	VED SINGH	1/5/2019
923	JC 811649A	SUB & HONY LT	YANAMALA MOHAN SAMI REDDY	1/6/2019

CORPS OF MILITARY POLICE

924	JC 819326M	SUB MAJ & HONY LT	CHATHU KUTTY THEKKADAVAN	1/5/2019
925	JC 819342K	SUB MAJ & HONY LT	HARI SHANKAR SINGH	1/6/2019
926	JC 819879H	SUB & HONY LT	PRATHAPAN K	1/7/2019
927	JC 819855Y	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR	1/3/2019
928	JC 819862P	SUB & HONY LT	RANJIT KUMAR SINGH	1/4/2019
929	JC 819870N	SUB & HONY LT	UMESH SINGH	1/4/2019

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

930	JC 826211F	SUB MAJ & HONY LT	S MURUGESAN	1/8/2019
-----	------------	-------------------	-------------	----------

THE PIONEER CORPS

931	JC 829460L	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR	1/8/2019
932	JC 829447F	SUB MAJ & HONY LT	MITHILESH KUMAR SINGH	1/2/2019

DEFENCE SECURITY CORPS

933	JC 842061A	SUB MAJ & HONY LT	GANGADHARAN K	1/5/2019
934	JC 842026X	SUB MAJ & HONY LT	JAGJIT SINGH	1/4/2019
935	JC 841857K	SUB MAJ & HONY LT	RAJBIR SINGH	1/7/2019
936	JC 843220Y	SUB & HONY LT	ASH NARAYAN SINGH	1/2/2019
937	JC 843027M	SUB & HONY LT	DEVASYA P P	1/6/2019
938	JC 842904H	SUB & HONY LT	G MOHAN DASS	1/7/2019
939	JC 842758N	SUB & HONY LT	GYAN BAHADUR RAI	1/7/2019

940	JC 842179F	SUB & HONY LT	MADUSUDANAN C	1/6/2019
941	JC 842896P	SUB & HONY LT	MAN MOHAN LAL	1/4/2019
942	JC 842279M	SUB & HONY LT	MANOHARAN MV	1/4/2019
943	JC 842686P	SUB & HONY LT	NETAR PAL SINGH	1/6/2019
944	JC 841122A	SUB & HONY LT	P RAMACHANDRAN	1/6/2019
945	JC 842812W	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	1/7/2019
946	JC 843106F	SUB & HONY LT	SHIV KUMAR	1/6/2019
947	JC 841233X	SUB & HONY LT	VINODAN BHAVUKKA PARAKKANDY	1/2/2019

TERRITORIAL ARMY

948	TJ 5089F	SUB & HONY LT	BRAHMA NAND	1/8/2019
949	TJ 5559F	SUB & HONY LT	DAYAL SINGH	1/5/2019
950	TJ 5411H	SUB & HONY LT	DESH RAJ	1/8/2019
951	TJ 5336K	SUB & HONY LT	DESSAI AMRUT V	1/7/2019
952	TJ 5090W	SUB & HONY LT	DHARAM CHAND JORIA	1/8/2019
953	TJ 5582P	SUB & HONY LT	KALLAPPA WATHARE	1/4/2019
954	TJ 5434K	SUB & HONY LT	KHARKA BAHADUR TAMANG	1/4/2019
956	TJ 5282N	SUB & HONY LT	MORALE BABASAHEB	1/2/2019
957	TJ 4843L	SUB & HONY LT	NAND LAL	1/8/2019
958	TJ 5766N	SUB & HONY LT	NIYAZ ALI	1/4/2019
959	TJ 5736W	SUB & HONY LT	PARASHU RAM BANGTHAI	1/6/2019
960	TJ 5725K	SUB & HONY LT	PAVITHRAN PK	1/5/2019
961	TJ 5227P	SUB & HONY LT	PHOOL SINGH	1/2/2019
962	TJ 5537H	SUB & HONY LT	PRABIN RAY	1/5/2019
963	TJ 5337M	SUB & HONY LT	RAM CHAND	1/4/2019
964	TJ 5018A	SUB & HONY LT	RAM RAJ	1/8/2019
965	TJ 5644K	SUB & HONY LT	RAMADHAR TIWARI	1/3/2019
966	TJ 5088Y	SUB & HONY LT	RAN SINGH	1/8/2019
967	TJ 5661L	SUB & HONY LT	RANVEER SINGH	1/8/2019
968	TJ 5175M	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	1/3/2019
969	TJ 5208M	SUB & HONY LT	SAJEEV KUMAR A	1/8/2019
970	TJ 5499X	SUB & HONY LT	SANJAY KUMAR SINGH	1/6/2019
971	TJ 5403K	SUB & HONY LT	SURENDER KUMAR	1/8/2019
972	TJ 5235W	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR AM	1/8/2019
973	TJ 3997L	SUB & HONY LT	TEJPAL SINGH CHAUHAN	1/6/2019

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**62 CAVALRY**

1	JC 244076K	RIS MAJ	MANJEET SINGH	1/5/2019
---	------------	---------	---------------	----------

61 CAVALRY

2	JC 242206H	RIS MAJ	SATAR KHAN	1/2/2019
3	JC 242207L	RIS MAJ	TAJ MOHD KHAN	1/3/2019

74 ARMoured REGIMENT

4	JC 244376L	RIS MAJ	RAJENDRA KUMAR	1/7/2019
---	------------	---------	----------------	----------

48 ARMoured REGIMENT

5	JC 243893W	RIS MAJ	RAM PRATAP SINGH	1/4/2019
---	------------	---------	------------------	----------

13 ARMoured REGIMENT

6	JC 244012Y	RIS MAJ	AJI KUMAR KS	1/5/2019
---	------------	---------	--------------	----------

7	JC 243012M	RIS MAJ	SURESH	1/3/2019
---	------------	---------	--------	----------

54 ARMoured REGIMENT

8	JC 243775H	RIS MAJ	MOHAN SINGH	1/8/2019
---	------------	---------	-------------	----------

57 ARMoured REGIMENT

9	JC 244086N	RIS MAJ	PAWAN KUMAR	1/4/2019
---	------------	---------	-------------	----------

ARMoured CORPS

10	JC 235666F	RIS MAJ	BISHAN DASS	1/6/2019
----	------------	---------	-------------	----------

11	JC 243290A	RIS MAJ	SATINDERJIT SINGH	1/7/2019
----	------------	---------	-------------------	----------

REGIMENT OF ARTILLERY

12	JC 272206X	SUB MAJ	ARBIND KUMAR DUBEY	1/8/2019
----	------------	---------	--------------------	----------

13	JC 272999L	SUB MAJ	ASHIM KUMAR BISWAS	1/7/2019
----	------------	---------	--------------------	----------

14	JC 269968A	SUB MAJ	DINESH KUMAR	1/6/2019
----	------------	---------	--------------	----------

15	JC 271448N	SUB MAJ	GAJPAL SINGH	1/4/2019
----	------------	---------	--------------	----------

16	JC 271524P	SUB MAJ	GIREESH KP	1/6/2019
----	------------	---------	------------	----------

17	JC 270039N	SUB MAJ	GOTTAM SINGH	1/6/2019
----	------------	---------	--------------	----------

18	JC 266668N	SUB MAJ	HAWA SINGH	1/4/2019
----	------------	---------	------------	----------

19	JC 272075X	SUB MAJ	HEM CHAND	1/7/2019
----	------------	---------	-----------	----------

20	JC 272566N	SUB MAJ	JADHAV MAHESH NARAYAN	1/6/2019
----	------------	---------	-----------------------	----------

21	JC 269184Y	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	1/5/2019
----	------------	---------	----------------	----------

22	JC 272069K	SUB MAJ	KAILASH CHANDRA PATRO	1/6/2019
----	------------	---------	-----------------------	----------

23	JC 271684P	SUB MAJ	MANJIT SINGH	1/5/2019
----	------------	---------	--------------	----------

24	JC 266163X	SUB MAJ	MURALIDHARAN K	1/4/2019
----	------------	---------	----------------	----------

25	JC 271558H	SUB MAJ	RAJE GOWDA BA	1/7/2019
----	------------	---------	---------------	----------

26	JC 271501N	SUB MAJ	RAM SURAT	1/5/2019
----	------------	---------	-----------	----------

27	JC 273622N	SUB MAJ	REJU AR	1/6/2019
----	------------	---------	---------	----------

28	JC 272441W	SUB MAJ	S PALANIVEL	1/7/2019
----	------------	---------	-------------	----------

29	JC 272127H	SUB MAJ	SASEENDRAN KANIAMPURATH	1/6/2019
----	------------	---------	-------------------------	----------

30	JC 272543M	SUB MAJ	SATYA PRAKASH	1/2/2019
----	------------	---------	---------------	----------

31	JC 269380Y	SUB MAJ	SHRAWAN KUMAR SHUKLA	1/3/2019
----	------------	---------	----------------------	----------

32	JC 271252A	SUB MAJ	SISIR KUMAR NAYAK	1/3/2019
----	------------	---------	-------------------	----------

33	JC 267790W	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH	1/8/2019
----	------------	---------	---------------	----------

34	JC 270484M	SUB MAJ	UMESH JINARAL	1/5/2019
----	------------	---------	---------------	----------

35	JC 272179Y	SUB MAJ	VINOD SINGH	1/8/2019
----	------------	---------	-------------	----------

ARMY AIR DEFENCE

36	JC 299893H	SUB MAJ	KARNAIL SINGH	1/2/2019
37	JC 300451Y	SUB MAJ	RAJENDRA NARAYAN ROUT	1/5/2019
38	JC 300349W	SUB MAJ	RAJU SHRESTHA	1/2/2019
39	JC 300495W	SUB MAJ	RAMANAND	1/4/2019
40	JC 300494N	SUB MAJ	SIVA KUMAR G	1/5/2019

MADRASENGINEER GROUP

41	JC 308664F	SUB MAJ	A PALANICHAMY	1/8/2019
42	JC 308456M	SUB MAJ	ARUN KUMAR PANDEY	1/3/2019
43	JC 308549F	SUB MAJ	BALVIR SINGH	1/7/2019
44	JC 309103Y	SUB MAJ	BANDI VENKATA RAMANAIAH	1/8/2019
45	JC 308503Y	SUB MAJ	DULAL CHANDRA ADAK	1/4/2019
46	JC 308524P	SUB MAJ	DURGA DAT PANDEY	1/7/2019
47	JC 308121P	SUB MAJ	ELUMALAI N	1/2/2019
48	JC 308611H	SUB MAJ	GHANSHYAM SINGH	1/7/2019
49	JC 308506M	SUB MAJ	GUMGAONKAR CHANDRASEKHAR WASUDEO	1/4/2019
50	JC 308058L	SUB MAJ	INGLE ARUN GULABRAO	1/2/2019
51	JC 308378A	SUB MAJ	JYOTISH KR MAHANTA	1/4/2019
52	JC 308490M	SUB MAJ	KUMARA SWAMI DEV GENGETTLA	1/2/2019
53	JC 308457P	SUB MAJ	MAHABOOB SUBHANI SHAIK	1/4/2019
54	JC 308301X	SUB MAJ	MALIKHAN SINGH	1/3/2019
55	JC 309104F	SUB MAJ	MANJUNATHA BC	1/6/2019
56	JC 308586P	SUB MAJ	MANOJ KM	1/7/2019
57	JC 308517Y	SUB MAJ	NAIZAM TJ	1/6/2019
58	JC 308401H	SUB MAJ	PRAVASH RANJAN PANDA	1/2/2019
59	JC 309107P	SUB MAJ	R JAYAPRASAD RAO	1/6/2019
60	JC 308349L	SUB MAJ	RAJ KISHORE SAHOO	1/4/2019
61	JC 308584K	SUB MAJ	RAM KUMAR	1/7/2019
62	JC 309055K	SUB MAJ	S SENTHILVEL	1/5/2019
63	JC 330776F	SUB MAJ	S VENKATA RATNA PRASAD	1/4/2019
64	JC 308337W	SUB MAJ	SANJAY KUMAR	1/3/2019
65	JC 308550W	SUB MAJ	SATHEESH KUMAR M	1/8/2019
66	JC 308614W	SUB MAJ	SHIJIMON KV	1/8/2019
67	JC 308616F	SUB MAJ	SOHAN LAL THAGRIYA	1/8/2019
68	JC 308566F	SUB MAJ	SURESH KUMAR	1/7/2019
69	JC 308516W	SUB MAJ	YUNUS S	1/7/2019

BENGALENGINEER GROUP

70	JC 330967W	SUB MAJ	ACHYUT ROY	1/6/2019
71	JC 199935A	SUB MAJ	AJAY KUMAR	1/5/2019
72	JC 331636F	SUB MAJ	ANIL KUMAR M	1/2/2019
73	JC 330966N	SUB MAJ	ARUN KUMAR AWASTHI	1/6/2019
74	JC 338579N	SUB MAJ	ASHOK KUMAR	1/2/2019

75	JC 327751F	SUB MAJ	BABU G	1/2/2019
76	JC 331529A	SUB MAJ	BABU N	1/6/2019
77	JC 338744N	SUB MAJ	BAHADUR SINGH	1/7/2019
78	JC 330964H	SUB MAJ	BALJINDER SINGH	1/5/2019
79	JC 330579Y	SUB MAJ	BALWINDER SINGH	1/3/2019
80	JC 330875K	SUB MAJ	BALWINDER SINGH	1/7/2019
81	JC 329689F	SUB MAJ	BIJAN KUMAR PAL	1/6/2019
82	JC 338879P	SUB MAJ	BRIJ KISHORE	1/7/2019
83	JC 330655A	SUB MAJ	BRINDABAN CHANDRA MAITRA	1/7/2019
84	JC 338830Y	SUB MAJ	DAVNDER SINGH	1/7/2019
85	JC 338888W	SUB MAJ	DEBENDRA NATH DAS	1/8/2019
86	JC 331451A	SUB MAJ	DEO KUMAR MATHO	1/5/2019
87	JC 331506Y	SUB MAJ	DEVA NAND	1/2/2019
88	JC 338890N	SUB MAJ	DILIP KUMAR MANDAL	1/8/2019
89	JC 199951M	SUB MAJ	DNYANADEV RAMA	1/3/2019
90	JC 219588L	SUB MAJ	ELANGO VAN G	1/3/2019
91	JC 330975P	SUB MAJ	G SREENIVASULU	1/4/2019
92	JC 326698X	SUB MAJ	GANGA PRASAD SHARMA	1/3/2019
93	JC 327879P	SUB MAJ	GOUTAM BHATTACHARJEE	1/2/2019
94	JC 338877K	SUB MAJ	HARE LAL YADAV	1/6/2019
95	JC 330585M	SUB MAJ	INDERJEET	1/4/2019
96	JC 330768H	SUB MAJ	JAGBINDER SINGH	1/6/2019
97	JC 331079N	SUB MAJ	JAI KANWAR	1/4/2019
98	JC 331007K	SUB MAJ	JEGADEESAN P	1/7/2019
99	JC 330685X	SUB MAJ	JOYDIP KULIA	1/6/2019
100	JC 338513X	SUB MAJ	KHALILUR RAHMAN LASKAR	1/2/2019
101	JC 338760L	SUB MAJ	KRISHNA DEO SHAH	1/3/2019
102	JC 331295F	SUB MAJ	LALLAN SINGH KUSHWAHA	1/2/2019
103	JC 330953W	SUB MAJ	MAHMOOD KHAN	1/4/2019
104	JC 327877K	SUB MAJ	MALAY KUMAR MAJUMDER	1/3/2019
105	JC 331648W	SUB MAJ	NAIKNAWARE VILAS DEVABA	1/3/2019
106	JC 338581L	SUB MAJ	NAND KISHORE	1/2/2019
107	JC 331155P	SUB MAJ	NRIPENDRA BARMAN	1/3/2019
108	JC 330590X	SUB MAJ	OM PRAKASH SINGH YADAV	1/5/2019
109	JC 331663L	SUB MAJ	PADYUMNA KUMAR	1/6/2019
110	JC 338883X	SUB MAJ	PAWAR BHARAT KASHINATH	1/8/2019
111	JC 338889Y	SUB MAJ	PEDKAR DATTU LAKSHMAN	1/8/2019
112	JC 331635Y	SUB MAJ	PRAFULLA KUMAR SAHOO	1/2/2019
113	JC 330976X	SUB MAJ	PRAKASHAN P	1/4/2019
114	JC 338758N	SUB MAJ	PREM KUMAR	1/3/2019
115	JC 330527H	SUB MAJ	R V RAVI	1/4/2019
116	JC 338723X	SUB MAJ	RABINDRA NATH CHAKRABORTY	1/2/2019
117	JC 338813Y	SUB MAJ	RAGHUNATH PRASAD SINHA	1/2/2019
118	JC 338977P	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH	1/8/2019
119	JC 338814F	SUB MAJ	RAM BILASH	1/2/2019
120	JC 338872L	SUB MAJ	RAM KARAN SAINI	1/4/2019

121	JC 331039M	SUB MAJ	RAM SUKH	1/4/2019
122	JC 325703L	SUB MAJ	RAMESH JHA	1/2/2019
123	JC 338818X	SUB MAJ	RAMESH TC	1/3/2019
124	JC 330945X	SUB MAJ	RANDHIR SINGH	1/8/2019
125	JC 331156X	SUB MAJ	SANDEEP SINGH JASROTIA	1/2/2019
126	JC 330581W	SUB MAJ	SATISH KUMAR BHANDARI	1/4/2019
127	JC 331140M	SUB MAJ	SHAJU MF	1/5/2019
128	JC 330543A	SUB MAJ	SHYAMA PADA BANERJEE	1/6/2019
129	JC 331059A	SUB MAJ	SUBODHA KUMAR SUKLA	1/5/2019
130	JC 327754X	SUB MAJ	SUDHAKAR SINHA	1/2/2019
131	JC 339012K	SUB MAJ	SUKHVIR SINGH	1/8/2019
132	JC 338761N	SUB MAJ	SUNDER SINGH	1/3/2019
133	JC 330166P	SUB MAJ	SUNIL KUMAR K	1/3/2019
134	JC 331153K	SUB MAJ	SURESH KUMAR P	1/2/2019
135	JC 330922W	SUB MAJ	T P ANIL KUMAR	1/8/2019
136	JC 210494M	SUB MAJ	TARLOK SINGH	1/5/2019
137	JC 331067Y	SUB MAJ	TELEKUNE ASHOK MALLAPPA	1/3/2019
138	JC 331911W	SUB MAJ	TENTU SRINIVASA RAO	1/6/2019

BOMBAY ENGINEER GROUP

139	JC 349169X	SUB MAJ	ACHHE LAL	1/2/2019
140	JC 350625K	SUB MAJ	AJIT KRISHNA BISWAS	1/2/2019
141	JC 350583H	SUB MAJ	AVDHESH CHANDRA	1/7/2019
142	JC 350327N	SUB MAJ	BABU K T	1/5/2019
143	JC 350974N	SUB MAJ	BALDEV SINGH	1/4/2019
144	JC 330715K	SUB MAJ	CHANDER MOHAN	1/4/2019
145	JC 349226N	SUB MAJ	CHAVAN RAMESH RAMKRISHNA	1/2/2019
146	JC 331343W	SUB MAJ	JADHAV DILIP RAMDAS	1/8/2019
147	JC 350553L	SUB MAJ	K ARUMAINAYAGAM GIPSON	1/6/2019
148	JC 350841X	SUB MAJ	KAKADE RAMCHANDRA TUKARAM	1/7/2019
149	JC 350159A	SUB MAJ	KASHISWAR BEHERA	1/3/2019
150	JC 350243A	SUB MAJ	KASHMIR SINGH	1/3/2019
151	JC 350684W	SUB MAJ	LANKE RAGHUNATH KISHAN RAO	1/2/2019
152	JC 350390H	SUB MAJ	MADAN LAL	1/7/2019
153	JC 350968A	SUB MAJ	MALKIT SINGH	1/5/2019
154	JC 350426W	SUB MAJ	NAKKA MARKANDA RAO	1/2/2019
155	JC 331339N	SUB MAJ	NARAYAN RAM	1/6/2019
156	JC 350636W	SUB MAJ	NARESH KUMAR PANWAR	1/2/2019
157	JC 350466X	SUB MAJ	PAWAR MOHAN VINAYAK	1/6/2019
158	JC 350695H	SUB MAJ	PRAKASH CHANDRA SHRIVASTAV	1/8/2019
159	JC 350541W	SUB MAJ	RAJ KUMAR CHATURVEDI	1/8/2019
160	JC 350586W	SUB MAJ	RAJBIR SINGH	1/8/2019
161	JC 350576M	SUB MAJ	RAJESH YADAV	1/5/2019
162	JC 351001K	SUB MAJ	SHAKIL KHAN	1/8/2019
163	JC 350324A	SUB MAJ	SHALIGRAM YADAV	1/5/2019

164	JC 350730A	SUB MAJ	SOLANKE YUVRAJ RAMKRASHAN RAO	1/5/2019
165	JC 350200L	SUB MAJ	SURENDRA SINGH	1/3/2019
166	JC 350219K	SUB MAJ	TILAK DHARI	1/2/2019
167	JC 350747N	SUB MAJ	VINCENT P	1/6/2019

CORPS OF SIGNALS

168	JC 372196N	SUB MAJ	ACHHE LAL	1/5/2019
169	JC 378523K	SUB MAJ	BALDEV SINGH THAKUR	1/8/2019
170	JC 379263W	SUB MAJ	BINOD KUMAR SINGH	1/2/2019
171	JC 378580L	SUB MAJ	BIPIN CHANDRA	1/2/2019
172	JC 373445N	SUB MAJ	CHANDANA GNANENDRIYA RAO	1/2/2019
173	JC 377679P	SUB MAJ	CHANDER PAL	1/3/2019
174	JC 378901X	SUB MAJ	CHITTARANJAN ACHARYA	1/5/2019
175	JC 377745M	SUB MAJ	DEVI SINGH	1/4/2019
176	JC 377408X	SUB MAJ	DHARMENDRA SINGH CHAUHAN	1/2/2019
177	JC 377746P	SUB MAJ	G SELVANARAYANAN	1/4/2019
178	JC 376628P	SUB MAJ	GHANSHYAM SINGH	1/2/2019
179	JC 380434K	SUB MAJ	GOKAL CHAND GURJAR	1/7/2019
180	JC 377888M	SUB MAJ	GOLAM ALMAMUN	1/5/2019
181	JC 372404X	SUB MAJ	KANZARIA LAKHMAN GORDHAN BHAI	1/8/2019
182	JC 377930A	SUB MAJ	LAGAS BALU JANARDHAN	1/2/2019
183	JC 377741W	SUB MAJ	MADHAVAN D	1/4/2019
184	JC 372389N	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH	1/6/2019
185	JC 371974F	SUB MAJ	MANGALE YASHWANT HINDURAO	1/5/2019
186	JC 372182N	SUB MAJ	MOHADEV GHOSE	1/4/2019
187	JC 372186K	SUB MAJ	NEMI CHAND	1/4/2019
188	JC 372187M	SUB MAJ	PARDEEP KUMAR	1/5/2019
189	JC 371956Y	SUB MAJ	POORAN LAL	1/5/2019
190	JC 378105P	SUB MAJ	RAJA SEKHARAN B	1/6/2019
191	JC 378925F	SUB MAJ	RAJBIR SINGH	1/8/2019
192	JC 377815A	SUB MAJ	RAMA KRISHNAN PKT	1/3/2019
193	JC 378109L	SUB MAJ	RAS BIHARI OJHA	1/7/2019
194	JC 378856W	SUB MAJ	SANT RAM	1/4/2019
195	JC 378533N	SUB MAJ	SAVANT SHRIKANT MAHADEO	1/8/2019
196	JC 377748A	SUB MAJ	SAWANT SINGH	1/4/2019
197	JC 378097F	SUB MAJ	SREE KUMAR R	1/6/2019
198	JC 372168F	SUB MAJ	SURESH CHAND	1/2/2019
199	JC 378858F	SUB MAJ	SURESH CHANDRA	1/7/2019
200	JC 378503W	SUB MAJ	UTPAL KHANIKAR	1/3/2019
201	JC 372390H	SUB MAJ	VISWANATHAN V	1/6/2019
202	JC 372173M	SUB MAJ	WADARE BHIMASHANKAR BHOJAPPA	1/3/2019

THE BRIGADE OF GUARDS

203	JC 404036K	SUB MAJ	JASBINDER SINGH	1/5/2019
-----	------------	---------	-----------------	----------

204	JC 404127N	SUB MAJ	SANJEEV KUMAR	1/3/2019
205	JC 404109L	SUB MAJ	SHAMSHAD ALAM	1/5/2019

THE PARACHUTE REGIMENT

206	JC 413150H	SUB MAJ	ANTONY J	1/4/2019
207	JC 413178H	SUB MAJ	RAMESH CHANDRA	1/4/2019

THE MECHANISED INFANTRY REGIMEN

208	JC 418014W	SUB MAJ	ASHWANI KUMAR PANDEY	1/4/2019
209	JC 420879F	SUB MAJ	BHANWAR SINGH	1/6/2019

THE PUNJAB REGIMENT

210	JC 430221P	SUB MAJ	NAND LAL	1/8/2019
211	JC 429993A	SUB MAJ	RAJESH KUMAR	1/5/2019
212	JC 429992X	SUB MAJ	YENNI CHINNA BABU	1/5/2019

THE MADRAS REGIMENT

213	JC 439770W	SUB MAJ	M POLURAJU	1/4/2019
214	JC 439706Y	SUB MAJ	PANDRA SRINIVASULU	1/7/2019
215	JC 440099X	SUB MAJ	RATNAKAR DASH	1/8/2019

THE GRENADIERS

216	JC 450216L	SUB MAJ	LALA RAM	1/4/2019
217	JC 450534P	SUB MAJ	MOHAMMAD SHAHID	1/8/2019
218	JC 449781W	SUB MAJ	MOHAR SINGH YADAV	1/3/2019
219	JC 450423X	SUB MAJ	SUDARSHAN SINGH PATHANIA	1/2/2019

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

220	JC 459410F	SUB MAJ	SHINDE SUNIL SHANTARAM	1/6/2019
-----	------------	---------	------------------------	----------

THE RAJPUTANA RIFLES

221	JC 470119P	SUB MAJ	GOPA RAM RATHORE	1/2/2019
222	JC 469739Y	SUB MAJ	YADAV OM PRAKASH BABU LAL	1/6/2019

THE RAJPUT REGIMENT

223	JC 480664M	SUB MAJ	MOHAMMAD ASLAM	1/8/2019
224	JC 480336Y	SUB MAJ	SARVESH SINGH RATHAUR	1/6/2019
225	JC 480045Y	SUB MAJ	SHAITAN SINGH	1/7/2019

THE JAT REGIMENT

226	JC 490389L	SUB MAJ	A VEERASAMY	1/4/2019
227	JC 489582L	SUB MAJ	BALJIT SINGH	1/3/2019
228	JC 490759N	SUB MAJ	JAIPAL SINGH	1/4/2019
229	JC 490450K	SUB MAJ	PURUSHOTHAMAN PANAKKADA	1/5/2019

THE SIKH REGIMENT

230	JC 499426P	SUB MAJ	GURMIT SINGH	1/4/2019
-----	------------	---------	--------------	----------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

231	JC 509607W	SUB MAJ	GURMIT SINGH	1/8/2019
232	JC 509483M	SUB MAJ	PARAMJIT SINGH	1/8/2019
233	JC 509340M	SUB MAJ	SALINDER SINGH	1/5/2019
234	JC 509525N	SUB MAJ	SUKHWINDER SINGH	1/8/2019

THE DOGRA REGIMENT

235	JC 520721N	SUB MAJ	ARJAN SINGH	1/3/2019
236	JC 520670L	SUB MAJ	HOSHIAR ALI KHAN	1/4/2019
237	JC 520500F	SUB MAJ	MEHAR CHAND	1/7/2019
238	JC 520837K	SUB MAJ	SUNIL KUMAR TIWARI	1/5/2019
239	JC 520526W	SUB MAJ	VIJAY KUMAR	1/7/2019

THE GARHWAL RIFLES

240	JC 530377F	SUB MAJ	SUMER JEET	1/5/2019
-----	------------	---------	------------	----------

THE KUMAON REGIMENT

241	JC 540279P	SUB MAJ	SATYAVIR	1/4/2019
-----	------------	---------	----------	----------

THE ASSAM REGIMENT

242	JC 549628P	SUB MAJ	DIL BAHADUR THAPA	1/5/2019
243	JC 549641Y	SUB MAJ	SHYAMANTA KUMAR SINGHA	1/5/2019
244	JC 549677X	SUB MAJ	SURESH KUMAR	1/5/2019

THE BIHAR REGIMENT

245	JC 559704K	SUB MAJ	MADAN SINGH	1/2/2019
246	JC 559936H	SUB MAJ	PRIYATOSH KANTI DE	1/5/2019
247	JC 559498L	SUB MAJ	RAMA GADE MAHENDRA SAHADEO RAO	1/3/2019

THE MAHAR REGIMENT

248	JC 569905W	SUB MAJ	DILBAG SINGH	1/5/2019
249	JC 569884L	SUB MAJ	MANIKANDAN P N	1/3/2019
250	JC 569810W	SUB MAJ	RAJESH KUMAR	1/2/2019
251	JC 569823N	SUB MAJ	SATYAVEER SINGH	1/6/2019

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

252	JC 580642H	SUB MAJ	PARAS RAM	1/5/2019
-----	------------	---------	-----------	----------

THE LADAKH SCOUTS

253	JC 588414P	SUB MAJ	TSETAN THINLES	1/3/2019
-----	------------	---------	----------------	----------

THE NAGA REGIMENT

254	JC 540177Y	SUB MAJ	GURNAM SINGH	1/4/2019
-----	------------	---------	--------------	----------

1 GORKHA RIFLES

255	JC 602730F	SUB MAJ	NAKULA NANDA GHOSH	1/3/2019
-----	------------	---------	--------------------	----------

4 GORKHA RIFLES

256	JC 612803W	SUB MAJ	BALARAM K NAIR	1/6/2019
-----	------------	---------	----------------	----------

8 GORKHA RIFLES

257	JC 623709M	SUB MAJ	KRISHNA BAHADUR THAPA	1/2/2019
-----	------------	---------	-----------------------	----------

11 GORKHA RIFLES

258	JC 634637N	SUB MAJ	INDRA BAHADUR LIMBU	1/6/2019
-----	------------	---------	---------------------	----------

259	JC 634666H	SUB MAJ	NARAD MANI RAI	1/3/2019
-----	------------	---------	----------------	----------

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

260	JC 665640P	SUB MAJ	BALAM SINGH	1/7/2019
-----	------------	---------	-------------	----------

261	JC 664980L	SUB MAJ	BHARAT CHANDRA SAHOO	1/5/2019
-----	------------	---------	----------------------	----------

262	JC 642900H	SUB MAJ	DONKANA RAMESH	1/2/2019
-----	------------	---------	----------------	----------

263	JC 665221X	SUB MAJ	JAGAT SINGH	1/3/2019
-----	------------	---------	-------------	----------

264	JC 642890K	SUB MAJ	JAGDISH SINGH ATWAL	1/3/2019
-----	------------	---------	---------------------	----------

265	JC 664278A	SUB MAJ	JAYADEV PRADHAN	1/5/2019
-----	------------	---------	-----------------	----------

266	JC 664812M	SUB MAJ	K M BALASUBRAMANIAN	1/6/2019
-----	------------	---------	---------------------	----------

267	JC 643184P	SUB MAJ	KARSHAN BHAI PREMJI BHAI CHAUDHARI	1/6/2019
-----	------------	---------	---------------------------------------	----------

268	JC 665352H	SUB MAJ	LAXMAN SINGH FARSWAN	1/4/2019
-----	------------	---------	----------------------	----------

269	JC 664148X	SUB MAJ	MALKIT SINGH	1/7/2019
-----	------------	---------	--------------	----------

270	JC 642789K	SUB MAJ	MOHAMMAD YOUSUF	1/2/2019
-----	------------	---------	-----------------	----------

271	JC 664221L	SUB MAJ	NAND KISHORE PANDEY	1/7/2019
-----	------------	---------	---------------------	----------

272	JC 206462M	SUB MAJ	NAROTTAM TRIPATHI	1/6/2019
-----	------------	---------	-------------------	----------

273	JC 665205A	SUB MAJ	PRAMIL PRASAD SINGH	1/2/2019
-----	------------	---------	---------------------	----------

274	JC 660491H	SUB MAJ	PREM SHANKER UPADHYAY	1/5/2019
-----	------------	---------	-----------------------	----------

275	JC 664047K	SUB MAJ	PREMAN P	1/7/2019
-----	------------	---------	----------	----------

276	JC 641949M	SUB MAJ	RAJEEV MR	1/3/2019
-----	------------	---------	-----------	----------

277	JC 642923K	SUB MAJ	RASHPAL SINGH	1/4/2019
-----	------------	---------	---------------	----------

278	JC 665075H	SUB MAJ	ROOP KISHOR	1/2/2019
-----	------------	---------	-------------	----------

279	JC 642915L	SUB MAJ	SANTHOSH KUMAR SAHU	1/4/2019
-----	------------	---------	---------------------	----------

280	JC 665036K	SUB MAJ	SHAIKH HAJRAT ALI	1/5/2019
-----	------------	---------	-------------------	----------

281	JC 642914H	SUB MAJ	SUBHASH SINGH	1/4/2019
-----	------------	---------	---------------	----------

282	JC 641900W	SUB MAJ	TOJAN THOMAS	1/3/2019
-----	------------	---------	--------------	----------

283	JC 642937K	SUB MAJ	VENKATA NAGA BHUSHANAM MULAKALA	1/8/2019
-----	------------	---------	------------------------------------	----------

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

284	JC 681157P	RIS MAJ	MD SHARIF	1/5/2019
-----	------------	---------	-----------	----------

ARMY MEDICAL CORPS

285	JC 697938M	SUB MAJ	ASHOK KUMAR C V	1/8/2019
286	JC 696380W	SUB MAJ	BALAN PILLAI A	1/4/2019
287	JC 694192W	SUB MAJ	CHITRANJAN SINGH	1/4/2019
288	JC 694835H	SUB MAJ	D KANDHA KRISHNAN	1/2/2019
289	JC 697950N	SUB MAJ	DEV PROSAD HORE	1/3/2019
290	JC 219984F	SUB MAJ	HARI KIRTAN SHUKLA	1/8/2019
291	JC 695074P	SUB MAJ	HARNAM SINGH	1/2/2019
292	JC 697790Y	SUB MAJ	J MOHANA RAJU	1/3/2019
293	JC 695574M	SUB MAJ	JAYA BHAYE NAMDEO KARBHARI	1/6/2019
294	JC 694975P	SUB MAJ	JEET KUMAR	1/6/2019
295	JC 695982X	SUB MAJ	KESHA VA KUMAR SINGH	1/6/2019
296	JC 695053Y	SUB MAJ	MALKIAT SINGH	1/3/2019
297	JC 219985K	SUB MAJ	MOHENDRA PUROHIT	1/6/2019
298	JC 697052P	SUB MAJ	NAVIN KUMAR	1/5/2019
299	JC 226709K	SUB MAJ	PREM KISHORE VYAS	1/2/2019
300	JC 693738Y	SUB MAJ	RAM KUMAR	1/6/2019
301	JC 226706W	SUB MAJ	SATISH MANAN SHASTRI	1/6/2019

ARMY ORDNANCE CORPS

302	JC 726331L	SUB MAJ	ATMA SINGH	1/5/2019
303	JC 728830Y	SUB MAJ	BELBHANDARE BABURAO MALAKA	1/6/2019
304	JC 729303K	SUB MAJ	HARISH SINGH	1/8/2019
305	JC 729271M	SUB MAJ	KARAN SINGH	1/7/2019
306	JC 728258W	SUB MAJ	KISHOR UPAS RAO LUTE	1/3/2019
307	JC 725915K	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH	1/3/2019
308	JC 725460Y	SUB MAJ	RAM SWAROOP	1/6/2019
309	JC 727410M	SUB MAJ	RANJEET SINGH	1/8/2019
310	JC 725501X	SUB MAJ	SAMANTA SAROJ KUMAR DAS	1/7/2019
311	JC 726334Y	SUB MAJ	SHRI KANT PANDEY	1/2/2019
312	JC 725910L	SUB MAJ	SULTAN SINGH	1/6/2019
313	JC 224837H	SUB MAJ	TRIBHUWAN TRIPATHI	1/6/2019
314	JC 729075M	SUB MAJ	YASH PAL	1/5/2019

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

315	JC 758570N	SUB MAJ	AKHILESH SINGH	1/5/2019
316	JC 758543K	SUB MAJ	DIWAN SINGH	1/4/2019
317	JC 758546X	SUB MAJ	JYOTIRANJAN SAMANTARAY	1/4/2019
318	JC 765818P	SUB MAJ	KALAMKAR UTTAM DATTU	1/6/2019
319	JC 763506A	SUB MAJ	MAN SINGH	1/3/2019
320	JC 757706A	SUB MAJ	MANOJ KUMAR SINGH	1/8/2019
321	JC 765052W	SUB MAJ	NAGENDRA SINGH YADAV	1/2/2019
322	JC 763895L	SUB MAJ	NANDA DULAL NAYAK	1/4/2019
323	JC 759327H	SUB MAJ	OMKAR NATH	1/4/2019
324	JC 765854A	SUB MAJ	P MADHU	1/3/2019

325	JC 765867X	SUB MAJ	PASHUPATI NATH SINGH	1/7/2019
326	JC 761690X	SUB MAJ	PRADIP KUMAR SINGH	1/4/2019
327	JC 748048X	SUB MAJ	RADHA KRISHAN DWIVEDI	1/5/2019
328	JC 758576P	SUB MAJ	RAM AVTAR	1/6/2019
329	JC 758848K	SUB MAJ	RAMESH CHAND	1/8/2019
330	JC 758453H	SUB MAJ	RAMNATH HARITWAL	1/5/2019
331	JC 762094X	SUB MAJ	SANJAY KUMAR	1/5/2019
332	JC 757912K	SUB MAJ	SARBESH BABU	1/4/2019
333	JC 758014X	SUB MAJ	SHASHIKANT SHUKLA	1/4/2019
334	JC 757911F	SUB MAJ	SHINDE BHIMARAO KHANDU	1/4/2019
335	JC 758536N	SUB MAJ	SRI SUBHASH SINGH	1/6/2019
336	JC 764324Y	SUB MAJ	YAD RAM	1/8/2019
337	JC 758578A	SUB MAJ	YESHWANT DESHMUKH	1/7/2019

ARMY EDUCATION CORPS

338	JC 803663X	SUB MAJ	ANJANI KUMAR SINHA	1/7/2019
339	JC 803695A	SUB MAJ	AVIRAM SINGHA	1/7/2019
340	JC 803709P	SUB MAJ	GIRDHARI LAL CHOYAL	1/8/2019
341	JC 803708M	SUB MAJ	KAILASH CHANDER	1/6/2019
342	JC 804064K	SUB MAJ	NANDAN SINGH	1/8/2019
343	JC 803524N	SUB MAJ	PIAR SINGH MANKOTIA	1/5/2019
344	JC 803707K	SUB MAJ	RAKENDRA SINGH CHAUHAN	1/4/2019
345	JC 803875H	SUB MAJ	RATNAKAR DASH	1/6/2019
346	JC 803683L	SUB MAJ	SURENDRA PRASAD	1/6/2019
347	JC 803681A	SUB MAJ	Y P NARAYAN SINGH	1/5/2019
348	JC 803885M	SUB MAJ	YOGENDRA SINGH	1/8/2019

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

349	JC 797504F	RIS MAJ	G DURAI RAJ	1/3/2019
350	JC 797588A	RIS MAJ	MITTAR DEV	1/7/2019

THE INTELLIGENCE CORPS

351	JC 810395F	SUB MAJ	MANOJ V NAIR	1/6/2019
-----	------------	---------	--------------	----------

CORPS OF MILITARY POLICE

352	JC 819188W	SUB MAJ	APURBA CHANDRA GHOSH	1/6/2019
353	JC 819398W	SUB MAJ	DILIP KUMAR SAXENA	1/8/2019
354	JC 819259M	SUB MAJ	HOSHIYAR SINGH	1/2/2019
355	JC 819296A	SUB MAJ	SAMAR PAL SINGH	1/3/2019
356	JC 819405F	SUB MAJ	SWAPAN KUMAR DAS	1/3/2019

THE PIONEER CORPS

357	JC 829451K	SUB MAJ	SURESH KUMAR	1/4/2019
-----	------------	---------	--------------	----------

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

1	JC 510146K	SUB	PATIL VIJAY KUMAR GUNDA	1/3/2019
---	------------	-----	-------------------------	----------

PRESIDENT'S BODY GUARD

2	JC 235066Y	RIS	BALJIT SINGH	1/4/2019
---	------------	-----	--------------	----------

3	JC 235067F	RIS	DHARMENDER	1/2/2019
---	------------	-----	------------	----------

1 HORSE

4	JC 245756W	RIS	BALJINDER SINGH	1/2/2019
---	------------	-----	-----------------	----------

14 HORSE

5	JC 244358H	RIS	GURJANT SINGH SANDHU	1/5/2019
---	------------	-----	----------------------	----------

18 CAVALRY

6	JC 244501K	RIS	HAKAM ALI KHAN	1/3/2019
---	------------	-----	----------------	----------

7	JC 244050P	RIS	MUSTAK AHMED ANSARI	1/4/2019
---	------------	-----	---------------------	----------

61 CAVALRY

8	JC 243343N	RIS	GAFFAR KHAN	1/3/2019
---	------------	-----	-------------	----------

9	JC 243812L	RIS	SANJAY GUNDU GAVI	1/8/2019
---	------------	-----	-------------------	----------

65 ARMOURED REGIMENT

10	JC 244071L	RIS	MAHENDRA SINGH	1/5/2019
----	------------	-----	----------------	----------

66 ARMOURED REGIMENT

11	JC 244661K	RIS	MUKESH KUMAR	1/3/2019
----	------------	-----	--------------	----------

69 ARMOURED REGIMENT

12	JC 243215W	RIS	SAHDEV SINGH	1/4/2019
----	------------	-----	--------------	----------

70 ARMOURED REGIMENT

13	JC 243839H	RIS	ANIL KUMAR	1/3/2019
----	------------	-----	------------	----------

14	JC 244151H	RIS	GUMAN SINGH	1/7/2019
----	------------	-----	-------------	----------

15	JC 243840X	RIS	VIPAN KUMAR	1/3/2019
----	------------	-----	-------------	----------

72 ARMOURED REGIMENT

16	JC 244360A	RIS	KRISHAN NARAYAN SINGH	1/5/2019
----	------------	-----	-----------------------	----------

17	JC 244386P	RIS	MANOHAR SINGH	1/5/2019
----	------------	-----	---------------	----------

18	JC 244517P	RIS	SURGYAN SINGH	1/7/2019
----	------------	-----	---------------	----------

75 ARMOURED REGIMENT

19	JC 242562H	RIS	K RAMESH	1/2/2019
----	------------	-----	----------	----------

20	JC 244521X	RIS	KARAMVIR SINGH	1/4/2019
----	------------	-----	----------------	----------

83 ARMoured REGIMENT

21	JC 244021A	RIS	BAWDEKAR RAMESH KRISHNA	1/2/2019
22	JC 244422P	RIS	PRASANTHA KUMAR SARKAR	1/5/2019
23	JC 244421M	RIS	SHANKAR JEE	1/3/2019

85 ARMoured REGIMENT

24	JC 243602L	RIS	SHANT RAJ SINGH	1/5/2019
----	------------	-----	-----------------	----------

86 ARMoured REGIMENT

25	JC 243778W	RIS	AJITESH PATRA	1/4/2019
26	JC 243157X	RIS	KAPSE VIJAY YAMAJI	1/2/2019

87 ARMoured REGIMENT

27	JC 243356L	RIS	POORAN SINGH	1/7/2019
----	------------	-----	--------------	----------

41 ARMoured REGIMENT

28	JC 243675X	RIS	G CHANDRA MOHAN	1/7/2019
----	------------	-----	-----------------	----------

43 ARMoured REGIMENT

29	JC 244096X	RIS	RIDH KARAN JAT	1/3/2019
----	------------	-----	----------------	----------

44 ARMoured REGIMENT

30	JC 243774A	RIS	ANIL KUMAR	1/6/2019
31	JC 243618W	RIS	MOHAN LAL	1/4/2019

46 ARMoured REGIMENT

32	JC 243885X	RIS	MADAN PAL	1/3/2019
----	------------	-----	-----------	----------

47 ARMoured REGIMENT

33	JC 243598N	RIS	RAM NARAYAN YADAV	1/4/2019
----	------------	-----	-------------------	----------

49 ARMoured REGIMENT

34	JC 245354Y	RIS	ANAND PRAKASH DIXIT	1/3/2019
35	JC 245355F	RIS	TEJ SINGH BHADORIA	1/3/2019

5 ARMoured REGIMENT

36	JC 244003X	RIS	BISHNU PRASAD RANA	1/3/2019
37	JC 244736W	RIS	GOPAL SINGH	1/3/2019
38	JC 244491L	RIS	RAJPAL SINGH NASUKA	1/2/2019

11 ARMoured REGIMENT

39	JC 243694H	RIS	DHEER SINGH	1/7/2019
----	------------	-----	-------------	----------

12 ARMoured REGIMENT

40	JC 243625M	RIS	DAYA RAM	1/6/2019
41	JC 245070P	RIS	NARPAT SINGH	1/3/2019
42	JC 244758P	RIS	OM PARKASH	1/3/2019

13 ARMoured REGIMENT

43	JC 243903P	RIS	SURJIT SINGH	1/7/2019
----	------------	-----	--------------	----------

19 ARMoured REGIMENT

44	JC 245313P	RIS	AJIT KUMAR YADAV	1/2/2019
45	JC 245340Y	RIS	MANOJ KUMAR	1/2/2019

50 ARMoured REGIMENT

46	JC 245459H	RIS	AJAY BIR SINGH CHAUHAN	1/3/2019
47	JC 245250X	RIS	AP MADHUSOODANAN	1/2/2019
48	JC 245284L	RIS	BALWANT SINGH BRAR	1/5/2019

51 ARMoured REGIMENT

49	JC 244768Y	RIS	MUKUTE BALASAHEB SURYABHAN	1/5/2019
----	------------	-----	----------------------------	----------

52 ARMoured REGIMENT

50	JC 244643F	RIS	VIJENDER SINGH	1/5/2019
51	JC 244691F	RIS	YOGENDRA SINGH	1/7/2019

53 ARMoured REGIMENT

52	JC 243305X	RIS	DINESH KUMAR	1/5/2019
53	JC 244888X	RIS	SUMER SINGH	1/5/2019

54 ARMoured REGIMENT

54	JC 244314L	RIS	JATINDER SINGH	1/8/2019
----	------------	-----	----------------	----------

55 ARMoured REGIMENT

55	JC 244833N	RIS	GULAB SINGH CHAMPAWAT	1/7/2019
----	------------	-----	-----------------------	----------

56 ARMoured REGIMENT

56	JC 244540H	RIS	PRAVENDRA KUMAR	1/5/2019
57	JC 243646H	RIS	PREM SINGH	1/3/2019

58 ARMoured REGIMENT

58	JC 243994K	RIS	KESHAV DAS YADAV	1/5/2019
----	------------	-----	------------------	----------

ARMoured CORPS

59	JC 244697H	RIS	AJEET SINGH SHEKHAWAT	1/8/2019
60	JC 245201P	RIS	AMBESH KUMAR SINGH	1/3/2019
61	JC 244425H	RIS	BADRUDDIN	1/6/2019
62	JC 243557K	RIS	BASANT PRASAD SINGH	1/4/2019

63	JC 245426X	RIS	DHARAMVIR SINGH BAJWAN	1/6/2019
64	JC 236275H	RIS	DINESH KUMAR TRIPATHI	1/8/2019
65	JC 245853N	RIS	DO SUNIL KUMAR	1/3/2019
66	JC 244173F	RIS	HAKIM YADAV	1/3/2019
67	JC 244650X	RIS	JAYANTA KUMAR GHOSH	1/8/2019
68	JC 245688N	RIS	KHUSHAL SINGH BISHT	1/4/2019
69	JC 244200A	RIS	KRISHNA KUMAR MISHRA	1/2/2019
70	JC 243832Y	RIS	LOKHANDE APPASAHEB VISWANATH	1/6/2019
71	JC 244197L	RIS	P SIVA SANKARA RAO	1/8/2019
72	JC 243560K	RIS	PUSHPENDERA KUMAWAT	1/5/2019
73	JC 244933Y	RIS	S SREENIVASA RAO	1/7/2019
74	JC 236747N	RIS	TRIBHUAN NARAYAN PANDEY	1/3/2019
75	JC 245637A	RIS	YASHBIR CHANDER	1/5/2019

REGIMENT OF ARTILLERY

76	JC 279339W	SUB	AANANDEE KUMAR SAH	1/7/2019
77	JC 274938M	SUB	ABHAY SINGH RAJPUT	1/4/2019
78	JC 277844A	SUB	AJAYA KUMAR SASMAL	1/5/2019
79	JC 275928P	SUB	AJI PRASAD	1/5/2019
80	JC 272944F	SUB	AJMER SINGH	1/7/2019
81	JC 271230F	SUB	AMAR BAHADUR SINGH	1/8/2019
82	JC 282277M	SUB	ANIL KUMAR CHAKKARAYAN	1/7/2019
83	JC 274545W	SUB	ARUN KUMAR	1/8/2019
84	JC 270800A	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	1/3/2019
85	JC 275569M	SUB	AWADHESH YADAV	1/3/2019
86	JC 273233N	SUB	AZAD SINGH	1/7/2019
87	JC 279589X	SUB	BABU RAM RANA	1/7/2019
88	JC 274036X	SUB	BALJINDER SINGH	1/7/2019
89	JC 273561F	SUB	BALKAR SINGH	1/6/2019
90	JC 276088M	SUB	BALKAR SINGH	1/2/2019
91	JC 276207X	SUB	BANA RAM GURJAR	1/7/2019
92	JC 274875P	SUB	BHAGAT RAM DHARAN	1/3/2019
93	JC 272352X	SUB	BHIM RAM	1/3/2019
94	JC 275797P	SUB	BIJU KUMAR D	1/8/2019
95	JC 274587H	SUB	BIJUMON TS	1/7/2019
96	JC 270409H	SUB	BIPAN KUMAR	1/3/2019
97	JC 273762A	SUB	BIRGURAM MANDAL	1/2/2019
98	JC 273430W	SUB	BIRI SINGH	1/6/2019
99	JC 279168P	SUB	BRAJESH KUMAR	1/6/2019
100	JC 279354L	SUB	C DAVID RAJ	1/2/2019
101	JC 280995K	SUB	CHANDRA JEET SINGH	1/8/2019
102	JC 276651N	SUB	CHERUKURI SUDARSANA RAO	1/5/2019
103	JC 278967Y	SUB	CHITTEPU NAGARAJU	1/3/2019
104	JC 276396M	SUB	DALJIT SINGH	1/7/2019

105	JC 278361P	SUB	DARSHAN SINGH	1/3/2019
106	JC 274762M	SUB	DAYA RAM	1/3/2019
107	JC 276044P	SUB	DEBI CHARAN PRAJAPATI	1/7/2019
108	JC 280971A	SUB	DESH RAJ	1/2/2019
109	JC 277530Y	SUB	DHANAK LAXMAN MALU	1/5/2019
110	JC 276375W	SUB	DHARAMPAL SINGH	1/5/2019
111	JC 274793M	SUB	DUDEKULA PEERAVALI	1/7/2019
112	JC 277220N	SUB	DURGAPADA DAS	1/3/2019
113	JC 281513W	SUB	DYARAM SINGH	1/4/2019
114	JC 276528P	SUB	G VIJAYA KUMAR	1/8/2019
115	JC 271823N	SUB	GADEKAR ASHOK RAMKISAN	1/5/2019
116	JC 276157X	SUB	GADHAVE PRAKASH BABURAO	1/5/2019
117	JC 273755K	SUB	GAWANDE NARENDRA MAROTIRAO	1/2/2019
118	JC 272917X	SUB	GAWHAD ANIL BHASKAR	1/7/2019
119	JC 277410A	SUB	GAYA PRASAD	1/8/2019
120	JC 273190K	SUB	GOPAL SINGH	1/7/2019
121	JC 277593F	SUB	GOPI G	1/8/2019
122	JC 276484H	SUB	GULAB PRASAD	1/7/2019
123	JC 276573F	SUB	GULAB SINGH	1/3/2019
124	JC 280246N	SUB	GYANENDRA SINGH	1/8/2019
125	JC 277851W	SUB	HAJOORI SINGH TOMAR	1/7/2019
126	JC 275210L	SUB	HANUMAN RAM	1/7/2019
127	JC 274792K	SUB	HARENDRA YADAW	1/3/2019
128	JC 273062M	SUB	HARI BABOO	1/3/2019
129	JC 275068M	SUB	HARI SADHAN MANDAL	1/7/2019
130	JC 273260X	SUB	HARI SINGH SOMRA	1/7/2019
131	JC 275237H	SUB	HARIBA NARSING WANGATE	1/7/2019
132	JC 278388M	SUB	HAWA SINGH	1/8/2019
133	JC 272461K	SUB	HAYAT SINGH SAMANT	1/6/2019
134	JC 271381A	SUB	HEM SINGH	1/6/2019
135	JC 275439K	SUB	HIMANSU SHEKHARA PANDA	1/7/2019
136	JC 276358W	SUB	HUSAN LAL	1/6/2019
137	JC 276005W	SUB	INDERJIT SINGH	1/5/2019
138	JC 274478W	SUB	JADHAV ARJUN SANTU	1/6/2019
139	JC 274234H	SUB	JAGMOHAN SHARMA	1/6/2019
140	JC 280658P	SUB	JANBANDHU PARMANAND RAGHUNATH	1/8/2019
141	JC 278579F	SUB	JARNAIL SINGH	1/5/2019
142	JC 276349P	SUB	JASBIR SINGH	1/5/2019
143	JC 276083N	SUB	JASWANT SINGH	1/7/2019
144	JC 276545P	SUB	JATAN SINGH	1/6/2019
145	JC 273445Y	SUB	JAYACHANDRAN V	1/5/2019
146	JC 277278L	SUB	JAYRAM PRASAD GUPTA	1/8/2019
147	JC 281234L	SUB	JOGENDER SINGH YADAV	1/6/2019
148	JC 277837K	SUB	K VENKATACHALAM	1/7/2019
149	JC 279311W	SUB	K VIJAYA KUMAR	1/5/2019

150	JC 280868P	SUB	KAMALJEET	1/7/2019
151	JC 272939W	SUB	KANA RAM	1/5/2019
152	JC 273557Y	SUB	KARAM SINGH	1/5/2019
153	JC 275876K	SUB	KARAN SINGH	1/2/2019
154	JC 329830X	SUB	KHEM PAL SINGH	1/8/2019
155	JC 273746H	SUB	KIRAN PAL	1/8/2019
156	JC 273456L	SUB	KISHNA BABU	1/6/2019
157	JC 273163A	SUB	KOMARA JAGANNADHA RAO	1/6/2019
158	JC 277110Y	SUB	KS PALANIVEL	1/3/2019
159	JC 272112A	SUB	KULDEEP SINGH	1/7/2019
160	JC 277602X	SUB	L RADHAKRISHNAN	1/2/2019
161	JC 276915K	SUB	LAKHWINDER SINGH	1/3/2019
162	JC 272114L	SUB	LAL AJIT KUMAR SINGH	1/5/2019
163	JC 279917A	SUB	LAL CHAND	1/8/2019
164	JC 276281Y	SUB	M CHANDRA MOHAN	1/6/2019
165	JC 275085M	SUB	MAHAVEER SINGH	1/3/2019
166	JC 277798W	SUB	MAHENDRA SINGH	1/6/2019
167	JC 275480A	SUB	MENCHU RAJU	1/3/2019
168	JC 274310K	SUB	MILAN KUMAR GIRI	1/7/2019
169	JC 275306N	SUB	MOHAMMAD HASHIM ANSARI	1/4/2019
170	JC 275491M	SUB	MOHINDER PAUL	1/2/2019
171	JC 274275M	SUB	MOTE RAM CHANDRA SAMBAPPA	1/2/2019
172	JC 275775W	SUB	MUDDASU GEORGE RAJU	1/3/2019
173	JC 276607K	SUB	MUKESH KUMAR	1/3/2019
174	JC 275467W	SUB	MUMTAJ AHMAD ANSARI	1/2/2019
175	JC 273205F	SUB	MURALIDHAR SETHI	1/7/2019
176	JC 272780W	SUB	MURUGAN M	1/7/2019
177	JC 273018H	SUB	MYLA SRINIVASA RAO	1/8/2019
178	JC 273348F	SUB	NALAVADE RAJENDRA DATTATRAYA	1/7/2019
179	JC 273983M	SUB	NANAK CHAND	1/4/2019
180	JC 277170N	SUB	NAND KUMAR PATNE	1/3/2019
181	JC 273554L	SUB	NARESH KUMAR	1/5/2019
182	JC 274912X	SUB	NASIRUDDIN SHAIKH	1/3/2019
183	JC 273781L	SUB	NINAWA RUSHINATH BHAIYYAJI	1/8/2019
184	JC 277169Y	SUB	NIRMAL CHANDRA SARKAR	1/3/2019
185	JC 264440Y	SUB	NIRMAL SINGH	1/6/2019
186	JC 274358X	SUB	NIRMAL SINGH	1/4/2019
187	JC 277345L	SUB	NIRMAL SINGH	1/7/2019
188	JC 275322L	SUB	OMPAL SINGH	1/2/2019
189	JC 274577Y	SUB	P JAYASEELAN	1/6/2019
190	JC 276802F	SUB	P RAJU	1/8/2019
191	JC 277436P	SUB	PALASKAR VIKRAM KESHAV RAO	1/2/2019
192	JC 278619X	SUB	PALLA RAMA RAO	1/5/2019
193	JC 276482X	SUB	PANDU	1/7/2019
194	JC 275701F	SUB	PARASE NARAYAN SUBANA	1/7/2019

195	JC 274010H	SUB	PARGAT SINGH	1/8/2019
196	JC 275713W	SUB	PARMAR VINOD KUMAR POUL BHAI	1/7/2019
197	JC 276787X	SUB	PARMINDER SINGH	1/5/2019
198	JC 273841P	SUB	PATTAN MOULALI	1/5/2019
199	JC 279522Y	SUB	PAWAN KUMAR	1/7/2019
200	JC 277995Y	SUB	PRABIR KUMAR DAWN	1/7/2019
201	JC 267025H	SUB	PRAMJEET SINGH	1/3/2019
202	JC 276585W	SUB	PRAMOD KUMAR PANDEY	1/5/2019
203	JC 273944N	SUB	PRASANNAN PILLAI K	1/6/2019
204	JC 277037L	SUB	PRASANTHAN M	1/7/2019
205	JC 276356L	SUB	PRAVIN KUMAR	1/5/2019
206	JC 278371Y	SUB	R JAYARAJ	1/3/2019
207	JC 282125L	SUB	RAJ BHAN PATEL	1/7/2019
208	JC 276589M	SUB	RAJ KUMAR	1/5/2019
209	JC 281345H	SUB	RAJASHEKHARAYYA HIREMATH	1/4/2019
210	JC 281445N	SUB	RAJBIR SINGH	1/2/2019
211	JC 271970W	SUB	RAJENDRA SINGH BHADOURIA	1/6/2019
212	JC 277172Y	SUB	RAJESH KUMAR	1/5/2019
213	JC 278390K	SUB	RAJESH TK	1/8/2019
214	JC 275780F	SUB	RAJINDER SINGH	1/4/2019
215	JC 278175Y	SUB	RAJPAL	1/8/2019
216	JC 280131A	SUB	RAJPAL YADAV	1/3/2019
217	JC 276895F	SUB	RAJPUT PIRAM BAJRANG	1/7/2019
218	JC 275041P	SUB	RAKESH CHANDRA	1/5/2019
219	JC 278913X	SUB	RAM KRIPAL	1/6/2019
220	JC 281323K	SUB	RAM KRISHAN	1/5/2019
221	JC 276618W	SUB	RAM NARAIN	1/5/2019
222	JC 277414W	SUB	RAM SARAN	1/4/2019
223	JC 276359Y	SUB	RAM SINGH BISHT	1/6/2019
224	JC 280195L	SUB	RAMA SHANKAR SINGH	1/2/2019
225	JC 278442P	SUB	RAMESH KUMAR	1/6/2019
226	JC 278739W	SUB	RAMESH LAL	1/6/2019
227	JC 272008M	SUB	RAMESH YADAV	1/7/2019
228	JC 279109H	SUB	RANDHEER SINGH	1/8/2019
229	JC 269201N	SUB	RANJEET SINGH	1/8/2019
230	JC 275377P	SUB	RANJEET SINGH GREWAL	1/5/2019
231	JC 282091H	SUB	RANVIR SINGH YADAV	1/5/2019
232	JC 279487F	SUB	RAVINDRA SINGH	1/2/2019
233	JC 278953Y	SUB	RAY SINGH	1/7/2019
234	JC 276376Y	SUB	RENJIT SEBASTIAN	1/7/2019
235	JC 275339Y	SUB	RISHBH DEV	1/2/2019
236	JC 278137H	SUB	ROOM SINGH	1/6/2019
237	JC 277667L	SUB	ROOMAL YADAV	1/3/2019
238	JC 277590N	SUB	S DEIVENDRAN	1/3/2019
239	JC 278657N	SUB	SAMAY SINGH	1/6/2019

240	JC 277171W	SUB	SANTHOSH KUMAR S	1/4/2019
241	JC 277997K	SUB	SANTOSH KUMAR	1/8/2019
242	JC 278431H	SUB	SATAYPAL	1/5/2019
243	JC 280520A	SUB	SATYENDRA KUMAR PANDEY	1/5/2019
244	JC 277134H	SUB	SEKAR G	1/8/2019
245	JC 273172F	SUB	SHAIK NAYAB RASOOL	1/8/2019
246	JC 274906K	SUB	SHANKAR KUNDARAGI	1/5/2019
247	JC 270106N	SUB	SHARADA NAND PRASAD	1/3/2019
248	JC 278959A	SUB	SHASHI KANT SINGH	1/2/2019
249	JC 279702F	SUB	SHEO BAHADUR	1/6/2019
250	JC 272948X	SUB	SHEO DARSHAN SINGH	1/4/2019
251	JC 269952P	SUB	SHEO MUNI SINGH	1/7/2019
252	JC 280795N	SUB	SHER BAHADUR THAPA	1/5/2019
253	JC 274231P	SUB	SHIRKE BALASAHEB BAPU	1/7/2019
254	JC 281168N	SUB	SHIV KARAN YADAV	1/8/2019
255	JC 273056Y	SUB	SHREE KANT PRASAD	1/7/2019
256	JC 274424P	SUB	SHYAMA PRASAD BACHAR	1/4/2019
257	JC 272249M	SUB	SREENIVAS	1/6/2019
258	JC 277816N	SUB	SUBHASH CHANDRA	1/8/2019
259	JC 278960P	SUB	SUBHASH KB	1/5/2019
260	JC 277931N	SUB	SUBHASH SINGH TOMAR	1/7/2019
261	JC 276614A	SUB	SUDHA SINDHU NATH	1/5/2019
262	JC 274316L	SUB	SUKANDER KUMAR	1/8/2019
263	JC 274214P	SUB	SUKUMAR PRADHAN	1/7/2019
264	JC 277996F	SUB	SUNEJ K	1/7/2019
265	JC 276346F	SUB	SUNIL KUMAR SHARMA	1/5/2019
266	JC 276053W	SUB	SURENDER KUMAR	1/2/2019
267	JC 276853P	SUB	SURENDRA KUMAR	1/6/2019
268	JC 280639K	SUB	SURENDRA SINGH	1/7/2019
269	JC 272696W	SUB	SUSANTA KUMAR SAHU	1/6/2019
270	JC 273986A	SUB	TARA PRASAD CHOUDHURY	1/6/2019
271	JC 282040P	SUB	UDAI RAM YADAV	1/6/2019
272	JC 276825H	SUB	ULLAS PK	1/5/2019
273	JC 276444F	SUB	UNNI KRISHNA PILLAI B	1/7/2019
274	JC 275499Y	SUB	UTTAM CHAND	1/2/2019
275	JC 271654X	SUB	V DHANASEKARAN	1/2/2019
276	JC 277925A	SUB	V NARAYANAN	1/3/2019
277	JC 273310X	SUB	V SEENIVASAN	1/5/2019
278	JC 275700Y	SUB	VANNURI BASAGULI	1/2/2019
279	JC 271969F	SUB	VIJAY KUMAR VASHISHT	1/2/2019
280	JC 274509L	SUB	VIJAY SHARMA	1/7/2019
281	JC 273088F	SUB	VIMLESH KUMAR	1/3/2019
282	JC 275537K	SUB	VIPIN KUMAR DIXIT	1/2/2019
283	JC 273259H	SUB	VISHVAMBHAR LAL SAINI	1/7/2019

ARMY AIR DEFENCE

284	JC 303357A	SUB	AJAY KUMAR PANDEY	1/7/2019
285	JC 300804N	SUB	ALANKAR SHARMA	1/4/2019
286	JC 302152Y	SUB	AMAR SINGH	1/2/2019
287	JC 301568K	SUB	ANAND SINGH	1/6/2019
288	JC 302560K	SUB	ANIL KUMAR RAJAK	1/7/2019
289	JC 302101L	SUB	APPALA NAIDU REDDY	1/5/2019
290	JC 301743N	SUB	ASHOK	1/4/2019
291	JC 301446A	SUB	ASHOK KUMAR	1/6/2019
292	JC 301719X	SUB	ASHOK KUMAR	1/2/2019
293	JC 302170F	SUB	ASHOK KUMAR	1/2/2019
294	JC 300865L	SUB	ATAKARE VIJAY DNYANOBA	1/6/2019
295	JC 302590F	SUB	BALJEET SINGH	1/3/2019
296	JC 302766F	SUB	BHARAT SINGH	1/5/2019
297	JC 302492F	SUB	BHAWANI SINGH SHEKHAWAT	1/6/2019
298	JC 301411K	SUB	BIJENDER KUMAR	1/3/2019
299	JC 301081W	SUB	BINOD BEHARI DAS	1/2/2019
300	JC 301761W	SUB	BIRENDRA PANDEY	1/7/2019
301	JC 302578A	SUB	BRAJ NANDAN SINGH	1/8/2019
302	JC 301573P	SUB	BRAJANDRA SINGH BHADORIA	1/7/2019
303	JC 301841N	SUB	BRAJESH KUMAR TRIPATHI	1/8/2019
304	JC 302324H	SUB	BRIJ KISHOR SINGH TOMAR	1/8/2019
305	JC 302322X	SUB	C AZHAGHASAN	1/8/2019
306	JC 302915K	SUB	CHAMKAUR SINGH RAI	1/5/2019
307	JC 301859K	SUB	CHANNABASSU CHAJA GOUD	1/7/2019
308	JC 300771N	SUB	DEEPAK KUMAR	1/8/2019
309	JC 302316K	SUB	DINANATH LAL	1/2/2019
310	JC 623072N	SUB	DINESH KUMAR TIWARI	1/3/2019
311	JC 302710P	SUB	E SIVARAMAN	1/7/2019
312	JC 301919N	SUB	G BALA SUBRAMANIAN	1/5/2019
313	JC 302537W	SUB	GAVLI ASHOK KACHRU	1/5/2019
314	JC 301796F	SUB	GAWAI SHANTARAM SRIRAM	1/3/2019
315	JC 301513A	SUB	GHANSHYAM DASS SHARMA	1/6/2019
316	JC 302851K	SUB	GULBAG SINGH	1/7/2019
317	JC 301900P	SUB	GYAN PRAKASH MISHRA	1/6/2019
318	JC 301001N	SUB	GYANEDRA KUMAR ROUSTRAY	1/2/2019
319	JC 302139P	SUB	HARDEV	1/7/2019
320	JC 302150N	SUB	HARI KRISHNAN V	1/7/2019
321	JC 302028X	SUB	HARIDASAN KV	1/7/2019
322	JC 301198P	SUB	JAIDEV SINGH	1/5/2019
323	JC 302739X	SUB	JITENDRA PAL SINGH	1/5/2019
324	JC 302698Y	SUB	JITUMON PHUKON	1/3/2019
325	JC 301208N	SUB	KAILASH	1/4/2019
326	JC 302399A	SUB	KARTAR SINGH	1/6/2019
327	JC 302424N	SUB	KIRANJIT SINGH	1/2/2019

328	JC 302425W	SUB	KRISHAN KUMAR	1/2/2019
329	JC 301594L	SUB	LAKHWINDER SINGH	1/7/2019
330	JC 302499L	SUB	LAKHWINDER SINGH	1/7/2019
331	JC 301725L	SUB	LALIT CHANDRA DEKA	1/7/2019
332	JC 302164N	SUB	M PERUMAL	1/6/2019
333	JC 302020L	SUB	M SADASIVAM	1/5/2019
334	JC 302535L	SUB	MAHENDRA SINGH YADAV	1/2/2019
335	JC 302605Y	SUB	MANOJ SINGH RATHOR	1/8/2019
336	JC 301751M	SUB	MOWGANA SRINIVASA RAO	1/6/2019
337	JC 302125P	SUB	MULARAM GOGAI	1/3/2019
338	JC 301946X	SUB	NARENDER SINGH	1/7/2019
339	JC 301264M	SUB	NARINDER KUMAR	1/2/2019
340	JC 302788A	SUB	NITANAND	1/5/2019
341	JC 302999H	SUB	OM PRAKASH SINGH	1/5/2019
342	JC 302480M	SUB	P RAMACHANDRA REDDY	1/8/2019
343	JC 301135M	SUB	PARIXITA KUMAR	1/4/2019
344	JC 300605A	SUB	PAWAN SINGH SAMBYAL	1/8/2019
345	JC 301724H	SUB	PRAMOD KUMAR SHUKLA	1/5/2019
346	JC 302115L	SUB	RAGHUVEER SINGH	1/6/2019
347	JC 300415N	SUB	RAJBEER SINGH BHADOURIA	1/8/2019
348	JC 300849N	SUB	RAM KUMAR TAMANG	1/7/2019
349	JC 302487W	SUB	RAM NIWAS	1/6/2019
350	JC 301483N	SUB	RAMENDRA KUMAR ADHIKARI	1/3/2019
351	JC 303516M	SUB	RAMESH KESTI	1/7/2019
352	JC 302313W	SUB	SAHDEVA SINGH	1/6/2019
353	JC 301533N	SUB	SAJI KUMAR B	1/3/2019
354	JC 302536N	SUB	SAJJAN MAL	1/3/2019
355	JC 302452A	SUB	SATEESH KUMAR	1/6/2019
356	JC 302484H	SUB	SATNAM SINGH	1/7/2019
357	JC 302748Y	SUB	SHYAM NARAYAN	1/5/2019
358	JC 301671P	SUB	SUBHAS CHANDRA YADAVA	1/4/2019
359	JC 302765Y	SUB	SUBHASH CHAND SHARMA	1/7/2019
360	JC 301769H	SUB	SUKHWINDER SINGH	1/2/2019
361	JC 300943X	SUB	SUSHIL KUMAR DWIVEDI	1/2/2019
362	JC 301831K	SUB	VALSALAN TC	1/2/2019
363	JC 301623P	SUB	VIJAY KUMAR PRASAD	1/7/2019
364	JC 302400K	SUB	VINOD KUMAR SHARMA	1/5/2019

ARMY AVIATION CORPS

365	JC 301947A	SUB	ASHOK KUMAR	1/2/2019
366	JC 274066P	SUB	GOLAKHA BIHARI SASAMAL	1/6/2019
367	JC 302027P	SUB	HARIOM	1/6/2019
368	JC 277952K	SUB	JHALLAR SINGH YADAV	1/7/2019
369	JC 302832Y	SUB	SATISH KUMAR	1/3/2019
370	JC 301644L	SUB	SUBRAMANIAN S	1/7/2019

MADRAS ENGINEER GROUP

371	JC 332306P	SUB	A MUTHUMANI	1/7/2019
372	JC 311232X	SUB	A RAVI	1/7/2019
373	JC 308807W	SUB	ABBAS ANSARI	1/8/2019
374	JC 310422X	SUB	ANIL KUMAR AG	1/7/2019
375	JC 308453Y	SUB	ANIL KUMAR R	1/2/2019
376	JC 310490L	SUB	ANIL KUMAR S	1/4/2019
377	JC 310418P	SUB	ANNAPA PATIL	1/6/2019
378	JC 332296W	SUB	ANTAR PAL	1/8/2019
379	JC 310098L	SUB	ANU KUMAR KA	1/4/2019
380	JC 308518F	SUB	ANUMULA LAKSHMI KONDAIAH	1/4/2019
381	JC 310956H	SUB	ARUNACHALAM M	1/5/2019
382	JC 310961N	SUB	AS PERUMAL	1/5/2019
383	JC 308548Y	SUB	ASHOK KUMAR TRIPATHY	1/4/2019
384	JC 309922H	SUB	B RAJENDRAN	1/3/2019
385	JC 310689M	SUB	BALAMURUGAN E	1/7/2019
386	JC 309952A	SUB	BALESHA TALAVAR	1/8/2019
387	JC 310421P	SUB	BARATHAN A	1/7/2019
388	JC 310096A	SUB	BATHULA KRISHNUDU	1/3/2019
389	JC 310993W	SUB	BENNY K JOSEPH	1/3/2019
390	JC 309009P	SUB	BODE SANJAY BAPU RAO	1/4/2019
391	JC 310129A	SUB	C JAYASEELAN	1/5/2019
392	JC 310693P	SUB	C RENUPAL REDDY	1/8/2019
393	JC 310093M	SUB	CH VENKATA MURALEE	1/5/2019
394	JC 309981P	SUB	CHANDRAKANT HUGAR	1/8/2019
395	JC 309205P	SUB	CHIDANAND	1/8/2019
396	JC 310960L	SUB	CHITTE RANGA RAO	1/5/2019
397	JC 309004W	SUB	DEO NARAIN SINGH	1/3/2019
398	JC 310412N	SUB	DHANAPALAN A	1/5/2019
399	JC 310127P	SUB	DINESH BABU SS	1/5/2019
400	JC 310663X	SUB	E KANAGARAJ	1/2/2019
401	JC 310188M	SUB	GHSI RAM	1/5/2019
402	JC 310673F	SUB	GOPISETTY V CHENNAIAH	1/6/2019
403	JC 310973H	SUB	GPV KRISHNA PRASAD	1/8/2019
404	JC 310491N	SUB	GURUBELLI SRINIVASA RAO	1/5/2019
405	JC 309919H	SUB	HONMANE ANANDRAO NAGNATH	1/4/2019
406	JC 308507P	SUB	HORE NISHIKANT WAMAN RAO	1/4/2019
407	JC 310095X	SUB	ISAI SUDHAKARA RAO	1/2/2019
408	JC 310411L	SUB	J MARIA SELVAM	1/5/2019
409	JC 309923L	SUB	JASBIR SINGH	1/3/2019
410	JC 310415F	SUB	JAYAN S	1/6/2019
411	JC 310438H	SUB	JAYAPRAKASH D	1/8/2019
412	JC 310358L	SUB	JEET SINGH	1/3/2019
413	JC 308450L	SUB	JOGENDRA KUMAR SAVITA	1/2/2019
414	JC 310131X	SUB	K ANANTHAN	1/6/2019

415	JC 310260X	SUB	K SATISH KUMAR	1/7/2019
416	JC 309653F	SUB	K SELVAM	1/3/2019
417	JC 310955A	SUB	KA MATHEW	1/4/2019
418	JC 330791W	SUB	KANCHARAMA MURAHARI RAO	1/3/2019
419	JC 310414Y	SUB	KANCHARLA VENKATA RAMANA	1/6/2019
420	JC 310665H	SUB	KANDANATHI GOVINDU	1/3/2019
421	JC 310688K	SUB	KARAM CHAND	1/6/2019
422	JC 310385P	SUB	KRISHNAN T	1/2/2019
423	JC 311228P	SUB	KUBERAPPA JAINAR	1/6/2019
424	JC 311219N	SUB	KUMMARI KRISHNAIAH	1/5/2019
425	JC 310669Y	SUB	LAXMAN KHOT	1/4/2019
426	JC 309979X	SUB	LAXMAN SINGH BIST	1/4/2019
427	JC 310478K	SUB	M AMSTRONG EDWARD PAUL	1/7/2019
428	JC 308686A	SUB	M AZHAGUVEL	1/5/2019
429	JC 309336A	SUB	M KISHAN LAL	1/7/2019
430	JC 310949M	SUB	M SURESH	1/2/2019
431	JC 309007K	SUB	MADHUSOODANAN PILLAI B	1/3/2019
432	JC 308523M	SUB	MAHESH PRASAD	1/4/2019
433	JC 310404P	SUB	MAJJARI RAMACHANDRUDU	1/4/2019
434	JC 310951K	SUB	MANOJ KUMAR PV	1/2/2019
435	JC 332288X	SUB	MANURI VK SUDHAKAR	1/5/2019
436	JC 308859M	SUB	MEGHSHYAM SHARMA	1/2/2019
437	JC 308660L	SUB	MOHAN RAJ D	1/7/2019
438	JC 330789Y	SUB	MOOL RAJ	1/4/2019
439	JC 308791W	SUB	NABHARE MORESHWAR RAMBHAU	1/4/2019
440	JC 308979L	SUB	NALAVADE RAMCHANDRA KISAN	1/6/2019
441	JC 310123Y	SUB	NANHKOO SINGH YADAVA	1/4/2019
442	JC 310403M	SUB	NEELAMEGAM K	1/3/2019
443	JC 332112M	SUB	NEELAPU VD NAGENDRAM	1/5/2019
444	JC 308489X	SUB	NEMAI NAG	1/3/2019
445	JC 309548L	SUB	NN SAJEEVAN	1/4/2019
446	JC 311184H	SUB	O RAMAIAH	1/3/2019
447	JC 309951X	SUB	OMBIR SINGH	1/4/2019
448	JC 310435P	SUB	P ANANDAN	1/7/2019
449	JC 311269Y	SUB	P RAVEENDRA KUMAR	1/5/2019
450	JC 310662P	SUB	P SELVARAJU	1/2/2019
451	JC 310691K	SUB	P SUBRAMANYAM	1/7/2019
452	JC 309334P	SUB	P THUKKARAMAN	1/3/2019
453	JC 310419X	SUB	PAILA GOVINDA RAO NAIDU	1/7/2019
454	JC 310666L	SUB	PANCHANATHAM S	1/3/2019
455	JC 310786K	SUB	PAPALA LOKANADHA RAO	1/3/2019
456	JC 310084L	SUB	PARDEEP CHAND	1/4/2019
457	JC 308487M	SUB	PARSHU RAM SINGH	1/2/2019
458	JC 309896M	SUB	PETA VENKATA SIVA PRASAD	1/7/2019
459	JC 310132A	SUB	POOVARASAN M	1/7/2019

460	JC 309568Y	SUB	PRADEEP KUMAR K	1/8/2019
461	JC 310094P	SUB	PRADEEP MG	1/2/2019
462	JC 330790N	SUB	PRESANNAN P D	1/6/2019
463	JC 310410H	SUB	R CHANDRAN	1/5/2019
464	JC 310406A	SUB	R RAVI	1/4/2019
465	JC 330833X	SUB	RAJ KUMAR	1/8/2019
466	JC 310692M	SUB	RAJEEV KR	1/7/2019
467	JC 309100L	SUB	RAJEEV TS	1/5/2019
468	JC 310407H	SUB	RAJENDRA KURUP R	1/4/2019
469	JC 308544H	SUB	RAJENDRA NATH	1/4/2019
470	JC 309013X	SUB	RAJENDRA SINGH YADAV	1/4/2019
471	JC 310477F	SUB	RAM BIR	1/7/2019
472	JC 310670N	SUB	RAMAPPA GANI	1/5/2019
473	JC 310667N	SUB	RAVI S	1/3/2019
474	JC 310972A	SUB	S BIJUKUMAR	1/8/2019
475	JC 310400Y	SUB	S MANOHAR	1/2/2019
476	JC 309504N	SUB	S PERIYASAMY	1/3/2019
477	JC 331867X	SUB	SAJI T J	1/3/2019
478	JC 332104N	SUB	SAJIMON THOMAS	1/5/2019
479	JC 310394W	SUB	SALUNKHE SAMBHAJI NAMDEO	1/7/2019
480	JC 310676P	SUB	SANTHOSH KUMAR TV	1/7/2019
481	JC 332115A	SUB	SANTHOSH KV	1/5/2019
482	JC 307527W	SUB	SARAVANAN R	1/8/2019
483	JC 332091F	SUB	SATAV VALAMIK GULAB RAO	1/5/2019
484	JC 310966M	SUB	SATYANARAYANA T	1/7/2019
485	JC 311227M	SUB	SENTHIL KUMAR M	1/5/2019
486	JC 310962W	SUB	SHAIK MASTAN VALI	1/5/2019
487	JC 311197A	SUB	SHIVABASAPPA DEVALATTI	1/3/2019
488	JC 309754P	SUB	SIBY NP	1/5/2019
489	JC 308488P	SUB	SITANATH MANDAL	1/3/2019
490	JC 310970P	SUB	SIVADAS M	1/8/2019
491	JC 310965K	SUB	SIVADASAN PULLANHIOT	1/7/2019
492	JC 310953P	SUB	SIVAPRASAD VS	1/3/2019
493	JC 310971X	SUB	SIYADU M	1/8/2019
494	JC 309678N	SUB	SRIRAMAMURTHY MIRIYALA	1/7/2019
495	JC 309030X	SUB	SUDHIR TIGADI	1/8/2019
496	JC 310194A	SUB	SUNIL KUMAR KK	1/5/2019
497	JC 309921A	SUB	SURENDRA KUMAR SINGH	1/4/2019
498	JC 310950F	SUB	SURESH V	1/2/2019
499	JC 310171Y	SUB	SURULI K	1/3/2019
500	JC 310958N	SUB	T RAMASAMY	1/5/2019
501	JC 310436X	SUB	T THIRUKKUMARAN	1/7/2019
502	JC 309097W	SUB	THIRUPPATHI M	1/5/2019
503	JC 332109M	SUB	UDAYA KUMAR KS	1/3/2019
504	JC 310690F	SUB	UNNI PV	1/7/2019
505	JC 310952M	SUB	V ULAVALA RAMANA	1/2/2019

506	JC 331599Y	SUB	V VEERANJANEYA REDDY	1/5/2019
507	JC 331337H	SUB	VARGHESE P X	1/6/2019
508	JC 309003N	SUB	VIJAY KUMAR	1/2/2019
509	JC 310967P	SUB	VIJAYA KUMAR S	1/7/2019
510	JC 310259H	SUB	VINOD KUMAR T	1/2/2019
511	JC 310399P	SUB	VIRAGANDAM RAVINDRA BABU	1/2/2019
512	JC 310792X	SUB	VN SUNIL	1/4/2019
513	JC 309010K	SUB	WILSON CHACKO	1/4/2019
514	JC 332290P	SUB	ZOND BHANUDAS NATHU	1/5/2019

BENGAL ENGINEER GROUP

515	JC 331352X	SUB	A THOMAS	1/3/2019
516	JC 330667P	SUB	AAKIEL KHAN	1/4/2019
517	JC 330708N	SUB	ACHINTA KUMAR ADAK	1/3/2019
518	JC 330507P	SUB	AJOY KUMAR BISWAS	1/4/2019
519	JC 339924H	SUB	ALAUDDIN KHAN	1/4/2019
520	JC 331803M	SUB	AMIT TIWARI	1/7/2019
521	JC 340626Y	SUB	ANAND KUMAR SINGH	1/3/2019
522	JC 341150F	SUB	ANAND SINGH	1/3/2019
523	JC 339688M	SUB	ANIL KUMAR	1/6/2019
524	JC 199879F	SUB	ANIL KUMAR C	1/4/2019
525	JC 340018X	SUB	ANIL KUMAR SINGH	1/4/2019
526	JC 340408A	SUB	ASHOK GARAI	1/2/2019
527	JC 339930W	SUB	ATANU NAG	1/5/2019
528	JC 339677A	SUB	BABU LAL	1/5/2019
529	JC 340628K	SUB	BALI RAM	1/4/2019
530	JC 339958W	SUB	BANSHIDHAR SETHY	1/6/2019
531	JC 340158K	SUB	BHABA PATHAK	1/8/2019
532	JC 339612M	SUB	BHASHKARA NAND JAKHWAL	1/3/2019
533	JC 331801F	SUB	BHAT ANANDA BRAMHADEV	1/4/2019
534	JC 339956L	SUB	BIKUL CH BORUAH	1/5/2019
535	JC 339932F	SUB	DAVENDRA KUMAR	1/5/2019
536	JC 339933K	SUB	DAYA NAND SINGH	1/5/2019
537	JC 339808A	SUB	DEBRAJ PARIDA	1/3/2019
538	JC 340155W	SUB	DEVENDRA KUMAR MEHRA	1/3/2019
539	JC 341045N	SUB	DHANANJAY KUMAR SINGH	1/3/2019
540	JC 340413L	SUB	DINESH KUMAR VERMA	1/4/2019
541	JC 199970X	SUB	GAIKWAD BHIMRAO KAKASAHEB	1/7/2019
542	JC 339807X	SUB	GAJRAJ SINGH	1/2/2019
543	JC 331528X	SUB	GOPAL SINGH	1/7/2019
544	JC 330894P	SUB	GURNAM SINGH	1/2/2019
545	JC 330619P	SUB	GYAN SINGH	1/8/2019
546	JC 331881K	SUB	HARVINDER SINGH	1/7/2019
547	JC 339709X	SUB	INDRAJEET SINGH	1/6/2019
548	JC 340439A	SUB	IQBAL SINGH	1/3/2019
549	JC 331398A	SUB	JAIVIR SINGH	1/6/2019

550	JC 339753F	SUB	JAY SINGH	1/4/2019
551	JC 339823P	SUB	JAYA NAND JOSHI	1/4/2019
552	JC 330556X	SUB	JAYANTA KUMAR DAS	1/4/2019
553	JC 340129P	SUB	JITENDER KUMAR SHARMA	1/2/2019
554	JC 339928Y	SUB	JIWAN CHANDRA	1/5/2019
555	JC 340133X	SUB	JOGESH CHANDRA MANDAL	1/2/2019
556	JC 331638W	SUB	K BALAKRISHNAN	1/7/2019
557	JC 331174A	SUB	K R PALANIAPPAN	1/3/2019
558	JC 339618N	SUB	KALAYAN SINGH	1/4/2019
559	JC 339245L	SUB	KARNEL SINGH SIKH	1/7/2019
560	JC 331800Y	SUB	KARUN KUMAR	1/4/2019
561	JC 339955H	SUB	KHARAK SINGH	1/5/2019
562	JC 199876N	SUB	KUMARASWAMY R	1/4/2019
563	JC 339923A	SUB	LAL BIHARI JHA	1/4/2019
564	JC 340758M	SUB	LAL BIHARI YADAVA	1/4/2019
565	JC 331321X	SUB	MADHU SUDANAN NAIR	1/7/2019
566	JC 340633P	SUB	MAHESH KUMAR	1/6/2019
567	JC 339879F	SUB	MANGAL SINGH	1/3/2019
568	JC 331410W	SUB	MANIKANDAN V	1/6/2019
569	JC 199871P	SUB	MANOHARAN M	1/4/2019
570	JC 339925L	SUB	MANOJ KUMAR SINGH	1/4/2019
571	JC 340627F	SUB	MEJMAN ALI	1/3/2019
572	JC 339610F	SUB	MOHAN BAHADUR CHAND	1/3/2019
573	JC 331242H	SUB	MOHD SHAMIM KHAN	1/3/2019
574	JC 331937L	SUB	NARENDRA SINGH	1/5/2019
575	JC 330538P	SUB	NARESH DHADWAL	1/3/2019
576	JC 331813W	SUB	NRUSINGHA PRASAD PADHY	1/8/2019
577	JC 199957N	SUB	OM PRAKASH	1/7/2019
578	JC 340630F	SUB	OM PRAKASH SAINI	1/6/2019
579	JC 339877W	SUB	OM PRAKASH SINGH	1/2/2019
580	JC 339809H	SUB	PARSHOTAM SINGH	1/3/2019
581	JC 340038L	SUB	PARSHU RAM	1/4/2019
582	JC 339959Y	SUB	PAWAN KUMAR SINGH	1/7/2019
583	JC 331519W	SUB	PHADATARE SUNIL APPAJI	1/3/2019
584	JC 340629M	SUB	PRABHASH KUMAR	1/5/2019
585	JC 199962Y	SUB	PRAMOD KUMAR SINGH	1/7/2019
586	JC 340410X	SUB	PUSHKER SINGH	1/3/2019
587	JC 340415W	SUB	RAJBINDER SINGH PUNI	1/6/2019
588	JC 340412H	SUB	RAJEEVA KUMAR TRIVEDI	1/4/2019
589	JC 340624N	SUB	RAKESH KUMAR SHARMA	1/2/2019
590	JC 340187Y	SUB	RAKESH KUMAR SHRIVASTAVA	1/4/2019
591	JC 340409H	SUB	RAKESH SINGH	1/3/2019
592	JC 325702H	SUB	RAM NAGINA PANDEY	1/2/2019
593	JC 340496F	SUB	RANJIT DUTTA	1/3/2019
594	JC 340156Y	SUB	RANJIT SINGH	1/4/2019
595	JC 340470M	SUB	RANVIR	1/2/2019

596	JC 340032K	SUB	ROHITASHWA KUMAR	1/8/2019
597	JC 224942Y	SUB	SABUCHAN K ANTONY	1/6/2019
598	JC 339824X	SUB	SAHAB SHARAN SINGH	1/4/2019
599	JC 199886X	SUB	SAJAN JOSE C	1/4/2019
600	JC 219546Y	SUB	SAJEEV RAJ K	1/6/2019
601	JC 340636H	SUB	SANJAY	1/8/2019
602	JC 199964K	SUB	SANJAY KUMAR	1/7/2019
603	JC 340407X	SUB	SARKALE PRAKASH EKNATH	1/2/2019
604	JC 332076M	SUB	SATBIR SINGH	1/5/2019
605	JC 340157F	SUB	SATYENDRA KUMAR	1/4/2019
606	JC 339233W	SUB	SHAIK SHAMSHEER HUSSAIN	1/3/2019
607	JC 339831M	SUB	SHAILESH KUMAR	1/8/2019
608	JC 340136L	SUB	SHEESH RAM YADAV	1/5/2019
609	JC 331250F	SUB	SHER SINGH	1/4/2019
610	JC 340446W	SUB	SHIV CHARAN MANDAL	1/7/2019
611	JC 339613P	SUB	SHRI CHANDRA	1/4/2019
612	JC 328892L	SUB	SIBY C JOSEPH	1/7/2019
613	JC 340521P	SUB	SITAB SINGH	1/3/2019
614	JC 327690X	SUB	SUDHANSU KUMAR SAHU	1/4/2019
615	JC 340131M	SUB	SUJIT MANNA	1/2/2019
616	JC 339806P	SUB	SUJOY MONDAL	1/2/2019
617	JC 339611K	SUB	SURENDRA PRATAP SINGH	1/3/2019
618	JC 330318L	SUB	SURESH KUMAR	1/3/2019
619	JC 328545M	SUB	SURESH KUMAR K	1/7/2019
620	JC 339707M	SUB	T KRISHNA MOORTHY	1/5/2019
621	JC 340050M	SUB	TEJ PAL SINGH PATWAL	1/4/2019
622	JC 331974Y	SUB	THAJUDEEN M	1/4/2019
623	JC 332282W	SUB	UDAYA KUMAR VS	1/4/2019
624	JC 224941W	SUB	UMAP PRADIP BHAGAWAT	1/6/2019
625	JC 332224M	SUB	UMESH BABU AWASTHI	1/2/2019
626	JC 339890A	SUB	VED RAM	1/6/2019
627	JC 340033M	SUB	VINOD KUMAR SHARMA	1/5/2019

BOMBAYENGINEER GROUP

628	JC 352308F	SUB	ABDUL HAKIM KHAN	1/5/2019
629	JC 352181K	SUB	AGHAV SANJIVAN RAGHUNATH	1/3/2019
630	JC 352263M	SUB	BANDGAR VITTHAL BIRA	1/5/2019
631	JC 351990X	SUB	BHAGUNT SINGH GHOSI	1/5/2019
632	JC 352344M	SUB	BHUT RAMESH KUMAR BABU	1/6/2019
633	JC 350845N	SUB	BISWANATH PRADHAN	1/4/2019
634	JC 352342F	SUB	CHANDRA KISHORE	1/6/2019
635	JC 351673W	SUB	CHANDRA MANI PRASAD TRIPATHI	1/3/2019
636	JC 352281P	SUB	CHAVAN ANILKUMAR KESHAV	1/8/2019
637	JC 351996Y	SUB	CHAVAN EKNATH MACHINDRANATH	1/5/2019
638	JC 352339F	SUB	CHIKANE SANTOSH KESHAV	1/5/2019

639	JC 352276K	SUB	DHOKANE SANJAY PANDURANG	1/7/2019
640	JC 352436Y	SUB	DINA NATH	1/5/2019
641	JC 351902W	SUB	GAJENDRA SINGH YADAV	1/3/2019
642	JC 352269N	SUB	GAWALI ASHOK SUKHDEO	1/5/2019
643	JC 352028N	SUB	GHASEE LAL JATAV	1/8/2019
644	JC 352350A	SUB	GOLE RAJKUMAR SHIVAJI	1/8/2019
645	JC 352275F	SUB	GURMEET SINGH	1/6/2019
646	JC 352352L	SUB	GURMIT SINGH	1/8/2019
647	JC 352715K	SUB	HARBHAJAN SINGH	1/3/2019
648	JC 352044L	SUB	IQBAL SINGH	1/8/2019
649	JC 351675F	SUB	ISFAQUE ALI	1/4/2019
650	JC 352328P	SUB	JAGDISH SINGH GHARU	1/4/2019
651	JC 352307Y	SUB	JANAKAR SHANKAR NANA	1/5/2019
652	JC 351995W	SUB	JASPAL SINGH	1/5/2019
653	JC 351857P	SUB	JEET SINGH	1/4/2019
654	JC 353054F	SUB	KAMTHE LAXMAN EKNATH	1/3/2019
655	JC 349243N	SUB	KULAT POPAT VISHWANATH	1/5/2019
656	JC 352273W	SUB	KULVIR SINGH	1/5/2019
657	JC 352006P	SUB	LAKHA SINGH	1/3/2019
658	JC 351087N	SUB	MATHAI THOMAS	1/6/2019
659	JC 352278P	SUB	MODH SALIM	1/8/2019
660	JC 352309K	SUB	MOHD AMIN BHAT	1/5/2019
661	JC 352354W	SUB	MOHD IRSHAD ANSARI	1/8/2019
662	JC 352080W	SUB	MOHD REZWAN ANSARI	1/8/2019
663	JC 352008A	SUB	MOHD SABIR	1/6/2019
664	JC 352007X	SUB	MORE VIJAYKUMAR ASHOKRAO	1/6/2019
665	JC 352140A	SUB	MURUGAN P	1/5/2019
666	JC 352356F	SUB	NAGENDRA SINGH	1/8/2019
667	JC 352345P	SUB	NIKAM SUNIL RUSTAMRAO	1/7/2019
668	JC 350848F	SUB	NIRANJAN DAS	1/3/2019
669	JC 352348H	SUB	PAWAR BALASAHEB SAKHARAM	1/8/2019
670	JC 351994N	SUB	PAWAR SANJAY DASHARATH	1/5/2019
671	JC 353368H	SUB	POKALE DILIP LAXMAN	1/5/2019
672	JC 352274Y	SUB	RAJENDRA PANCHAL	1/6/2019
673	JC 352766X	SUB	RAJINDER SINGH	1/5/2019
674	JC 351795A	SUB	RAMBINOD TIWARI	1/4/2019
675	JC 350861L	SUB	S K MAJAHARUN HAQUE	1/4/2019
676	JC 352027L	SUB	SAHANE SUKADEO BAIJUNATH	1/7/2019
677	JC 353117Y	SUB	SANJAI KUMAR	1/5/2019
678	JC 351992H	SUB	SARVESH CHANDRA	1/5/2019
679	JC 352351H	SUB	SATENDRA KUMAR VISHWAKARMA	1/8/2019
680	JC 351449K	SUB	SHEKH ASGAR MANSOORI	1/4/2019
681	JC 352340W	SUB	SHELAKI MOHAN SHRIHARI	1/6/2019
682	JC 352280M	SUB	SHINDE ANILKUMAR DNYANDEO	1/8/2019
683	JC 352306W	SUB	SHIV NARESH PAL	1/5/2019
684	JC 352353N	SUB	SUKHDEV SINGH	1/8/2019

685	JC 349131N	SUB	SURTA RAM VAISHNAV	1/3/2019
686	JC 351998K	SUB	TASVIR SINGH	1/6/2019
687	JC 351725F	SUB	TRIPATHI VEEPIN KUMAR RAMAKANT	1/8/2019
688	JC 352347A	SUB	UDAVANT MANOJ SAHEBRAO	1/7/2019
689	JC 348697P	SUB	UDAY KUMAR DAS	1/8/2019
690	JC 351993L	SUB	UTTEKAR SUNIL SITARAM	1/5/2019
691	JC 352391K	SUB	VED PRAKASH	1/8/2019

CORPSOF SIGNALS

692	JC 377789K	SUB	A ESAKKIAPPAN	1/6/2019
693	JC 382904H	SUB	A P RAMESH	1/3/2019
694	JC 381474X	SUB	A PERIANAYAGASAMY	1/3/2019
695	JC 382830Y	SUB	ABDUL CHAN BAJI	1/7/2019
696	JC 374133K	SUB	AJITH KUMAR KS	1/2/2019
697	JC 379627X	SUB	AKSHAYA KUMAR NAYAK	1/3/2019
698	JC 383615A	SUB	ANIL KUMAR B	1/4/2019
699	JC 376971X	SUB	ANIL KUMAR CK	1/2/2019
700	JC 374139L	SUB	ANIL KUMAR CP	1/2/2019
701	JC 382349A	SUB	ANIL KUMAR K	1/2/2019
702	JC 381428H	SUB	ANOOP	1/4/2019
703	JC 383133L	SUB	ARABINDA ROY	1/5/2019
704	JC 380892A	SUB	ARJUNA PRASAD TIWARI	1/3/2019
705	JC 381938K	SUB	ASHOK KUMAR BRAMHE	1/4/2019
706	JC 382265M	SUB	AUDHESH PRASAD VERMA	1/6/2019
707	JC 383545M	SUB	B GANGADHAR PATRO	1/5/2019
708	JC 383589K	SUB	BABU LAL	1/7/2019
709	JC 375024K	SUB	BALBEER SINGH BOHRA	1/2/2019
710	JC 379619Y	SUB	BASHISHTHA PRADHAN	1/4/2019
711	JC 383100A	SUB	BHOSALE GIRIDHAR BABURAO	1/5/2019
712	JC 375013X	SUB	BICHITRANANDA SAHOO	1/2/2019
713	JC 382678W	SUB	BINDESHWAR SAH	1/4/2019
714	JC 382476P	SUB	BIRJU SINGH	1/3/2019
715	JC 382769A	SUB	BRAJENDRA KUMAR	1/4/2019
716	JC 382457K	SUB	C PRABAHARAN	1/3/2019
717	JC 381136A	SUB	CHAITANYA PRADHAN	1/3/2019
718	JC 373399K	SUB	CHANDRA MOHANAN NAIR K	1/2/2019
719	JC 381605X	SUB	CHANDRA PAL SHUKLA	1/8/2019
720	JC 379380F	SUB	CHANDRA SINGH	1/6/2019
721	JC 375184K	SUB	D PRASAD	1/4/2019
722	JC 381436F	SUB	DALJIT SINGH	1/6/2019
723	JC 379632H	SUB	DESH RAJ JASWAL	1/6/2019
724	JC 382481A	SUB	DEVENAND PRASAD	1/4/2019
725	JC 382121K	SUB	DEVENDER SINGH	1/3/2019
726	JC 376223K	SUB	DEVENDRA PRATAP SINGH	1/6/2019
727	JC 376057F	SUB	DEVENDRA SINGH ADHIKARI	1/2/2019

728	JC 378302X	SUB	DEVENDRA SINGH PARIHAR	1/2/2019
729	JC 383154F	SUB	DHARAMBIR	1/4/2019
730	JC 384104H	SUB	DILLIPA KUMAR MAHARANA	1/5/2019
731	JC 382720K	SUB	DUKARE PRADIP KESHAO	1/2/2019
732	JC 375017N	SUB	DULAL CHANDRA MANDAL	1/3/2019
733	JC 385132F	SUB	DURGA PRASAD RAO ARDHI	1/3/2019
734	JC 379544M	SUB	G SHANMUGAM	1/6/2019
735	JC 382679Y	SUB	GANESH PANDEY	1/4/2019
736	JC 382120F	SUB	GANESH PRASAD YADAV	1/2/2019
737	JC 373894H	SUB	GANESHAN E	1/2/2019
738	JC 379034L	SUB	GARUD DATTATRAY GOVIND	1/5/2019
739	JC 376985X	SUB	GAWALI NAMDEV SHIVAJI	1/5/2019
740	JC 383575K	SUB	GOVERDHAN DHAMANDE	1/4/2019
741	JC 380914N	SUB	GOVIND SINGH RAWAT	1/4/2019
742	JC 380924X	SUB	GYANESH JOSHI	1/3/2019
743	JC 382332M	SUB	HARISH CHANDRA SINGH	1/2/2019
744	JC 383330N	SUB	HARISH KUMAR CHATURVEDI	1/2/2019
745	JC 383313N	SUB	HARJINDER SINGH	1/4/2019
746	JC 381434W	SUB	IMTIYAZ AHMAD	1/6/2019
747	JC 380669W	SUB	INDRA BAHADUR THAPA	1/4/2019
748	JC 382183K	SUB	JAGAT PAL SINGH	1/4/2019
749	JC 373607N	SUB	JAI PARKASH	1/7/2019
750	JC 379727H	SUB	JASWANT SINGH	1/4/2019
751	JC 383358N	SUB	JAVALEKAR ANIL RAJARAM	1/7/2019
752	JC 374434N	SUB	K LOGANATHAN	1/4/2019
753	JC 376601X	SUB	K RAVI	1/5/2019
754	JC 383473N	SUB	K VASUDEVAN	1/7/2019
755	JC 382448H	SUB	KABADE ANIL BABU	1/3/2019
756	JC 381102M	SUB	KALU RAM	1/8/2019
757	JC 380668N	SUB	KAMBALE JALINDAR ARJUN	1/4/2019
758	JC 382348X	SUB	KHARAK SINGH	1/2/2019
759	JC 382477X	SUB	KISHORI LAL	1/3/2019
760	JC 374131Y	SUB	KRISHAN YADAV	1/4/2019
761	JC 378296P	SUB	KULAMANI JENA	1/3/2019
762	JC 384237Y	SUB	KUMUD KUMAR	1/5/2019
763	JC 381140H	SUB	KUMUD RANJAN MALLICK	1/8/2019
764	JC 382464A	SUB	KUMUD RANJAN SAHU	1/3/2019
765	JC 381814P	SUB	LALIT MOHAN SINGH SHAHI	1/4/2019
766	JC 381085X	SUB	LOKANDER KUMAR	1/8/2019
767	JC 374433L	SUB	M KUMARESAN	1/4/2019
768	JC 381295X	SUB	M MURUGAN	1/3/2019
769	JC 377796A	SUB	M SATEESH	1/3/2019
770	JC 375020N	SUB	MAHENDRA NATH CHAUHAN	1/3/2019
771	JC 375170K	SUB	MAHESH KUMAR SINGH	1/3/2019
772	JC 380893H	SUB	MANOJ KUMAR SINGH	1/4/2019
773	JC 381433N	SUB	MASKE VIKRAM BHAGAWAN	1/4/2019

774	JC 374425M	SUB	MATA PRASAD SHUKLA	1/4/2019
775	JC 381662Y	SUB	MD MOBAREK ALI	1/4/2019
776	JC 381139N	SUB	MITKAR BHAGWAN MAHASUBA	1/4/2019
777	JC 383363Y	SUB	MOHAN SINGH	1/8/2019
778	JC 382478A	SUB	MOHAN SINGH BHATI	1/3/2019
779	JC 381931A	SUB	MOTI LAL	1/4/2019
780	JC 378670M	SUB	MRITUNJAY SHARMA	1/7/2019
781	JC 382869L	SUB	MUKESH KUMAR	1/4/2019
782	JC 381313P	SUB	MUNENDRA PAL SHARMA	1/4/2019
783	JC 375168M	SUB	MUTHUSAMY S	1/5/2019
784	JC 381719H	SUB	NARENDAR PAL SINGH	1/4/2019
785	JC 383156M	SUB	NARENDER KUMAR	1/4/2019
786	JC 382460K	SUB	NARENDRA SINGH PROLIA	1/2/2019
787	JC 377459L	SUB	NETRA PAL SINGH	1/3/2019
788	JC 382461M	SUB	NILANJAN SAHA	1/3/2019
789	JC 377460A	SUB	NIRAKAR BEHERA	1/2/2019
790	JC 375407W	SUB	NIRANJAN PATRA	1/3/2019
791	JC 381300X	SUB	NIYAMAT ALI	1/8/2019
792	JC 380925A	SUB	OMDATT SINGH SHISHODIA	1/3/2019
793	JC 381391M	SUB	P ISAC	1/3/2019
794	JC 382458M	SUB	PANDI A	1/3/2019
795	JC 382888W	SUB	PANKAJ KUMAR PANDEY	1/4/2019
796	JC 381296A	SUB	PARMINDER SINGH	1/6/2019
797	JC 381476H	SUB	PATOLE BALU PETRAS	1/4/2019
798	JC 376738K	SUB	PAWAR BALASAHEB SHAMARAO	1/5/2019
799	JC 382463X	SUB	PRABHAKAR MOHARANA	1/3/2019
800	JC 374431A	SUB	PRADEEP KUMAR BHADOURIA	1/2/2019
801	JC 382383A	SUB	PRAKASH K	1/3/2019
802	JC 381928A	SUB	PRAVIN KUMAR	1/2/2019
803	JC 374409P	SUB	PRAYAG DATT	1/4/2019
804	JC 381088L	SUB	PROMOD KUMAR MAAN	1/6/2019
805	JC 383314W	SUB	PURAN SINGH BISHT	1/4/2019
806	JC 382470N	SUB	PURSOTTAM SAINI	1/3/2019
807	JC 377487X	SUB	R SENTHIL KUMARAN	1/5/2019
808	JC 383562M	SUB	RADHA KRISHNA PANDEY	1/3/2019
809	JC 382695W	SUB	RADHAKRISHNA PILLAI S	1/7/2019
810	JC 381604P	SUB	RAGHAV JI DUBEY	1/3/2019
811	JC 381196P	SUB	RAJ KUMAR	1/2/2019
812	JC 373608W	SUB	RAJ KUMAR SINGH	1/8/2019
813	JC 374141H	SUB	RAJEEVAN VK	1/2/2019
814	JC 382347P	SUB	RAJENDRA	1/2/2019
815	JC 382541K	SUB	RAJENDRA KUMAR CHAND	1/3/2019
816	JC 382168P	SUB	RAJENDRA PRASAD	1/2/2019
817	JC 382310N	SUB	RAJESH KUMAR YADAV	1/4/2019
818	JC 377461H	SUB	RAJINDER SINGH	1/4/2019
819	JC 383320K	SUB	RAJNEESH KAUSHAL	1/7/2019

820	JC 381090H	SUB	RAJVIR SINGH	1/3/2019
821	JC 373878L	SUB	RAKESH CHANDRA DHYANI	1/3/2019
822	JC 380930L	SUB	RAKESH KUMAR JARWAL	1/4/2019
823	JC 382172X	SUB	RAM DATT	1/4/2019
824	JC 382379X	SUB	RAM KISHORE MISHRA	1/3/2019
825	JC 383344N	SUB	RAM KUMAR	1/2/2019
826	JC 380877L	SUB	RAM NARESH	1/4/2019
827	JC 374146F	SUB	RAM NIWAS SINGH	1/2/2019
828	JC 382455Y	SUB	RAMESH CHANDRA JOSHI	1/3/2019
829	JC 383316F	SUB	RAMESH KUMAR	1/4/2019
830	JC 382224H	SUB	RANA SHOBHA KANT SINGH	1/2/2019
831	JC 382085K	SUB	S VENKAT RAJ	1/3/2019
832	JC 374432H	SUB	SAKTI PRASAD SATAPATHY	1/3/2019
833	JC 383467A	SUB	SAMSHER SINGH	1/4/2019
834	JC 380874X	SUB	SANGRAM KESHARI ROUT	1/3/2019
835	JC 381860K	SUB	SANJAY KUMAR HALDER	1/4/2019
836	JC 377786W	SUB	SANSAR SINGH	1/4/2019
837	JC 383288A	SUB	SANTHOSH KUMAR S	1/4/2019
838	JC 381939M	SUB	SANTOSH SINGH	1/7/2019
839	JC 383343L	SUB	SANTRAM BABU PATIL	1/2/2019
840	JC 382264K	SUB	SAROJ KUMAR PANDA	1/7/2019
841	JC 381658W	SUB	SAROJIT DATTA	1/4/2019
842	JC 382490F	SUB	SARVESH KUMAR VERMA	1/3/2019
843	JC 383078A	SUB	SASI KUMAR NK	1/3/2019
844	JC 383158X	SUB	SATBIR	1/4/2019
845	JC 373606L	SUB	SATBIR SINGH	1/7/2019
846	JC 382459P	SUB	SATENDRA SINGH	1/3/2019
847	JC 383131A	SUB	SATISH KUMAR	1/5/2019
848	JC 382331K	SUB	SHAIKH SALIM ADAM	1/2/2019
849	JC 383621N	SUB	SHAMBUNATH TIWARI	1/4/2019
850	JC 383157P	SUB	SHIV PAL SINGH SHARMA	1/4/2019
851	JC 373845A	SUB	SHIV SINGH	1/3/2019
852	JC 382305H	SUB	SHYAM BIHARI	1/4/2019
853	JC 382824L	SUB	SOMAN C H	1/4/2019
854	JC 382378P	SUB	SOMISETTY NAGARAJU	1/3/2019
855	JC 383271M	SUB	SRIKANTA MANDAL	1/3/2019
856	JC 374136X	SUB	SUBE SINGH	1/2/2019
857	JC 381821L	SUB	SUGATHAN PK	1/6/2019
858	JC 379960W	SUB	SUKHBIR SINGH	1/8/2019
859	JC 383464M	SUB	SUKHPAL SINGH	1/3/2019
860	JC 383334K	SUB	SUNDAR SINGH SIROLA	1/5/2019
861	JC 379910L	SUB	SUNIL KUMAR SINGH	1/3/2019
862	JC 378679F	SUB	SUNIL KUMAR V C	1/5/2019
863	JC 383159A	SUB	SURENDERAN NAIR C	1/4/2019
864	JC 383155K	SUB	SURESH KUMAR	1/4/2019
865	JC 382834P	SUB	SURESH KUMAR N	1/7/2019

866	JC 380665A	SUB	SURESH KUMAR YADAV	1/3/2019
867	JC 383419A	SUB	SWAPAN KUMAR CHAKRABORTY	1/3/2019
868	JC 386081L	SUB	TANGI NAGABHUSHANA RAO	1/7/2019
869	JC 382825N	SUB	TARAK NATH SINGH	1/4/2019
870	JC 382374Y	SUB	TARUN KUMAR ROY	1/2/2019
871	JC 382768X	SUB	THOMAS K P	1/2/2019
872	JC 380894L	SUB	TONDARE BASAVESHWAR PRABHAKARAPPA	1/4/2019
873	JC 383319P	SUB	UMESH CHANDRA NISAD	1/5/2019
874	JC 374414A	SUB	UTTAM KUMAR HAR	1/4/2019
875	JC 382456F	SUB	V SUBRAMANYAM RAJU	1/3/2019
876	JC 381126W	SUB	VARGHESE JOB	1/4/2019
877	JC 380929W	SUB	VIDYANAND JHA	1/6/2019
878	JC 382376K	SUB	VIJAY KUMAR	1/2/2019
879	JC 382382X	SUB	VINEET YADAV	1/3/2019
880	JC 383128A	SUB	VINOD KUMAR	1/2/2019
881	JC 379840X	SUB	VIPAN KUMAR	1/4/2019
882	JC 382180W	SUB	VIRENDER SINGH	1/2/2019
883	JC 383417P	SUB	VISHNU PRASAD	1/2/2019
884	JC 381945A	SUB	ZILE SINGH	1/2/2019

THE BRIGADE OF GUARDS

885	JC 404934H	SUB	AJOY KUMAR NATH	1/7/2019
886	JC 404364X	SUB	AMOD KUMAR SINGH	1/4/2019
887	JC 405211A	SUB	BALAM SINGH	1/3/2019
888	JC 404962P	SUB	BATAVAL KAILAS NANA	1/3/2019
889	JC 404444P	SUB	BHAGWAN CHANDRA SAHOO	1/5/2019
890	JC 404611A	SUB	BIRENDRA KUMAR MISHRA	1/4/2019
891	JC 405076X	SUB	BOTANGLE PANDURANG BHAU	1/4/2019
892	JC 405261L	SUB	BUL CHANDRA DAS	1/5/2019
893	JC 404963X	SUB	CHANDRAMANI PRASAD DWIVEDI	1/4/2019
894	JC 405067W	SUB	DEEP CHAND	1/3/2019
895	JC 404999W	SUB	GANESH KUMAR ANNADURAI A	1/7/2019
896	JC 405132L	SUB	HANSRAJ YADAV	1/3/2019
897	JC 404947A	SUB	IKBAL KHAN	1/4/2019
898	JC 405313W	SUB	INDER SINGH KHARAYAT	1/5/2019
899	JC 404837L	SUB	INDRA MOHAN KUMAR	1/3/2019
900	JC 404759Y	SUB	JAI SINGH KULHARI	1/3/2019
901	JC 404761W	SUB	JANG BAHADUR	1/3/2019
902	JC 405176H	SUB	JATAN KUMAR ZAMATIA	1/3/2019
903	JC 404897A	SUB	KARAN PAL	1/7/2019
904	JC 405384X	SUB	KESHOB GOGOI	1/5/2019
905	JC 404754A	SUB	KHATIB SADIK SAHEB HASAN SAHEB	1/4/2019
906	JC 404599K	SUB	KRISHNA DORJEE	1/5/2019
907	JC 405330W	SUB	KRISHNA KANTA SUTRADHAR	1/5/2019
908	JC 405273A	SUB	LALU RAM	1/5/2019

909	JC 404454Y	SUB	MADHU SUDHAN SINGH	1/4/2019
910	JC 404548W	SUB	MAHIPAL SINGH	1/3/2019
911	JC 404878P	SUB	MANOJ KUMAR SINGH YADAV	1/4/2019
912	JC 404363P	SUB	MANOJ KUMAR TIWARI	1/3/2019
913	JC 404705X	SUB	NARESH KUMAR	1/3/2019
914	JC 405129L	SUB	NARESH KUMAR	1/5/2019
915	JC 405214N	SUB	OM PARKASH	1/3/2019
916	JC 404740A	SUB	OM PRAKASH YADAWA	1/5/2019
917	JC 404927M	SUB	PRANAB KUMAR MANDAL	1/2/2019
918	JC 405392W	SUB	PRITAM SINGH	1/5/2019
919	JC 404553F	SUB	RAJ BAHDUR	1/4/2019
920	JC 405075P	SUB	RAJENDER SINGH	1/3/2019
921	JC 405385A	SUB	RAJESH PRADHAN	1/6/2019
922	JC 405082L	SUB	RAM DULARE	1/5/2019
923	JC 405083N	SUB	RAM JANAK SINGH	1/5/2019
924	JC 404493X	SUB	RAM NARESH	1/4/2019
925	JC 405101L	SUB	RAMESH CHANDRA VERMA	1/5/2019
926	JC 404690A	SUB	RAMESH KUMAR,M-IN-D	1/3/2019
927	JC 404755H	SUB	SADANANDA SETHI	1/4/2019
928	JC 404226W	SUB	SANKARSAN NAYAK	1/6/2019
929	JC 405092P	SUB	SATISH KUMAR CHETTRI	1/3/2019
930	JC 404154X	SUB	SATVIR SINGH	1/3/2019
931	JC 404549Y	SUB	SHASHI BHUSHAN	1/4/2019
932	JC 404879X	SUB	SHEKH MUSTUFA BHAI HASAN BHAJ	1/3/2019
933	JC 404722X	SUB	SHIV BARAN SINGH	1/2/2019
934	JC 404877M	SUB	SHIV PRASAD PRAJAPATI	1/4/2019
935	JC 404896X	SUB	SRI BHAGWAN YADAV	1/4/2019
936	JC 405180L	SUB	SURENDER KUMAR	1/4/2019
937	JC 404991K	SUB	SURENDRA KUMAR	1/4/2019
938	JC 405192A	SUB	THAPA SANJIV KUMAR SURENDRA KUMAR	1/6/2019
939	JC 404727W	SUB	TONDE RAJENDRA HARI BHAU	1/4/2019
940	JC 404845K	SUB	VIPAN KUMAR	1/5/2019
941	JC 405000X	SUB	YOGENDRA PAL SINGH	1/8/2019

THE PARACHUTE REGIMENT

942	JC 413450K	SUB	BASTI RAM BISHNOI	1/7/2019
943	JC 413006N	SUB	G RAMESH	1/5/2019
944	JC 413358L	SUB	GHORAPADE ANIL KUMAR ANNA	1/2/2019
945	JC 413330L	SUB	HANAMANT SIDDAPUR	1/3/2019
946	JC 413508W	SUB	JAGBIR SINGH	1/5/2019
947	JC 413757P	SUB	KHASHTI BALLABH	1/7/2019
948	JC 413515M	SUB	MADAN SINGH	1/5/2019
949	JC 413509Y	SUB	MAHENDRA SINGH RATHORE	1/5/2019
950	JC 413520X	SUB	MANGAL SINGH RAWAT	1/8/2019
951	JC 471255X	SUB	OMBIR SINGH	1/3/2019

952	JC 413733L	SUB	PRATHVIRAJ SINGH RATHUR	1/4/2019
953	JC 413775X	SUB	PULAPA DHANANJAYA RAO	1/3/2019
954	JC 413544F	SUB	RAM BABU PRASAD YADAV	1/6/2019
955	JC 413411L	SUB	RAM LAL YADAV	1/5/2019
956	JC 413561F	SUB	RAMASHARAY PURI	1/6/2019
957	JC 413412N	SUB	SARAVANAN R	1/7/2019
958	JC 413494F	SUB	SHIO KUMAR YADAV	1/6/2019
959	JC 413731A	SUB	SUR SINGH	1/3/2019
960	JC 413636N	SUB	SURESH CHAND	1/7/2019
961	JC 413397K	SUB	UTTAM SINGH	1/6/2019
962	JC 481439K	SUB	VINOD SINGH	1/7/2019
963	JC 413756M	SUB	VIRPAL SINGH	1/5/2019
964	JC 413007W	SUB	VUPPADA NARAYANA RAO	1/6/2019

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

965	JC 421791K	SUB	A IBOCHOW SINGHA	1/2/2019
966	JC 421673W	SUB	AJIT KUMAR MISHRA	1/4/2019
967	JC 421537A	SUB	AKHILESH PRASAD	1/6/2019
968	JC 421255F	SUB	ANUP SARKAR	1/7/2019
969	JC 421744M	SUB	ARJUN KOLAMBKAR	1/5/2019
970	JC 421825M	SUB	ARVIND KUMAR SAHU	1/7/2019
971	JC 421419M	SUB	ASHOK KUMAR	1/6/2019
972	JC 421602P	SUB	ASHWANI KUMAR	1/7/2019
973	JC 421727M	SUB	ASHWANI KUMAR SAHU	1/2/2019
974	JC 420996M	SUB	BUSUROTHU SRINIVASA RAO	1/3/2019
975	JC 421437P	SUB	CHAVADA RAMA HAMIR	1/4/2019
976	JC 422058L	SUB	DEVENDRA KUMAR MISHRA	1/2/2019
977	JC 422117M	SUB	DEVENDRA PAL SINGH	1/8/2019
978	JC 421751H	SUB	DIGVIJAY SINGH	1/3/2019
979	JC 421422M	SUB	DILIP KUMAR	1/5/2019
980	JC 421132P	SUB	DINESH KUMAR SHARMA	1/3/2019
981	JC 421692F	SUB	DINESH PRASHAD TIWARI	1/2/2019
982	JC 421840F	SUB	DIWAKAR	1/5/2019
983	JC 421669N	SUB	GABINDA CHANDRA BASUMATARY	1/4/2019
984	JC 421489L	SUB	GONTINA RAMANA	1/6/2019
985	JC 421539L	SUB	GORAKH NATH PANDEY	1/2/2019
986	JC 421565M	SUB	HARAKHU RAM	1/2/2019
987	JC 421490A	SUB	HARJINDER SINGH	1/8/2019
988	JC 421599A	SUB	JADHAV RAJENDRA RAMRAO	1/4/2019
989	JC 421484M	SUB	JAGAN NATH PRASAD	1/5/2019
990	JC 422093N	SUB	JASWANT RAWAL	1/3/2019
991	JC 421411A	SUB	JAWAN SINGH GURJAR	1/7/2019
992	JC 422145Y	SUB	K MURUGESAN	1/4/2019
993	JC 422230F	SUB	K SUBRAMANIAN	1/3/2019
994	JC 422142L	SUB	KAMAL SAHA	1/3/2019
995	JC 421471P	SUB	KRISHAN KUMAR	1/3/2019

996	JC 421560N	SUB	KRISHNANAND SINGH	1/5/2019
997	JC 421781A	SUB	LUTFUL HAQUE	1/2/2019
998	JC 421429W	SUB	MAHESH CHANDRA ZALAYA	1/5/2019
999	JC 421636H	SUB	MAHESH KUMAR	1/7/2019
1000	JC 421087N	SUB	MAHIPAL SINGH	1/6/2019
1001	JC 421826P	SUB	MANAS PATTANAYAK	1/7/2019
1002	JC 421967K	SUB	MANOJ KUMAR MISHRA	1/7/2019
1003	JC 421254Y	SUB	MATABUL HOQUE BARBHUIYA	1/8/2019
1004	JC 422204A	SUB	MOOL KUMAR SINGH	1/5/2019
1005	JC 421434F	SUB	MRITYUNJOY GHOSH	1/5/2019
1006	JC 421106N	SUB	N SIVENDRAN	1/7/2019
1007	JC 421902W	SUB	P JAYASEELAN	1/7/2019
1008	JC 421801H	SUB	PITTAM V SUBBA REDDY	1/3/2019
1009	JC 422363X	SUB	POORAN SINGH	1/5/2019
1010	JC 422070M	SUB	PRABHAT DEKA	1/3/2019
1011	JC 421333N	SUB	PRAMOD KUMAR	1/3/2019
1012	JC 422384N	SUB	PREM PAL SINGH	1/5/2019
1013	JC 421635A	SUB	PYARE LAL JANGIR	1/3/2019
1014	JC 421269F	SUB	RAJESHWAR SINGH	1/6/2019
1015	JC 421922K	SUB	RAJINDER SINGH	1/6/2019
1016	JC 421986P	SUB	RAM MOHAN	1/5/2019
1017	JC 422131Y	SUB	RAMSEWAK MISTRY	1/3/2019
1018	JC 421526N	SUB	RANGUMUDRI RAMI NAIDU	1/3/2019
1019	JC 422234X	SUB	S MAHESHA	1/5/2019
1020	JC 422144W	SUB	SAHANI SHIVSAHAY SHREEKRISHNAN	1/5/2019
1021	JC 421984K	SUB	SAM KENNEDY D	1/7/2019
1022	JC 421421K	SUB	SANJAI KUMAR	1/6/2019
1023	JC 422328P	SUB	SANJAY KUMAR	1/3/2019
1024	JC 422534Y	SUB	SATHE SANJAY KISAN	1/5/2019
1025	JC 422068P	SUB	SATY PAL SINGH	1/2/2019
1026	JC 422365H	SUB	SHAIK CHINNA KHALESHA	1/5/2019
1027	JC 421222W	SUB	SHEO KUMAR SINGH	1/8/2019
1028	JC 421697A	SUB	SHIV DAYAL	1/7/2019
1029	JC 421486X	SUB	SIBAJI PAL	1/8/2019
1030	JC 421838K	SUB	SREE KUMAR P	1/8/2019
1031	JC 421671L	SUB	SUBEDAR SINGH YADAVA	1/4/2019
1032	JC 421782H	SUB	SUDHIR	1/8/2019
1033	JC 422299L	SUB	VARINDER KUMAR	1/3/2019
1034	JC 421159M	SUB	VEERENDRA PRASAD	1/8/2019
1035	JC 422488P	SUB	VIJAY KUMAR CHOUDHARY	1/3/2019
1036	JC 421794X	SUB	VINOD KUMAR	1/5/2019
1037	JC 421428N	SUB	VISHNU BHENDWADE	1/3/2019

THE PUNJAB REGIMENT

1038	JC 431355A	SUB	AMRIK SINGH	1/3/2019
------	------------	-----	-------------	----------

1039	JC 431588F	SUB	ASHOK KUSWAHA	1/2/2019
1040	JC 431131A	SUB	ASHWANI KUMAR SHARMA	1/2/2019
1041	JC 431422A	SUB	BAHADUR SINGH	1/3/2019
1042	JC 431164L	SUB	BALVINDER SINGH	1/2/2019
1043	JC 431658P	SUB	BALWAN SINGH	1/4/2019
1044	JC 431580P	SUB	BHIM SINGH	1/7/2019
1045	JC 430860W	SUB	BHULLA SINGH	1/8/2019
1046	JC 431241P	SUB	BIRANCHI PAL	1/6/2019
1047	JC 431143P	SUB	BORUDE NARAYAN DATTATRAY	1/4/2019
1048	JC 431075M	SUB	C VASANTHA KUMAR	1/6/2019
1049	JC 431136Y	SUB	CHAMKAUR SINGH	1/2/2019
1050	JC 431093P	SUB	CHENCHAL SINGH	1/5/2019
1051	JC 431281W	SUB	GURCHARAN SINGH	1/3/2019
1052	JC 430889Y	SUB	GURDEEP SINGH	1/2/2019
1053	JC 431443W	SUB	GURINDER PAL SINGH	1/4/2019
1054	JC 431579A	SUB	HARJIT SINGH	1/7/2019
1055	JC 431356H	SUB	JAGTAR SINGH	1/3/2019
1056	JC 431641F	SUB	JANAK SINGH RANA	1/2/2019
1057	JC 431320K	SUB	JARNAIL SINGH	1/3/2019
1058	JC 431538W	SUB	JITENDER KUMAR	1/2/2019
1059	JC 430865P	SUB	JOHNSON PT	1/2/2019
1060	JC 431417P	SUB	KUMAR CHAND	1/7/2019
1061	JC 431533X	SUB	LAKHWIR SINGH	1/4/2019
1062	JC 431561K	SUB	MANJIT SINGH	1/3/2019
1063	JC 431369A	SUB	MOHAN SINGH	1/3/2019
1064	JC 430975K	SUB	NAIN SINGH	1/2/2019
1065	JC 430805A	SUB	NARENDER KUMAR	1/2/2019
1066	JC 431113X	SUB	NARINDER SINGH	1/2/2019
1067	JC 431212A	SUB	NAVAL KISHOR	1/2/2019
1068	JC 430876F	SUB	P GUNASEKARAN	1/3/2019
1069	JC 430985N	SUB	PANKAJ SINGH PUNDIR	1/4/2019
1070	JC 431186K	SUB	PARTAP SINGH	1/7/2019
1071	JC 430770P	SUB	PRADIP KUMAR	1/8/2019
1072	JC 430986W	SUB	PRAMOD KUMAR BISWAL	1/6/2019
1073	JC 431315Y	SUB	RAGHBIR SINGH	1/6/2019
1074	JC 431451P	SUB	RAJESH KUMAR	1/4/2019
1075	JC 431316F	SUB	RAM SARUP	1/2/2019
1076	JC 431385X	SUB	SANJEEV KUMAR	1/2/2019
1077	JC 430965A	SUB	SANTOKH SINGH	1/8/2019
1078	JC 430959M	SUB	SARAT KUMAR MISHRA	1/3/2019
1079	JC 431155K	SUB	SATNAM SINGH	1/2/2019
1080	JC 430837H	SUB	SHINDE GAJANAN SUBRAO	1/2/2019
1081	JC 431503A	SUB	SIRTAJ SINGH	1/5/2019
1082	JC 431589K	SUB	SURINDER SINGH	1/3/2019
1083	JC 431158X	SUB	SURINDER SINGH KANG	1/3/2019
1084	JC 430981X	SUB	THAKAR DASS	1/2/2019

1085	JC 431059P	SUB	VED PRAKASH PANDEY	1/7/2019
<u>THE MADRAS REGIMENT</u>				
1086	JC 440529W	SUB	A MURUGAN	1/7/2019
1087	JC 440768L	SUB	AJI KUMAR J	1/3/2019
1088	JC 440354Y	SUB	AK PREMARAJAN	1/3/2019
1089	JC 440593N	SUB	AK RAMACHANDRAN	1/4/2019
1090	JC 440483Y	SUB	ANIL KUMAR RS	1/6/2019
1091	JC 440670X	SUB	ANTHONI RAJ P	1/8/2019
1092	JC 440515W	SUB	BABULA PATRO	1/4/2019
1093	JC 440996N	SUB	BYREDDI RAJAREDDY	1/3/2019
1094	JC 440108N	SUB	C MUTHU KUMAR	1/3/2019
1095	JC 440400H	SUB	CHINNAVULA V RAMI REDDY	1/3/2019
1096	JC 440736H	SUB	DEEN DAYAL	1/2/2019
1097	JC 440503F	SUB	DEENA NATH PANDA	1/4/2019
1098	JC 440517F	SUB	ELANGO V	1/7/2019
1099	JC 440313P	SUB	ELUMALAI P	1/7/2019
1100	JC 440795P	SUB	G AROKIANATHAN	1/6/2019
1101	JC 440374M	SUB	GANTA BABU RAO	1/4/2019
1102	JC 440887F	SUB	GIRAMALLAPPA TELI	1/3/2019
1103	JC 440692W	SUB	J SHANKAR	1/3/2019
1104	JC 440144Y	SUB	JAYA KUMAR KR	1/6/2019
1105	JC 440836N	SUB	K RAVI	1/3/2019
1106	JC 440329A	SUB	KILLI MADHAVA RAO	1/7/2019
1107	JC 441229F	SUB	KOTHWAL ABDUL GAFOOR	1/4/2019
1108	JC 440107L	SUB	MADDU DHARMA RAO	1/3/2019
1109	JC 440460X	SUB	MAHIND ANANDA VITTHAL	1/3/2019
1110	JC 440427A	SUB	MANE MADHUKAR SADASHIV	1/3/2019
1111	JC 440344P	SUB	MATTA APPARAO	1/3/2019
1112	JC 440553M	SUB	N PREM KUMAR	1/3/2019
1113	JC 440938K	SUB	P RAGHUNATHAN	1/3/2019
1114	JC 440471K	SUB	PITTA TIRUPATI RAO	1/5/2019
1115	JC 439948F	SUB	PRADHANEPPA HULLUR	1/3/2019
1116	JC 440426X	SUB	PRADIP KUMAR BISWAS	1/3/2019
1117	JC 440420W	SUB	PRAKASH CHANDRA SOMAN	1/3/2019
1118	JC 440609N	SUB	R SHANKAR	1/8/2019
1119	JC 440659Y	SUB	RAJA DESINGU P	1/3/2019
1120	JC 439972X	SUB	RAJA RAJAN K	1/8/2019
1121	JC 440888K	SUB	RAYAPPA	1/3/2019
1122	JC 440274F	SUB	S KUMAR	1/3/2019
1123	JC 440561L	SUB	S LOURDU SAMY	1/5/2019
1124	JC 440630W	SUB	SANGAPPA GUNDALI	1/3/2019
1125	JC 440657N	SUB	SIDDAPPA DHARWAD	1/3/2019
1126	JC 440893P	SUB	SIDDAPPA MULAKURI	1/3/2019
1127	JC 441093H	SUB	SIVAKUMAR K	1/3/2019
1128	JC 440421Y	SUB	SIVAYYA MATHAD	1/3/2019

1129	JC 440958X	SUB	SUNDARA RAJAN A	1/3/2019
1130	JC 440693Y	SUB	SUNIL KUMAR T D	1/3/2019
1131	JC 440312M	SUB	SURESH BABU P	1/6/2019
1132	JC 441137P	SUB	VARAKALA BALANARAYANA	1/3/2019
1133	JC 440765X	SUB	VIJAY KUMAR	1/4/2019
1134	JC 441092A	SUB	VIJAY SA	1/2/2019
1135	JC 440431H	SUB	VIJAYAN R	1/4/2019
1136	JC 440346A	SUB	Y YESKIAPPAN	1/6/2019

THE GRENADIERS

1137	JC 451411P	SUB	ABBAS KHAN	1/8/2019
1138	JC 451064F	SUB	ANGAD SINGH	1/2/2019
1139	JC 449561M	SUB	ASHOK KUMAR	1/2/2019
1140	JC 451572X	SUB	BALBIR SINGH	1/3/2019
1141	JC 450999P	SUB	BALIK MOHD	1/2/2019
1142	JC 451000W	SUB	BARHAM PARKASH	1/2/2019
1143	JC 451251A	SUB	BHANWAR LAL SINWAR	1/3/2019
1144	JC 451517F	SUB	CHENNUPATI SRINIVASA RAO	1/4/2019
1145	JC 451674L	SUB	DARSHAN KUMAR SHARMA	1/5/2019
1146	JC 451599P	SUB	GHASEE RAM	1/6/2019
1147	JC 451363A	SUB	GURNAM SINGH	1/2/2019
1148	JC 451544L	SUB	KABI SURJYA GOUDA	1/4/2019
1149	JC 451405F	SUB	KHAGENDRA NATH MAITY	1/2/2019
1150	JC 451828P	SUB	KISHAN SINGH	1/7/2019
1151	JC 451039H	SUB	KRISHAN KUMAR	1/2/2019
1152	JC 451307F	SUB	MAHAVIR SINGH	1/3/2019
1153	JC 451353W	SUB	MAN SINGH SHEKHAWAT	1/7/2019
1154	JC 451570M	SUB	MOHAN DAS M	1/7/2019
1155	JC 451401L	SUB	MUHAMMAD ASIF KHAN	1/4/2019
1156	JC 451594W	SUB	NARANG SINGH	1/6/2019
1157	JC 451573A	SUB	NARENDER SINGH	1/3/2019
1158	JC 451496W	SUB	NAWAB ALI	1/3/2019
1159	JC 451449Y	SUB	PARSE SUDHAKAR SOPANRAO	1/3/2019
1160	JC 451734X	SUB	RAJ KUMAR CHOUDHARY	1/5/2019
1161	JC 451403W	SUB	RAJ KUMAR RAI	1/2/2019
1162	JC 451404Y	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	1/3/2019
1163	JC 452051W	SUB	RAJESH KUMAR	1/3/2019
1164	JC 451485K	SUB	RAM KHILARI	1/3/2019
1165	JC 451776K	SUB	RAVINDER SINGH	1/5/2019
1166	JC 451629F	SUB	SABIR ALI	1/6/2019
1167	JC 451015Y	SUB	SAROOP SINGH	1/8/2019
1168	JC 451355F	SUB	SHABBIR AHAMAD	1/3/2019
1169	JC 451939M	SUB	SHIV BAHADUR	1/4/2019
1170	JC 451826K	SUB	SHYAM VIR SINGH TOMAR	1/7/2019
1171	JC 451686H	SUB	SRI MUKHTIYAR SINGH BHADURIYA	1/3/2019

1172	JC 451664K	SUB	SUBHASH MANN	1/5/2019
1173	JC 451406K	SUB	SUBRATA KONAR	1/3/2019
1174	JC 451494L	SUB	SUNIL LAXMANRAO PACHGADE	1/4/2019
1175	JC 451729M	SUB	SURENDAR SINGH MANGAWA	1/3/2019
1176	JC 451480L	SUB	UDAR RAJENDRA BABURAO	1/3/2019
1177	JC 451618P	SUB	VIJAY SINGH	1/3/2019
1178	JC 451402N	SUB	YAKOOB ALI	1/8/2019

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

1179	JC 460283K	SUB	BAMBUGADE ASHOK DHONDIRAM	1/3/2019
1180	JC 460721F	SUB	BHASKARA BOVI	1/3/2019
1181	JC 460557K	SUB	BHIM SINGH	1/3/2019
1182	JC 460132L	SUB	BHOSALE MANSING SHRIRANG	1/5/2019
1183	JC 460545P	SUB	BHOSALE SADASHIVRAO YASHAVANTRAO	1/2/2019
1184	JC 459574X	SUB	DATE ANIL SHANKAR	1/2/2019
1185	JC 460637F	SUB	DAYANAND	1/3/2019
1186	JC 460427F	SUB	DESHMUKH PRASHANT ARVINDRAO	1/2/2019
1187	JC 460104Y	SUB	DHEKALE BALAVANT NARAYAN	1/2/2019
1188	JC 460816F	SUB	DIWANBADSHAH TORGAL	1/7/2019
1189	JC 460430F	SUB	GAIKWAD SUNIL BABURAO	1/8/2019
1190	JC 459814K	SUB	GAWASKAR SUBHASH BABU	1/2/2019
1191	JC 460156P	SUB	GUNJAL ASHOK JANYABAPU	1/3/2019
1192	JC 460284M	SUB	JADHAV NAGESHRAO ATMARAM	1/5/2019
1193	JC 460332F	SUB	JADHAV NIVAS RAMCHANDRA	1/3/2019
1194	JC 460258L	SUB	JADHAV SAHEBRAO ANJINATH	1/4/2019
1195	JC 460385A	SUB	JAMDAR SHAHAJI KRISHNA	1/3/2019
1196	JC 460252K	SUB	KALEL MAHADEO SUKHADEO	1/3/2019
1197	JC 460630X	SUB	KARAN SINGH	1/8/2019
1198	JC 460199K	SUB	KARPE DILIP RAMCHANDRA	1/6/2019
1199	JC 460468L	SUB	KATVARE SANJAY BALIRAM	1/5/2019
1200	JC 460272X	SUB	KOLTE PANDIT PATILBA	1/3/2019
1201	JC 460181N	SUB	LANDE BAJARANG BALKRISHNA	1/3/2019
1202	JC 460701N	SUB	LAWAND RAMESH VASANT	1/3/2019
1203	JC 460606F	SUB	MADHAB KALITA	1/5/2019
1204	JC 460186M	SUB	MAHESH DESAI	1/5/2019
1205	JC 459706A	SUB	MALEWAR VIJAYKUMAR BABURAO	1/3/2019
1206	JC 460226H	SUB	MANOHAR PARAB	1/8/2019
1207	JC 460276N	SUB	MUNNA	1/5/2019
1208	JC 460000X	SUB	PATIL YASHAWANT RAMCHANDRA	1/6/2019
1209	JC 460621W	SUB	PIRIDI RAMA RAO	1/7/2019
1210	JC 460508F	SUB	RAMADHAS P	1/4/2019
1211	JC 460434X	SUB	RAWOOL GOVIND RAMKRISHNA	1/3/2019
1212	JC 460422H	SUB	SAJEEVAN G	1/4/2019
1213	JC 460913Y	SUB	SALUNKHE SURESH GOVIND	1/7/2019
1214	JC 460631A	SUB	SATISH KUMAR SINGH	1/8/2019

1215	JC 460723M	SUB	SAWANT VIJAY SHANTARAM	1/7/2019
1216	JC 460549L	SUB	SUNIL DUTT SHARMA	1/3/2019
1217	JC 459692L	SUB	TUKARAM SHINDE	1/5/2019
1218	JC 460536N	SUB	VEDPAL SINGH	1/2/2019
1219	JC 459948H	SUB	VENKATEPPA BHUSARADDI	1/2/2019
1220	JC 460573F	SUB	VIJAYA KUMAR KURUP K	1/4/2019
1221	JC 460421A	SUB	WANI NARHARI KARBHARI	1/3/2019
1222	JC 460363F	SUB	YEWALE DATTATRAY VINAYAKRAO	1/7/2019

THE RAJPUTANA RIFLES

1223	JC 470404N	SUB	AJAY KUMAR SINGH	1/3/2019
1224	JC 471080A	SUB	AJEET KUMAR	1/4/2019
1225	JC 470753X	SUB	AMAR SINGH	1/7/2019
1226	JC 471211A	SUB	AMEE LAL	1/4/2019
1227	JC 471052N	SUB	ANIL KUMAR SINGH	1/3/2019
1228	JC 470995A	SUB	ARUN KUMAR SINGH	1/4/2019
1229	JC 471081H	SUB	ASHOK KUMAR	1/6/2019
1230	JC 471192A	SUB	ASHOK SINGH	1/4/2019
1231	JC 470966L	SUB	BABU LAL KHILERY	1/4/2019
1232	JC 471006Y	SUB	BALJIT SINGH	1/4/2019
1233	JC 471249K	SUB	BALVINDER SINGH	1/5/2019
1234	JC 471032A	SUB	BHOOP SINGH RATHOR	1/3/2019
1235	JC 470189N	SUB	CHATAR SINGH	1/7/2019
1236	JC 471407N	SUB	CHHAGAN SINGH	1/4/2019
1237	JC 471163L	SUB	DAULAT ALI	1/6/2019
1238	JC 470948H	SUB	DURGA PRASAD	1/6/2019
1239	JC 470346P	SUB	FATEH SINGH	1/3/2019
1240	JC 470993P	SUB	GAJ RAJ	1/4/2019
1241	JC 471105F	SUB	HARPAL SINGH	1/4/2019
1242	JC 470972Y	SUB	INDRAJ SINGH	1/3/2019
1243	JC 471213L	SUB	ISHWAR SINGH MAHALA	1/4/2019
1244	JC 470757N	SUB	JABAR SINGH	1/4/2019
1245	JC 470934H	SUB	JAGDISH PRASAD	1/3/2019
1246	JC 470556P	SUB	JAGDISH SINGH	1/8/2019
1247	JC 470986Y	SUB	JAI PRAKASH	1/4/2019
1248	JC 470974K	SUB	JAIVEER SINGH KUNDU	1/6/2019
1249	JC 471055F	SUB	JOTENDRA SINGH	1/5/2019
1250	JC 471107M	SUB	KAMALESH SINGH	1/4/2019
1251	JC 471261L	SUB	KARAN SINGH	1/3/2019
1252	JC 471184F	SUB	KRISHNA PAL SINGH	1/3/2019
1253	JC 470935L	SUB	MAHABIR SINGH	1/4/2019
1254	JC 469668H	SUB	MAHENDRA BAHADUR SINGH	1/3/2019
1255	JC 470831K	SUB	MAHESH KUMAR	1/6/2019
1256	JC 471307H	SUB	MAHIPAL SINGH	1/4/2019
1257	JC 471404A	SUB	MAHIPAL SINGH	1/5/2019

1258	JC 471210X	SUB	MANGA RAM GHOTIYA	1/4/2019
1259	JC 471114H	SUB	MANGAT SINGH	1/4/2019
1260	JC 470306N	SUB	MATHBER SINGH	1/5/2019
1261	JC 471096L	SUB	MD SABIR ALI GAZI	1/3/2019
1262	JC 470940W	SUB	NAGENDER KUMAR	1/4/2019
1263	JC 471099Y	SUB	NARENDER KUMAR	1/3/2019
1264	JC 470850P	SUB	NARESH SINGH TOMAR	1/4/2019
1265	JC 471217F	SUB	NATWAR SINGH	1/6/2019
1266	JC 470181F	SUB	OM PRAKASH	1/7/2019
1267	JC 471019W	SUB	PRADEEP KUMAR SINGH	1/3/2019
1268	JC 470855N	SUB	PRAMOD KUMAR RAI	1/3/2019
1269	JC 471095H	SUB	PRAVAL PRATAP SINGH	1/3/2019
1270	JC 470893K	SUB	PRAYAG SINGH	1/4/2019
1271	JC 470666K	SUB	PREM SINGH	1/3/2019
1272	JC 470924Y	SUB	RAGHUVVEER SINGH	1/7/2019
1273	JC 470555M	SUB	RAJ KUMAR	1/6/2019
1274	JC 470890W	SUB	RAJ SINGH	1/3/2019
1275	JC 471320M	SUB	RAJESH SINGH	1/4/2019
1276	JC 470869N	SUB	RAJESH SINGH TOMAR	1/4/2019
1277	JC 470689L	SUB	RAM GOPAL	1/6/2019
1278	JC 471238X	SUB	RAM NIWAS GURJAR	1/3/2019
1279	JC 470954W	SUB	RAM PAL SINGH SHEKHAWAT	1/4/2019
1280	JC 470827F	SUB	RAM PRAVESH SINGH	1/2/2019
1281	JC 470994X	SUB	RATAN CHANDRA MANDAL	1/4/2019
1282	JC 470865X	SUB	SAHI RAM JHAJHARIA	1/4/2019
1283	JC 471229W	SUB	SARJIT SINGH GURJAR	1/3/2019
1284	JC 470881P	SUB	SATYA PAL	1/3/2019
1285	JC 471151W	SUB	SATYAVIR SINGH	1/4/2019
1286	JC 471015A	SUB	SHEO SARJAN SINGH	1/8/2019
1287	JC 470984N	SUB	SHER SINGH	1/4/2019
1288	JC 471371A	SUB	SHISH RAM GUJAR	1/4/2019
1289	JC 471475F	SUB	SHIV BHADUR SINGH BHADOURAI	1/4/2019
1290	JC 471038F	SUB	SHIV RAJ SINGH CHAUHAN	1/2/2019
1291	JC 470838N	SUB	SHRI RAM GURJAR	1/3/2019
1292	JC 470562H	SUB	SHRI RAM SINGH	1/6/2019
1293	JC 471103W	SUB	SOHAN LAL	1/6/2019
1294	JC 471333K	SUB	SUBHASH CHANDRA KHAKHIL	1/3/2019
1295	JC 470755H	SUB	SURAJ BHAN SINGH	1/4/2019
1296	JC 471248F	SUB	SURENDRA SINGH	1/3/2019
1297	JC 470507M	SUB	SURESH BHADUR SINGH	1/3/2019
1298	JC 471196W	SUB	UMED SINGH	1/4/2019
1299	JC 470864P	SUB	VIJAY SINGH	1/3/2019
1300	JC 470977X	SUB	VIJESH PAL SINGH	1/4/2019
1301	JC 470814K	SUB	VINAY SINGH	1/3/2019
1302	JC 471488Y	SUB	VINOD SINGH	1/3/2019
1303	JC 470970N	SUB	WAJIR SINGH	1/6/2019

1304	JC 471296F	SUB	YOGENDER SINGH	1/3/2019
1305	JC 470816P	SUB	YOGENDRA SINGH	1/2/2019

THE RAJPUT REGIMENT

1306	JC 481268H	SUB	AISH PAL SINGH	1/3/2019
1307	JC 481142H	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	1/7/2019
1308	JC 481003Y	SUB	BABU LAL	1/2/2019
1309	JC 481225N	SUB	BAIJ NATH SINGH	1/5/2019
1310	JC 480538A	SUB	BASHISTHA MUNI	1/6/2019
1311	JC 481084K	SUB	BHAWANI SINGH	1/7/2019
1312	JC 481035F	SUB	BRAJ RAJ SINGH	1/3/2019
1313	JC 480562W	SUB	DARSHAN KUMAR	1/7/2019
1314	JC 481384L	SUB	HARGIAN SINGH	1/3/2019
1315	JC 480407P	SUB	HARI PARKASH	1/2/2019
1316	JC 481348A	SUB	MADHU SUDAN GHOSH	1/5/2019
1317	JC 481363P	SUB	MAHENDRA SINGH GURJAR	1/7/2019
1318	JC 481109L	SUB	MANDAGE BABAJI GENBHAU	1/7/2019
1319	JC 480343P	SUB	MANOJ KUMAR SINGH,SM	1/5/2019
1320	JC 480771N	SUB	MOHAMMAD BHOORE KHAN	1/2/2019
1321	JC 481092H	SUB	MOHAN SINGH	1/3/2019
1322	JC 481137X	SUB	MUKESH KUMAR SHARMA	1/4/2019
1323	JC 480637H	SUB	MUNNA TIWARI	1/7/2019
1324	JC 481037M	SUB	NABO KUMAR KHANRA	1/3/2019
1325	JC 480836W	SUB	OM PRAKASH	1/3/2019
1326	JC 480829A	SUB	PATHAN FIROJ KHAN	1/3/2019
1327	JC 481519F	SUB	PRADEEP SINGH	1/5/2019
1328	JC 481107A	SUB	PRAMOD KUMAR NAYAK	1/4/2019
1329	JC 480503K	SUB	PRATAP SINGH	1/3/2019
1330	JC 481360F	SUB	RAJ SINGH MABI	1/5/2019
1331	JC 481118M	SUB	RAMAVTAR SINGH GURJAR	1/7/2019
1332	JC 480767L	SUB	SHYAUDAN SINGH GURJAR	1/5/2019
1333	JC 480412A	SUB	SIYA RAM	1/3/2019
1334	JC 481004F	SUB	SREEPRAKASH RM	1/2/2019
1335	JC 481420L	SUB	SUBHAS CHANDRA MAJI	1/7/2019
1336	JC 480429N	SUB	SUJAY KUMAR DAS	1/4/2019
1337	JC 481342Y	SUB	SUNIL KUMAR	1/3/2019
1338	JC 480761K	SUB	SURENDRA KUMAR	1/7/2019
1339	JC 481041P	SUB	VED RAM	1/8/2019
1340	JC 480319Y	SUB	VIJAY PAL SINGH	1/3/2019
1341	JC 481218X	SUB	VIRAM SINGH CHAUHAN	1/7/2019

THE JAT REGIMENT

1342	JC 490781L	SUB	AMAN SINGH	1/7/2019
1343	JC 490842X	SUB	AMAR CHAND DOOT	1/5/2019
1344	JC 490802W	SUB	ANIL KUMAR	1/3/2019
1345	JC 490887X	SUB	ARJUN SINGH	1/4/2019

1346	JC 490916F	SUB	ARJUN SINGH	1/7/2019
1347	JC 490774P	SUB	BALBIR	1/3/2019
1348	JC 490826A	SUB	BANWARI LAL	1/3/2019
1349	JC 490923X	SUB	BIJAYA KUMAR DASH	1/4/2019
1350	JC 490968X	SUB	BIRPAL SINGH	1/2/2019
1351	JC 490324X	SUB	GOPAL LAL BAJYA	1/8/2019
1352	JC 491085A	SUB	HANS RAM	1/5/2019
1353	JC 490702L	SUB	HARI SINGH	1/3/2019
1354	JC 491131K	SUB	HARI SINGH GURJAR	1/5/2019
1355	JC 490837M	SUB	HARJINDER PAL	1/6/2019
1356	JC 490676P	SUB	HARVINDER KUMAR	1/7/2019
1357	JC 490773M	SUB	JAYANTA BAGCHI	1/2/2019
1358	JC 490807P	SUB	JOSE V JOHN	1/4/2019
1359	JC 491027W	SUB	LACHCHHI RAM CHAHAR	1/3/2019
1360	JC 491134X	SUB	NANDA RAM	1/7/2019
1361	JC 490878W	SUB	OM PARKASH	1/3/2019
1362	JC 490814L	SUB	PRAMOD KUMAR	1/4/2019
1363	JC 490808X	SUB	RADHA KRISHNA PILLAI R	1/4/2019
1364	JC 490948K	SUB	RAMESHWAR LAL	1/6/2019
1365	JC 490853K	SUB	RANVIR SINGH	1/7/2019
1366	JC 490777H	SUB	REKH SINGH GURJAR	1/7/2019
1367	JC 490718W	SUB	SAHEE RAM	1/3/2019
1368	JC 490734N	SUB	SANTOSH KUMAR	1/3/2019
1369	JC 490880N	SUB	SHIO LAL	1/3/2019
1370	JC 490834Y	SUB	SHRI BHAGWAN	1/3/2019
1371	JC 490889H	SUB	SHYAM BABOO PRASAD	1/3/2019
1372	JC 489745N	SUB	SUBH KARAN SINGH	1/2/2019
1373	JC 490988L	SUB	SUNIL KUMAR	1/7/2019
1374	JC 490465M	SUB	SURESH KUMAR	1/8/2019
1375	JC 490624Y	SUB	VISHNU	1/2/2019

THE SIKH REGIMENT

1376	JC 500543P	SUB	AJIT SINGH	1/3/2019
1377	JC 500611X	SUB	BAJINDER SINGH	1/3/2019
1378	JC 500281K	SUB	BALVIR SINGH	1/6/2019
1379	JC 500286H	SUB	DALWINDER SINGH	1/5/2019
1380	JC 500430M	SUB	DAVINDER SINGH	1/5/2019
1381	JC 500093H	SUB	DESHAMUKH DADAJI DATTATRAY	1/3/2019
1382	JC 500508M	SUB	DILBAGH SINGH	1/4/2019
1383	JC 500402A	SUB	HARDEV SINGH	1/4/2019
1384	JC 500536Y	SUB	HARDIP SINGH	1/4/2019
1385	JC 500707A	SUB	HARJINDER SINGH	1/3/2019
1386	JC 500522Y	SUB	HARMAIL SINGH	1/4/2019
1387	JC 499962X	SUB	JAGJIT SINGH	1/3/2019
1388	JC 500666F	SUB	JARNAIL SINGH	1/7/2019
1389	JC 499963A	SUB	JASWINDER SINGH	1/3/2019

1390	JC 500863K	SUB	MALKEIT SINGH	1/3/2019
1391	JC 500573M	SUB	MALKIT SINGH	1/3/2019
1392	JC 500115W	SUB	MAN SINGH	1/4/2019
1393	JC 500409K	SUB	MANJIT SINGH	1/7/2019
1394	JC 500846K	SUB	MANJIT SINGH	1/3/2019
1395	JC 500428P	SUB	MANOHAR SINGH	1/4/2019
1396	JC 500387W	SUB	OM PRAKASH MAHATO	1/4/2019
1397	JC 500617Y	SUB	PREM SINGH SANDHU	1/3/2019
1398	JC 500216K	SUB	RAJA RAM SHARMA	1/5/2019
1399	JC 500346M	SUB	RAMNIWAS GURJAR	1/7/2019
1400	JC 500511M	SUB	RANJIT SINGH	1/7/2019
1401	JC 499825Y	SUB	RUPINDER SINGH	1/4/2019
1402	JC 500504W	SUB	SALWINDER SINGH	1/4/2019
1403	JC 500432Y	SUB	SANSAR SINGH	1/5/2019
1404	JC 500962M	SUB	SARBJIT SINGH	1/3/2019
1405	JC 500422N	SUB	SATGUR SINGH	1/4/2019
1406	JC 500096W	SUB	SATNAM SINGH	1/3/2019
1407	JC 500436N	SUB	SATNAM SINGH	1/4/2019
1408	JC 500469Y	SUB	SATNAM SINGH	1/4/2019
1409	JC 500427M	SUB	SUKHDEEP SINGH	1/2/2019
1410	JC 500603Y	SUB	UMESH CHANDRA	1/7/2019
1411	JC 500114N	SUB	VIDYA SAGAR	1/4/2019

THE SIKH LIGHT INFANTRY

1412	JC 510110L	SUB	AVTAR SINGH	1/2/2019
1413	JC 510107L	SUB	BALBIR SINGH JASSAL	1/4/2019
1414	JC 509237F	SUB	BALJINDER SINGH	1/2/2019
1415	JC 510562N	SUB	BALVIR SINGH	1/7/2019
1416	JC 510051K	SUB	BALWANT SINGH	1/4/2019
1417	JC 510160W	SUB	BALWINDER SINGH	1/4/2019
1418	JC 510136A	SUB	BIKAR SINGH RAO	1/2/2019
1419	JC 509530Y	SUB	DALBIR SINGH	1/4/2019
1420	JC 510153A	SUB	DALBIR SINGH	1/4/2019
1421	JC 510223N	SUB	GAUSWAMI BABU GIRI SHAMBHU GIRI	1/4/2019
1422	JC 509921K	SUB	GURDEEP SINGH	1/4/2019
1423	JC 510037X	SUB	GURMEL SINGH	1/2/2019
1424	JC 509787K	SUB	HARBHAJAN SINGH	1/4/2019
1425	JC 510047F	SUB	HARNEK SINGH	1/4/2019
1426	JC 510132K	SUB	JADHAV VILAS ISHWARA	1/3/2019
1427	JC 509873P	SUB	JAGJEET SINGH	1/2/2019
1428	JC 510001Y	SUB	JAGJODH SINGH	1/4/2019
1429	JC 509485X	SUB	JAGROOP SINGH	1/2/2019
1430	JC 510266H	SUB	JAYA KUMAR S	1/5/2019
1431	JC 509992L	SUB	KULDIP SINGH	1/4/2019
1432	JC 510049M	SUB	KULDIP SINGH	1/2/2019

1433	JC 510268N	SUB	MAIL SINGH	1/2/2019
1434	JC 510090H	SUB	MUKHTIAR SINGH	1/2/2019
1435	JC 509907X	SUB	NAZAR SINGH	1/2/2019
1436	JC 510134P	SUB	PATIL ANANDRAO VASANTRAO	1/3/2019
1437	JC 510244K	SUB	PRAKASH C	1/4/2019
1438	JC 510175Y	SUB	RAJESH AN BHATT	1/3/2019
1439	JC 510126W	SUB	RAJINDER SINGH	1/2/2019
1440	JC 509688F	SUB	RAM SINGH	1/4/2019
1441	JC 510040X	SUB	RANJIT SINGH	1/2/2019
1442	JC 509967M	SUB	SARABJIT SINGH	1/2/2019
1443	JC 510115K	SUB	SATPAL SINGH	1/2/2019
1444	JC 510168H	SUB	SHYORAJ SINGH RANA	1/3/2019
1445	JC 510199H	SUB	SIKANDAR SINGH	1/7/2019
1446	JC 510217A	SUB	SUKHMINDER SINGH	1/2/2019
1447	JC 510147M	SUB	SUKHWINDER SINGH	1/2/2019
1448	JC 510289K	SUB	VIJAYA KUMAR V V	1/4/2019

THE DOGRA REGIMENT

1449	JC 521695K	SUB	AJAY SINGH	1/5/2019
1450	JC 521684X	SUB	ANIL KUMAR	1/6/2019
1451	JC 522056P	SUB	ANIL KUMAR SHARMA	1/3/2019
1452	JC 520986X	SUB	ANIL KUMAR THAKUR	1/5/2019
1453	JC 521549K	SUB	ASHOK KUMAR	1/7/2019
1454	JC 521809K	SUB	ASHWANI KUMAR	1/2/2019
1455	JC 521608L	SUB	BACHITAR KUMAR	1/3/2019
1456	JC 521703X	SUB	BALBIR SINGH	1/8/2019
1457	JC 521397N	SUB	BALDEV RAJ	1/7/2019
1458	JC 521581Y	SUB	BALWANT SINGH	1/6/2019
1459	JC 521471K	SUB	BHARAT BHUSHAN	1/8/2019
1460	JC 521576N	SUB	BHUPINDER SINGH	1/3/2019
1461	JC 521246P	SUB	CHOKHAN SINGH CHAHAR	1/3/2019
1462	JC 521472M	SUB	DESH RAJ	1/7/2019
1463	JC 522039P	SUB	DIDAR SINGH	1/5/2019
1464	JC 521662Y	SUB	GESAR CHAND	1/3/2019
1465	JC 522169X	SUB	GOPAL SINGH	1/7/2019
1466	JC 521765X	SUB	GURDAYAL SINGH	1/3/2019
1467	JC 521538X	SUB	HARDEV SINGH	1/5/2019
1468	JC 521440K	SUB	HARDYAL SINGH	1/6/2019
1469	JC 521553M	SUB	HARISH CHANDER	1/6/2019
1470	JC 521596F	SUB	HIRA NAND	1/8/2019
1471	JC 521676Y	SUB	IQBAL SINGH	1/8/2019
1472	JC 521928A	SUB	JAGDEV SINGH	1/3/2019
1473	JC 522111A	SUB	JATINDER KUMAR	1/5/2019
1474	JC 520997K	SUB	JIT SINGH	1/7/2019
1475	JC 521237N	SUB	JIT SINGH	1/5/2019
1476	JC 522010M	SUB	JOGINDER SINGH	1/3/2019

1477	JC 521660N	SUB	KAMLESH KUMAR	1/3/2019
1478	JC 521747P	SUB	KARAM SINGH	1/7/2019
1479	JC 521563W	SUB	KISHOR KUMAR	1/5/2019
1480	JC 520524L	SUB	KRISHAN SINGH	1/5/2019
1481	JC 521542A	SUB	KULDEEP SINGH	1/7/2019
1482	JC 521957P	SUB	KULDIP KUMAR	1/3/2019
1483	JC 521925M	SUB	MADAN SINGH	1/7/2019
1484	JC 521715M	SUB	MANJIT SINGH	1/6/2019
1485	JC 521259M	SUB	MD MURSALIM SK	1/4/2019
1486	JC 522101W	SUB	MOTI SINGH	1/7/2019
1487	JC 521663F	SUB	NARAINDER SINGH	1/3/2019
1488	JC 522058A	SUB	NARINDER PRAKASH	1/3/2019
1489	JC 521500N	SUB	PARAMJIT SINGH	1/6/2019
1490	JC 521728K	SUB	PARSHOTM LAL	1/3/2019
1491	JC 521395H	SUB	PARTAP CHAND	1/7/2019
1492	JC 521282A	SUB	PAWAN KUMAR	1/8/2019
1493	JC 521737L	SUB	PRAKASH CHAND	1/3/2019
1494	JC 521600Y	SUB	PREM CHAND	1/6/2019
1495	JC 521438M	SUB	PRITAM SINGH	1/3/2019
1496	JC 521735A	SUB	RAJESH KUMAR GULERIA	1/3/2019
1497	JC 522157W	SUB	RAJINDER DEV SINGH	1/7/2019
1498	JC 521673L	SUB	RAJINDER SINGH	1/8/2019
1499	JC 520360A	SUB	RAKESH CHAND	1/5/2019
1500	JC 521446L	SUB	RAKESH KUMAR	1/3/2019
1501	JC 521513L	SUB	RAM KRISHAN	1/4/2019
1502	JC 521258K	SUB	RAMESAN NAIR K	1/4/2019
1503	JC 521714K	SUB	RAMESH KUMAR	1/6/2019
1504	JC 521653X	SUB	RAVINDER KUMAR	1/3/2019
1505	JC 521704A	SUB	SANSAR SINGH	1/2/2019
1506	JC 521749A	SUB	SANTOSH KUMAR RANA	1/7/2019
1507	JC 521151P	SUB	SARTAJ SINGH	1/3/2019
1508	JC 521664K	SUB	SATISH KUMAR	1/5/2019
1509	JC 521312M	SUB	SOHAN LAL	1/6/2019
1510	JC 521363A	SUB	SURESH KUMAR	1/6/2019
1511	JC 519863Y	SUB	SURINDER KUMAR	1/7/2019
1512	JC 521406K	SUB	SURINDER SINGH	1/3/2019
1513	JC 522034W	SUB	SURINDER SINGH	1/5/2019
1514	JC 521597K	SUB	SURINDER SINGH BANDRAL	1/6/2019
1515	JC 521670X	SUB	SUSHIL CHAND KATOCH	1/7/2019
1516	JC 521746M	SUB	TARSEM LAL	1/7/2019
1517	JC 520382Y	SUB	UTTAM CHAND	1/2/2019
1518	JC 521953Y	SUB	VIJAY KUMAR	1/5/2019
1519	JC 521694X	SUB	VIPIN KUMAR	1/6/2019
1520	JC 521748X	SUB	VISHWA MITTER	1/7/2019

THE GARHWAL RIFLES

1521	JC 531164A	SUB	AJAYA KUMAR MOHANTY	1/4/2019
1522	JC 531027F	SUB	ANIL KUMAR POKHRIYAL	1/5/2019
1523	JC 531494Y	SUB	ARJUN SINGH NEGI	1/6/2019
1524	JC 531441A	SUB	BACHAN SINGH RAWAT	1/4/2019
1525	JC 531688F	SUB	BALBIR SINGH RAWAT	1/7/2019
1526	JC 531259A	SUB	BASUDEV SINGH	1/4/2019
1527	JC 531165H	SUB	BIRENDRA KUMAR SINGH	1/5/2019
1528	JC 531630K	SUB	BIRENDRA SINGH NEGI	1/6/2019
1529	JC 531704N	SUB	BIRENDRA SINGH RAWAT	1/6/2019
1530	JC 531148H	SUB	CHANDRA MOHAN SINGH	1/6/2019
1531	JC 531681X	SUB	DAYA NAND POKHIRYAL	1/6/2019
1532	JC 531327H	SUB	DEVENDRA PRASAD	1/5/2019
1533	JC 531660F	SUB	DHAN SINGH	1/6/2019
1534	JC 531589Y	SUB	DHARMENDRA SINGH	1/3/2019
1535	JC 531505A	SUB	DINESH SINGH RAWAT	1/4/2019
1536	JC 531634A	SUB	GAUTAM SINGH BHANDARI	1/3/2019
1537	JC 530136F	SUB	GOPAL MANI	1/5/2019
1538	JC 531140W	SUB	HOSHIYAR SINGH RAWAT	1/2/2019
1539	JC 530484H	SUB	JAIPAL SINGH	1/5/2019
1540	JC 531275X	SUB	KARAN SINGH	1/3/2019
1541	JC 530987N	SUB	KESHAR SINGH	1/8/2019
1542	JC 531166L	SUB	KUSHAL KUMAR	1/7/2019
1543	JC 531650X	SUB	LAKSHAMAN SINGH	1/5/2019
1544	JC 529923W	SUB	PRATAP SINGH YADAV	1/2/2019
1545	JC 531274P	SUB	PREM SINGH	1/7/2019
1546	JC 531127M	SUB	PRITAM SINGH	1/3/2019
1547	JC 531240F	SUB	PRITAM SINGH	1/6/2019
1548	JC 531702H	SUB	RAJESH KUMAR	1/6/2019
1549	JC 531371M	SUB	RAJESH KUMAR YADAV	1/5/2019
1550	JC 531599H	SUB	RAJPAL SINGH	1/3/2019
1551	JC 531798W	SUB	RAKESH PRASAD	1/3/2019
1552	JC 531653L	SUB	RAM SINGH KATHET	1/6/2019
1553	JC 531842P	SUB	RANBIR SINGH	1/7/2019
1554	JC 531217N	SUB	RANJIT SINGH	1/3/2019
1555	JC 531474L	SUB	ROSHAN LAL	1/6/2019
1556	JC 531260P	SUB	SAUKAR SINGH RAWAT	1/6/2019
1557	JC 531309A	SUB	SUMAN LAL	1/3/2019
1558	JC 531466M	SUB	SUNIL SINGH	1/3/2019
1559	JC 531243P	SUB	SURESH CHANDRA	1/2/2019
1560	JC 531438A	SUB	SURESH SINGH	1/3/2019
1561	JC 531712M	SUB	SURJEET SINGH RAWAT	1/6/2019
1562	JC 531114P	SUB	TEJENDRA SINGH	1/2/2019
1563	JC 531386P	SUB	UMA DATT	1/3/2019
1564	JC 531565P	SUB	VIJAY SINGH	1/3/2019

1565	JC 531524L	SUB	VIKRAM SINGH BIST	1/8/2019
1566	JC 531618H	SUB	VIKRAM SINGH NEGI	1/4/2019
1567	JC 531434K	SUB	YADUNATH SINGH	1/4/2019
1568	JC 531548P	SUB	YOGESH DUTT SHARMA	1/5/2019

THE KUMAON REGIMENT

1569	JC 540970N	SUB	BABU K V	1/4/2019
1570	JC 540880M	SUB	BASTI RAM YADAV	1/4/2019
1571	JC 541370X	SUB	BHAGWAN SINGH	1/8/2019
1572	JC 541052N	SUB	BHARAT SINGH	1/5/2019
1573	JC 541227L	SUB	BHUPAL SINGH RANA	1/5/2019
1574	JC 541106K	SUB	BIJENDER SINGH	1/4/2019
1575	JC 541346F	SUB	DABHOLE SHANKAR DNYANADEV	1/4/2019
1576	JC 541349P	SUB	DALEEP SINGH	1/7/2019
1577	JC 541024F	SUB	DEVAKI NANDAN	1/8/2019
1578	JC 541098W	SUB	DIN DAYAL	1/4/2019
1579	JC 540554K	SUB	DINESH CHANDRA	1/6/2019
1580	JC 541257H	SUB	DINESH SINGH DHAMI	1/7/2019
1581	JC 541131H	SUB	GIRISH CHANDRA JOSHI	1/6/2019
1582	JC 540839W	SUB	GOPAL SINGH	1/6/2019
1583	JC 541332F	SUB	JADHAV VASANT SHESHRAO	1/4/2019
1584	JC 540244Y	SUB	JANAK SINGH	1/2/2019
1585	JC 540799A	SUB	JAYPAL SINGH	1/3/2019
1586	JC 541407N	SUB	KHUSHAHAL SINGH CHAUHAN	1/8/2019
1587	JC 540907Y	SUB	LAL MANI	1/3/2019
1588	JC 541343N	SUB	LAXMAN SINGH RAWAL	1/3/2019
1589	JC 541322X	SUB	MADHAVA SINGH YADAVA	1/5/2019
1590	JC 541195N	SUB	MAHENDER SINGH	1/6/2019
1591	JC 541149Y	SUB	MAHENDRA SINGH RAUTELA	1/8/2019
1592	JC 540764K	SUB	MUNISHWAR SINGH	1/2/2019
1593	JC 541179W	SUB	OM PRAKASH SINGH	1/7/2019
1594	JC 541439W	SUB	PRAVEEN SINGH	1/8/2019
1595	JC 541169M	SUB	PURAN SINGH	1/8/2019
1596	JC 541268P	SUB	PURN SINGH	1/2/2019
1597	JC 541023Y	SUB	PUSHKAR SINGH	1/8/2019
1598	JC 541473W	SUB	PUSHKAR SINGH	1/5/2019
1599	JC 541545P	SUB	RAJ KUMAR	1/4/2019
1600	JC 541468L	SUB	RAJENDRA SINGH DHAUNI	1/5/2019
1601	JC 541502A	SUB	RAMA NAND	1/5/2019
1602	JC 541313W	SUB	RAMBIR SINGH	1/4/2019
1603	JC 540730W	SUB	ROHITASH SINGH YADAV	1/2/2019
1604	JC 541166Y	SUB	TAPAN KUMAR PRADHAN	1/4/2019
1605	JC 541022W	SUB	UMA KANT DWIVEDI	1/6/2019
1606	JC 540906W	SUB	V PADMA KUMAR	1/2/2019
1607	JC 541261L	SUB	VINOD CHAND RAJWAR	1/8/2019
1608	JC 541203F	SUB	VIRENDER SINGH YADAV	1/5/2019

1609	JC 541447P	SUB	YAVINDRA KUMAR	1/3/2019
<u>THE ASSAM REGIMENT</u>				
1610	JC 550093Y	SUB	BAL BAHADUR PRADHAN	1/2/2019
1611	JC 550588L	SUB	BHAGIRATH POWDEL	1/3/2019
1612	JC 550598P	SUB	BIJOY GOHAIN	1/3/2019
1613	JC 550381L	SUB	CHANDAN KUMAR NATH	1/3/2019
1614	JC 550738W	SUB	CHINGHANGYO KEISHING TANGKHUL NAGA	1/5/2019
1615	JC 550394H	SUB	DAMAR BAHADUR THAPA	1/8/2019
1616	JC 550745M	SUB	DAYAMAI DEB BARMA	1/3/2019
1617	JC 550542H	SUB	DEMLEN SANG	1/6/2019
1618	JC 550496Y	SUB	DHANESH CH RAY	1/7/2019
1619	JC 550323F	SUB	DHANESWAR BRAHMA	1/6/2019
1620	JC 549999X	SUB	DINESAN PUTHUR	1/6/2019
1621	JC 550088N	SUB	GAUTAM BARTHAKUR	1/5/2019
1622	JC 549997M	SUB	GIRDHARI LAL	1/2/2019
1623	JC 550337F	SUB	HIJAM AJIT KUMAR SINGH	1/5/2019
1624	JC 550627Y	SUB	J S CHANTHOI ANAL	1/5/2019
1625	JC 550296H	SUB	JAPAN CH HAZARIKA	1/7/2019
1626	JC 550486P	SUB	KAMESWAR DEKA	1/8/2019
1627	JC 550431L	SUB	KAPESH BORO	1/6/2019
1628	JC 550571X	SUB	KHAIDEM IBUNGOTON SINGH	1/5/2019
1629	JC 550216A	SUB	KHUMZAKAP	1/6/2019
1630	JC 550312P	SUB	L K MIL SAMTE	1/3/2019
1631	JC 549749W	SUB	L SHYAM KUMAR SINGH	1/2/2019
1632	JC 548849P	SUB	LAISHRAM SANJEET SINGH	1/8/2019
1633	JC 549061K	SUB	LALHRIETPUI	1/7/2019
1634	JC 550632K	SUB	LALVALA	1/3/2019
1635	JC 550052P	SUB	LANGHU TANGLUN ANAL	1/5/2019
1636	JC 550391P	SUB	LAZARUSH DAIMARI	1/6/2019
1637	JC 550513N	SUB	LH BENGAM ANAL	1/5/2019
1638	JC 550565K	SUB	LH WILLINGSON	1/3/2019
1639	JC 550484K	SUB	MAN KUMAR PRADHAN	1/6/2019
1640	JC 550473X	SUB	N DILIP KUMAR SINGH	1/5/2019
1641	JC 550317N	SUB	PAOKHAN THANG	1/5/2019
1642	JC 549806M	SUB	PAOTHANG KUKI	1/3/2019
1643	JC 550572A	SUB	PHONIDHAR GOGOI	1/5/2019
1644	JC 550564F	SUB	R LALTHUPIA	1/3/2019
1645	JC 550102P	SUB	ROKIMA	1/3/2019
1646	JC 550336Y	SUB	ROUKIENLO HMAR	1/6/2019
1647	JC 550672L	SUB	S S ANGPHUNG LAMKANG NAGA	1/3/2019
1648	JC 550265H	SUB	SABIT BARUAH	1/7/2019
1649	JC 550471M	SUB	SACHIN KUMAR RAY	1/2/2019
1650	JC 550440M	SUB	SHANTOSH SHARMA	1/3/2019
1651	JC 550436K	SUB	SIDDAK ALI MAZUMDER	1/5/2019

1652	JC 550464W	SUB	SOBON GAYARY	1/8/2019
1653	JC 550469P	SUB	SOMAL BASUMATARY	1/5/2019
1654	JC 550673N	SUB	SR LOVEJOY ANAL	1/3/2019
1655	JC 550411X	SUB	SWADRESWAR BRAHMA	1/6/2019
1656	JC 550599X	SUB	W S LUMVAL ANAL	1/5/2019
1657	JC 550254W	SUB	WAHENGBAM INAOTON SINGH	1/6/2019
1658	JC 550402W	SUB	Y HERAMANI SINGHA	1/6/2019
1659	JC 550010H	SUB	Y RAJENDRA SINGH	1/2/2019

THE BIHAR REGIMENT

1660	JC 560673F	SUB	AJAY KUMAR BIMAL	1/3/2019
1661	JC 560891A	SUB	AMAR NATH SINGH	1/4/2019
1662	JC 560910A	SUB	ANIL KUMAR MINJ	1/4/2019
1663	JC 560300N	SUB	ANTHONI SOREN	1/4/2019
1664	JC 559812N	SUB	ARVIND KUMAR BHARTI	1/3/2019
1665	JC 560528K	SUB	ASESH KUMAR GOCHHAYAT	1/3/2019
1666	JC 560581P	SUB	ASHOK KUMAR PANDEY	1/6/2019
1667	JC 560884K	SUB	BAL RAM KUMAR RAI	1/3/2019
1668	JC 560546M	SUB	BALRAM	1/8/2019
1669	JC 560734N	SUB	BHANWAR SINGH	1/3/2019
1670	JC 560369X	SUB	BHULESHWAR PRADHAN	1/4/2019
1671	JC 560804F	SUB	CHANDER DEO PRASAD YADAV	1/3/2019
1672	JC 560527F	SUB	DHANANJAY KUMAR PANDEY	1/4/2019
1673	JC 560790M	SUB	DHARMENDRA KUMAR SINGH	1/7/2019
1674	JC 560791P	SUB	DHIRENDRA KUMAR	1/7/2019
1675	JC 560964F	SUB	DINESH SINGH	1/4/2019
1676	JC 560706F	SUB	GAJENDRA KUMAR DWIVEDI	1/4/2019
1677	JC 560928W	SUB	GAUTTAM KUMAR SINGH	1/6/2019
1678	JC 560881W	SUB	KAILASH SINGH	1/3/2019
1679	JC 560807P	SUB	KAMLESH KUMAR	1/7/2019
1680	JC 560650A	SUB	KARUNAKAR DAS	1/4/2019
1681	JC 560179L	SUB	KRISHNA CHANDRA SAHU	1/2/2019
1682	JC 560794H	SUB	KRISHNA PRASAD SAH	1/7/2019
1683	JC 560828L	SUB	LAKSHMAN SAH	1/8/2019
1684	JC 560600P	SUB	LAL MOHAN SIDU	1/4/2019
1685	JC 560570H	SUB	M MURUGAN	1/2/2019
1686	JC 560829N	SUB	MADAN TIGGA	1/7/2019
1687	JC 560430W	SUB	MAN MOHAN NAYAK	1/7/2019
1688	JC 561221L	SUB	MANOJ KUMAR SINGH	1/4/2019
1689	JC 560885M	SUB	MINTU SINGH	1/3/2019
1690	JC 559865M	SUB	MOHENDRA NATH HEMBRAM	1/3/2019
1691	JC 560571L	SUB	MUHAMMAD SHAMIM	1/3/2019
1692	JC 560216N	SUB	NEELA MADHAB PRADHAN	1/4/2019
1693	JC 560786K	SUB	PREM KUMAR	1/3/2019
1694	JC 561075W	SUB	PREM KUMAR CHOUDHARY	1/5/2019
1695	JC 561249L	SUB	PREM KUMAR SINGH	1/6/2019

1696	JC 560822K	SUB	RADHA KANT PANDEY	1/3/2019
1697	JC 560360H	SUB	RAJESH BAXLA	1/2/2019
1698	JC 560739M	SUB	RAM LAL TIWARI	1/4/2019
1699	JC 560727X	SUB	RATIYA DUDA BHAI PUNJA BHAI	1/4/2019
1700	JC 560612K	SUB	SAHABIR ORAON	1/7/2019
1701	JC 561043N	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	1/2/2019
1702	JC 560765N	SUB	SHAILESH KUMAR	1/4/2019
1703	JC 560788P	SUB	SHAMBHU KUMAR SINGH	1/7/2019
1704	JC 561054A	SUB	SHASHI KANT SHRIVASTAVA	1/8/2019
1705	JC 561121A	SUB	SHEOJEE SINGH	1/4/2019
1706	JC 560789X	SUB	SHOBH NATH SINGH	1/7/2019
1707	JC 560764L	SUB	SIVA KUMAR K	1/4/2019
1708	JC 560388H	SUB	SUHAN KUMAR PRADHAN	1/4/2019
1709	JC 560718W	SUB	SUNIL TAMBA	1/8/2019
1710	JC 560067L	SUB	TRILOCHAN SINGH	1/7/2019
1711	JC 560860A	SUB	UMESH PRASAD YADAV	1/2/2019
1712	JC 560648H	SUB	UPENDRA RAI	1/3/2019
1713	JC 560622N	SUB	VRAT PAL SINGH	1/3/2019

THE MAHAR REGIMENT

1714	JC 570299X	SUB	AHIRE MADHUKAR BHAGCHAND	1/2/2019
1715	JC 570764Y	SUB	ALOK ROY	1/2/2019
1716	JC 570912Y	SUB	ANAND SINGH	1/3/2019
1717	JC 570565L	SUB	ARUN KUMAR SINGH	1/4/2019
1718	JC 570856L	SUB	BABU LAL KUSHWAHA	1/7/2019
1719	JC 570760H	SUB	BAHADUR SINGH DHAMI	1/5/2019
1720	JC 570663L	SUB	BALWANT SINGH	1/3/2019
1721	JC 570989F	SUB	BHANDARE RAJENDRA GOROBA	1/7/2019
1722	JC 569994A	SUB	BISWAJIT CHAKRABORTY	1/2/2019
1723	JC 570066W	SUB	DAYA RAM	1/5/2019
1724	JC 571113P	SUB	DEVENDRA DATT	1/7/2019
1725	JC 570661A	SUB	DEVENDRA DATT BHATT	1/3/2019
1726	JC 570682W	SUB	DHANVEER SINGH	1/3/2019
1727	JC 570906L	SUB	GAJENDRA SINGH TOMAR	1/3/2019
1728	JC 570705M	SUB	GANESH CHANDRA SAHU	1/3/2019
1729	JC 570730L	SUB	GANGA DATT	1/3/2019
1730	JC 570620W	SUB	GAWAI BHAGWAN BHIKAJI	1/5/2019
1731	JC 570957Y	SUB	GENDA LAL	1/7/2019
1732	JC 570629L	SUB	GHEGADMAL UTTAM RANGNATH	1/3/2019
1733	JC 571107F	SUB	GURNAM SINGH	1/7/2019
1734	JC 570749K	SUB	HAKIM SINGH SOLANKI	1/3/2019
1735	JC 571064X	SUB	HARISH CHANDRA JOSHI	1/7/2019
1736	JC 570483H	SUB	HET RAM SINGH	1/4/2019
1737	JC 570867X	SUB	JAGPAL SINGH	1/7/2019
1738	JC 570966A	SUB	JASWANT SINGH	1/7/2019
1739	JC 570985L	SUB	KAMBLE DIGAMBAR NAMDEVRAO	1/8/2019

1740	JC 570598W	SUB	KAMBLE VISHNU GANGARAM	1/8/2019
1741	JC 570718K	SUB	KASHMIR LAL	1/5/2019
1742	JC 570872H	SUB	KHARATE SHRI KRISHNA SUKHDEO	1/5/2019
1743	JC 570891N	SUB	KHATAL ANKUSH ANANDA RAO	1/4/2019
1744	JC 570813W	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	1/7/2019
1745	JC 570563A	SUB	KUNWAR PAL SINGH	1/4/2019
1746	JC 570987W	SUB	LAKHWINDER SINGH	1/7/2019
1747	JC 570900K	SUB	LALIT MOHAN SINGH SETHI	1/7/2019
1748	JC 571132A	SUB	MANVEER SINGH	1/7/2019
1749	JC 571188M	SUB	PARSOTTAM SINGH	1/7/2019
1750	JC 570771P	SUB	PRAMOD KUMAR TIWARI	1/5/2019
1751	JC 570964P	SUB	PUSHRAJ SINGH BIST	1/7/2019
1752	JC 570540Y	SUB	RAJ KISHOR SINGH	1/3/2019
1753	JC 571125K	SUB	RAJENDRA SINGH POKHARIYA	1/7/2019
1754	JC 570789L	SUB	RAM PAUL	1/3/2019
1755	JC 570799P	SUB	RAM SINGH YADAW	1/7/2019
1756	JC 570688X	SUB	ROHTAK SINGH	1/7/2019
1757	JC 570765F	SUB	ROMESH CHANDER	1/7/2019
1758	JC 570731N	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	1/5/2019
1759	JC 570557M	SUB	SANJEEV KUMAR BHARDWAJ	1/6/2019
1760	JC 570590K	SUB	SANJIB DAM	1/4/2019
1761	JC 570650N	SUB	SAWANT DATTATRAY BHAGWAN	1/2/2019
1762	JC 570660X	SUB	SHAM LAL	1/3/2019
1763	JC 570952A	SUB	SHAMSHER SINGH	1/7/2019
1764	JC 571179L	SUB	SHAMSHER SINGH	1/7/2019
1765	JC 570719M	SUB	SHAPINDER SINGH DADWAL	1/6/2019
1766	JC 570768P	SUB	SHOBHAN SINGH	1/3/2019
1767	JC 570421H	SUB	SHYAM SINGH	1/5/2019
1768	JC 570456Y	SUB	SONAWANE RAJESH DHANA	1/5/2019
1769	JC 570711A	SUB	SRICHARAN ROUT	1/5/2019
1770	JC 571041W	SUB	SUBHASH CHANDER	1/7/2019
1771	JC 570592P	SUB	SUNIL KUMAR HARIT	1/8/2019
1772	JC 570922H	SUB	SURENDAR KUMAR YADAV	1/5/2019
1773	JC 571135N	SUB	SURESH CHANDRA	1/7/2019
1774	JC 570849P	SUB	SURYAWANSHI LAXMAN GOVIND	1/5/2019
1775	JC 570712H	SUB	UMMED SINGH RAWAT	1/5/2019
1776	JC 569987K	SUB	UTTAM SINGH BHADORIYA	1/5/2019
1777	JC 570797K	SUB	VIJAY KUMAR	1/3/2019
1778	JC 570301K	SUB	VIKAS YASHAVANT KAMBALE	1/2/2019
1779	JC 571129A	SUB	VIKRAM CHAND	1/6/2019

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

1780	JC 581230N	SUB	ABDUL RAHMAN	1/7/2019
1781	JC 581053Y	SUB	ALOKE DAS	1/3/2019
1782	JC 581595H	SUB	AMARJIT SINGH	1/5/2019
1783	JC 581824H	SUB	ANIL KUMAR	1/5/2019

1784	JC 581453L	SUB	ARJUN SINGH	1/3/2019
1785	JC 581611P	SUB	ASHANI KUMAR	1/7/2019
1786	JC 581799P	SUB	BABU RAM	1/3/2019
1787	JC 581166F	SUB	BACHAN SINGH	1/3/2019
1788	JC 581738X	SUB	BALKAR SINGH	1/8/2019
1789	JC 581677L	SUB	BASANT RAM	1/6/2019
1790	JC 582086W	SUB	BHADUR SINGH	1/7/2019
1791	JC 581405L	SUB	BIRENDRA PRADHAN	1/4/2019
1792	JC 580297A	SUB	CHANDRA SEKHAR ACHARYA	1/4/2019
1793	JC 580395A	SUB	ESAN KHAN	1/7/2019
1794	JC 581350M	SUB	GURJANT SINGH	1/6/2019
1795	JC 581720F	SUB	HEM RAJ	1/6/2019
1796	JC 581730L	SUB	INDER SINGH	1/6/2019
1797	JC 581054F	SUB	JAGADALE SANJAY MAHADEO	1/3/2019
1798	JC 581291L	SUB	JAGDISH RAJ	1/2/2019
1799	JC 581538F	SUB	JAGGA RAM	1/8/2019
1800	JC 581485N	SUB	JOHN KV	1/4/2019
1801	JC 581032H	SUB	KAMAL SINGH THAPA	1/3/2019
1802	JC 581662H	SUB	KAMAL THAPA	1/2/2019
1803	JC 581473Y	SUB	KISHORI LAL SHARMA	1/2/2019
1804	JC 581582L	SUB	KORADA LINGAYYA	1/7/2019
1805	JC 581439Y	SUB	MADAN LAL	1/3/2019
1806	JC 581069K	SUB	MANIRAJ KP	1/4/2019
1807	JC 581594A	SUB	MANSUK KUMAR RAJ	1/6/2019
1808	JC 581787A	SUB	MOHAN THAPA	1/3/2019
1809	JC 581756A	SUB	NAGEEN CHAND	1/3/2019
1810	JC 581707X	SUB	NARAIN SINGH	1/3/2019
1811	JC 581718K	SUB	NIRMAL SINGH	1/3/2019
1812	JC 581474F	SUB	PRITAM CHAND	1/2/2019
1813	JC 581598W	SUB	RACCHPAL SINGH	1/5/2019
1814	JC 581503L	SUB	RAJ KUMAR	1/2/2019
1815	JC 581579L	SUB	RAJ SINGH	1/2/2019
1816	JC 581822X	SUB	RAJIV KUMAR RANA	1/4/2019
1817	JC 581561P	SUB	RAJU THAPA	1/2/2019
1818	JC 581599Y	SUB	RAKESH SINGH	1/3/2019
1819	JC 581455W	SUB	RAM JEET RAJPUT	1/4/2019
1820	JC 581849P	SUB	RAM PAUL SHARMA	1/7/2019
1821	JC 581208H	SUB	RASHID KHAN	1/3/2019
1822	JC 581247F	SUB	RAVI KUMAR	1/8/2019
1823	JC 581785P	SUB	RAVINDER KUMAR	1/4/2019
1824	JC 581708A	SUB	RETI LAL	1/4/2019
1825	JC 581739A	SUB	ROMESH CHANDER	1/8/2019
1826	JC 581736M	SUB	ROSHAN LAL	1/6/2019
1827	JC 581402X	SUB	S BALAMURUGAN	1/4/2019
1828	JC 581588M	SUB	SAIYAD NAUSHAD AHMAD	1/5/2019
1829	JC 581977M	SUB	SATNAM SINGH	1/2/2019

1830	JC 581675A	SUB	SAUKAT ALI	1/6/2019
1831	JC 581024K	SUB	SHIV PRASAD JANGID	1/3/2019
1832	JC 581969N	SUB	SHYAM LAL PAL	1/3/2019
1833	JC 581425Y	SUB	SIKANDER SINGH	1/7/2019
1834	JC 581775L	SUB	SOHAN LAL	1/2/2019
1835	JC 581580A	SUB	SUBHASH CHAND SHARMA	1/2/2019
1836	JC 581362F	SUB	SUKH RAM	1/2/2019
1837	JC 581182Y	SUB	SURAJ PARKASH	1/2/2019
1838	JC 581581H	SUB	SWARN CHAND	1/6/2019
1839	JC 580925K	SUB	TEK SINGH	1/2/2019
1840	JC 581067Y	SUB	VEER VASANT RAMRAO	1/3/2019
1841	JC 580844K	SUB	VIJAY KUMAR	1/2/2019
1842	JC 582024W	SUB	VIJAY KUMAR	1/3/2019
1843	JC 581484L	SUB	VIJAYA SHANKER SINGH YADAVA	1/4/2019
1844	JC 581584W	SUB	VIRENDRA KUMAR	1/4/2019

THE LADAKH SCOUTS

1845	JC 588560P	SUB	BALRAM SHARMA	1/5/2019
1846	JC 588581L	SUB	KUNZANG NAMGIAL	1/2/2019
1847	JC 588617Y	SUB	MIGMAR TSERING	1/8/2019
1848	JC 588592X	SUB	MURUP DORJEY	1/8/2019
1849	JC 588648Y	SUB	NAMGIAL DORJEY	1/2/2019
1850	JC 588558X	SUB	NAWANG YOUNTAN	1/5/2019
1851	JC 588590M	SUB	PADMA RIGZIN	1/2/2019
1852	JC 588562A	SUB	RADHE SHYAM	1/2/2019
1853	JC 588613H	SUB	RAJESH KUMAR	1/4/2019
1854	JC 588574P	SUB	RIGZIN OTSAL	1/2/2019
1855	JC 588559A	SUB	SHIV KUMAR SINGH	1/5/2019
1856	JC 588671M	SUB	SKARMA NAMGAIL	1/8/2019
1857	JC 588572K	SUB	SONAM CHESPAL	1/2/2019
1858	JC 588635F	SUB	SONAM CHOSDAN	1/5/2019
1859	JC 588561X	SUB	SONAM GAILCHAN	1/5/2019
1860	JC 588542M	SUB	SPANBA TSERING	1/6/2019
1861	JC 588553Y	SUB	TASHI DORJEY	1/2/2019
1862	JC 588548N	SUB	TSERING ANGCHOK	1/8/2019
1863	JC 588586K	SUB	TSERING TASHI	1/5/2019
1864	JC 588655P	SUB	TSERING TONDUP	1/8/2019
1865	JC 588679Y	SUB	TSEWANG DORJAY	1/2/2019
1866	JC 588609A	SUB	TSEWANG NORBOO	1/3/2019

THE NAGA REGIMENT

1867	JC 590326X	SUB	A SOLOMAN	1/7/2019
1868	JC 590342P	SUB	HIRA SINGH	1/8/2019
1869	JC 590288M	SUB	HUTOSHE SEMA	1/8/2019
1870	JC 590310M	SUB	RAMESH SINGH	1/2/2019
1871	JC 540921L	SUB	SUNDER LAL YADAV	1/3/2019

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

1872	JC 594071A	SUB	ABDUL HAMID JOO	1/7/2019
1873	JC 593904M	SUB	DHEERENDRA SINGH	1/5/2019
1874	JC 594268W	SUB	GH NABI SHEIKH	1/7/2019
1875	JC 594356M	SUB	GHANI SHAM	1/3/2019
1876	JC 594183A	SUB	HARINDER SINGH	1/2/2019
1877	JC 594582K	SUB	ISHTAQ AHMED	1/4/2019
1878	JC 594209K	SUB	KAMAL RAJ	1/5/2019
1879	JC 594120X	SUB	KIRPAL SINGH CHIV	1/2/2019
1880	JC 594117X	SUB	KULDEEP SINGH	1/2/2019
1881	JC 594484K	SUB	LAKHBINDER SINGH	1/8/2019
1882	JC 594472P	SUB	LIAQAT ALI	1/5/2019
1883	JC 594132M	SUB	MOHD RAFIQ	1/4/2019
1884	JC 594215X	SUB	MOHD SADIQ KHAN	1/8/2019
1885	JC 593593K	SUB	MOHD SHARIF	1/3/2019
1886	JC 594167H	SUB	MULTAN SINGH	1/4/2019
1887	JC 594761K	SUB	RAKESH SHARMA	1/3/2019
1888	JC 593967P	SUB	ROOP CHAND	1/3/2019
1889	JC 594032F	SUB	SHASHI KUMAR	1/3/2019
1890	JC 594069H	SUB	SHELLO RAM	1/2/2019
1891	JC 593840M	SUB	SHOKIT ALI	1/6/2019
1892	JC 594202A	SUB	SUBHASH CHANDER	1/3/2019
1893	JC 593472H	SUB	SUDHIR KUMAR	1/6/2019
1894	JC 594179X	SUB	SURINDER SINGH	1/4/2019
1895	JC 594037A	SUB	SURJEET SINGH	1/8/2019
1896	JC 594033K	SUB	SWARN DASS	1/3/2019
1897	JC 594051M	SUB	TARSEM SINGH	1/2/2019
1898	JC 594275M	SUB	TEJ RAM	1/3/2019

1 GORKHA RIFLES

1899	JC 603030A	SUB	ARUNA KUMAR ROUSTRAY	1/4/2019
1900	JC 603014H	SUB	BAL BAHADUR THAPA	1/2/2019
1901	JC 602917N	SUB	BICHCHHI MAN GURUNG	1/3/2019
1902	JC 603020W	SUB	DEVENDRA KUMAR SEN	1/2/2019
1903	JC 603048W	SUB	KARNA BAHADUR THAPA	1/6/2019
1904	JC 612881N	SUB	KARNA THAPA	1/4/2019
1905	JC 603079W	SUB	KRISHNA BAHADUR TILJA PUN	1/7/2019
1906	JC 603008P	SUB	MAHENDRA KUMAR GURUNG	1/5/2019
1907	JC 603061A	SUB	NANDA BAHADUR THAPA	1/7/2019
1908	JC 603045H	SUB	NAR BAHADUR GURUNG	1/7/2019
1909	JC 602982N	SUB	NARVIR SINGH	1/3/2019
1910	JC 602884N	SUB	SACHIDA NANDA ROUTARAY	1/6/2019
1911	JC 603015L	SUB	TULA RAM ALE MAGAR	1/2/2019
1912	JC 603013A	SUB	YAM BAHADUR THAPA	1/5/2019

3 GORKHA RIFLES

1913	JC 607952A	SUB	GHAN BAHADUR THAPA	1/7/2019
1914	JC 608008Y	SUB	SHYAM SINGH	1/3/2019

4 GORKHA RIFLES

1915	JC 612891X	SUB	BOM BIKASH PUN	1/7/2019
1916	JC 612859H	SUB	CHUM BAHADUR PUN	1/6/2019
1917	JC 612948F	SUB	KAMALESH DWIVEDI	1/4/2019
1918	JC 612877L	SUB	KARNA BAHADUR GURUNG	1/2/2019
1919	JC 612945N	SUB	MAM CHAND GURJAR	1/3/2019
1920	JC 612790K	SUB	RAM KUMAR SHARMA	1/2/2019
1921	JC 612944L	SUB	REVI KUMAR KD	1/2/2019

5 GORKHA RIFLES

1922	JC 618031A	SUB	BHUVAN BAHADUR GURUNG	1/4/2019
1923	JC 618148Y	SUB	CHHAM BAHADUR THAPA	1/5/2019
1924	JC 618188A	SUB	DURGA BAHADUR ALE	1/2/2019
1925	JC 618168M	SUB	HEM BAHADUR ALE	1/6/2019
1926	JC 618224A	SUB	HOM BAHADUR THAPA	1/4/2019
1927	JC 618196Y	SUB	JHABI LAL RASKOTI	1/5/2019
1928	JC 618020N	SUB	KESH BAHADUR PUN	1/7/2019
1929	JC 617921N	SUB	KUMAR THAPA	1/2/2019
1930	JC 618304X	SUB	NUM BAHADUR THAPA	1/7/2019
1931	JC 618017N	SUB	OM BAHADUR THAPA	1/3/2019
1932	JC 617944P	SUB	PREM BAHADUR THAPA	1/4/2019
1933	JC 618144H	SUB	PURAN GURUNG	1/4/2019
1934	JC 618024K	SUB	RAM LALLU PATEL	1/6/2019
1935	JC 618223X	SUB	TEK BAHADUR GURUNG	1/3/2019
1936	JC 618009P	SUB	YAM BAHADUR PUN	1/2/2019

8 GORKHA RIFLES

1937	JC 624053P	SUB	AQUBAL	1/4/2019
1938	JC 624147M	SUB	BHAKTA BAHADUR THAPA	1/8/2019
1939	JC 624015Y	SUB	BHIM LAL THAPA	1/6/2019
1940	JC 623897Y	SUB	CHANDRA SHEKHAR ROY	1/4/2019
1941	JC 624099X	SUB	DAMODAR RANA	1/8/2019
1942	JC 624114F	SUB	DAN BAHADUR GURUNG	1/3/2019
1943	JC 624060L	SUB	DEO BAHADUR RANA	1/3/2019
1944	JC 623905M	SUB	DEO NARAYAN YADAV	1/4/2019
1945	JC 623912H	SUB	GAJ BAHADUR GURUNG	1/6/2019
1946	JC 624071X	SUB	GOBINDA BAHADUR GHARTI	1/3/2019
1947	JC 624025H	SUB	GUN BAHADUR GURUNG	1/8/2019
1948	JC 624108N	SUB	HOM BAHADUR GURUNG	1/8/2019
1949	JC 624017K	SUB	HOM BAHADUR RANA	1/8/2019
1950	JC 624082K	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	1/4/2019

1951	JC 624083M	SUB	KUMAR THAPA	1/4/2019
1952	JC 623965F	SUB	LIL BAHADUR GURUNG	1/3/2019
1953	JC 624069A	SUB	MITHALESH KUMAR MISRA	1/4/2019
1954	JC 624100F	SUB	NARENDRA BAHADUR THAPA	1/8/2019
1955	JC 623919M	SUB	NARENDRA PANDIT	1/4/2019
1956	JC 624073H	SUB	PAHAL SINGH THAPA	1/8/2019
1957	JC 630076M	SUB	PRADEEP KHATTRI	1/3/2019
1958	JC 624066M	SUB	RAJU GURUNG, SM	1/5/2019
1959	JC 624038A	SUB	SHIV KUMAR BAKABAL	1/4/2019
1960	JC 624049M	SUB	SOM BAHADUR GURUNG	1/6/2019
1961	JC 623901W	SUB	SURAJ GURUNG	1/6/2019
1962	JC 623885K	SUB	VIJAYAN PILLAI R	1/2/2019

9 GORKHA RIFLES

1963	JC 630071N	SUB	GES BAHADUR GT	1/3/2019
1964	JC 630033X	SUB	KISHAN CHHETRI	1/3/2019
1965	JC 629961F	SUB	PRAMOD KUMAR CHOURASIA	1/3/2019
1966	JC 630000M	SUB	PREM BAHADUR BAM	1/3/2019
1967	JC 630055W	SUB	PUSHPA RAJ THAPA	1/3/2019
1968	JC 629939W	SUB	SABU R	1/2/2019
1969	JC 630054N	SUB	TANK PRASAD POUDEL	1/3/2019

11 GORKHA RIFLES

1970	JC 635245M	SUB	ASHOK KUMAR RAI	1/4/2019
1971	JC 635222L	SUB	BHIM KUMAR RAI	1/4/2019
1972	JC 635148P	SUB	BHIM SEN	1/3/2019
1973	JC 635325K	SUB	BHUMI RAJ RAI	1/3/2019
1974	JC 635281X	SUB	BIDU RAM LIMBU	1/3/2019
1975	JC 635284L	SUB	D K LAWATHI (LIMBU)	1/3/2019
1976	JC 635108N	SUB	DADAN PRASAD YADAV	1/3/2019
1977	JC 635110L	SUB	DEWA KUMAR RAI	1/3/2019
1978	JC 635285N	SUB	DINESH SUBBA	1/4/2019
1979	JC 635219L	SUB	FIROZ PRADHAN	1/4/2019
1980	JC 635330P	SUB	GUPTA BAHADUR KHAND	1/4/2019
1981	JC 635226F	SUB	KESHER PRASAD HANG SURUNG LIMBU	1/6/2019
1982	JC 635175Y	SUB	KUL BAHADUR LIMBU	1/3/2019
1983	JC 635183X	SUB	MAN KUMAR RAI	1/3/2019
1984	JC 635282A	SUB	MAN SER RAI	1/3/2019
1985	JC 635188W	SUB	MANI RAI	1/3/2019
1986	JC 635213K	SUB	NAJ BADAN RAI	1/4/2019
1987	JC 635150M	SUB	NATHUNI SINGH	1/3/2019
1988	JC 635112W	SUB	P B LAWATI (LIMBU)	1/3/2019
1989	JC 635166X	SUB	PAWAN RAI	1/4/2019
1990	JC 635221H	SUB	PREM SUNDAR RAI	1/4/2019
1991	JC 635220A	SUB	RAJESH RAI	1/4/2019

1992	JC 635038A	SUB	RAM BAHADUR TAMANG	1/7/2019
1993	JC 635126W	SUB	RATNA BAHADUR THAPA	1/3/2019
1994	JC 635093W	SUB	SANTA KUMAR RAI	1/3/2019
1995	JC 635097M	SUB	SHYAM BAHADUR TAMANG	1/6/2019
1996	JC 635227K	SUB	SURAJ KUMAR LIMBU	1/5/2019
1997	JC 635111N	SUB	SURENDRA SINGH LIMBU	1/3/2019
1998	JC 635264X	SUB	TEZ BAHADUR PRADHAN	1/4/2019
1999	JC 635010A	SUB	TIRTHA KUMAR RAI	1/6/2019
2000	JC 635119A	SUB	TORAN KUMAR SHRESTHA	1/3/2019
2001	JC 635199H	SUB	UTTAR KUMAR RAI	1/7/2019

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

2002	JC 670145A	SUB	ABHIMANNU RAM KHARWAR	1/8/2019
2003	JC 670105Y	SUB	ABHIMANYU UPADHYAY	1/7/2019
2004	JC 667351Y	SUB	AJAI KUMAR RS	1/3/2019
2005	JC 669250K	SUB	AJAI KUMAR SINGH	1/2/2019
2006	JC 667266W	SUB	ALLAGADDA KUMARA SWAMI	1/3/2019
2007	JC 667265N	SUB	AMAR CHAND	1/7/2019
2008	JC 665826Y	SUB	ANAND KUMAR PANDEY	1/4/2019
2009	JC 665905N	SUB	ANIL KUMAR	1/8/2019
2010	JC 668264X	SUB	ANIL KUMAR PANDEY	1/4/2019
2011	JC 665229K	SUB	ANIL KUMAR SINGH BHADAURIA	1/4/2019
2012	JC 667261X	SUB	ANIRUDH SINGH	1/4/2019
2013	JC 667864N	SUB	ANIS UDDIN KHAN	1/3/2019
2014	JC 669276Y	SUB	ANSWER ALI KHAN	1/6/2019
2015	JC 668193F	SUB	ANUP KUMAR GHOSH	1/2/2019
2016	JC 668667X	SUB	ARJUN SINGH	1/4/2019
2017	JC 668575L	SUB	ARUN KUMAR SHARMA	1/3/2019
2018	JC 667558Y	SUB	ARUN KUMAR THAKUR	1/2/2019
2019	JC 668571P	SUB	ASHOK KUMAR GHOSH	1/3/2019
2020	JC 668254N	SUB	ATHANI SHANKAR KEDARI	1/4/2019
2021	JC 667805F	SUB	BALARAM DUTTA	1/2/2019
2022	JC 667529K	SUB	BANA BIHARI SAHU	1/6/2019
2023	JC 667185W	SUB	BASANTA KUMAR JAYA SINGH	1/5/2019
2024	JC 668474X	SUB	BHARAT CHOUGALE	1/7/2019
2025	JC 669988F	SUB	BHARAT SINGH	1/7/2019
2026	JC 667598A	SUB	BHOSALE DATTATRAY HANUMANT	1/8/2019
2027	JC 669738A	SUB	BHOSALE PANDURANG APPA	1/2/2019
2028	JC 667381W	SUB	BIDHAN CHANDRA MANDAL	1/5/2019
2029	JC 668641H	SUB	BIJAYA KUMAR DASH	1/6/2019
2030	JC 667154W	SUB	BIKASH KARMAKAR	1/3/2019
2031	JC 668654A	SUB	BINOD SHARANGI	1/3/2019
2032	JC 668069A	SUB	BIRBAL SINGH	1/7/2019
2033	JC 665439K	SUB	CHATE BALAJI MANIK RAO	1/3/2019
2034	JC 669465H	SUB	CHAUHAN TEJPAL	1/2/2019
2035	JC 668226F	SUB	CHHAVI NATH SINGH	1/3/2019

2036	JC 667710F	SUB	DADHI BAL	1/4/2019
2037	JC 667304F	SUB	DAGU RAM	1/3/2019
2038	JC 667485X	SUB	DEBASIS BEJ	1/7/2019
2039	JC 669179F	SUB	DEVA PRASAD DEY	1/8/2019
2040	JC 668805N	SUB	DEVENDRA KUMAR KUSHWAH	1/3/2019
2041	JC 665311Y	SUB	DHARAM PAL SINGH	1/4/2019
2042	JC 670115H	SUB	DHARMANDAR SINGH	1/8/2019
2043	JC 665440Y	SUB	DHARMENDRA KUMAR	1/4/2019
2044	JC 668699A	SUB	DIGAR SINGH KANYAL	1/4/2019
2045	JC 665639A	SUB	DIPAK KUMAR BERA	1/3/2019
2046	JC 667257P	SUB	DIWATE KISAN SURYA BHAN	1/4/2019
2047	JC 669025P	SUB	GAJRAJ SINGH YADAV	1/8/2019
2048	JC 668437K	SUB	GANESWAR KHANDAI	1/8/2019
2049	JC 668399Y	SUB	GAYADHARA GHADAI	1/6/2019
2050	JC 667571H	SUB	GEESPATI SINGH	1/4/2019
2051	JC 669965A	SUB	GOHIL RAGHUVIR KHUMAN SINH	1/7/2019
2052	JC 665165K	SUB	GOPAKUMARAN PILLAI B	1/4/2019
2053	JC 669994P	SUB	GOURANGA CHAKRABORTHY	1/7/2019
2054	JC 667167N	SUB	HARI PRASAD DAHERIA	1/3/2019
2055	JC 668588H	SUB	HARIHAR MAURYA	1/4/2019
2056	JC 664805W	SUB	HARISH CHANDRA	1/4/2019
2057	JC 670071W	SUB	HARJINDER SINGH	1/4/2019
2058	JC 665697K	SUB	HUKAM SINGH	1/2/2019
2059	JC 668315A	SUB	INDER PRASAD TIWARI	1/4/2019
2060	JC 669871H	SUB	INDRA SINGH KUMHAR	1/6/2019
2061	JC 668723L	SUB	JADHAV GAJANAN KRISHNAT	1/5/2019
2062	JC 668381H	SUB	JADHAV SUKHDEV SAMPAT	1/8/2019
2063	JC 668471K	SUB	JAGAMOHAN MAHARANA	1/7/2019
2064	JC 668658W	SUB	JAGANNATH PANDA	1/6/2019
2065	JC 670163H	SUB	JAGAT NARAYAN GUPTA	1/8/2019
2066	JC 664804N	SUB	JAGDISH SINGH	1/2/2019
2067	JC 669702F	SUB	JAGJIVAN DASS PLEATHIA	1/3/2019
2068	JC 670114A	SUB	JAI PRAKASH GUPTA	1/8/2019
2069	JC 667841M	SUB	JAI PRAKASH SAW	1/4/2019
2070	JC 668584M	SUB	JAI PRAKASH SINGH	1/4/2019
2071	JC 668374M	SUB	JALALUDDIN	1/3/2019
2072	JC 667826X	SUB	JASBIR SINGH	1/3/2019
2073	JC 668579F	SUB	JATHAR RAMNATH GHAMAJI	1/4/2019
2074	JC 668351L	SUB	JEETA RAM NOL	1/7/2019
2075	JC 668057L	SUB	KADAM SADASHIV VILAS RAO	1/8/2019
2076	JC 665846M	SUB	KAILASH KUMAR	1/4/2019
2077	JC 669840H	SUB	KAMBLE MADHUKAR RANGARAO	1/7/2019
2078	JC 665161N	SUB	KAMESHWAR RAI	1/2/2019
2079	JC 669985N	SUB	KAMLESH KUMAR GURJAR	1/7/2019
2080	JC 667157K	SUB	KAMLESHWAR PRASAD VARMA	1/3/2019
2081	JC 665096Y	SUB	KANCHAN SINGH	1/3/2019

2082	JC 667263H	SUB	KANDJE SANDU BALWANTA	1/4/2019
2083	JC 669610P	SUB	KANTI KUMAR	1/4/2019
2084	JC 667944L	SUB	KANWAR SINGH	1/8/2019
2085	JC 665454Y	SUB	KARANDE SADA SHIV DHONDIBA	1/6/2019
2086	JC 668041A	SUB	KARDILE PRAKASH BABAN RAO	1/7/2019
2087	JC 668940F	SUB	KASHMIR SINGH	1/6/2019
2088	JC 668700K	SUB	KESAB CHANDRA MONDAL	1/6/2019
2089	JC 667176P	SUB	KISHAN LAL	1/3/2019
2090	JC 667242M	SUB	KISHORE KUMAR JENA	1/3/2019
2091	JC 665323N	SUB	KOTE SANTOSH BABAN RAO	1/4/2019
2092	JC 668578Y	SUB	KRIPLANI RAJU NEBHAN DAS	1/4/2019
2093	JC 668661W	SUB	KRISHAN KUMAR	1/8/2019
2094	JC 668358P	SUB	KSHATRIYA PRASAD	1/3/2019
2095	JC 668349N	SUB	KULDEEP	1/8/2019
2096	JC 668573A	SUB	KUNDAN KUMAR	1/3/2019
2097	JC 665305L	SUB	LAVATE EKANATH SHANKAR	1/4/2019
2098	JC 668190N	SUB	LAXMAN PRASAD	1/3/2019
2099	JC 668937F	SUB	MADHUSUDHANAN NAIR VS	1/6/2019
2100	JC 669986W	SUB	MAHA RAJ SINGH	1/7/2019
2101	JC 668327P	SUB	MAHARAJ SINGH	1/4/2019
2102	JC 668262M	SUB	MAHENDRA KUMAR	1/5/2019
2103	JC 669728W	SUB	MAHESH KUMAR SRIVAS	1/5/2019
2104	JC 668322W	SUB	MAHINDER PAL	1/8/2019
2105	JC 669401X	SUB	MANAK CHAND RANWA	1/7/2019
2106	JC 667625Y	SUB	MANE RAMCHANDRA DATTATRAYA	1/6/2019
2107	JC 668708W	SUB	MANI RAM SINGH	1/3/2019
2108	JC 665103K	SUB	MANOJ KUMAR	1/4/2019
2109	JC 668630W	SUB	MANOJ KUMAR DIXIT	1/4/2019
2110	JC 669984L	SUB	MARI RAMA KRISHNA	1/7/2019
2111	JC 667190F	SUB	MAWA LAL	1/8/2019
2112	JC 669521W	SUB	MD RAHIMATH PASHA	1/2/2019
2113	JC 668265A	SUB	MD WAHED BAKSH	1/6/2019
2114	JC 670104W	SUB	MERAJUL HAQUE SHAH	1/7/2019
2115	JC 668942M	SUB	MESHAM TARACHAND CHAITRAM	1/4/2019
2116	JC 668693Y	SUB	MOHAN YADAV	1/4/2019
2117	JC 668452Y	SUB	MUJBAILE MAROTI CHANDRA BHAN	1/4/2019
2118	JC 669493P	SUB	MUKESH KUMAR	1/2/2019
2119	JC 668377A	SUB	MURALEEDHARAN G	1/4/2019
2120	JC 669674A	SUB	NABA KUMAR JANA	1/4/2019
2121	JC 668252H	SUB	NAGESH KONI	1/4/2019
2122	JC 669934A	SUB	NAIDU ASHOK KUPPUSWAMY	1/3/2019
2123	JC 665307W	SUB	NAND KISHORE SHARMA	1/4/2019
2124	JC 668260F	SUB	NAND KUMAR PANDEY	1/4/2019
2125	JC 664834L	SUB	NARAYAN SINGH	1/8/2019
2126	JC 670169K	SUB	NIZAM UDDIN	1/7/2019

2127	JC 668188W	SUB	OM PRAKASH SHARMA	1/3/2019
2128	JC 668187N	SUB	ONKAR PRASAD ROY	1/3/2019
2129	JC 668246P	SUB	OONNI KRISHNAN NAIR M T	1/3/2019
2130	JC 669995X	SUB	P SHIVA SHANKAR	1/7/2019
2131	JC 668413A	SUB	PARES BISWAS	1/8/2019
2132	JC 669722P	SUB	PARIMAL RAY	1/5/2019
2133	JC 670108M	SUB	PARMJIT	1/8/2019
2134	JC 668493H	SUB	PATEL AYUBKHAN BALEKHAN	1/4/2019
2135	JC 666011K	SUB	PATIL JAYAKAR PANDURANG	1/2/2019
2136	JC 669884A	SUB	PATIL JAYSINGRAO BHIMRAO	1/3/2019
2137	JC 665157L	SUB	PAWAR SUNIL MURLIDHAR	1/4/2019
2138	JC 669721M	SUB	PIARA LAL	1/5/2019
2139	JC 668220A	SUB	PITAMBAR PANDA	1/3/2019
2140	JC 664337F	SUB	POOVAIAH K C	1/3/2019
2141	JC 667198N	SUB	PRABIR KUMAR SINHA MAHAPATRA	1/3/2019
2142	JC 668162F	SUB	PRADEEP KUMAR MANDAL	1/6/2019
2143	JC 668770H	SUB	PRAKASH CHAND GURJAR	1/5/2019
2144	JC 668191W	SUB	PRAMOD KUMAR RATHOR	1/3/2019
2145	JC 667859H	SUB	PRANAB KUMAR DAS	1/6/2019
2146	JC 668195M	SUB	PRASANTA KUMAR GIRI	1/3/2019
2147	JC 668245M	SUB	PRASANTA KUMAR SANYAL	1/2/2019
2148	JC 669252P	SUB	PREM BABU	1/2/2019
2149	JC 668414H	SUB	PREM KUMAR PRASAD	1/3/2019
2150	JC 669987Y	SUB	PREM SINGH GURJAR	1/7/2019
2151	JC 667283W	SUB	PRITHWI SINGH CHOUHAN	1/2/2019
2152	JC 670300W	SUB	PRITPAL SINGH	1/7/2019
2153	JC 668521K	SUB	PURAN SINGH	1/3/2019
2154	JC 668360M	SUB	R S ANIL KUMAR	1/3/2019
2155	JC 668289K	SUB	RABINARAYAN BEHERA	1/4/2019
2156	JC 670113X	SUB	RABINDRA KUMAR SINGH	1/8/2019
2157	JC 668418Y	SUB	RADHE SHYAM PRAJAPAT	1/4/2019
2158	JC 667871K	SUB	RAJ CHANDEL	1/3/2019
2159	JC 668321N	SUB	RAJA RAM PRASAD CHOURASIA	1/8/2019
2160	JC 669666F	SUB	RAJBIR	1/7/2019
2161	JC 665464H	SUB	RAJEEV CHARAN	1/4/2019
2162	JC 667279N	SUB	RAJENDER SINGH	1/3/2019
2163	JC 669675H	SUB	RAJENDRA KUMAR	1/4/2019
2164	JC 668236L	SUB	RAJENDRA PRASAD RAM	1/8/2019
2165	JC 670117N	SUB	RAJIV NAYAN	1/8/2019
2166	JC 668165P	SUB	RAJNISH KUMAR MINHAS	1/2/2019
2167	JC 668567M	SUB	RAKESH KUMAR	1/3/2019
2168	JC 641948K	SUB	RAKESH SINGH YADAV	1/4/2019
2169	JC 670111M	SUB	RAM BRIKSH SINGH YADAVA	1/8/2019
2170	JC 669022F	SUB	RAM CHANDER	1/6/2019
2171	JC 665232K	SUB	RAM CHANDRA PATEL	1/7/2019

2172	JC 665238L	SUB	RAM CHARAN	1/3/2019
2173	JC 669953L	SUB	RAM KHELAWAN	1/6/2019
2174	JC 667031K	SUB	RAM KUMAR	1/6/2019
2175	JC 668669H	SUB	RAMA CHANDRA BHAT	1/8/2019
2176	JC 669956Y	SUB	RAMANI KANTA BARO	1/7/2019
2177	JC 669471W	SUB	RAMESH	1/2/2019
2178	JC 668657N	SUB	RAMESH CHAND	1/4/2019
2179	JC 669178Y	SUB	RAMOTAR	1/2/2019
2180	JC 665718P	SUB	RANDHIR	1/2/2019
2181	JC 670112P	SUB	RANDHIR KUMAR SINGH	1/8/2019
2182	JC 669952H	SUB	RANJAN BARUAH	1/7/2019
2183	JC 665698M	SUB	RANMODE RAMESH SHANKAR	1/4/2019
2184	JC 667590N	SUB	RAVINDER KUMAR	1/4/2019
2185	JC 668880X	SUB	RAVINDRA KHUNTE	1/8/2019
2186	JC 669982A	SUB	RAVINDRA SINGH	1/7/2019
2187	JC 667925A	SUB	ROOP RAM GANGWAR	1/8/2019
2188	JC 668371Y	SUB	S MAHAMMAD RAFI	1/2/2019
2189	JC 667433F	SUB	SABU THOMAS	1/4/2019
2190	JC 670140F	SUB	SAHADEO SINGH	1/8/2019
2191	JC 668420W	SUB	SAJEEV R	1/3/2019
2192	JC 665234P	SUB	SAMARENDRA BISWAL	1/3/2019
2193	JC 667164A	SUB	SANJAY KUMAR PANDEY	1/6/2019
2194	JC 670109P	SUB	SANJAY KUMAR SHARMA	1/8/2019
2195	JC 665395X	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	1/2/2019
2196	JC 668255W	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	1/4/2019
2197	JC 665337N	SUB	SANJIV SINGH	1/2/2019
2198	JC 666097N	SUB	SANTHAN PILLAI N	1/6/2019
2199	JC 667054L	SUB	SANTHOSH KUMAR PK	1/4/2019
2200	JC 668583K	SUB	SARWAN KUMAR SHARMA	1/4/2019
2201	JC 668194K	SUB	SASADHAR MANDAL	1/3/2019
2202	JC 669904H	SUB	SASHI BHUSHAN KUMAR	1/6/2019
2203	JC 669902X	SUB	SHAIK NAYAB RASUL	1/6/2019
2204	JC 665397H	SUB	SHAJI T N	1/6/2019
2205	JC 665408K	SUB	SHAM LAL	1/8/2019
2206	JC 668253L	SUB	SHAMBHU DAYAL	1/4/2019
2207	JC 669472Y	SUB	SHARMA SAW	1/3/2019
2208	JC 668401L	SUB	SHASHANKA NAYAK S	1/6/2019
2209	JC 670197W	SUB	SHASHI BHUSHAN SHARMA	1/8/2019
2210	JC 665094N	SUB	SHASHI KANT BHADRA KALI	1/2/2019
2211	JC 668281X	SUB	SHEO RAJ SINGH YADAV	1/4/2019
2212	JC 667441A	SUB	SHIBABRATA GHOSH	1/4/2019
2213	JC 670116L	SUB	SHIO MUNI SINGH	1/8/2019
2214	JC 668604P	SUB	SHISH PAL	1/4/2019
2215	JC 667184N	SUB	SHIV DATT DWIVEDI	1/4/2019
2216	JC 669491K	SUB	SHIV SINGH	1/2/2019
2217	JC 668251A	SUB	SHIVAPPA THPANNAVAR	1/4/2019

2218	JC 667865W	SUB	SHOBHA RAM AHIRWAR	1/3/2019
2219	JC 642428L	SUB	SHREE PRAKASH BHARADWAJ	1/2/2019
2220	JC 667258X	SUB	SHYAMA PADA GHOSH	1/3/2019
2221	JC 670151N	SUB	SIRAJ UDDIN BARBHUIYA	1/8/2019
2222	JC 669003W	SUB	SONAWANE PRABHAKAR BABU	1/4/2019
2223	JC 668627W	SUB	SRI HARI RAO VANAMALI	1/2/2019
2224	JC 668285N	SUB	SUBEY SINGH GOTHWAL	1/5/2019
2225	JC 667245A	SUB	SUBHASH CHAND KATOCH	1/4/2019
2226	JC 665230Y	SUB	SUBODH BANERJEE	1/3/2019
2227	JC 668697P	SUB	SUKANTA CHAKRAVERTTY	1/2/2019
2228	JC 669980P	SUB	SUKH DEV	1/7/2019
2229	JC 667489N	SUB	SUKHADEV SINGH	1/8/2019
2230	JC 668139N	SUB	SUKHWINDER SINGH	1/2/2019
2231	JC 668810Y	SUB	SUNAKAR JENA	1/6/2019
2232	JC 668403W	SUB	SURENDRA KUMAR MISHRA	1/8/2019
2233	JC 667195A	SUB	SURESH B A	1/2/2019
2234	JC 668318N	SUB	SURESH CHANDRA	1/4/2019
2235	JC 665306N	SUB	SURESH KUMAR KARMA	1/3/2019
2236	JC 669720K	SUB	SURESH KUMAR OJHA	1/5/2019
2237	JC 665159W	SUB	SURESH KUMAR PANDEY	1/3/2019
2238	JC 668286W	SUB	SURESH KUMAR PS	1/6/2019
2239	JC 668141L	SUB	SURESH N	1/4/2019
2240	JC 669676L	SUB	SURESH RAI	1/4/2019
2241	JC 667631M	SUB	SURESH SHIVAJI VADAR	1/6/2019
2242	JC 668241W	SUB	SUSHEEL PAUL SHARMA	1/8/2019
2243	JC 665099M	SUB	SUSHIL KUMAR PANDEY	1/4/2019
2244	JC 668938K	SUB	T RAMESH KUMAR RAO	1/7/2019
2245	JC 668574H	SUB	TAPAN SARKAR	1/2/2019
2246	JC 668457X	SUB	TEJ PAL SINGH	1/3/2019
2247	JC 670087F	SUB	THIRUMAVALAVAN R	1/8/2019
2248	JC 668284L	SUB	THOMAS P JOHN	1/3/2019
2249	JC 669955W	SUB	TOGA RAM CHOUDHARY	1/7/2019
2250	JC 667264L	SUB	TONE BHIM RAO ANKUSH	1/4/2019
2251	JC 667229H	SUB	TRILOK CHAND KALITA	1/8/2019
2252	JC 670150L	SUB	UDAI NARAYAN GAUND	1/8/2019
2253	JC 668572X	SUB	UMA SHANKAR SINGH	1/3/2019
2254	JC 666008K	SUB	UMESH KUMAR SINGH	1/4/2019
2255	JC 670139M	SUB	UMESH RAJAK	1/8/2019
2256	JC 670220Y	SUB	UPENDRA KUMAR SINGH	1/8/2019
2257	JC 667194X	SUB	UTPAL NATH	1/2/2019
2258	JC 668827M	SUB	VED PARKASH	1/8/2019
2259	JC 665338W	SUB	VIDYA DHAR	1/7/2019
2260	JC 668204H	SUB	VIRENDRA SINGH	1/2/2019

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

2261	JC 681481M	RIS	AJI KUMAR D	1/8/2019
------	------------	-----	-------------	----------

2262	JC 681439N	RIS	BHAGWAN SINGH	1/3/2019
2263	JC 681490N	RIS	DOIPHODE MAHADEV BABURAO	1/8/2019
2264	JC 681475Y	RIS	DURGA RAM	1/8/2019
2265	JC 681491W	RIS	GRISH CHANDRA	1/8/2019
2266	JC 681459F	RIS	HARISH CHAND	1/4/2019
2267	JC 681471H	RIS	HARISHANKAR SINGH YADAV	1/4/2019
2268	JC 681488W	RIS	JAGAT CHAND	1/8/2019
2269	JC 681431F	RIS	K KALIAPPAN	1/2/2019
2270	JC 681483X	RIS	KUNDAN SINGH MEHTA	1/8/2019
2271	JC 680737X	RIS	NIRMAL CHANDRA DUTTA	1/7/2019
2272	JC 681440H	RIS	OMKAR SINGH	1/4/2019
2273	JC 681494K	RIS	P N UNNI KRISHNAN	1/8/2019
2274	JC 681470A	RIS	PARTAP SINGH	1/6/2019
2275	JC 681506N	RIS	RAJESH KUMAR YADAV	1/8/2019
2276	JC 681460W	RIS	RAM ADHAR	1/4/2019
2277	JC 681435X	RIS	S N SINGH	1/3/2019
2278	JC 681472L	RIS	SAGAR GOUD	1/4/2019
2279	JC 681495M	RIS	SREE RANGAPU VEERA R	1/8/2019
2280	JC 681434P	RIS	SUNIL KUMAR KAIBARTA	1/3/2019
2281	JC 681467A	RIS	SUSHISHTH SINGH	1/5/2019

ARMY MEDICAL CORPS

2282	JC 700281N	SUB	ABUL HUSSAIN LASKAR	1/4/2019
2283	JC 700288X	SUB	AFZAL HUSSAIN	1/6/2019
2284	JC 699951P	SUB	AJAY KUMAR SINGH	1/2/2019
2285	JC 696746H	SUB	AJIT KUMAR	1/3/2019
2286	JC 700253F	SUB	AKHILESH CHANDRA DUBEY	1/4/2019
2287	JC 696532M	SUB	ANANDA KUMAR S	1/3/2019
2288	JC 699855A	SUB	ARJUN SINGH	1/3/2019
2289	JC 699946K	SUB	ASHWINI KUMAR DAS	1/3/2019
2290	JC 700046P	SUB	BALTE NAMDEO NARAYAN	1/4/2019
2291	JC 700385P	SUB	BANAMALI SAHU	1/8/2019
2292	JC 699983X	SUB	BIBHAS CHANDRA GHOSH	1/2/2019
2293	JC 700399P	SUB	BINDA PRASAD PAL	1/4/2019
2294	JC 699744H	SUB	BRAJENDRA SINGH	1/4/2019
2295	JC 699504L	SUB	CHITTARANJAN GOUDA	1/3/2019
2296	JC 699999H	SUB	CHOUGULE SHIVAJI KERU	1/4/2019
2297	JC 700065A	SUB	D RAVI KUMAR	1/2/2019
2298	JC 698698M	SUB	DEO NANDAN PRASAD MANJHI	1/6/2019
2299	JC 699743A	SUB	DEVKATE YUVARAJ TRIMBAK RAO	1/4/2019
2300	JC 700254K	SUB	DEWARI LAL	1/4/2019
2301	JC 699505N	SUB	DHARMENDRA	1/4/2019
2302	JC 699755P	SUB	DHAVARE GANGADHAR BALABHIM	1/4/2019
2303	JC 699188X	SUB	DILIP KUMAR SINGH	1/6/2019
2304	JC 699695L	SUB	DINESH KUMAR KUSHWAHA	1/2/2019
2305	JC 699998A	SUB	GAVALI DATTATRAY JALINDAR	1/4/2019

2306	JC 699993F	SUB	GHEWARI RAMCHANDRA GANPATI	1/4/2019
2307	JC 700847W	SUB	GOUR HARI GIRI	1/5/2019
2308	JC 699732N	SUB	HARISH CHANDRA	1/2/2019
2309	JC 700839X	SUB	IRAPPA	1/5/2019
2310	JC 698400X	SUB	JALKE NAND KISHOR NAMDEO RAO	1/6/2019
2311	JC 699146L	SUB	JAYA PRAKASH M	1/6/2019
2312	JC 699312N	SUB	JITENDRA SINGH GHARWAR	1/7/2019
2313	JC 698666K	SUB	KAMAL KUMAR	1/4/2019
2314	JC 700384M	SUB	KARUNA MAY SHARMA	1/7/2019
2315	JC 701669L	SUB	KHANDAKER NURUL AMIN	1/3/2019
2316	JC 700270F	SUB	KUMBHAR KRISHNAT GANAPATI	1/6/2019
2317	JC 700222F	SUB	M SETTU	1/3/2019
2318	JC 697174Y	SUB	M VENKATESWARA REDDY	1/3/2019
2319	JC 699996P	SUB	MAHAMUNI PRASAD KASHI NATH	1/4/2019
2320	JC 698936N	SUB	MAN SINGH BHADORIA	1/6/2019
2321	JC 700406A	SUB	MANGAONKAR PRAKASH BABURAO	1/4/2019
2322	JC 700023N	SUB	MANOJ KUMAR	1/2/2019
2323	JC 700340P	SUB	MANOJ KUMAR MAHARANA	1/3/2019
2324	JC 698889F	SUB	MANOJ KUMAR SHARMA	1/6/2019
2325	JC 700096A	SUB	MICHAEL YAGAPPAN A	1/3/2019
2326	JC 700279W	SUB	MUKESH KUMAR	1/3/2019
2327	JC 700517X	SUB	MURALEE DHARAN PILLAI K	1/3/2019
2328	JC 699945F	SUB	NARAYAN PANIGRAHY	1/3/2019
2329	JC 700226X	SUB	NARESH KUMAR	1/4/2019
2330	JC 699509K	SUB	NARPAT SINGH	1/7/2019
2331	JC 696742M	SUB	NG PRAKASH	1/4/2019
2332	JC 700233N	SUB	OMANAKUTTAN PILLAI R	1/4/2019
2333	JC 696542W	SUB	PABITRA KUMAR SAMAL	1/3/2019
2334	JC 699987N	SUB	PARAMJIT KUMAR	1/2/2019
2335	JC 700289A	SUB	PARAN AHMED	1/6/2019
2336	JC 697325M	SUB	PARMA NAND KUMAR	1/7/2019
2337	JC 699789H	SUB	PARMANAND RAY	1/4/2019
2338	JC 698777F	SUB	PRABHUNATH RAJBHAR	1/5/2019
2339	JC 700389L	SUB	PRAKASH K PILLAI	1/8/2019
2340	JC 700063P	SUB	PRAMOD KUMAR SHARMA	1/4/2019
2341	JC 699506W	SUB	PRASANTA KUMAR NAYAK	1/6/2019
2342	JC 700236F	SUB	PRATAP SINGH	1/4/2019
2343	JC 699077A	SUB	R JAYARAMAN	1/3/2019
2344	JC 699736K	SUB	R JEGANNATH	1/2/2019
2345	JC 699565H	SUB	RAJ KUMAR	1/8/2019
2346	JC 700252Y	SUB	RAJBIR SINGH	1/4/2019
2347	JC 696543Y	SUB	RAJEEV KUMAR	1/4/2019
2348	JC 700380W	SUB	RAJESH KUMAR	1/7/2019
2349	JC 700292A	SUB	RAM BOTHU RAMA RAO	1/7/2019
2350	JC 697028Y	SUB	RAM KARAN	1/7/2019

2351	JC 699819P	SUB	RAM NARESH PATEL	1/6/2019
2352	JC 700267F	SUB	RAM NATH SINGH YADAV	1/4/2019
2353	JC 700154Y	SUB	RAMESH CHANDRA MISHRA	1/4/2019
2354	JC 700062M	SUB	RAMESH PAL	1/4/2019
2355	JC 698696F	SUB	RANA ANILKUMAR GAJENDER SINGH	1/6/2019
2356	JC 700386X	SUB	RATHOD SHIV RAM LOBHA	1/8/2019
2357	JC 700379F	SUB	RUDRA PRATAP SINGH	1/7/2019
2358	JC 699729N	SUB	RUHAL AMIN BISWAS	1/2/2019
2359	JC 700028M	SUB	SAJEEVAN PILLAI K	1/3/2019
2360	JC 697755W	SUB	SAJU K P	1/6/2019
2361	JC 699727H	SUB	SANDEEP KUMAR GAUR	1/2/2019
2362	JC 700533P	SUB	SATBIR SINGH	1/4/2019
2363	JC 700390A	SUB	SATYENDAR KUMAR	1/8/2019
2364	JC 700286M	SUB	SEEPANA SATYANARAYANA	1/6/2019
2365	JC 700410H	SUB	SHAIKH BASHIR NAJIR	1/6/2019
2366	JC 700381Y	SUB	SHAM SINGH	1/7/2019
2367	JC 699902M	SUB	SHIV PAL SINGH PAL	1/2/2019
2368	JC 699818M	SUB	SHIV SHANKAR SINGH	1/2/2019
2369	JC 698396A	SUB	SHIVA PRASAD B R	1/8/2019
2370	JC 699756X	SUB	SIDARAI BADAKANNAVAR	1/3/2019
2371	JC 700516P	SUB	SIDDHA NATH SINGH YADAV	1/4/2019
2372	JC 699728L	SUB	SIVA KUMAR P	1/2/2019
2373	JC 700556W	SUB	SUBHAS CHANDRA	1/5/2019
2374	JC 699943W	SUB	SUBHAS MONDAL	1/3/2019
2375	JC 700896Y	SUB	SUDHEER KUMAR D	1/7/2019
2376	JC 700291X	SUB	SULINDER KUMAR	1/7/2019
2377	JC 699742X	SUB	SUMIT BHOWMIK	1/3/2019
2378	JC 699576P	SUB	SUNDARA VADIVEL N	1/8/2019
2379	JC 697025L	SUB	SUNDARAM NAYAK	1/6/2019
2380	JC 700221Y	SUB	SUNIL DEY ASHI	1/3/2019
2381	JC 700388H	SUB	SUNIL KUMAR R	1/8/2019
2382	JC 697916N	SUB	SURENDRA SINGH	1/8/2019
2383	JC 699507Y	SUB	SURINDER SINGH	1/6/2019
2384	JC 700059M	SUB	TALEKAR DNYANESHWAR YASHAWANT	1/4/2019
2385	JC 700234W	SUB	UDAI BHAN PATEL	1/4/2019
2386	JC 700230A	SUB	UDAYABHANU VARATHAN KANDY	1/4/2019
2387	JC 700391H	SUB	UMESH YADAV	1/8/2019
2388	JC 698280K	SUB	V LAKSHMANA MURTY	1/6/2019
2389	JC 699745L	SUB	VAIDYA SANJAY KUMAR	1/4/2019
2390	JC 699854X	SUB	VINOD KUMAR SHARMA	1/2/2019
2391	JC 699746N	SUB	YADAV YATENDRA SINGH RAMESHAWAR	1/4/2019
2392	JC 699875N	SUB	YOGENDRA SINGH	1/4/2019
2393	JC 699944Y	SUB	YOGRAM BAWNE	1/2/2019

ARMY ORDNANCE CORPS

2394	JC 730049X	SUB	ADYA PRASAD YADAV	1/4/2019
2395	JC 730357X	SUB	AIK RAM	1/8/2019
2396	JC 730512N	SUB	AJAY KUMAR	1/6/2019
2397	JC 730240Y	SUB	AKBAR ALI	1/7/2019
2398	JC 730278H	SUB	AMIYA KUMAR MONDAL	1/2/2019
2399	JC 730420F	SUB	ANIL KUMAR	1/7/2019
2400	JC 730507H	SUB	ANIL VERMA	1/3/2019
2401	JC 730285Y	SUB	ARBIND UPADHYA	1/5/2019
2402	JC 730187Y	SUB	AWADHESH PRASAD PATEL	1/4/2019
2403	JC 730505X	SUB	BHAGIRATHI NAYAK	1/8/2019
2404	JC 730127K	SUB	BHOLA NATH DAS	1/5/2019
2405	JC 729942L	SUB	BHOSALE RAMCHANDRA JALINDAR	1/8/2019
2406	JC 729941H	SUB	BHRIGU NATH SAH	1/8/2019
2407	JC 727250X	SUB	BINOD KUMAR JENA	1/2/2019
2408	JC 731063W	SUB	BIRANDER SINGH CHAUHAN	1/6/2019
2409	JC 729933K	SUB	BIRENDERA SINGH	1/2/2019
2410	JC 730828A	SUB	BISHWANATH THAKUR	1/8/2019
2411	JC 731367N	SUB	CHANDRA PRAKASH SINGH	1/8/2019
2412	JC 730398F	SUB	CHANDRAN M	1/7/2019
2413	JC 730356P	SUB	CHINAGA GOPAL KRISHNA	1/6/2019
2414	JC 730509N	SUB	CHOTE LAL MALVIYA PRAJAPATI	1/8/2019
2415	JC 727260F	SUB	DEVENDRA PRATAP SINGH	1/3/2019
2416	JC 731137A	SUB	DHARAM BIR	1/3/2019
2417	JC 731473M	SUB	DIWAKAR TIWARI	1/4/2019
2418	JC 730101P	SUB	GANESH RAM	1/8/2019
2419	JC 728427M	SUB	GAUTAM BARUA	1/2/2019
2420	JC 731183P	SUB	GIRISH CHANDRA	1/5/2019
2421	JC 730279L	SUB	GOUTAM SUTRADHAR	1/6/2019
2422	JC 731336N	SUB	HARISH CHANDER	1/5/2019
2423	JC 729931Y	SUB	HERDAY LAL SINGH	1/8/2019
2424	JC 730120A	SUB	IDHATE SUDHAKAR NANA	1/6/2019
2425	JC 727156N	SUB	INDERJIT SINGH	1/4/2019
2426	JC 730126F	SUB	ISHWAR DEO YADAV	1/7/2019
2427	JC 731641A	SUB	ISHWAR LAL SHAH	1/5/2019
2428	JC 730343X	SUB	JALWA KHAN	1/7/2019
2429	JC 729940A	SUB	JANARDHAN SINGH	1/8/2019
2430	JC 730167L	SUB	JAS RAM SINGH	1/8/2019
2431	JC 731182M	SUB	JITENDER	1/5/2019
2432	JC 730040H	SUB	JITENDRA KUMAR	1/3/2019
2433	JC 730334W	SUB	JOGESWAR PADHAN	1/7/2019
2434	JC 729475Y	SUB	JOJY XAVIER	1/7/2019
2435	JC 730332L	SUB	KADAM SHIVAJI GANPATI	1/6/2019
2436	JC 730585A	SUB	KALE POPAT EKANATH	1/4/2019
2437	JC 731555P	SUB	KALIDAS BARMAN	1/5/2019

2438	JC 729994F	SUB	KAMLESHA PRASAD PANDEY	1/8/2019
2439	JC 730105L	SUB	KAPPALA PITCHESWARA RAO	1/2/2019
2440	JC 730749L	SUB	MANDEEP SINGH	1/5/2019
2441	JC 730254Y	SUB	MANJIT SINGH	1/8/2019
2442	JC 729929F	SUB	MANOJ KUMAR	1/4/2019
2443	JC 730396W	SUB	MATHEWS T	1/4/2019
2444	JC 730397Y	SUB	MAZODKAR SANJAY SHESHARAO	1/8/2019
2445	JC 729638F	SUB	MD BAIDUL ISLAM	1/7/2019
2446	JC 731175W	SUB	MD EBRAHIM NOBI	1/2/2019
2447	JC 731019M	SUB	MHALIM SURESH BABU	1/2/2019
2448	JC 728044A	SUB	MOHAN LAL VARMA	1/8/2019
2449	JC 731785H	SUB	MOHAN SINGH	1/7/2019
2450	JC 729554N	SUB	MOHAN SINGH CHAUHAN	1/8/2019
2451	JC 730141W	SUB	MOTI SINGH CHOUHAN	1/7/2019
2452	JC 731467Y	SUB	NALAVADE DILIP GANAPATI	1/5/2019
2453	JC 731704X	SUB	NALVADE SANJU SAMPAT	1/5/2019
2454	JC 730676K	SUB	NAMBALLA NARASAYYA	1/3/2019
2455	JC 731787N	SUB	NANDAN SINGH	1/7/2019
2456	JC 730238F	SUB	NARENDER SINGH	1/5/2019
2457	JC 730301L	SUB	NARENDER SINGH	1/7/2019
2458	JC 731074H	SUB	NARHE BALA SAHEB SHITARAM	1/3/2019
2459	JC 731541P	SUB	NAZRUL HAQUE	1/5/2019
2460	JC 730853Y	SUB	NIKAM SURESH TUKARAM	1/5/2019
2461	JC 730779H	SUB	OM PRAKASH	1/8/2019
2462	JC 731652M	SUB	PRATAP KUMAR NAYAK	1/5/2019
2463	JC 731425M	SUB	RAJ KUMAR	1/5/2019
2464	JC 730366Y	SUB	RAJ KUMAR TIWARI	1/8/2019
2465	JC 729495M	SUB	RAJEEVAN K	1/3/2019
2466	JC 730222W	SUB	RAJENDRA KUMAR YADAV	1/6/2019
2467	JC 730345H	SUB	RAJU	1/2/2019
2468	JC 730413L	SUB	RAM AVADHA YADVA	1/8/2019
2469	JC 730368K	SUB	RAM BABU SINGH	1/7/2019
2470	JC 729553L	SUB	RAM BALI SINGH	1/7/2019
2471	JC 730203L	SUB	RAM NARESH PRASAD	1/8/2019
2472	JC 730192K	SUB	RAM PAL SINGH	1/8/2019
2473	JC 729930W	SUB	RAMESH KUMAR	1/6/2019
2474	JC 730028F	SUB	RAMESH PRASAD	1/6/2019
2475	JC 730121H	SUB	RAMESHWAR LAL CHOUDHARY	1/7/2019
2476	JC 729474W	SUB	RAMJI LAL	1/7/2019
2477	JC 730188F	SUB	RANJEET SINGH PARIHAR	1/4/2019
2478	JC 730752L	SUB	RAVALIYA JODHA BHIMA	1/5/2019
2479	JC 730186W	SUB	RAVI KUMAR	1/4/2019
2480	JC 731239W	SUB	RAVINDRA KUMAR BHARDWAJ	1/5/2019
2481	JC 729482P	SUB	RAVINDRA KUMAR TRIPATHI	1/4/2019
2482	JC 730243M	SUB	RETNA KUMAR PN	1/6/2019
2483	JC 730631K	SUB	RIYAJ AHAMMAD PEERAJADE	1/8/2019

2484	JC 730525L	SUB	SANIL KUMAR VS	1/8/2019
2485	JC 730164X	SUB	SANTOKH SINGH	1/7/2019
2486	JC 730415W	SUB	SARAT KUMAR SWAIN	1/3/2019
2487	JC 730416Y	SUB	SATCHIDANANDA DAS	1/8/2019
2488	JC 728555K	SUB	SATISH P KADNI	1/6/2019
2489	JC 730305F	SUB	SATYA PRAKASH SAXENA	1/3/2019
2490	JC 730149H	SUB	SAYYAD GANIPASHA SAJIR	1/4/2019
2491	JC 730218N	SUB	SHEMBRE NANA RAMA	1/6/2019
2492	JC 730058Y	SUB	SHEO SHANKAR SINGH	1/3/2019
2493	JC 730191F	SUB	SHIMBHU SINGH	1/7/2019
2494	JC 730484M	SUB	SHIV CHANDRA JHA	1/6/2019
2495	JC 731506M	SUB	SIKANDAR SINGH	1/3/2019
2496	JC 731049K	SUB	SOM NATH MISHRA	1/6/2019
2497	JC 731322N	SUB	SUDHAKARAN PR	1/8/2019
2498	JC 728048W	SUB	SURESH KUMAR	1/4/2019
2499	JC 729928Y	SUB	SURESH PRASAD DWIVEDI	1/4/2019
2500	JC 730354K	SUB	SURESH SHRIMANT SUTAR	1/6/2019
2501	JC 730202H	SUB	TANJILUR RAHAMAN	1/5/2019
2502	JC 730479F	SUB	UNNIKRISHNA KURUP MR	1/8/2019
2503	JC 731613N	SUB	UTPAL DATTA	1/5/2019
2504	JC 730150X	SUB	UTPAL KUNDU	1/6/2019
2505	JC 730348W	SUB	V LOGANATHAN	1/8/2019
2506	JC 731546N	SUB	V P MANOJ	1/3/2019
2507	JC 730433Y	SUB	V VENKATESWARLU	1/7/2019
2508	JC 730100M	SUB	VIR NARAYAN SINGH	1/6/2019
2509	JC 730346L	SUB	VIRENDRA SINGH	1/5/2019
2510	JC 728240A	SUB	WAGHE SHRIKRISHNA BHAGAWAT	1/8/2019
2511	JC 730078M	SUB	YAGENDRA PANDIT	1/4/2019

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

2512	JC 768073X	SUB	ABDUL HAFEEZ KHAN	1/6/2019
2513	JC 767088N	SUB	ACHCHHE RAM	1/2/2019
2514	JC 765938N	SUB	AKHILA CHANDRA GIRI	1/2/2019
2515	JC 766464K	SUB	ANIL KUMAR DWIVEDI	1/4/2019
2516	JC 767349W	SUB	ANIL KUMAR K P	1/4/2019
2517	JC 767086H	SUB	ANIL KUMAR MISHRA	1/2/2019
2518	JC 767640H	SUB	ASHOK KUMAR	1/6/2019
2519	JC 768289Y	SUB	ASHOK KUMAR	1/3/2019
2520	JC 768480A	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	1/7/2019
2521	JC 765314F	SUB	ASIM MAHALDAR	1/2/2019
2522	JC 766417M	SUB	ASIT BARAN MONDAL	1/6/2019
2523	JC 766072W	SUB	ASIT KUMAR PATRA	1/3/2019
2524	JC 770574W	SUB	BACHCHA LAL	1/2/2019
2525	JC 765568Y	SUB	BANWARI LAL SHARMA	1/4/2019
2526	JC 765815F	SUB	BHARTENDRA SINGH PARIHAR	1/4/2019
2527	JC 769165W	SUB	BHUWAN CHANDRA JOSHI	1/2/2019

2528	JC 765562X	SUB	BIBHUTI BHUSAN PADHIARY	1/3/2019
2529	JC 763199N	SUB	BIJENDRA SINGH RAUTELA	1/8/2019
2530	JC 768072P	SUB	BIMAL SINHA	1/5/2019
2531	JC 773271M	SUB	CHANDRA SEKHAR CN	1/5/2019
2532	JC 763239K	SUB	D NARAYANAN	1/4/2019
2533	JC 766124F	SUB	DALIP KUMAR SINGH	1/4/2019
2534	JC 768375K	SUB	DANAN JAYAN K	1/7/2019
2535	JC 763378N	SUB	DEENA NATH SINGH	1/2/2019
2536	JC 767480N	SUB	DILIP SINGH	1/8/2019
2537	JC 766514K	SUB	DILLIP KUMAR GUODA	1/2/2019
2538	JC 767508H	SUB	DINESH	1/2/2019
2539	JC 767315H	SUB	DIVAKAR RAO DOUNDE	1/8/2019
2540	JC 765006F	SUB	DULA RAM	1/3/2019
2541	JC 765558P	SUB	FUL CHAND S K	1/3/2019
2542	JC 763060W	SUB	G RAJESH	1/5/2019
2543	JC 762266F	SUB	GAJARAJ	1/3/2019
2544	JC 767515Y	SUB	GANESH CHOUDHARY	1/8/2019
2545	JC 770302W	SUB	GANESH NAUTIYAL	1/8/2019
2546	JC 766465M	SUB	GANESH PRASAD SINGH	1/3/2019
2547	JC 770697N	SUB	GEORGE PA	1/3/2019
2548	JC 763196A	SUB	GOHIL PRADHUMANSINH BHAVSINGH	1/3/2019
2549	JC 764683M	SUB	GORAKH NATH GUPTA	1/2/2019
2550	JC 766298F	SUB	GYNANDRA VERMA	1/3/2019
2551	JC 768037M	SUB	HARI NARAYAN	1/4/2019
2552	JC 768075H	SUB	HARIHAR PRASAD	1/8/2019
2553	JC 760728K	SUB	IPPILI NARAYANA RAO	1/3/2019
2554	JC 765567W	SUB	JAGESHWAR SEN	1/4/2019
2555	JC 767539H	SUB	JAGWEER SINGH	1/7/2019
2556	JC 762647H	SUB	JAYA KUMAR R	1/2/2019
2557	JC 768474M	SUB	JAYANTA PAL	1/7/2019
2558	JC 768070K	SUB	JITENDRA SHARMA	1/4/2019
2559	JC 767485M	SUB	JUGENDRA SINGH	1/3/2019
2560	JC 767313X	SUB	KAILASH CHANDRA SAINI	1/7/2019
2561	JC 772257N	SUB	KANDI NARASIMHA REDDY	1/3/2019
2562	JC 766230A	SUB	KANWAR SINGH	1/4/2019
2563	JC 767922F	SUB	KODE SRINIVASA RAO	1/2/2019
2564	JC 766859L	SUB	LANDGE DILIP ARJUN	1/7/2019
2565	JC 766125K	SUB	M VIJAYAN	1/8/2019
2566	JC 770694P	SUB	MADAN PAL	1/2/2019
2567	JC 763379W	SUB	MADHU SOODHANAN PILLAI C	1/4/2019
2568	JC 766297Y	SUB	MAGAR SHANKAR BABA	1/6/2019
2569	JC 768477A	SUB	MAHARAJ SINGH YADAV	1/7/2019
2570	JC 766233N	SUB	MAHENDER SINGH	1/4/2019
2571	JC 766303F	SUB	MAHENDRA SINGH BHADAURIA	1/4/2019
2572	JC 769739X	SUB	MAHESH CHANDRA	1/4/2019

2573	JC 763197H	SUB	MAHIPAL SINGH	1/6/2019
2574	JC 767472P	SUB	MANIK KARMAKAR	1/5/2019
2575	JC 768876K	SUB	MD SAIM ANSARI	1/4/2019
2576	JC 766406A	SUB	MULIK DINKAR CHANGDEO	1/7/2019
2577	JC 762506N	SUB	N K ANIL KUMAR	1/3/2019
2578	JC 763519X	SUB	NITAI CHANDRA GHOSH	1/7/2019
2579	JC 768034Y	SUB	PAGARE SUNIL POPAT	1/4/2019
2580	JC 766453X	SUB	PATEL MUKESH KUMAR RATILAL	1/2/2019
2581	JC 768370L	SUB	PATEL RAJENDRA KUMAR MOTI BHAI	1/7/2019
2582	JC 769536N	SUB	PATIL VISHNU NANA	1/8/2019
2583	JC 766126M	SUB	PRABIR KUMAR MONDAL	1/3/2019
2584	JC 765939W	SUB	PRADEEP KUMAR ROY	1/4/2019
2585	JC 766235Y	SUB	PRADEEP KUMAR T R	1/4/2019
2586	JC 762531M	SUB	PRASANTA KUMAR PANDA	1/5/2019
2587	JC 766234W	SUB	RAJBIR SINGH	1/8/2019
2588	JC 768273N	SUB	RAM KUMAR	1/5/2019
2589	JC 765563A	SUB	RAM PRAKASH SHARMA	1/3/2019
2590	JC 750701Y	SUB	RAM PRAVESH MISHRA	1/2/2019
2591	JC 770696A	SUB	RAM PRAVESH SINGH VERMA	1/3/2019
2592	JC 770701A	SUB	RAM VIR	1/4/2019
2593	JC 767464W	SUB	RAMA CHANDRA SAHOO	1/2/2019
2594	JC 767286Y	SUB	RAMA CHANDRA SWAIN	1/4/2019
2595	JC 767193K	SUB	RAMAKRISHNAN METAKKAT	1/8/2019
2596	JC 773678H	SUB	RAMAKRISHNAN S	1/5/2019
2597	JC 768119P	SUB	RAMJI TIWARI	1/8/2019
2598	JC 768369W	SUB	RAUT SUNIL MARUTI	1/7/2019
2599	JC 768536F	SUB	S K NAIMUDDIN	1/2/2019
2600	JC 766885M	SUB	S RAJA KUMAR	1/7/2019
2601	JC 770700X	SUB	SAGAR SHRIKRISHN BHIKHAM SINGH	1/4/2019
2602	JC 766415F	SUB	SALIMUDDIN MALLICK	1/2/2019
2603	JC 768036K	SUB	SAMIRAN KUMAR DAS	1/4/2019
2604	JC 767311M	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	1/4/2019
2605	JC 767509L	SUB	SANTOSH KUMAR PANDEY	1/2/2019
2606	JC 766407H	SUB	SATISH CHANDER	1/6/2019
2607	JC 765013X	SUB	SATYENDRA NATH MANDAL	1/3/2019
2608	JC 765941N	SUB	SHAILESH KUMAR WANI	1/4/2019
2609	JC 768074A	SUB	SHAJI R	1/8/2019
2610	JC 761168P	SUB	SHAMBHOO SINGH YADAV	1/8/2019
2611	JC 766077P	SUB	SHEESH PAL	1/4/2019
2612	JC 767476L	SUB	SUBHASH CHANDRA SAINI	1/7/2019
2613	JC 768684M	SUB	SUBIR KUMAR PAUL	1/4/2019
2614	JC 769083N	SUB	SUNIL KUMAR DWIVEDI	1/6/2019
2615	JC 768695Y	SUB	SUNIL KUMAR SINGH	1/2/2019
2616	JC 769703Y	SUB	SURENDRA SINGH PARIHAR	1/4/2019
2617	JC 765009P	SUB	SURESH KUMAR OJHA	1/3/2019

2618	JC 768591X	SUB	SURESH THAKUR	1/4/2019
2619	JC 765926Y	SUB	SURYA DEO PRASAD	1/4/2019
2620	JC 767347L	SUB	SUSHIL KUMAR	1/2/2019
2621	JC 761129W	SUB	TEJENDRA SINGH	1/3/2019
2622	JC 763576Y	SUB	V SUNDARA RAJAN	1/4/2019
2623	JC 768266X	SUB	VIMAL KUMAR GUPTA	1/5/2019
2624	JC 750704M	SUB	VINOD KUMAR	1/8/2019
2625	JC 766238M	SUB	VINOD PRASAD SHARMA	1/4/2019
2626	JC 765317P	SUB	YOGENDRA PRASAD GAUTAM	1/3/2019
2627	JC 765008M	SUB	YOGESHWAR KANT YADAVA	1/3/2019

ARMY EDUCATION CORPS

2628	JC 804331A	SUB	AJAY KUMAR SINGH	1/2/2019
2629	JC 804595F	SUB	AJIT KUMAR BISOYI	1/2/2019
2630	JC 804589N	SUB	AJIT SINGH	1/2/2019
2631	JC 804598P	SUB	ANAND BALLABH	1/3/2019
2632	JC 804615K	SUB	ANAND SINGH LOHMAROR	1/7/2019
2633	JC 804666X	SUB	ASOK KUMAR P	1/6/2019
2634	JC 804613Y	SUB	BHAGWAN SINGH THAPA	1/7/2019
2635	JC 804716X	SUB	BHOOP MANI PANDEY	1/4/2019
2636	JC 804622A	SUB	BHOOP SINGH	1/8/2019
2637	JC 804621X	SUB	BHUPENDRA SINGH RAUTELA	1/8/2019
2638	JC 804712F	SUB	BHUVNESHWAR THAKUR	1/4/2019
2639	JC 804597M	SUB	BIRJESH KUMAR SINGH	1/3/2019
2640	JC 804607L	SUB	BRAHMANANDA BINOD	1/5/2019
2641	JC 804344X	SUB	CHAUDHARY SUBHASH CHANDRA	1/8/2019
2642	JC 804466F	SUB	CHERIYAN BRC	1/6/2019
2643	JC 804645F	SUB	DEVENDER KUMAR	1/4/2019
2644	JC 804453K	SUB	DHANIK HARENDRA SINGH MAN SINGH	1/4/2019
2645	JC 804586A	SUB	DHARAMVIR	1/2/2019
2646	JC 804723N	SUB	GOPA KUMAR S	1/6/2019
2647	JC 804738W	SUB	GOPALAKRISHNAN K	1/8/2019
2648	JC 804727K	SUB	GOURI SANKARA PADHY	1/7/2019
2649	JC 804715P	SUB	GURMAIL SINGH	1/4/2019
2650	JC 804722L	SUB	H JEYARAMAN	1/6/2019
2651	JC 804447W	SUB	HARINAM SINGH	1/2/2019
2652	JC 804729P	SUB	INDRAJ SINGH PARIHAR	1/7/2019
2653	JC 804717A	SUB	JAGDISH KUMAR	1/4/2019
2654	JC 804709F	SUB	JEEVAN KUMAR	1/2/2019
2655	JC 804873K	SUB	JITENDRA KUMAR	1/8/2019
2656	JC 804591L	SUB	JITENDRA SINGH TOMAR	1/2/2019
2657	JC 804471M	SUB	KOLLU VENU GOPAL	1/7/2019
2658	JC 804340F	SUB	KRISHNA CHANDRA PRADHAN	1/7/2019
2659	JC 804730K	SUB	KRISHNA PRATAP SINGH	1/7/2019
2660	JC 804708Y	SUB	KULDIP SINGH	1/2/2019

2661	JC 804728M	SUB	KUNDAN LAL	1/7/2019
2662	JC 804644Y	SUB	LALIT KUMAR	1/2/2019
2663	JC 804612W	SUB	LALIT NARAYAN	1/7/2019
2664	JC 804338K	SUB	M SREENIVASULA REDDY	1/7/2019
2665	JC 804713K	SUB	MADAN MISHRA	1/4/2019
2666	JC 804452F	SUB	MANASA CHANDRA ROUT	1/4/2019
2667	JC 804592N	SUB	MANOJ KUMAR PANDEY	1/2/2019
2668	JC 804748A	SUB	MANTU KUMAR BISWAS	1/4/2019
2669	JC 804448Y	SUB	MUNNA LAL	1/2/2019
2670	JC 804475H	SUB	MURALEEDHARAN P	1/8/2019
2671	JC 804718H	SUB	P RAVINDRA VITTHALRAO	1/5/2019
2672	JC 804468M	SUB	P VAIDYANATHAN	1/6/2019
2673	JC 804725Y	SUB	PIJUSH CHAKRABORTY	1/6/2019
2674	JC 804749H	SUB	PRADOSH KUMAR J	1/8/2019
2675	JC 804618X	SUB	PRAMAL SINGH	1/7/2019
2676	JC 804588L	SUB	PRAMOD KUMAR PARIDA	1/2/2019
2677	JC 804348N	SUB	RABINDRA PRASAD	1/4/2019
2678	JC 804605A	SUB	RAJEEV KUMAR PANDEY	1/4/2019
2679	JC 804617P	SUB	RAJENDRA KUMAR	1/7/2019
2680	JC 804590H	SUB	RAM CHAND	1/2/2019
2681	JC 804665P	SUB	RAM DEO SINGH	1/5/2019
2682	JC 804610L	SUB	RAM KISHAN	1/6/2019
2683	JC 804623H	SUB	RAM KUMAR MOURYA	1/8/2019
2684	JC 804445L	SUB	RATNESH KUMAR	1/2/2019
2685	JC 804451Y	SUB	SANJAY KUMAR	1/3/2019
2686	JC 804454M	SUB	SANJEEV KUMAR	1/5/2019
2687	JC 804731M	SUB	SANWAT SINGH YADAV	1/8/2019
2688	JC 804619A	SUB	SARVESH SINGH	1/7/2019
2689	JC 804726F	SUB	SATYA PAL	1/7/2019
2690	JC 804664M	SUB	SATYA PAL SINGH	1/3/2019
2691	JC 804458H	SUB	SHIBU B	1/5/2019
2692	JC 804467K	SUB	SIDHARDHAN S	1/6/2019
2693	JC 804747X	SUB	SIMANCHAL PATRA	1/4/2019
2694	JC 804608N	SUB	SRI ARVIND KUMAR DWIVEDI	1/5/2019
2695	JC 804710W	SUB	SUDESH KUMAR	1/2/2019
2696	JC 804719L	SUB	SURENDER KUMAR	1/5/2019
2697	JC 804599X	SUB	SURENDRA NARAYAN	1/3/2019
2698	JC 804596K	SUB	SURENDRA PRASHAD	1/3/2019
2699	JC 804724W	SUB	SURESH KUMAR K S	1/6/2019
2700	JC 804461H	SUB	SYAMA SUNDAR NAYAK	1/6/2019
2701	JC 804735H	SUB	TAPAS MANNA	1/3/2019
2702	JC 804602M	SUB	TIRLOK SINGH	1/4/2019
2703	JC 804587H	SUB	UDAI VEER SINGH	1/2/2019
2704	JC 804337F	SUB	V SUDHAKAR CHANGAVALLI	1/7/2019
2705	JC 804714M	SUB	VIJAY KUMAR JAGGI	1/4/2019
2706	JC 804721H	SUB	VIPIN KUMAR CHAUDHARY	1/5/2019

2707	JC 804603P	SUB	YASH PAL SHARMA	1/4/2019
2708	JC 804473X	SUB	YOGENDRA KUMAR SINGH	1/7/2019

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

2709	JC 797707L	RIS	CHANDRA PRAKASH	1/7/2019
2710	JC 797642H	RIS	DHANANJAY SINGH	1/6/2019
2711	JC 797645W	RIS	HARJEE LAL GURJAR	1/4/2019
2712	JC 797616F	RIS	HRUSIKESHA BISHOYI	1/6/2019
2713	JC 797650F	RIS	JAGVIR SINGH	1/5/2019
2714	JC 797654X	RIS	PRAVINDRA KUMAR	1/7/2019
2715	JC 797657L	RIS	RAJAN KUMAR	1/6/2019
2716	JC 797671X	RIS	RAKESH KUMAR TIWARI	1/4/2019
2717	JC 797617K	RIS	RAM ROOP JATAV	1/7/2019
2718	JC 797656H	RIS	SANJAY KUMAR DUBEY	1/5/2019
2719	JC 797628W	RIS	SATHEESH KUMAR G	1/6/2019
2720	JC 797679K	RIS	SUBODH BHASKAR NEGI	1/5/2019

THE INTELLIGENCE CORPS

2721	JC 811647P	SUB	BHARAT DATTA	1/3/2019
2722	JC 811545Y	SUB	BRAHM DEV MISHRA	1/3/2019
2723	JC 811820N	SUB	BRAJA MOHAN PANDA	1/5/2019
2724	JC 811661F	SUB	CHELLADURAI K	1/5/2019
2725	JC 811610N	SUB	DEO NARAYAN	1/2/2019
2726	JC 811573L	SUB	GOVIND SINGH	1/5/2019
2727	JC 811612Y	SUB	JADHAV VISHNU RANU	1/3/2019
2728	JC 811542L	SUB	JASWANT SINGH	1/3/2019
2729	JC 811721L	SUB	JASWINDER SINGH	1/7/2019
2730	JC 811579M	SUB	JAYA CHANDRAN KARIATH	1/7/2019
2731	JC 811660Y	SUB	KRISHNA MURTHY R	1/5/2019
2732	JC 811576Y	SUB	MALKIT SINGH	1/7/2019
2733	JC 811577F	SUB	MALLAPPA BHANVIHAL	1/7/2019
2734	JC 811559Y	SUB	MEHTAB SINGH	1/4/2019
2735	JC 811568A	SUB	MOHAN SINGH	1/4/2019
2736	JC 811581K	SUB	NAGAR MAL YADAV	1/7/2019
2737	JC 811770N	SUB	NAVEEN HN	1/7/2019
2738	JC 811547K	SUB	OMINDAR SINGH	1/4/2019
2739	JC 811608W	SUB	PARAS SINGH YADAV	1/5/2019
2740	JC 811808M	SUB	RAJESH KUMAR	1/3/2019
2741	JC 811556L	SUB	RAM BACHAN SINGH YADAV	1/4/2019
2742	JC 811733A	SUB	RASESWARA NAYAK	1/6/2019
2743	JC 811567X	SUB	SATISH KUMAR YADAV	1/2/2019
2744	JC 811622H	SUB	SUBRAMANIAN G	1/3/2019
2745	JC 811561W	SUB	SUKHPAL SINGH	1/4/2019
2746	JC 811534M	SUB	T VENKET RAMAN DAS	1/2/2019
2747	JC 811648X	SUB	UDAY KUMAR MISHRA	1/3/2019
2748	JC 811731P	SUB	UMESH KUMAR CARPENTER	1/8/2019

2749	JC 811536X	SUB	VED PARKASH	1/2/2019
2750	JC 811802L	SUB	VISHNU DUTTA	1/4/2019
2751	JC 811650P	SUB	VR SREE KUMAR	1/6/2019

CORPS OF MILITARY POLICE

2752	JC 819714K	SUB	ALOK KUMAR MAITI	1/4/2019
2753	JC 819869Y	SUB	AMAR KUMAR SINGH	1/3/2019
2754	JC 819857K	SUB	ANIL KUMAR NK	1/3/2019
2755	JC 819881A	SUB	ASHOK KUMAR	1/8/2019
2756	JC 819856F	SUB	BARIA TAKHAT SINH CHANDRA SINH	1/3/2019
2757	JC 819838Y	SUB	BIJIT KUMAR BORAH	1/2/2019
2758	JC 819854W	SUB	BIJU PS	1/3/2019
2759	JC 819873F	SUB	BIRENDRA PRASAD	1/7/2019
2760	JC 819880X	SUB	BISHNU RAM NATH	1/8/2019
2761	JC 819843K	SUB	BRIJESH KUMAR DUBEY	1/2/2019
2762	JC 819708W	SUB	CHETNYA RAO SINGH	1/3/2019
2763	JC 819859P	SUB	DEVENDRA KUMAR UPADHYAY	1/4/2019
2764	JC 819872Y	SUB	DEVENDRA SINGH	1/7/2019
2765	JC 819882H	SUB	GIGI VJ	1/8/2019
2766	JC 819868W	SUB	INDRA KAMAL TAMULI	1/4/2019
2767	JC 819861M	SUB	MANOJ KUMAR SINGH	1/4/2019
2768	JC 819864A	SUB	MD OBAIDUL ISLAM	1/5/2019
2769	JC 819860K	SUB	MOHAN KUMAR SINGH	1/4/2019
2770	JC 819848H	SUB	MOHAN LAL	1/3/2019
2771	JC 819863X	SUB	MUNENDRA NARAYAN SINGH	1/4/2019
2772	JC 819877X	SUB	NISHAD GHANSHYAM GANGARAM	1/5/2019
2773	JC 819851H	SUB	PAWAN KUMAR	1/3/2019
2774	JC 819866L	SUB	PRADEEP KUMAR PARIDA	1/5/2019
2775	JC 819734X	SUB	RADHEY SHYAM	1/3/2019
2776	JC 819875M	SUB	RAM AWATAR MISHRA	1/7/2019
2777	JC 819867N	SUB	RAM JEET YADAVA	1/5/2019
2778	JC 819736H	SUB	RAMAVTAR BOYAL	1/7/2019
2779	JC 819892M	SUB	RANVEER SINGH	1/6/2019
2780	JC 819878A	SUB	RAVINDRA PAI	1/5/2019
2781	JC 819840W	SUB	S MURUGESAN	1/2/2019
2782	JC 819858M	SUB	SALENDER SINGH	1/4/2019
2783	JC 819874K	SUB	SATENDRA SINGH NEGI	1/7/2019
2784	JC 819871W	SUB	SATYENDRA KUMAR	1/6/2019
2785	JC 819735A	SUB	SHASHI BHUSHAN SHITANSHU	1/4/2019
2786	JC 819709Y	SUB	SONA LAL SAH	1/4/2019
2787	JC 819841Y	SUB	SUBHASH SINGH	1/2/2019
2788	JC 819852L	SUB	SUSHIL KUMAR	1/3/2019
2789	JC 819847A	SUB	VINDHYACHAL SINGH KUSHWAHA	1/2/2019
2790	JC 819836N	SUB	YADAV SULTAN SINGH RAMNARAYAN	1/2/2019

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

2791	JC 826270N	SUB	BIKRAM SINGH	1/3/2019
2792	JC 826255Y	SUB	HARINDRA KUMAR SINGH	1/4/2019
2793	JC 826251H	SUB	JOGENDER SINGH	1/6/2019
2794	JC 826297L	SUB	SISALAE HIMMAT B	1/7/2019

THE PIONEER CORPS

2795	JC 829591W	SUB	ARJUN KUMAR MONDAL	1/5/2019
2796	JC 829597X	SUB	ARUNESH KUMAR	1/8/2019
2797	JC 829506H	SUB	ASHOK SINGH	1/8/2019
2798	JC 829514F	SUB	BHOPAL SINGH	1/8/2019
2799	JC 829502M	SUB	DHANESWAR SAMAL	1/8/2019
2800	JC 829628M	SUB	DHOOP SINGH	1/5/2019
2801	JC 829550M	SUB	HARIKESH	1/6/2019
2802	JC 829581M	SUB	KHALILUR RAHAMAN	1/4/2019
2803	JC 829510L	SUB	KUNWAR SINGH RAWAT	1/8/2019
2804	JC 829613K	SUB	M KUMAR	1/8/2019
2805	JC 829495F	SUB	NAGENDRA SHARMA	1/4/2019
2806	JC 829520P	SUB	PHILIP HERENJ	1/6/2019
2807	JC 829551P	SUB	PRASANTA KARMAKAR	1/8/2019
2808	JC 829548P	SUB	RAJESH SINGH	1/8/2019
2809	JC 829512W	SUB	RAM NATH	1/8/2019
2810	JC 829552X	SUB	RATAN SINGH	1/8/2019
2811	JC 829555L	SUB	SRI RATNESH SINGH	1/3/2019
2812	JC 829585H	SUB	SURESH KUMAR	1/8/2019
2813	JC 829549X	SUB	TARUN DEBNATH	1/8/2019
2814	JC 829553A	SUB	THAKUR UMESH SINGH RAM PAL SINGH	1/4/2019
2815	JC 829576F	SUB	VIRI SINGH	1/8/2019

DEFENCE SECURITY CORPS

2816	JC 842490F	SUB	C RAMESH KUMAR	1/5/2019
2817	JC 843507W	SUB	DALIP SINGH BORA	1/6/2019
2818	JC 843100A	SUB	K TAMIL SELVAN	1/8/2019
2819	JC 842104K	SUB	KUMAR NICHAL LAXMAN DASA	1/6/2019
2820	JC 843115H	SUB	MOHAN LAL	1/2/2019
2821	JC 843544K	SUB	NARAYAN MAHADEO DONGRE	1/6/2019
2822	JC 843539Y	SUB	RAJBIR SINGH	1/6/2019
2823	JC 843577P	SUB	S CHRISTIRAJ	1/8/2019
2824	JC 843273X	SUB	S VENKATESWARAN	1/4/2019
2825	JC 843342H	SUB	SHRI CHAND	1/8/2019
2826	JC 842761N	SUB	SHRINIWAS PATEL	1/6/2019

TERRITORIAL ARMY

2827	TJ 5651A	SUB	CHANDRA KANTA HAZARIKA	1/7/2019
2828	TJ 5728X	SUB	GHAN SHYAM	1/2/2019
2829	TJ 5578M	SUB	KUNHIKRISHNAN AM	1/5/2019
2830	TJ 4825H	SUB	MOHAN SINGH	1/4/2019
2831	TJ 5576F	SUB	SASHI VV	1/5/2019
2832	TJ 5724F	SUB	SIDHA NATH MISHRA	1/2/2019
2833	TJ 5443L	SUB	SUDHEER KUMAR MP	1/5/2019

TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS**PRESIDENT'S BODY GUARD**

1	JC 235097Y	NB RIS	HUKAM SINGH	1/2/2019
2	JC 235096W	NB RIS	VIDHYADHER SINGH	1/2/2019

REGIMENT OF ARTILLERY

3	JC 283572F	NB SUB	ABHIMANYU YADAV	1/7/2019
4	JC 283421H	NB SUB	ANIL KUMAR	1/8/2019
5	JC 281290K	NB SUB	ASHOK UPADHYAY	1/3/2019
6	JC 276801Y	NB SUB	BALKRISHNA SUTAR	1/7/2019
7	JC 278010A	NB SUB	BALOCH NAJIR KHAN SARAVAR KHAN	1/7/2019
8	JC 275601W	NB SUB	CH VENKATESWARA RAO	1/7/2019
9	JC 280212A	NB SUB	DALVINDER SINGH	1/7/2019
10	JC 286020Y	NB SUB	DEVANAND SANAPALA	1/7/2019
11	JC 281933W	NB SUB	DHAN RAJ SINGH	1/7/2019
12	JC 283683Y	NB SUB	DHARMENDRA KUMAR YADAV	1/2/2019
13	JC 278872Y	NB SUB	GIRIN PHUKON	1/7/2019
14	JC 281152H	NB SUB	GIRVAR SINGH	1/5/2019
15	JC 286317A	NB SUB	GOPAL CHANDRA MALLIK	1/3/2019
16	JC 285618X	NB SUB	GUNDU GOVINDA RAO	1/7/2019
17	JC 276388N	NB SUB	HARVINDER SINGH	1/8/2019
18	JC 282564W	NB SUB	JAWAHAR PRASAD	1/7/2019
19	JC 282043H	NB SUB	KARAN SINGH	1/5/2019
20	JC 281389A	NB SUB	MOHINDER SINGH	1/5/2019
21	JC 276202Y	NB SUB	MOTILAL SINGH	1/3/2019
22	JC 281892X	NB SUB	PRAMODAN K	1/2/2019
23	JC 278224W	NB SUB	RAJESH KUMAR MISHRA	1/3/2019
24	JC 283416X	NB SUB	RANJEET SINGH	1/7/2019
25	JC 276470H	NB SUB	RAVI S	1/3/2019
26	JC 278754L	NB SUB	S KANNAN	1/5/2019
27	JC 280596A	NB SUB	SANKAR G	1/7/2019
28	JC 279345K	NB SUB	SARWAN KUMAR RAY	1/7/2019
29	JC 283219P	NB SUB	SHARWAN SINGH	1/7/2019

30	JC 284017A	NB SUB	SHRI RAM	1/7/2019
31	JC 282656H	NB SUB	SRI RANVIR SINGH BHADORIYA	1/3/2019
32	JC 277845H	NB SUB	SUBIR KUMAR SEN	1/5/2019
33	JC 283711A	NB SUB	SURENDRA KUMAR	1/8/2019
34	JC 280340X	NB SUB	TAPAS KUMAR KOLE	1/7/2019
35	JC 279755A	NB SUB	UMESH CHANDRA	1/7/2019
36	JC 281166H	NB SUB	VELUPULA B THIRUMALAI AH	1/7/2019
37	JC 280653W	NB SUB	VIJAY SINGH YADAV	1/4/2019
38	JC 282721X	NB SUB	VINOD KUMAR R	1/7/2019

ARMY AIR DEFENCE

39	JC 302653Y	NB SUB	DHAN SINGH	1/5/2019
40	JC 303777A	NB SUB	PRASHANT TALEKAR	1/7/2019
41	JC 303099L	NB SUB	SHEKH ILIYAS IBRAHIM	1/7/2019

MADRAS ENGINEER GROUP

42	JC 311720A	NB SUB	ABBAS MOHAMMAD	1/5/2019
43	JC 311366W	NB SUB	ANBALAGAN A	1/5/2019
44	JC 310196L	NB SUB	B VENUGOPALA RAO	1/5/2019
45	JC 312176W	NB SUB	J AROKIA DOSS	1/7/2019
46	JC 312300M	NB SUB	M MAGESH MARIA ANDUVAN	1/5/2019
47	JC 311848L	NB SUB	RAVICHANDIRAN S	1/5/2019
48	JC 311034M	NB SUB	REGAL A	1/3/2019
49	JC 311834L	NB SUB	S AROCKIASAMY	1/3/2019
50	JC 311642N	NB SUB	SATYA PAL	1/6/2019
51	JC 310512Y	NB SUB	SUNIL KUMAR PR	1/7/2019
52	JC 312177Y	NB SUB	V PANDITHURAI	1/7/2019

BENGAL ENGINEER GROUP

53	JC 341377X	NB SUB	ARBIND KUMAR SINGH	1/4/2019
54	JC 341860F	NB SUB	CHENI RAM SONOWAL	1/7/2019
55	JC 341859M	NB SUB	DHANBIR SINGH	1/3/2019
56	JC 342096N	NB SUB	DINO BANDHU MONDAL	1/5/2019
57	JC 353170K	NB SUB	GURNAM SINGH	1/4/2019
58	JC 340541H	NB SUB	KALANDI SAHOO	1/5/2019
59	JC 353510F	NB SUB	KARAJAGI VAJIR BADSHA IMAMASAHEB	1/3/2019
60	JC 341816X	NB SUB	MAHESH KUMAR	1/4/2019
61	JC 353979X	NB SUB	MAKHAN SINGH	1/7/2019
62	JC 341129F	NB SUB	MISHRA ASHOK KUMAR S	1/4/2019
63	JC 353943Y	NB SUB	MOHAMMED RAFIK	1/3/2019
64	JC 342011M	NB SUB	NIRAJ KUMAR	1/3/2019
65	JC 353682W	NB SUB	RAM BACHAN SINGH YADAVA	1/3/2019
66	JC 341862M	NB SUB	SANTOSH KUMAR SINGH	1/7/2019
67	JC 341089L	NB SUB	SATYENDER	1/6/2019

BOMBAY ENGINEER GROUP

68	JC 353691X	NB SUB	AMARJEET	1/5/2019
69	JC 353910N	NB SUB	ATTAR SINGH GURJAR	1/5/2019
70	JC 353984H	NB SUB	BHAJAN SINGH	1/7/2019
71	JC 353690P	NB SUB	MANOHAR SINGH	1/4/2019
72	JC 354386X	NB SUB	MOHAN GHANGARE	1/5/2019
73	JC 353653F	NB SUB	MUKESH SINGH	1/3/2019
74	JC 354206K	NB SUB	NAFEES AHMED	1/7/2019
75	JC 353485N	NB SUB	PATIL SAMBHAJI NAYAKU	1/7/2019
76	JC 353717F	NB SUB	PIARA SINGH	1/5/2019
77	JC 353369L	NB SUB	SAT NARAIN	1/7/2019
78	JC 341838W	NB SUB	UDIT NARAIN TIWARI	1/4/2019

CORPS OF SIGNALS

79	JC 384331H	NB SUB	A SARAVANAN	1/7/2019
80	JC 384783L	NB SUB	AMIT BANERJEE	1/4/2019
81	JC 384786Y	NB SUB	DULAL SARMAH	1/3/2019
82	JC 384421K	NB SUB	E SHABIYULLA KHAN	1/3/2019
83	JC 386816K	NB SUB	GAJENDRA SINGH	1/7/2019
84	JC 384877H	NB SUB	KAMALJIT SINGH	1/7/2019
85	JC 385282X	NB SUB	MANOJ SINGH YADAV	1/6/2019
86	JC 384869K	NB SUB	NIRANJAN MANDAL	1/7/2019
87	JC 385262K	NB SUB	PAWAN KUMAR SHARMA	1/5/2019
88	JC 385553K	NB SUB	PREM SINGH PATWAL	1/6/2019
89	JC 385087A	NB SUB	RABI KUMAR JHA	1/3/2019
90	JC 386211H	NB SUB	RAGHBIR SINGH	1/7/2019
91	JC 383999A	NB SUB	RAM SUMAN DWIVEDI	1/5/2019
92	JC 385172H	NB SUB	RAMESH CHANDRA	1/4/2019
93	JC 385263M	NB SUB	RANJEET SINGH RAJWAR	1/6/2019
94	JC 385505K	NB SUB	REYYI HEMASUNDAR RAO	1/3/2019
95	JC 385164K	NB SUB	SAMAR KUMAR GANTAIT	1/3/2019
96	JC 383844L	NB SUB	SHAHADAT ALI	1/5/2019
97	JC 383140F	NB SUB	SRI LAXMI DATT	1/7/2019
98	JC 385462A	NB SUB	UMESH CHANDRA	1/4/2019
99	JC 384784N	NB SUB	VINOD KUMAR DAS	1/3/2019

THE PUNJAB REGIMENT

100	JC 431990L	NB SUB	YASH PAL	1/2/2019
-----	------------	--------	----------	----------

THE RAJPUTANA RIFLES

101	JC 471754M	NB SUB	RAMJAN KHAN	1/4/2019
-----	------------	--------	-------------	----------

THE RAJPUT REGIMENT

102	JC 481774N	NB SUB	KAILASH CHANDRA	1/6/2019
103	JC 481730W	NB SUB	SRI UPENDRA SINGH PARIHAR	1/8/2019
104	JC 481567F	NB SUB	SURENDRA SINGH HANDA	1/5/2019
105	JC 481738H	NB SUB	SURENDRA SINGH SHEKHAWAT	1/8/2019

THE SIKH LIGHT INFANTRY

106	JC 510771L	NB SUB	AVTAR SINGH	1/6/2019
107	JC 510413A	NB SUB	RAJINDER SINGH	1/6/2019

THE DOGRA REGIMENT

108	JC 522484N	NB SUB	HEM SINGH	1/5/2019
-----	------------	--------	-----------	----------

THE GARHWAL RIFLES

109	JC 532152X	NB SUB	RAMPAL SINGH	1/7/2019
-----	------------	--------	--------------	----------

THE ASSAM REGIMENT

110	JC 551088A	NB SUB	S ADAHO	1/8/2019
-----	------------	--------	---------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

111	JC 582397K	NB SUB	DIGNESH KUMAR	1/5/2019
112	JC 581974Y	NB SUB	SAROJ KUMAR CHOUHAN	1/3/2019

5 GORKHA RIFLES

113	JC 618482A	NB SUB	DEV PRASAD GURUNG	1/5/2019
114	JC 618363K	NB SUB	SUMAN GURUNG	1/2/2019

8 GORKHA RIFLES

115	JC 618460F	NB SUB	CHHABI LAL GURUNG	1/8/2019
116	JC 624159F	NB SUB	CHUL BAHADUR GURUNG	1/4/2019
117	JC 624233X	NB SUB	KAILASH NATH	1/4/2019

11 GORKHA RIFLES

118	JC 635397N	NB SUB	BUDHA KUMAR SHRESTHA	1/8/2019
119	JC 635413A	NB SUB	IMAN SING RAI	1/3/2019

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

120	JC 672312K	NB SUB	ANANTA KUMAR RAY	1/7/2019
121	JC 670012K	NB SUB	ARUN KUMAR	1/8/2019
122	JC 670896F	NB SUB	BABULA GHADEI	1/7/2019
123	JC 668969K	NB SUB	BALA KRISHNAN N	1/3/2019
124	JC 670297F	NB SUB	BHAGVANT SINGH	1/7/2019

125	JC 670848F	NB SUB	BIKRAMA SAH	1/8/2019
126	JC 671092Y	NB SUB	D KRISHNA REDDY	1/3/2019
127	JC 670174P	NB SUB	DHARMENDRA TIWARY	1/4/2019
128	JC 670188P	NB SUB	FUL CHAND MONDAL	1/6/2019
129	JC 670362W	NB SUB	JAGAT PAL	1/6/2019
130	JC 670417P	NB SUB	JAY SHANKER SINGH YADAV	1/5/2019
131	JC 670374L	NB SUB	KULDEEP CHAND	1/8/2019
132	JC 670781N	NB SUB	MANOJ KUMAR RANA	1/7/2019
133	JC 670411N	NB SUB	MUNAGALA V RAMANA REDDY	1/7/2019
134	JC 670846W	NB SUB	NARESH KUMAR	1/8/2019
135	JC 668564Y	NB SUB	NAVIN CHANDRA BHATT	1/4/2019
136	JC 670016A	NB SUB	NAVIN CHANDRA JOSHI	1/2/2019
137	JC 670847Y	NB SUB	NET RAM	1/8/2019
138	JC 670614X	NB SUB	OM PRAKASH YADAO	1/7/2019
139	JC 670960N	NB SUB	PRAMOD KUMAR	1/8/2019
140	JC 670822M	NB SUB	PREMCHAND YADAV	1/7/2019
141	JC 671372M	NB SUB	RABI RANJAN KUMAR SINGH	1/5/2019
142	JC 670888H	NB SUB	RAJ KUMAR ROY	1/7/2019
143	JC 671121H	NB SUB	RAJESH KUMAR TRIPATHI	1/4/2019
144	JC 669329M	NB SUB	RANJAN KUMAR	1/5/2019
145	JC 671339P	NB SUB	SATYA PAL SINGH	1/4/2019
146	JC 670452X	NB SUB	SHASHI BHUSHAN SINGH	1/4/2019
147	JC 670827L	NB SUB	SHYAM SINGH	1/8/2019
148	JC 668900A	NB SUB	SUMER SINGH	1/4/2019
149	JC 669084F	NB SUB	SURESH KUMAR	1/6/2019
150	JC 669504W	NB SUB	UMESH CHANDRA TRIPATHI	1/4/2019

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

151	JC 681628X	NB RIS	KANAPARTHI VENKATESWARA REDDY	1/4/2019
152	JC 681656K	NB RIS	MEHETRE RAMDAS BHAGUJI	1/7/2019
153	JC 681695H	NB RIS	RAVALIA MASARI GODAL	1/3/2019

ARMY MEDICAL CORPS

154	JC 703219M	NB SUB	A AROCKIADASS	1/3/2019
155	JC 701753L	NB SUB	AJITHA KUMAR J	1/5/2019
156	JC 702115Y	NB SUB	BORUDE VIJAY SITARAM	1/7/2019
157	JC 700108K	NB SUB	CHINDI RAVI	1/5/2019
158	JC 702212W	NB SUB	HAWA SINGH	1/7/2019
159	JC 702077N	NB SUB	MATHEW M VARGHESE	1/3/2019
160	JC 703461F	NB SUB	SHINDE SUNIL RAMCHANDRA	1/7/2019

ARMY ORDNANCE CORPS

161	JC 731728F	NB SUB	A RAJAMANICKAM	1/5/2019
162	JC 731658N	NB SUB	ABDUL MANNAN	1/5/2019
163	JC 732217K	NB SUB	ABHAYA KUMAR BHUYAN	1/5/2019
164	JC 732670F	NB SUB	ANAND SINGH	1/4/2019
165	JC 731636P	NB SUB	BACHCHU SINGH	1/6/2019
166	JC 731269N	NB SUB	BHOSALE TANAJI SHANKAR	1/2/2019
167	JC 732083W	NB SUB	BIJOY KUMAR KHATUA	1/5/2019
168	JC 732532A	NB SUB	DEBASHISH MANDAL	1/5/2019
169	JC 731955F	NB SUB	G PANEER SELVAM	1/3/2019
170	JC 731558H	NB SUB	GOBINDA CHANDRA TUDU	1/5/2019
171	JC 732728N	NB SUB	HARI OM	1/4/2019
172	JC 732081L	NB SUB	HARISH KUMAR REKHI	1/5/2019
173	JC 731959X	NB SUB	INDRESH KUMAR	1/6/2019
174	JC 731113W	NB SUB	JAGTAP FAKKAD RAMU	1/5/2019
175	JC 731648K	NB SUB	JANAK MONDAL	1/5/2019
176	JC 732007K	NB SUB	JHABAR MAL	1/7/2019
177	JC 731741L	NB SUB	JOGINDER	1/5/2019
178	JC 731441K	NB SUB	KADAM VIJAY YALLAPPA	1/5/2019
179	JC 731975P	NB SUB	KAMALESH SARKAR	1/5/2019
180	JC 731610A	NB SUB	KAMLESH CHANDRA	1/6/2019
181	JC 733040N	NB SUB	KAMLESH KUMAR	1/6/2019
182	JC 731431A	NB SUB	KESHAR SINGH KHANGAROT	1/5/2019
183	JC 732703F	NB SUB	MANE SHANKAR VISHNU	1/5/2019
184	JC 731711N	NB SUB	MANOJ KUMAR	1/7/2019
185	JC 731721X	NB SUB	MD NAJIRUDDIN ISLAM	1/5/2019
186	JC 732216F	NB SUB	MD SAHED ALI MONDAL	1/5/2019
187	JC 732084Y	NB SUB	N MUTHU SAMY	1/3/2019
188	JC 732258N	NB SUB	NK SOLOMON RAJ	1/5/2019
189	JC 732109A	NB SUB	P ALPHONSE	1/3/2019
190	JC 731654X	NB SUB	PREM KUMAR P G	1/5/2019
191	JC 731956K	NB SUB	PUSHPENDER SINGH RAWAT	1/3/2019
192	JC 732264F	NB SUB	RAJ KUMAR	1/7/2019
193	JC 732218M	NB SUB	RAM PADA GUCHHAIT	1/5/2019
194	JC 731664F	NB SUB	RAM SEVAK	1/7/2019
195	JC 732165Y	NB SUB	RAMAKANTA MOHANTY	1/5/2019
196	JC 731957M	NB SUB	RAMESH KUMAR SAHU	1/5/2019
197	JC 732178W	NB SUB	RANGA REDDY ANNAPA REDDY	1/4/2019
198	JC 732584W	NB SUB	RK SARAVANA KUMAR	1/5/2019
199	JC 732809N	NB SUB	SANJAY KUMAR	1/4/2019
200	JC 732162L	NB SUB	SARIFUDDIN KHAN	1/5/2019
201	JC 732085F	NB SUB	SATISH KUMAR	1/6/2019

202	JC 732082N	NB SUB	SAUVAGYA KUMAR BEJ	1/5/2019
203	JC 732167K	NB SUB	SHABBIR AHMED	1/5/2019
204	JC 732163N	NB SUB	SHASHI KUMAR	1/5/2019
205	JC 731493A	NB SUB	SHIV BAHADUR	1/5/2019
206	JC 732222P	NB SUB	SHIV RAJ JAT	1/5/2019
207	JC 732219P	NB SUB	SUJOY ROY	1/5/2019
208	JC 731720P	NB SUB	TARA SHANKAR GANDHI	1/5/2019
209	JC 733312H	NB SUB	THUBE SANTOSH LAXMAN	1/8/2019
210	JC 732166F	NB SUB	VIJAY KUMAR	1/6/2019
211	JC 732453L	NB SUB	VIMLESH KUMAR	1/2/2019
212	JC 732295F	NB SUB	VISHNU SINGH	1/2/2019
213	JC 731489X	NB SUB	ZANKAR SHSHIL JYOTIRAM	1/3/2019

CORPSOF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

214	JC 772715Y	NB SUB	AJAYA KUMAR SINGH	1/3/2019
215	JC 773572W	NB SUB	ANANT SINGH	1/5/2019
216	JC 772884A	NB SUB	ANIL KH	1/3/2019
217	JC 772292W	NB SUB	ANIL KUMAR R	1/7/2019
218	JC 773138K	NB SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	1/5/2019
219	JC 771608L	NB SUB	BASHA SYED	1/7/2019
220	JC 773723K	NB SUB	CHANDRAMOULI PRASAD K	1/5/2019
221	JC 773812H	NB SUB	CHITRANJAN RAY	1/7/2019
222	JC 771128F	NB SUB	DILIP KUMAR SINGH	1/5/2019
223	JC 772969W	NB SUB	JADHAV SUBHAS MARUTI	1/2/2019
224	JC 773224P	NB SUB	LALJEE CHAUHAN	1/7/2019
225	JC 772167M	NB SUB	M MARIAPPAN	1/7/2019
226	JC 774158K	NB SUB	MUKESH KUMAR SINGH	1/7/2019
227	JC 773817F	NB SUB	MUTHURAMALINGAM G	1/5/2019
228	JC 770895N	NB SUB	NIMBA RAM DEDAR	1/5/2019
229	JC 773690K	NB SUB	OM PRAKASH	1/7/2019
230	JC 773268M	NB SUB	PRAMOK KUMAR THAKUR	1/5/2019
231	JC 773820F	NB SUB	RAJESH KUMAR BOHRA	1/6/2019
232	JC 773603L	NB SUB	RAM KUMWAR RAM	1/7/2019
233	JC 772160H	NB SUB	SAJAL MAJUMDAR	1/5/2019
234	JC 771408P	NB SUB	SATHISHA KP	1/7/2019
235	JC 773296Y	NB SUB	SHASHIKANT PRAJAPATI	1/7/2019
236	JC 769234F	NB SUB	SUBUDHI BEHERA	1/5/2019
237	JC 773108M	NB SUB	SURESH KUMAR	1/5/2019
238	JC 772899H	NB SUB	TARUN KUMAR	1/2/2019
239	JC 773233W	NB SUB	UMESH CHANDRA TIWARI	1/3/2019

THE INTELLIGENCE CORPS

240	JC 812092L	NB SUB	MANE RAMESH SAMPAT	1/3/2019
241	JC 812101F	NB SUB	SRI VISHAL KUMAR NAHAR	1/5/2019
242	JC 812110H	NB SUB	SURJIT SINGH	1/8/2019

DEFENCE SECURITY CORPS

243	JC 844566P	NB SUB	A APPANNA	1/2/2019
244	JC 843564X	NB SUB	A JOHN AROCKIA DAS	1/6/2019
245	JC 843899P	NB SUB	ABHIRAM NAYAK	1/4/2019
246	JC 844430L	NB SUB	AJEET SINGH	1/8/2019
247	JC 844537A	NB SUB	ANIL KUMAR K	1/8/2019
248	JC 843553L	NB SUB	AVTAR SINGH	1/5/2019
249	JC 843855X	NB SUB	AVTAR SINGH	1/8/2019
250	JC 843620L	NB SUB	BALBIR SINGH	1/2/2019
251	JC 843977F	NB SUB	BHAGIRATH	1/2/2019
252	JC 843881Y	NB SUB	CHAKRADHAR PRADHAN	1/6/2019
253	JC 843593M	NB SUB	CHAVAN PRAKASH	1/4/2019
254	JC 844390P	NB SUB	DEBRAJA MOHARANA	1/6/2019
255	JC 843985A	NB SUB	DEVCHAND MAHADU GANGURDE	1/6/2019
256	JC 844158K	NB SUB	DIBAKAR PANDA	1/6/2019
257	JC 843933K	NB SUB	DURGA PRASAD DWIVEDI	1/3/2019
258	JC 844350N	NB SUB	G SATYANARAYANA	1/7/2019
259	JC 844152H	NB SUB	GIRISH KUMAR	1/2/2019
260	JC 843920M	NB SUB	GOPA BANDHU JENA	1/5/2019
261	JC 843671Y	NB SUB	GOPALA KRISHNAN NAIR K	1/2/2019
262	JC 843572W	NB SUB	GOVIND	1/7/2019
263	JC 844068H	NB SUB	JAYA KUMAR B	1/6/2019
264	JC 844160F	NB SUB	K KRISHNAN KUTTY	1/6/2019
265	JC 843795N	NB SUB	KALYAN SINGH	1/7/2019
266	JC 843956L	NB SUB	KARAN SINGH	1/8/2019
267	JC 844311P	NB SUB	KARAN SINGH	1/6/2019
268	JC 843816Y	NB SUB	KESHU RAM	1/6/2019
269	JC 843646A	NB SUB	KEWAL CHAND	1/4/2019
270	JC 844272F	NB SUB	KISHAN RAM	1/6/2019
271	JC 844304Y	NB SUB	KRISHNAN R	1/6/2019
272	JC 843872X	NB SUB	KUNHI RAMAN KK	1/7/2019
273	JC 843687K	NB SUB	KUNJU MOHAMMED P	1/6/2019
274	JC 843844L	NB SUB	MAHESH PRASAD TIWARI	1/5/2019
275	JC 843632A	NB SUB	MAHINDER KUMAR	1/2/2019
276	JC 843991N	NB SUB	MANE KISAN RAMA	1/6/2019
277	JC 843648L	NB SUB	MITHILESH PRASAD	1/4/2019
278	JC 843786M	NB SUB	MOHAN SINGH RAWAT	1/2/2019

279	JC 844026W	NB SUB	MORE RAMESH	1/8/2019
280	JC 843546P	NB SUB	MUNNA SINGH	1/3/2019
281	JC 844502K	NB SUB	N SREENIVASAN	1/6/2019
282	JC 844055L	NB SUB	NAIK MARUTI	1/8/2019
283	JC 844194P	NB SUB	NIWRUTI MAHADU MEDHE	1/7/2019
284	JC 844320W	NB SUB	P ANSARI	1/4/2019
285	JC 843684W	NB SUB	P BALACHANDRAN	1/8/2019
286	JC 844013Y	NB SUB	PATIL TUKARAM BAPU	1/7/2019
287	JC 844078M	NB SUB	R GAJENDRAN	1/5/2019
288	JC 843629A	NB SUB	RAJ KUMAR	1/2/2019
289	JC 843712X	NB SUB	RAJENDRA KUMAR CG	1/6/2019
290	JC 843980F	NB SUB	RAM CHAND	1/8/2019
291	JC 843826H	NB SUB	RAM DIA	1/5/2019
292	JC 844324M	NB SUB	RAM KRISHAN	1/3/2019
293	JC 843774Y	NB SUB	RAM KUMAR	1/5/2019
294	JC 844564K	NB SUB	RAM PHAL	1/3/2019
295	JC 844357X	NB SUB	RAM SHARAN	1/8/2019
296	JC 843871P	NB SUB	RAM VILASH	1/8/2019
297	JC 843749Y	NB SUB	RATAN SINGH	1/8/2019
298	JC 844515F	NB SUB	RAVEENDRAN PUTHIYA PK	1/7/2019
299	JC 843651L	NB SUB	REWAT SINGH	1/7/2019
300	JC 844134A	NB SUB	ROSHPAL	1/7/2019
301	JC 844290K	NB SUB	SALOP SINGH	1/7/2019
302	JC 843876N	NB SUB	SATY PAL	1/4/2019
303	JC 844143F	NB SUB	SAVANT RATANSA BHIMRAO	1/6/2019
304	JC 843813K	NB SUB	SHIV CHARN	1/6/2019
305	JC 844087N	NB SUB	SHRIKANT DESAI	1/6/2019
306	JC 844589W	NB SUB	SHYAM BABU SINHA	1/7/2019
307	JC 843874H	NB SUB	SHYAM SUNDER RAM	1/7/2019
308	JC 843950K	NB SUB	SOMAN KA	1/8/2019
309	JC 844450Y	NB SUB	SUBHASH CHANDER	1/6/2019
310	JC 844150X	NB SUB	SURESAN C	1/6/2019
311	JC 843895Y	NB SUB	SURJIT SINGH	1/6/2019
312	JC 844023H	NB SUB	SURVASE WAMAN RAO	1/6/2019
313	JC 844451F	NB SUB	T DHOJO SINGH	1/4/2019
314	JC 843708P	NB SUB	TEJ BAHADUR ADHIKARI	1/2/2019
315	JC 843619W	NB SUB	VIRENDRA NATH YADAV	1/2/2019
316	JC 843679L	NB SUB	YOUVRAJ SINGH RANA	1/3/2019

[No. B/43432/ID19/AG/CW-2]

ASHWANI KUMAR, Lt. Gen. Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2019

सं. 11(अ) दिनांक 15 अगस्त 2019.—राष्ट्रपति स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित हवलदार एवं दफादार को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक नायब सुबेदार/रिसलदार के रूप में (सेवा निवृत्ति पर)

8 अश्वारोही सेना

1	15467622एन	दफादार	दशरथ सिंह कुशवाह	01.03.2019
2	15467228एच	दफादार	कान सिंह	01.02.2019
3	15468657डब्ल्यू	दफादार	नरिंदर कुमार	01.07.2019
4	15468515वाई	दफादार	राजिन्दर सिंह	01.06.2019
5	15468167एच	दफादार	संतोष कुमार सिंह	01.05.2019
6	15467417एम	दफादार	शिव प्रकाश सिंह	01.03.2019

1 अश्व

7	15468550एफ	दफादार	अजीत कुमार सिंह	01.06.2019
8	15467580एम	दफादार	ए सिंह	01.03.2019
9	15467908एच	दफादार	राजेश कुमार	01.04.2019
10	15468357पी	दफादार	संजय कुमार	01.05.2019
11	15467849एफ	दफादार	सुखदेव सिंह	01.04.2019

17 अश्व

12	15467473एल	दफादार	अवतार सिंह	01.03.2019
13	15468080एफ	दफादार	बी सिंह	01.05.2019
14	15468248एच	दफादार	गुरभेज सिंह	01.05.2019
15	15467258ए	दफादार	ईशवर सिंह	01.02.2019
16	15467487एल	दफादार	नेमी चन्द भाकर	01.03.2019
17	15468227एम	दफादार	सुरेन्द्रा सिंह	01.05.2019

9 अश्व

18	15467305एम	दफादार	कुलदीप सिंह	01.03.2019
19	15467374एच	दफादार	राजेश सिंह	01.03.2019
20	15467412एन	दफादार	राकेश कुमार	01.03.2019
21	15468769डब्ल्यू	दफादार	रतन लाल जाट	01.07.2019

14 अश्व

22	15468284एन	दफादार	बाबू राम	01.05.2019
23	15467946वाई	दफादार	बलदेव सिंह	01.04.2019
24	15468094एफ	हवलदार	केवल सिंह	01.05.2019
25	15468247ए	दफादार	कुलदीप सिंह	01.05.2019
26	15467424एच	दफादार	मनजीत सिंह	01.03.2019
27	15468588एल	दफादार	परमजीत सिंह	01.06.2019
28	15468004पी	दफादार	रशपाल सिंह	01.05.2019
29	15468768एन	दफादार	सुशील कुमार	01.07.2019

3 अश्वारोही सेना

30	15462308डब्ल्यू	दफादार	बलबीर सिंह	01.07.2019
31	15462309वाई	दफादार	जगदीश सिंह	01.07.2019
32	15468661वाई	दफादार	पप्पू राम	01.07.2019

18 अश्वारोही सेना

33	15468761के	दफादार	शिमू सिंह	01.07.2019
----	------------	--------	-----------	------------

4 अश्व

34	15468035पी	दफादार	देविन्द्र सिंह	01.05.2019
----	------------	--------	----------------	------------

केन्द्रीय भारतीय अश्व

35	15468703ए	दफादार	देवेन्द्र पाल	01.07.2019
36	15468838एफ	दफादार	रमेश कुमार तिवारी	01.08.2019
37	15467758एक्स	दफादार	रण सिंह	01.03.2019
38	15467236एफ	दफादार	विजय कुमार	01.02.2019

62 अश्वारोही सेना

39	15467674के	दफादार	हंस राज	01.03.2019
40	15467958एन	दफादार	परमजीत कुमार	01.04.2019
41	15467858एच	दफादार	प्रमोद कुमार	01.04.2019
42	15467319एम	दफादार	सोहन लाल	01.03.2019

20 भालाधारी

43	15467672वाई	दफादार	नरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
----	-------------	--------	----------------	------------

63 भालाधारी

44	15468051एम	दफादार	बलवीर सिंह	01.05.2019
45	15468286वाई	दफादार	प्रहलाद सिंह	01.05.2019

61 अश्वारोही सेना

46	15461922वाई	दफादार	मोहम्मद इसरार खान	01.03.2019
47	15461923एफ	दफादार	नायक डी. पाटिल	01.03.2019

65 कवाचिक सैन्यदल

48	15467699डब्ल्यू	दफादार	बिहारी लाल	01.03.2019
49	15468758के	दफादार	हरी ओम	01.07.2019
50	15468712एफ	दफादार	मल्कीत सिंह	01.07.2019

67 कवाचिक सैन्यदल

51	15468186एन	दफादार	अनिल कुमार	01.05.2019
52	15467960एल	दफादार	बलविन्दर सिंह	01.04.2019
53	15468028वाई	दफादार	फूमन सिंह	01.05.2019
54	15468706एन	दफादार	रणधीर सिंह	01.07.2019
55	15467486एच	दफादार	संतोष सिंह	01.03.2019
56	15468033के	दफादार	शमशेर सिंह	01.05.2019

68 कवाचिक सैन्यदल

57	15468597एम	दफादार	एच गुर्जर	01.06.2019
----	------------	--------	-----------	------------

69 कवाचिक सैन्यदल

58	15468341के	दफादार	जी. प्रसाद पटेल	01.05.2019
59	15467213ए	दफादार	गुरभेज सिंह	01.02.2019
60	15468368एफ	दफादार	नुका राजू बोडा	01.05.2019
61	15467286एम	दफादार	एस एस डोगरा	01.03.2019
62	15467475डब्ल्यू	दफादार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019

70 कवाचिक सैन्यदल

63	15468179एक्स	दफादार	अनंता चरण नाथ	01.05.2019
64	15467875एच	दफादार	धन पाल सिंह	01.04.2019
65	15468482वाई	दफादार	ओनम आई एम	01.06.2019
66	15467323पी	दफादार	पीपी दन्यानोबा	01.03.2019
67	15467724के	दफादार	राजा राम पाटिल	01.03.2019
68	15468498के	दफादार	आरएस राघव	01.06.2019

72 कवाचिक सैन्यदल

69	15468673एन	दफादार	राजिन्दर सिंह	01.07.2019
----	------------	--------	---------------	------------

70	15468356एम	दफादार	रावत सिंह	01.05.2019
71	15467850डब्ल्यू	दफादार	सरवर कुमार	01.04.2019
73 कवाचिक सैन्यदल				
72	15468305वाई	दफादार	मान सिंह	01.05.2019
73	15468626डब्ल्यू	दफादार	मोहम्मद इरसाद	01.07.2019
74 कवाचिक सैन्यदल				
74	15462436एन	दफादार	अम्बिका सिंह यादव	01.07.2019
75	15468274के	दफादार	नरेश कुमार	01.05.2019
76	15462435एल	दफादार	राम दुलार सिंह यादव	01.07.2019
76 कवाचिक सैन्यदल				
77	15468133पी	दफादार	भरत सिंह	01.05.2019
78	15468604एक्स	दफादार	लखन सिंह	01.06.2019
81 कवाचिक सैन्यदल				
79	15468025एल	दफादार	गोपाल सिंह	01.05.2019
80	15468549एम	दफादार	नीरज कुमार सिंह	01.06.2019
81	15468024एच	दफादार	सिया राम	01.05.2019
82 कवाचिक सैन्यदल				
82	15468418एफ	दफादार	अमिनुल इस्लाम	01.05.2019
83	15468683एक्स	दफादार	डी. माओ	01.07.2019
84	15468195पी	दफादार	जी. गजानन अम्बादास	01.05.2019
85	15467774पी	दफादार	गजानंद	01.03.2019
86	15468655एल	दफादार	आर एस राठोर	01.07.2019
87	15462127एल	दफादार	राम जे रौय	01.05.2019
88	15468216ए	दफादार	श्रवण कुमार	01.05.2019
89	15467661एम	दफादार	एसके. पुथीयदथ	01.03.2019
84 कवाचिक सैन्यदल				
90	15468412ए	दफादार	मनोज सिंह	01.05.2019
91	15468175एफ	दफादार	मोहम्मद एफ हुक	01.05.2019
92	15467942एच	दफादार	पी गौड़	01.04.2019
85 कवाचिक सैन्यदल				
93	15468129एम	दफादार	धर्मिन्दर सिंह	01.05.2019
94	15468593डब्ल्यू	दफादार	लोकान्था राम	01.06.2019
95	15467966एम	दफादार	मनजिंदर सिंह	01.04.2019
86 कवाचिक सैन्यदल				
96	15467514के	दफादार	जे थामस	01.03.2019
88 कवाचिक सैन्यदल				
97	15468157वाई	दफादार	बघेले नन्द किशोर	01.05.2019
89 कवाचिक सैन्यदल				
98	15462090पी	दफादार	बृजेन्द्र कुमार सिंह	01.05.2019
99	15468461एच	दफादार	राजेश चन्द	01.06.2019
100	15468579के	दफादार	सुनील कुमार	01.06.2019
41 कवाचिक सैन्यदल				
101	15467668डब्ल्यू	दफादार	महेंद्र कुमार बेहेरा	01.03.2019
42 कवाचिक सैन्यदल				
102	15468255वाई	दफादार	अनिल कुमार	01.05.2019

103	15467206के	दफादार	अवधेश राम मौर्या	01.02.2019
44 कवाचिक सैन्यदल				
104	15467383के	दफादार	ए तिवारी	01.03.2019
105	15462212एन	दफादार	वी रवि	01.05.2019
46 कवाचिक सैन्यदल				
106	15468784एल	दफादार	अकबर अली	01.07.2019
107	15468545डब्ल्यू	दफादार	राजेश कुमार सिंह	01.06.2019
47 कवाचिक सैन्यदल				
108	15467604एल	दफादार	केशा भाई राठवा केशा भाई राठवा	01.03.2019
48 कवाचिक सैन्यदल				
109	15467418पी	दफादार	ब्रजेश कुमार	01.03.2019
110	15468575एन	दफादार	भीसे बापू सहादू	01.06.2019
49 कवाचिक सैन्यदल				
111	15468434वाई	दफादार	जसमेर सिंह	01.05.2019
112	15468421एफ	दफादार	मनोज सिंह	01.05.2019
113	15468397डब्ल्यू	दफादार	मृत्युंजय कुमार	01.05.2019
114	15468031वाई	दफादार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.05.2019
11 कवाचिक सैन्यदल				
115	15468581एफ	दफादार	अनिल कुमार	01.06.2019
116	15468353वाई	दफादार	राजेश कुमार सिंह	01.05.2019
117	15467366के	दफादार	थोमबारे अंकुश एस	01.03.2019
118	15467729एच	दफादार	विजय कुमार राय	01.03.2019
119	15468676एफ	दफादार	विनोद कुमार	01.07.2019
12 कवाचिक सैन्यदल				
120	15468578एफ	दफादार	हरमिंदर सिंह	01.06.2019
13 कवाचिक सैन्यदल				
121	15468041एच	दफादार	सावन सिंह	01.05.2019
50 कवाचिक सैन्यदल				
122	15467970पी	दफादार	प्रभु ठाकुर	01.04.2019
123	15462055एम	दफादार	सकरुद्दीन	01.05.2019
51 कवाचिक सैन्यदल				
124	15468068ए	दफादार	अजीत सिंह	01.05.2019
125	15468084एक्स	दफादार	अनिल कुमार	01.05.2019
126	15468093वाई	दफादार	देवेन्द्र कुमार	01.05.2019
127	15468645एफ	दफादार	सतपाल	01.07.2019
53 कवाचिक सैन्यदल				
128	15467923एक्स	दफादार	कुर्णा चंद्रा बेहेरा	01.04.2019
129	15467664ए	दफादार	संजीवन सिंह	01.03.2019
54 कवाचिक सैन्यदल				
130	15468367वाई	दफादार	बी एस सिकरवार	01.05.2019
131	15468535एम	दफादार	एस आर गिरधारीलाल	01.06.2019
56 कवाचिक सैन्यदल				
132	15468685एच	दफादार	अखिलेश कुमार सिंह	01.07.2019
कवाचिक पलटन				

133	15462162एन	दफादार	आन्नदनाथ	01.05.2019
134	15464941पी	दफादार	एपी सिंह	01.03.2019
135	15467653एन	दफादार	अरुण कुमार सिंह	01.03.2019
136	15461895ए	दफादार	अशोक कुमार	01.03.2019
137	15467749डब्ल्यू	दफादार	बलबीर सिंह	01.03.2019
138	15462216के	दफादार	दुर्योधन सिंह	01.05.2019
139	15462044ए	दफादार	जेठ सिंह	01.05.2019
140	15464730एम	दफादार	एम मोहन	01.07.2019
141	15462129डब्ल्यू	दफादार	मनोज कुमार सिंह	01.05.2019
142	15462332एम	दफादार	एम आर	01.07.2019
143	15465313एम	दफादार	राम मनोहर एस	01.04.2019
144	15462215एफ	दफादार	आर वेंकट गिरि	01.05.2019
145	15462214वाई	दफादार	एस एल दत्तात्रिया	01.05.2019
146	15463372ए	दफादार	समुंद्र सिंह	01.06.2019
147	15468607एल	दफादार	शशि कुमार बी	01.06.2019
148	15465920एल	दफादार	शेख कादिर यूसुफ	01.07.2019
149	15462184एम	दफादार	एसके. बल्लू अली	01.05.2019
150	15462189एल	दफादार	वकील खान	01.06.2019

तोपखाना सैन्यदल

151	15124153के	हवलदार	ए गोविन्द राज	01.07.2019
152	14411017एक्स	हवलदार	ए मोहन धास	01.07.2019
153	14414754के	हवलदार	अबधेश कुमार	01.05.2019
154	15123541पी	हवलदार	अजय वीर सिंह	01.05.2019
155	14407742एम	हवलदार	अमर नाथ सिंह यादव	01.03.2019
156	15124452एच	हवलदार	अनंता चूतिया	01.07.2019
157	15123378ए	हवलदार	अंग्रेज सिंह	01.05.2019
158	14415795ए	हवलदार	अनिल कुमार	01.08.2019
159	15124056एम	हवलदार	अनिल कुमार	01.07.2019
160	15123784ए	हवलदार	अनिल कुमार	01.05.2019
161	15118631एम	हवलदार	अनिल कुमार के	01.07.2019
162	15123873वाई	हवलदार	अनिल सिंह भदोरिया	01.05.2019
163	14413702एफ	हवलदार	अनूप सिंह	01.03.2019
164	14415531वाई	हवलदार	अप्पा के	01.07.2019
165	14414676एक्स	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	01.05.2019
166	15118317वाई	हवलदार	अशोक केआर साहा	01.02.2019
167	15124079एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2019
168	14414249एफ	हवलदार	अशोक कुमार यादव	01.03.2019
169	15123175डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार यादव	01.04.2019
170	15123689एन	हवलदार	अतर सिंह	01.05.2019
171	15124444के	हवलदार	अतुल च. हज़ारिका	01.07.2019
172	14414911एल	हवलदार	बी प्रभाकर	01.05.2019
173	15123360के	हवलदार	बैद्य नाथ यादव	01.05.2019
174	9095728के	हवलदार	बी जयन्ना	01.04.2019
175	14415711एफ	हवलदार	बाज रंग सिंह जी.	01.07.2019
176	15124219पी	हवलदार	बजरंग बाली चौबे	01.07.2019
177	14414841एक्स	हवलदार	बख्तवर सिंह	01.05.2019
178	15123815पी	हवलदार	बालैया एन	01.05.2019
179	15123262के	हवलदार	बलबीर सिंह	01.05.2019
180	14415142वाई	हवलदार	बलेन ठाकुरिया	01.05.2019
181	14414678एच	हवलदार	बलजीत सिंह	01.05.2019
182	14414742पी	हवलदार	बलवीर सिंह	01.05.2019
183	14410032ए	हवलदार	बलवीर सिंह	01.05.2019
184	14415060डब्ल्यू	हवलदार	बसवराज होसामानी	01.05.2019
185	14414455एल	हवलदार	बासुदेव मोन्डल	01.06.2019
186	14415046के	हवलदार	भगवान सिंह	01.05.2019
187	15124474एफ	हवलदार	भापकर शंकर किसान	01.08.2019

188	14415179ए	हवलदार	भरत सिंह तोमर	01.05.2019
189	15123742एन	हवलदार	भास्कर केआर	01.05.2019
190	14415011एन	हवलदार	भीम सिंह	01.05.2019
191	15123566एफ	हवलदार	भुपिन्द्र सिंह	01.05.2019
192	14414548ए	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.04.2019
193	15118341पी	हवलदार	बिरकाजी राय	01.04.2019
194	15124447एक्स	हवलदार	ब्रोजेन चूतिया	01.07.2019
195	15123773एन	हवलदार	बुधराम यादव	01.05.2019
196	15118475एन	हवलदार	सी आर	01.07.2019
197	14415410एक्स	हवलदार	चंद्रा पाल	01.07.2019
198	15123365एच	हवलदार	चंद्रशेखरन जी.	01.05.2019
199	14415143एफ	हवलदार	चरनजीत सिंह	01.05.2019
200	15120111ए	हवलदार	छबि राम	01.02.2019
201	14415289पी	हवलदार	छोटे लाल	01.07.2019
202	15124073एम	हवलदार	डी. सिल्वाराज	01.07.2019
203	15118364डब्ल्यू	हवलदार	डी. भीमराव गुलाब	01.06.2019
204	15121139एम	हवलदार	दक्षना मूर्ती वी	01.03.2019
205	14407751एन	हवलदार	दल चन्द	01.04.2019
206	15123523एम	हवलदार	दल सिंह यादव	01.05.2019
207	14414866के	हवलदार	दलजीत सिंह	01.05.2019
208	14414184वाई	हवलदार	धन पाल सिंह	01.03.2019
209	14415517एम	हवलदार	धाने संतोष तानाजी	01.07.2019
210	14415515एफ	हवलदार	धाने उमेश रंगराओ	01.07.2019
211	14414804के	हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार	01.05.2019
212	15118325एक्स	हवलदार	धर्मेन्द्र नाथ त्रिपाठी	01.02.2019
213	14415163पी	हवलदार	डी. नाथ	01.05.2019
214	14415635ए	हवलदार	दिम्बेश्वर दिहींगया	01.07.2019
215	15124008एम	हवलदार	दिनेश कुमार	01.07.2019
216	14414485एच	हवलदार	दिनेश कुमार	01.03.2019
217	15123286एन	हवलदार	दिनेश कुमार	01.05.2019
218	14407770वाई	हवलदार	दिनेश ठाकुर	01.02.2019
219	15123635एम	हवलदार	दूलू कुमार डेका	01.05.2019
220	15124035डब्ल्यू	हवलदार	एलुमलाई एस	01.07.2019
221	14415281एच	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.07.2019
222	14408786डब्ल्यू	हवलदार	गजराज सिंह	01.04.2019
223	14415500वाई	हवलदार	गिरिधर जी.	01.07.2019
224	15124119के	हवलदार	गिरीश चंद्रा मिश्रा	01.07.2019
225	15123721एक्स	हवलदार	गोपा कुमार जी.	01.05.2019
226	14414737के	हवलदार	गोपाल दास	01.05.2019
227	14415727एम	हवलदार	गोपालकृष्णा वी वी	01.07.2019
228	14407905पी	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.07.2019
229	15123382एच	हवलदार	गुरप्रताप सिंह	01.05.2019
230	14415352वाई	हवलदार	ज्ञानेन्द्र सिंह	01.07.2019
231	15118637एन	हवलदार	हरदेव सिंह	01.07.2019
232	15121137एफ	हवलदार	हरेन्द्र सिंह	01.02.2019
233	14415783एल	हवलदार	हरी कुमार आर	01.08.2019
234	15123739एन	हवलदार	हरीश कुमार शर्मा	01.05.2019
235	14415529एफ	हवलदार	हरीषा अद	01.07.2019
236	14407952एम	हवलदार	हरमेश लाल	01.07.2019
237	14414651एल	हवलदार	हरपाल सिंह	01.05.2019
238	15123194एफ	हवलदार	हयात सिंह	01.04.2019
239	15124453एल	हवलदार	हीरेन गोगोई	01.07.2019
240	15123737एच	हवलदार	आइ पोर्ते	01.05.2019
241	14414925एल	हवलदार	इंद्रपाल सिंह	01.05.2019
242	15122542एल	हवलदार	इश्वर के	01.02.2019
243	15120333पी	हवलदार	इजराइल एसके.	01.05.2019
244	15123115एफ	हवलदार	जे वेंकट रामलु	01.04.2019

245	14413639एक्स	हवलदार	जगमाल सिंह	01.02.2019
246	14408182एक्स	हवलदार	जगताप बालू माधव	01.08.2019
247	14414705एफ	हवलदार	जगवीर सिंह	01.05.2019
248	14414944डब्ल्यू	हवलदार	जशवीर सिंह	01.05.2019
249	15124174ए	हवलदार	जसवंत सिंह	01.07.2019
250	15123349एल	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.05.2019
251	14414785के	हवलदार	जय प्रकाश	01.05.2019
252	15124215वाई	हवलदार	जीवन चंद्रा जोशी	01.07.2019
253	14415618ए	हवलदार	जेठा राम मेघवाल	01.07.2019
254	14415120ए	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह भदोरिया	01.05.2019
255	14415237वाई	हवलदार	जीवन सिंह	01.06.2019
256	14415191एफ	हवलदार	जोगेंद्र सिंह	01.06.2019
257	14414547एक्स	हवलदार	जोगेंद्र सिंह यादव	01.04.2019
258	15122750ए	हवलदार	जे रंजन राउत	01.03.2019
259	15118316डब्ल्यू	हवलदार	काली प्रसाद	01.02.2019
260	15124467एल	हवलदार	कमलेश कुमार मिश्रा	01.07.2019
261	15123859एम	हवलदार	कन्हैया लाल सैनी	01.05.2019
262	14414634एल	हवलदार	करन सिंह	01.05.2019
263	15124201वाई	हवलदार	केन्द्रे तुकाराम श्रीपति	01.07.2019
264	15124422एल	हवलदार	केसरी सिंह	01.07.2019
265	14415623एल	हवलदार	खगेन बोरा	01.07.2019
266	14414746एल	हवलदार	कोरे वेन्कटेश्वरलु	01.05.2019
267	14407876एल	हवलदार	के प्रफुल कुमार आर	01.07.2019
268	14414919एक्स	हवलदार	कष्णन कुमार गन्वार	01.05.2019
269	14415466के	हवलदार	कुलदीप राज	01.07.2019
270	14415078एम	हवलदार	के पउदेल	01.05.2019
271	15122677एम	हवलदार	कुंदन कुमार	01.03.2019
272	14414906ए	हवलदार	के बी	01.05.2019
273	15123947एच	हवलदार	कुशेश्वर दास	01.05.2019
274	14414971ए	हवलदार	लगद दत्तात्रिया लक्ष्मन	01.05.2019
275	15123899एन	हवलदार	लाला राम जाटव	01.05.2019
276	8033749एफ	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.05.2019
277	15123544एच	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.05.2019
278	14414699वाई	हवलदार	महीपाल सिंह	01.05.2019
279	14415125वाई	हवलदार	महीपाल सिंह एन	01.05.2019
280	14413895एम	हवलदार	मकानदार आर	01.03.2019
281	14414927डब्ल्यू	हवलदार	मनी राम	01.05.2019
282	15124240एक्स	हवलदार	मनोज कुमार मिश्रा	01.07.2019
283	14415376एच	हवलदार	मनोज कुमार यादव	01.07.2019
284	15123797एक्स	हवलदार	मनोज पुरी	01.05.2019
285	14412841वाई	हवलदार	मोहम्मद आर	01.03.2019
286	15118328एल	हवलदार	मोहम्मद जावेद खान	01.03.2019
287	14410728एल	हवलदार	मोहन लाल	01.05.2019
288	15123870एल	हवलदार	मोहन तिवारी	01.05.2019
289	14414643एम	हवलदार	मोरे एस दशरथ	01.05.2019
290	15118814एच	हवलदार	मुद्रिक प्रसाद शर्मा	01.02.2019
291	15118406एक्स	हवलदार	मुकेश कुमार	01.06.2019
292	15123261एफ	हवलदार	एन सिवा कुमार	01.05.2019
293	14415735एल	हवलदार	एन राकेश भाई एस भाई	01.07.2019
294	14414637वाई	हवलदार	नन्द किशोर प्रजापति	01.05.2019
295	14415411ए	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार सिंह	01.07.2019
296	14414561के	हवलदार	नरेश कुमार	01.04.2019
297	14415358ए	हवलदार	नील निधि सिंह	01.07.2019
298	15122592डब्ल्यू	हवलदार	नेमा राम	01.03.2019
299	14407731ए	हवलदार	निकम संजय भगवान	01.03.2019
300	15124451ए	हवलदार	एन चूतिया	01.07.2019
301	14407720एन	हवलदार	एनपी खरवार	01.02.2019
302	15123188एन	हवलदार	उपेन्द्रा सिंह	01.04.2019

303	15122133एक्स	हवलदार	पी अनिल कुमार	01.06.2019
304	15118318एफ	हवलदार	पी उलागनाथन	01.02.2019
305	14415346एल	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.07.2019
306	15123155एच	हवलदार	परशु राम	01.03.2019
307	14415652ए	हवलदार	परमार मुकेश कुमार वाजी सिंह	01.07.2019
308	15124170के	हवलदार	प्रमोद सिंह	01.07.2019
309	14415245एक्स	हवलदार	पवन कुमार	01.07.2019
310	15124164डब्ल्यू	हवलदार	पवन कुमार	01.07.2019
311	14408240डब्ल्यू	हवलदार	पवन कुमार	01.02.2019
312	14414853एम	हवलदार	पवन कुमार	01.05.2019
313	15124168एम	हवलदार	पवन कुमार	01.07.2019
314	14414851एफ	हवलदार	पी आनंदम	01.05.2019
315	15123451एन	हवलदार	पोवार वी विथोवा	01.05.2019
316	15123293के	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.05.2019
317	14408835एन	हवलदार	प्रकासन के वी	01.02.2019
318	15124045ए	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.07.2019
319	15118336के	हवलदार	प्रवीन कुमार	01.03.2019
320	14415423पी	हवलदार	प्रेम पाल सिंह	01.07.2019
321	15124450एक्स	हवलदार	पुना गोगोई	01.07.2019
322	14415602पी	हवलदार	पी गोहीना	01.07.2019
323	14407866एफ	हवलदार	आर श्रीधरन	01.07.2019
324	14414630पी	हवलदार	आर रामचंद्र महादेव	01.05.2019
325	15123589एच	हवलदार	रबीनारायन साहू	01.05.2019
326	15123542एक्स	हवलदार	राघवेन्द्रा सिंह	01.05.2019
327	15123334एच	हवलदार	राज कुमार	01.05.2019
328	15123350ए	हवलदार	राज कुमार	01.05.2019
329	15123409पी	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.05.2019
330	15123842वाई	हवलदार	राजबीर सिंह तोमर	01.05.2019
331	14414876एन	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
332	14415540ए	हवलदार	राजेश कुमार एसएस	01.07.2019
333	15123240एल	हवलदार	राजेश कुमार उपाध्याय	01.05.2019
334	14415625डब्ल्यू	हवलदार	राजीब गोहीना	01.07.2019
335	15124006एफ	हवलदार	राजपाल सिंह यादव	01.07.2019
336	15123358एम	हवलदार	आर यादव	01.05.2019
337	14415015के	हवलदार	राकेश कुमार	01.05.2019
338	श्रब14414840पी	हवलदार	राकेश राना	01.05.2019
339	14415455एक्स	हवलदार	राकेश सिंह	01.07.2019
340	14407912एल	हवलदार	राम ध्यान यादव	01.07.2019
341	14415124डब्ल्यू	हवलदार	राम गोविंद सिंह परमार	01.05.2019
342	15124423एन	हवलदार	राम जीवन सिंह	01.07.2019
343	14415400एन	हवलदार	राम खिलावन	01.07.2019
344	15121522एल	हवलदार	राम कृष्णा	01.05.2019
345	14408209के	हवलदार	राम मूर्ती लाल	01.02.2019
346	14415199एन	हवलदार	राम नारायण राजभर	01.06.2019
347	14413625एक्स	हवलदार	राम नारायण यादव	01.02.2019
348	14415192के	हवलदार	राम निवास	01.06.2019
349	14415062एफ	हवलदार	रमेश जी.	01.05.2019
350	14414762एच	हवलदार	रमेश कुमार	01.05.2019
351	15124454एन	हवलदार	रामजी लाल	01.07.2019
352	15123550डब्ल्यू	हवलदार	आर सिंह	01.05.2019
353	14414740के	हवलदार	रंजीत सिंह	01.05.2019
354	14415374एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	01.07.2019
355	14414012के	हवलदार	रतना राज ई	01.03.2019
356	15124449एच	हवलदार	रोमन बोरुह	01.07.2019
357	15118350डब्ल्यू	हवलदार	रूप सिंह	01.05.2019
358	15124063एच	हवलदार	रूप सिंह	01.07.2019
359	15118430एन	हवलदार	एस गोविंदराज	01.06.2019

360	15123614डब्ल्यू	हवलदार	एस मोलाली	01.05.2019
361	15123598के	हवलदार	एस सूसई जेसू अरोचकिम	01.05.2019
362	15123232एम	हवलदार	सादी रमा कृष्णा	01.04.2019
363	14415235एन	हवलदार	साहब सिंह	01.06.2019
364	14415470एम	हवलदार	सैलेन्द्रा नाथ हाज़रा	01.07.2019
365	14415778ए	हवलदार	साजी एस	01.08.2019
366	15123324वाई	हवलदार	सालविन्दर सिंह	01.05.2019
367	14414909एन	हवलदार	एस कुमार सुमन	01.05.2019
368	15124011एम	हवलदार	समपूरन सिंह	01.07.2019
369	14414713ए	हवलदार	संजय कुमार	01.05.2019
370	14415354के	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.06.2019
371	15123299एल	हवलदार	संजय सिंह	01.05.2019
372	15124098वाई	हवलदार	संजीव कुमार यादव	01.07.2019
373	14415475एल	हवलदार	संजीव कुमार	01.07.2019
374	15124283एम	हवलदार	संजोय तलुकदर	01.07.2019
375	15118369पी	हवलदार	संकर ए	01.03.2019
376	15118484पी	हवलदार	संथा कुमार के	01.07.2019
377	14415021एक्स	हवलदार	संतोष सी एम	01.05.2019
378	15123847एक्स	हवलदार	संतोष कुमार यादव	01.05.2019
379	14415050एम	हवलदार	सरवन जी.	01.05.2019
380	15119188डब्ल्यू	हवलदार	सरोज कुमार वर्मा	01.02.2019
381	14409789डब्ल्यू	हवलदार	सतेंद्र कुमार चौबे	01.08.2019
382	15124177एन	हवलदार	साठे पंधरीनाथ पुंडलिक	01.07.2019
383	14415279एल	हवलदार	सतीश चन्द शर्मा	01.07.2019
384	14414606वाई	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2019
385	14413632एन	हवलदार	सत्य पाल	01.02.2019
386	15124353ए	हवलदार	सत्य प्रकाश एस	01.07.2019
387	14414768के	हवलदार	सत्य वीर	01.05.2019
388	15123609एल	हवलदार	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	01.05.2019
389	14415263ए	हवलदार	एसजी. सेट्टी	01.07.2019
390	14414554एन	हवलदार	शैलेंद्र प्रताप सिंह	01.04.2019
391	15124069के	हवलदार	शाम लाल	01.07.2019
392	15123751पी	हवलदार	शंकर कौशिक	01.05.2019
393	15123965एल	हवलदार	श्रवण कुमार	01.06.2019
394	15124457एफ	हवलदार	शीश राम	01.07.2019
395	14415088डब्ल्यू	हवलदार	शिशुपाल सिंह	01.05.2019
396	14415479एफ	हवलदार	एस पीडी वर्मा	01.07.2019
397	14415601एम	हवलदार	शिवनाथ सिंह	01.07.2019
398	15123852एच	हवलदार	श्रीनिवास सिंह तोमर	01.05.2019
399	15124032एच	हवलदार	श्याम सुंदर झा	01.07.2019
400	15124220के	हवलदार	एस पानी	01.07.2019
401	15118462डब्ल्यू	हवलदार	सोलंकी सी एल	01.07.2019
402	14415409एच	हवलदार	सोउदन सिंह	01.07.2019
403	14414935पी	हवलदार	श्री गोपी राम बारो	01.05.2019
404	15123120एम	हवलदार	श्री पुतुल सेकिआ	01.03.2019
405	15123629वाई	हवलदार	श्रीनिवास राव एस	01.05.2019
406	14415392ए	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.07.2019
407	15124327वाई	हवलदार	एस एस	01.07.2019
408	15124188ए	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.07.2019
409	15123423एफ	हवलदार	सुमेशवर सिंह	01.05.2019
410	15123933एच	हवलदार	सुनील कुमार	01.05.2019
411	14415065पी	हवलदार	सुनील कुमार बारडिया	01.05.2019
412	14414929एफ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.05.2019
413	15123662डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश ए	01.05.2019
414	14414509एफ	हवलदार	सुरेश चंद्र	01.04.2019
415	15124463पी	हवलदार	सुरेश कुमार	01.07.2019
416	14415566पी	हवलदार	सुरेश कुमार	01.07.2019
417	15124346के	हवलदार	सुरेश कुमार	01.07.2019

418	8033714एल	हवलदार	सुरिन्दर कुमार	01.05.2019
419	15119527एल	हवलदार	सुर्वे कमलाकर महादेव	01.05.2019
420	14408124एन	हवलदार	स्वप्न कुमार घोष	01.07.2019
421	14415177पी	हवलदार	तेजपाल सिंह	01.05.2019
422	14415398एफ	हवलदार	तिलक सिंह	01.07.2019
423	15121089एम	हवलदार	उमा कांत तिवारी	01.02.2019
424	15124357डब्ल्यू	हवलदार	उमाकांत यादव	01.07.2019
425	15123851ए	हवलदार	उमेश सिंह भदोरिया	01.05.2019
426	15124016एल	हवलदार	उत्तातम चन्द	01.07.2019
427	15121142एम	हवलदार	वी लक्ष्मी नारायणा	01.08.2019
428	15119856एफ	हवलदार	वेद प्रकाश	01.04.2019
429	14407992एन	हवलदार	वेद पौल	01.07.2019
430	14414810एक्स	हवलदार	विजय बहादुर थापा	01.05.2019
431	14414987एल	हवलदार	विजय कुमार	01.05.2019
432	15123568एम	हवलदार	विजय कुमार	01.05.2019
433	15124431एम	हवलदार	विजय सिंह	01.07.2019
434	14415146पी	हवलदार	विमलेश उपाध्याय	01.05.2019
435	15124042एम	हवलदार	विनोद कुमार	01.07.2019
436	14415588एन	हवलदार	विनोद कुमार त्रिपाठी	01.07.2019
437	15123680वाई	हवलदार	विरेंद्र सिंह	01.05.2019
438	14414940ए	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.05.2019
439	15123926एम	हवलदार	योगेंद्रा बहादुर सिंह	01.05.2019

सेना वायु सुरक्षा

440	15761270के	हवलदार	अमर पाल सिंह	01.05.2019
441	15761118डब्ल्यू	हवलदार	अमर सिंह	01.05.2019
442	14413946पी	हवलदार	अनिल कुमार	01.03.2019
443	14414575के	हवलदार	ए राम त्रिपाठी	01.04.2019
444	15118384के	हवलदार	अर्दी वसूदेवा राव	01.06.2019
445	15761035एल	हवलदार	अर्जुनाराम	01.05.2019
446	14413864एम	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	01.03.2019
447	15761713ए	हवलदार	अशोक चंद्रा शर्मा	01.07.2019
448	15761368एक्स	हवलदार	बी सुरेश कुमार	01.05.2019
449	8033801वाई	हवलदार	बच्छा लाल	01.07.2019
450	15761196एन	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.05.2019
451	14414368एक्स	हवलदार	बारिया शंकर सिंह लक्ष्मन सिंह	01.03.2019
452	15761740के	हवलदार	भोम सिंह	01.07.2019
453	14409720एम	हवलदार	भूप सिंह	01.05.2019
454	15761678एच	हवलदार	बिमल बर्मन	01.07.2019
455	14413728डब्ल्यू	हवलदार	बीरपाल सिंह	01.03.2019
456	15761635एन	हवलदार	ब्रम सिंह	01.07.2019
457	15761534ए	हवलदार	बृज भान सिंह	01.05.2019
458	15118330एच	हवलदार	बृज भूषण	01.03.2019
459	15761473एन	हवलदार	छेनाराम सिनवार	01.05.2019
460	15761611के	हवलदार	दया शंकर	01.07.2019
461	14407857ए	हवलदार	दयाल चन्द	01.07.2019
462	14408211एफ	हवलदार	दीना नाथ	01.08.2019
463	15761292एच	हवलदार	धीरेन्द्र सिंह बी	01.05.2019
464	14407855पी	हवलदार	द्वारकानाथ	01.07.2019
465	15761714एच	हवलदार	गौतम महेंद्र पाल सिंह रामप्रताप सिंह	01.07.2019
466	15761498ए	हवलदार	घान श्याम सिंह तोमर	01.05.2019
467	15761086वाई	हवलदार	एच पाल सिंह	01.05.2019
468	15761219के	हवलदार	के पांडि	01.05.2019
469	15761444वाई	हवलदार	के विनयागम	01.05.2019
470	15761132एच	हवलदार	करन सिंह	01.05.2019
471	15118520पी	हवलदार	कुलजिंदर सिंह	01.07.2019
472	15761341ए	हवलदार	कुमारा एस	01.05.2019

473	15761569डब्ल्यू	हवलदार	कुम्भार अपासो शंकर	01.06.2019
474	15761095ए	हवलदार	लखविंदर सिंह	01.05.2019
475	15761721वाई	हवलदार	लक्ष्मी चन्द	01.07.2019
476	14407980वाई	हवलदार	मदन कुमार चेट्टरी	01.07.2019
477	15761235एफ	हवलदार	मेहराम सिंह	01.05.2019
478	15761339एच	हवलदार	महेश चन्द दुबे	01.05.2019
479	15761278डब्ल्यू	हवलदार	मल्लीकारजूना	01.05.2019
480	15761543एफ	हवलदार	मनिमारन एन	01.05.2019
481	15761036एन	हवलदार	मनोज कुमार	01.05.2019
482	14412650के	हवलदार	मनोज कुमार मिश्रा	01.07.2019
483	15761681एच	हवलदार	मनोज कुमार सरकार	01.07.2019
484	15761719एफ	हवलदार	मनोज सिंह	01.07.2019
485	15761326एल	हवलदार	माया राम शर्मा	01.05.2019
486	15761505एल	हवलदार	एम सिंह परमार	01.05.2019
487	15761029एक्स	हवलदार	एम खान	01.05.2019
488	15761436ए	हवलदार	मुन्नी राम सिनवार	01.05.2019
489	15761679एल	हवलदार	नारायण बेहेरा	01.07.2019
490	14408198एच	हवलदार	नरसी राम	01.08.2019
491	15761299एम	हवलदार	एन वी	01.05.2019
492	14414345डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01.03.2019
493	15761276एल	हवलदार	प्रथिबान जे	01.05.2019
494	14408026एन	हवलदार	प्रवीण कुमार	01.07.2019
495	14413675एच	हवलदार	पी काकाति	01.03.2019
496	15118643एफ	हवलदार	आर राजेन्द्रियन	01.08.2019
497	14414426डब्ल्यू	हवलदार	रघुवीर सहाय	01.03.2019
498	8033712ए	हवलदार	राज किशोर सिंह	01.04.2019
499	15761716एन	हवलदार	राज कुमार	31.05.2019
500	15761258एच	हवलदार	राजेंद्रा सिंह यादव	01.05.2019
501	14413865पी	हवलदार	राजेश कुमार	01.03.2019
502	15761706के	हवलदार	राजेश कुमार	01.07.2019
503	15761083एल	हवलदार	राकेश बाबू	01.05.2019
504	14407959डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार मिश्रा	01.07.2019
505	14414387एच	हवलदार	राकेश कुमार राय	01.03.2019
506	15761387एच	हवलदार	राम बिकास प्रसाद सिंह	01.05.2019
507	14414258एच	हवलदार	रामेन्द्र पौल	01.03.2019
508	15761241पी	हवलदार	आर सिंह	01.05.2019
509	14408611एन	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.08.2019
510	15761584एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.06.2019
511	15761777एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
512	14414060के	हवलदार	रमेश कुमार सिंह	01.03.2019
513	14414430वाई	हवलदार	रामपत यादव	01.03.2019
514	14413762डब्ल्यू	हवलदार	रतिन्द्रा नाथ एसआई	01.03.2019
515	14414384पी	हवलदार	रवि कुमार	01.03.2019
516	15761023डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र कुमार यादव	01.05.2019
517	14414261एच	हवलदार	रोमेल कान्ति नाथ	01.03.2019
518	15761647एच	हवलदार	एस शिखावेल	01.07.2019
519	15761218एफ	हवलदार	एस सूरिया कुमार	01.05.2019
520	14412874के	हवलदार	एस अकबर बी	01.06.2019
521	15761018एल	हवलदार	समर पाल सिंह	01.05.2019
522	14413951ए	हवलदार	संजय कुमार खोला	01.03.2019
523	15761032एक्स	हवलदार	सरोज कुमार सिंह	01.05.2019
524	15761597एच	हवलदार	शम्भू शरण सिंह	01.07.2019
525	15761155के	हवलदार	शिशनाथ प्रजापति	01.05.2019
526	15761345डब्ल्यू	हवलदार	शिव कुमार	01.05.2019
527	14408157वाई	हवलदार	श्यामल कुमार मोन्डल	01.07.2019
528	15761692पी	हवलदार	सुबाष जे	01.07.2019
529	14414058एम	हवलदार	सुभाष चन्द	01.03.2019
530	15761257ए	हवलदार	सुधीर कुमार	01.05.2019

531	15761591एफ	हवलदार	सुधीर कुमार सिंह	01.07.2019
532	15761104डब्ल्यू	हवलदार	एस पोनम बाथ	01.05.2019
533	15761778एन	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.07.2019
534	14413689एच	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह नेगी	01.03.2019
535	15761109पी	हवलदार	सुरेश कुमार	01.05.2019
536	14414334के	हवलदार	सुरेश सिंह बी	01.03.2019
537	15761574एफ	हवलदार	तरसेम लाल	01.06.2019
538	15761677ए	हवलदार	उदय नन्द यादव	01.05.2019
539	15761662एक्स	हवलदार	उदय संकर पाल	01.07.2019
540	15761204एफ	हवलदार	उमा शंकर यादव	01.05.2019
541	15761684डब्ल्यू	हवलदार	वी जया कुमार	01.07.2019
542	15761682एल	हवलदार	वी नारायना स्वामी	01.07.2019
543	15761020एच	हवलदार	वेलपुला वेन्कटेश्वरलु	01.05.2019
544	15761413वाई	हवलदार	वेलू आर	01.05.2019
545	15761690के	हवलदार	विजया कुमार वी	01.07.2019
546	14414389एन	हवलदार	विनय कुमार शर्मा	01.03.2019
547	15761787पी	हवलदार	विनोद कुमार	01.08.2019
548	14414394वाई	हवलदार	विनोद कुमार गुर्जर	01.03.2019
549	15761693एक्स	हवलदार	विथल सी यू	01.07.2019
550	14413770पी	हवलदार	येनारे अशोक रामदास	01.03.2019

सेना वायु पलटन

551	15118377एन	हवलदार	ब्रज कांत सिंह	01.06.2019
552	14414055वाई	हवलदार	हरीश सिंह	01.03.2019
553	14408213एम	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	01.08.2019
554	14407764एल	हवलदार	कमल प्रकाश	01.05.2019
555	15123882ए	हवलदार	लाल बाबू सिंह	01.05.2019
556	15122785डब्ल्यू	हवलदार	मराठे प्रशांत प्रभाकर	01.03.2019
557	14408072एच	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.07.2019
558	15124234के	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.07.2019
559	14413209एन	हवलदार	आर पेरुमल	01.05.2019
560	14409820एक्स	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
561	14414126पी	हवलदार	रामाश्रया राम यादव	01.03.2019
562	15118549एक्स	हवलदार	आर सेन	01.07.2019
563	15123495एल	हवलदार	सरनजीत सिंह	01.05.2019
564	14414295डब्ल्यू	हवलदार	शिवा राज	01.03.2019
565	14412660एन	हवलदार	श्याम बाबू	01.07.2019

मद्रास यान्त्रिक समुह

566	15312164एन	हवलदार	ए अरोचिया दास	01.05.2019
567	15312241एक्स	हवलदार	ए बालमुरुगन	01.06.2019
568	15312334एम	हवलदार	ए छिदामबरा एम	01.06.2019
569	15312320एम	हवलदार	ए एलुमलाई	01.06.2019
570	15312190पी	हवलदार	ए हेनरी एमएएक्स	01.05.2019
571	15312353एक्स	हवलदार	ए जॉन पीटर	01.06.2019
572	15314734एक्स	हवलदार	ए कृष्णा मूर्ती	01.05.2019
573	15314592एल	हवलदार	ए विजयाकुमार	01.03.2019
574	15314434डब्ल्यू	हवलदार	अब्दुल मुनीर	01.02.2019
575	15314603एम	हवलदार	अजीत कुमार सी	01.03.2019
576	15312099वाई	हवलदार	आनन्दन सी	01.05.2019
577	15314414एच	हवलदार	आनन्दन एम	01.02.2019
578	15315056पी	हवलदार	अंगराज बहादुर पाल	01.08.2019
579	15312181एन	हवलदार	अनिल डंग डंग	01.05.2019
580	15312068वाई	हवलदार	अनिल कुमार जी.	01.04.2019
581	15312155एम	हवलदार	अनिल कुमार के	01.05.2019
582	15312257एच	हवलदार	अनिलकुमार बी	01.06.2019
583	15312086एफ	हवलदार	अनिलकुमार केजी	01.04.2019

584	15312317एम	हवलदार	ए सुधाकर	01.06.2019
585	15312310एच	हवलदार	अरुल आनंद राज एल	01.06.2019
586	15314427ए	हवलदार	बी पलानीवल	01.02.2019
587	15314670एक्स	हवलदार	बी वैकटैया	01.04.2019
588	15312363एफ	हवलदार	बदारी चिन्ना वेंकट सुब्बैया	01.07.2019
589	15314615एफ	हवलदार	बाजी हाशिम	01.03.2019
590	15315046एल	हवलदार	बालागुरू एम	01.07.2019
591	15314804एल	हवलदार	बेवारा सुरेश	01.05.2019
592	15312347के	हवलदार	बीजू पी	01.06.2019
593	15314884एन	हवलदार	बिराप्पा आर चोगले	01.05.2019
594	15314332ए	हवलदार	सी अरुल	01.02.2019
595	15314744एफ	हवलदार	सी काथीरावन	01.05.2019
596	15312285पी	हवलदार	सी एम	01.06.2019
597	8033640एफ	हवलदार	सी नागाराजन	01.03.2019
598	15314347एच	हवलदार	सीई चित्ती बाबू	01.02.2019
599	15314514एन	हवलदार	चंद्रा शेखरा रेडी आर	01.03.2019
600	15314691एन	हवलदार	चिन्नाराजु सी	01.05.2019
601	15314922वाई	हवलदार	डी. कानन्न	01.05.2019
602	15312301एफ	हवलदार	दसाराथन के	01.06.2019
603	15315007एम	हवलदार	डी. गोड़ सीएन	01.07.2019
604	15314553एम	हवलदार	दिनेशन एम	01.03.2019
605	15312289एल	हवलदार	दिवाकर यादव	01.06.2019
606	15314730एफ	हवलदार	ई एस	01.05.2019
607	15315001एल	हवलदार	जी. पलानी कुमार	01.07.2019
608	15313187एफ	हवलदार	जी. रगु	01.06.2019
609	15314850ए	हवलदार	गनेश पी	01.05.2019
610	15312213एल	हवलदार	जी. कुमार बी	01.05.2019
611	15312143एक्स	हवलदार	हरी भानु पांडे	01.05.2019
612	15314424एम	हवलदार	एच जी.	01.02.2019
613	15311943के	हवलदार	इजराइल मियां	01.03.2019
614	15312379एम	हवलदार	जे चंद्रन	01.07.2019
615	15312279एफ	हवलदार	जे डोमिनिक	01.06.2019
616	15312251एफ	हवलदार	जयन ओके.	01.06.2019
617	15314864ए	हवलदार	के दामोदर रेडी	01.06.2019
618	15314561एल	हवलदार	के मुरुगन	01.03.2019
619	15314702पी	हवलदार	के एस	01.05.2019
620	15314425पी	हवलदार	के सुरेश बाबू	01.02.2019
621	15314659वाई	हवलदार	के थामस	01.04.2019
622	15312243एच	हवलदार	काशीनाथ एस	01.06.2019
623	15312674पी	हवलदार	केसी देवराज	01.06.2019
624	15311923डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णन के वी	01.02.2019
625	15312050एच	हवलदार	के.एस एस	01.04.2019
626	15314318एन	हवलदार	एम अब्दुल गनी	01.02.2019
627	15312230एल	हवलदार	एम अलेक्जेंडर	01.06.2019
628	15312276एन	हवलदार	एम अरोकिया दास	01.06.2019
629	15312349पी	हवलदार	एम नरेश कुमार	01.06.2019
630	15312287ए	हवलदार	एम रमेश बाबू	01.06.2019
631	15312016एच	हवलदार	एम थंगवेल	01.04.2019
632	15314472एम	हवलदार	मनी कनदन एस	01.03.2019
633	15314729एम	हवलदार	मणिकंदन के	01.05.2019
634	15311992एम	हवलदार	मनोहरन एम	01.03.2019
635	15312125पी	हवलदार	मनोज एटी	01.05.2019
636	15312450पी	हवलदार	मनोकरण जे	01.07.2019
637	15315121के	हवलदार	मार्क एम	01.08.2019
638	15314973एम	हवलदार	एम श्रीनिवास राव	01.06.2019
639	15311929एक्स	हवलदार	एम के अच्युतन कुट्टी	01.03.2019
640	15312091एम	हवलदार	मुन्ना प्रसाद	01.04.2019
641	15314462एच	हवलदार	मुरुगन पी	01.03.2019

642	15312173पी	हवलदार	पी जयराज	01.05.2019
643	15312283के	हवलदार	पी के रमन	01.06.2019
644	15314636एक्स	हवलदार	पी कुमार	01.03.2019
645	15312316के	हवलदार	पी वेलमुरुगन	01.06.2019
646	15314453एफ	हवलदार	पी वेकटेशन	01.02.2019
647	15312262एन	हवलदार	पनीर राजा बी	01.06.2019
648	15312272एक्स	हवलदार	परमसिवा पेरुमल के	01.06.2019
649	15312048एल	हवलदार	पीडी साजी	01.04.2019
650	15315086एम	हवलदार	पीएन गोबीनाथन	01.08.2019
651	15314797ए	हवलदार	प्रभाकरण पी	01.05.2019
652	15312217एफ	हवलदार	प्रकासन के	01.05.2019
653	15312031एक्स	हवलदार	प्रसन्ना कुमार टी	01.04.2019
654	15312108पी	हवलदार	आर गोपीनाथ	01.05.2019
655	15312351एम	हवलदार	आर कुमार	01.06.2019
656	15313405पी	हवलदार	आर सुब्रमनिअन	01.07.2019
657	15312102एन	हवलदार	आर वेलमुरुगन	01.05.2019
658	15312171के	हवलदार	राजा कुमार आर	01.05.2019
659	15314478एन	हवलदार	राजसेकरन टी	01.03.2019
660	15314420डब्ल्यू	हवलदार	राजेश कुमार यादव	01.02.2019
661	15312391एन	हवलदार	राजू	01.08.2019
662	15312395के	हवलदार	राम	01.08.2019
663	15312226एच	हवलदार	रमेश बीबी	01.06.2019
664	15312370एक्स	हवलदार	रामनरेश पटेल	01.10.2019
665	15312157एक्स	हवलदार	रसूलसाब टी	01.05.2019
666	15314598एम	हवलदार	रवि कोनेरी	01.03.2019
667	15314504के	हवलदार	रेडी चार्ला राजन्ना	01.03.2019
668	15312103डब्ल्यू	हवलदार	एस इनबानाथन	01.05.2019
669	15314591एच	हवलदार	सामन्धी आर	01.03.2019
670	15312449ए	हवलदार	सादी राजशेखर	01.02.2019
671	15314757वाई	हवलदार	साजन एस	01.05.2019
672	15312273ए	हवलदार	साजन एसएस	01.06.2019
673	15315146डब्ल्यू	हवलदार	सेजीथ कुमार टी वी	01.07.2019
674	15314337वाई	हवलदार	शिखावेल एस	01.02.2019
675	15312152वाई	हवलदार	संजीव केके	01.05.2019
676	15312161ए	हवलदार	ससेन्द्रणन एम	01.05.2019
677	15314923एफ	हवलदार	सत्यनारायना रेडी आर	01.05.2019
678	15312282एफ	हवलदार	सैथिलकुमार ए	01.06.2019
679	15312015ए	हवलदार	सेथुरमण जी.	01.04.2019
680	15312232डब्ल्यू	हवलदार	शिवू के	01.06.2019
681	15314985एफ	हवलदार	शिवकुमार एचएन	01.07.2019
682	15312005डब्ल्यू	हवलदार	सिद्धईया जी.	01.03.2019
683	15314832एक्स	हवलदार	शिवकुमार आर	01.05.2019
684	15312218के	हवलदार	सोमित्रा चकर्बती	01.05.2019
685	15314847ए	हवलदार	श्री कुमार	01.05.2019
686	15312153एफ	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.05.2019
687	15314644डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश सी	01.03.2019
688	15311998एन	हवलदार	सुरेश सीजे	01.03.2019
689	15312231एन	हवलदार	सुरेश वी	01.06.2019
690	15312325एल	हवलदार	टी मोहन राज	01.06.2019
691	15312324एच	हवलदार	टी शाजी	01.06.2019
692	15312168के	हवलदार	टी सिल्वा पी	01.05.2019
693	15314416एन	हवलदार	टी वेकटेशन	01.02.2019
694	15315068के	हवलदार	थॉगाप्पन पी	01.08.2019
695	15312259एन	हवलदार	टी दयालन के	01.06.2019
696	15312305एक्स	हवलदार	थामस अनटोनी	01.06.2019
697	15312355एच	हवलदार	उमाचन्द्रा रमेश एस	01.06.2019
698	15312338एच	हवलदार	उन्नीर्वशन्न टीके	01.06.2019

699	15314555एक्स	हवलदार	वी पीएन	01.03.2019
700	15312364के	हवलदार	वेंकट राव दासरी	01.07.2019
701	15315143एच	हवलदार	विनूकुमार के	01.07.2019
702	15312163एल	हवलदार	विठल हदापद	01.05.2019

बंगाल यान्त्रिक समुह

703	1488218डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.05.2019
704	1488105एन	हवलदार	अखिलेश पांडे	01.03.2019
705	1488701ए	हवलदार	अमृत पाल	01.07.2019
706	1488067एच	हवलदार	अरबिंद कुमार	01.03.2019
707	1488653एल	हवलदार	अर्जुन कुमार सुब्बा	01.07.2019
708	1488234एन	हवलदार	अरुण कुमार सिंह	01.05.2019
709	1488686डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार ममोलर्य	01.07.2019
710	1487981एम	हवलदार	अशोक कुमार पांडे	01.03.2019
711	1489575एल	हवलदार	अशवनी कुमार	01.02.2019
712	1488638डब्ल्यू	हवलदार	अवतार सिंह	01.07.2019
713	1487917पी	हवलदार	बाबू एस	01.02.2019
714	1488404एम	हवलदार	बलबीर चौधरी	01.05.2019
715	1488023एल	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.03.2019
716	1491551ए	हवलदार	बलजीत सिंह	01.05.2019
717	1488309ए	हवलदार	बलवान सिंह	01.05.2019
718	1488145पी	हवलदार	बलविन्दर कुमार	01.05.2019
719	1488137डब्ल्यू	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2019
720	1487979पी	हवलदार	भोज राज सिंह	01.03.2019
721	1491257ए	हवलदार	भूपेंद्र सिंह	01.02.2019
722	1488029एम	हवलदार	बिजय कुमार दुआ	01.03.2019
723	1488447एफ	हवलदार	बिनय कुमार सिंह	01.05.2019
724	1488065एक्स	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.03.2019
725	1491860एच	हवलदार	बिनोद कुमार यादव	01.07.2019
726	1488367के	हवलदार	बोडू करुणाकर	01.05.2019
727	1487998ए	हवलदार	दलीप सिंह	01.03.2019
728	1491889एल	हवलदार	दामोर बाबू लाल हीरा जेआई	01.07.2019
729	1487958वाई	हवलदार	दान सिंह	01.03.2019
730	1491907एच	हवलदार	दशरथ सिंह जाट	01.07.2019
731	1488366एफ	हवलदार	दीप चंद्रा जोशी	01.05.2019
732	1487957डब्ल्यू	हवलदार	देवेन्द्र कुमार	01.03.2019
733	1487953ए	हवलदार	देवकी नंदन	01.03.2019
734	1488068एल	हवलदार	धनंजय कुमार	01.03.2019
735	1491696एल	हवलदार	धनजीत नाथ	01.05.2019
736	1488513वाई	हवलदार	धर्मेदर कुमार	01.07.2019
737	1488667एल	हवलदार	दिग्विजय नाथ द्विवेदी	01.07.2019
738	1488376एल	हवलदार	दिलीप कुमार यादव	01.05.2019
739	1487978एम	हवलदार	दीन बंधु पांडे	01.03.2019
740	1488177एक्स	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.05.2019
741	1488614एम	हवलदार	गजपाल सिंह अस्वाल	01.07.2019
742	1489233एक्स	हवलदार	गालिब अली	01.08.2019
743	1488655डब्ल्यू	हवलदार	गनेश चन्द	01.07.2019
744	1488420के	हवलदार	गनेश सिंह	01.05.2019
745	1488405पी	हवलदार	गंगा सिंह रावत	01.05.2019
746	1488547एम	हवलदार	गिरधर सिंह	01.07.2019
747	1488595एम	हवलदार	गोपाल कुमार डी.	01.07.2019
748	1488064पी	हवलदार	गोपाल सिंह राठोर	01.03.2019
749	1491281डब्ल्यू	हवलदार	गुरदीप सिंह	01.03.2019
750	1488135एल	हवलदार	गुरमुख सिंह	01.05.2019
751	1488530वाई	हवलदार	हरेन्द्र प्रसाद	01.07.2019
752	1488604एच	हवलदार	हरेन्द्र सिंह नेगी	01.07.2019
753	1488280एच	हवलदार	हरी नाथ यादव	01.05.2019

754	1487969एल	हवलदार	हरीश कुमार	01.03.2019
755	1488606एन	हवलदार	हयात सिंह कोशीयारी	01.07.2019
756	1488398के	हवलदार	हेमन्त कुमार दास	01.05.2019
757	1488601पी	हवलदार	हर सिंह	01.07.2019
758	1488219वाई	हवलदार	होशयार सिंह	01.05.2019
759	1488597एक्स	हवलदार	हुकम सिंह	01.07.2019
760	1491938एच	हवलदार	इन्द्रा सिंह पवार	01.08.2019
761	1488726एम	हवलदार	जगन्न्थ मंडल	01.08.2019
762	1488094एम	हवलदार	जगरूप सिंह भदोरिया	01.04.2019
763	1488670एल	हवलदार	जय प्रकाश यादव	01.07.2019
764	1487918एक्स	हवलदार	जसविन्द्र सिंह	01.02.2019
765	1488132एक्स	हवलदार	जसविन्द्र सिंह	01.05.2019
766	1488721एन	हवलदार	जावेद अहमद गनार्ई	01.08.2019
767	1490713एन	हवलदार	जिया लाल	01.07.2019
768	1488396वाई	हवलदार	जे सेठी	01.05.2019
769	1488618एच	हवलदार	कन्हैया सिंह यादव	01.07.2019
770	1488434के	हवलदार	कंवर पाल	01.05.2019
771	1585277एम	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.03.2019
772	1488626एफ	हवलदार	खुशाहल मनी	01.07.2019
773	1488206एफ	हवलदार	कष्णन कुमार	01.05.2019
774	1488226पी	हवलदार	महाबीर	01.05.2019
775	1488297डब्ल्यू	हवलदार	महाबीर सिंह	01.05.2019
776	1488611वाई	हवलदार	माकन सिंह	01.07.2019
777	1488012वाई	हवलदार	मानेराजन जैना	01.03.2019
778	1488580के	हवलदार	मंगल सिंह	01.07.2019
779	1491294एन	हवलदार	मनजीत सिंह	01.03.2019
780	1488320वाई	हवलदार	मोहम्मद निसार अली	01.05.2019
781	1491905एक्स	हवलदार	मोहम्मद सैयार अली	01.07.2019
782	1488285एफ	हवलदार	मोहन सिंह	01.05.2019
783	1488130एम	हवलदार	मुकेश	01.04.2019
784	1488460एल	हवलदार	मुस्तकिम मलिक	01.05.2019
785	1488233एल	हवलदार	नारायण दत्त	01.05.2019
786	1488008डब्ल्यू	हवलदार	नारायण दत्ताता	01.03.2019
787	1488202एल	हवलदार	नरेश कुमार	01.05.2019
788	1488680पी	हवलदार	नाथू यादवा	01.07.2019
789	1488383एफ	हवलदार	नेपाल मोन्डल	01.05.2019
790	1488699एन	हवलदार	निसित कुमार महता	01.07.2019
791	1488551पी	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.07.2019
792	1488495एफ	हवलदार	पटेल लालजी भाई वी भाई	01.06.2019
793	1491620एल	हवलदार	पीओपी सिंह	01.05.2019
794	1488111एफ	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.03.2019
795	1488683एच	हवलदार	राघवेन्द्र प्रसाद शाही	01.07.2019
796	1488465के	हवलदार	राघव सिंह तोमर	01.06.2019
797	1488249डब्ल्यू	हवलदार	रघुनाथ सिंह	01.05.2019
798	1490340एल	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.08.2019
799	1488889ए	हवलदार	राज कुमार	01.08.2019
800	1488118एल	हवलदार	राज कुमार सिंह गोड़	01.03.2019
801	1488442एच	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद जखमोला	01.05.2019
802	1488022एच	हवलदार	राम किशन	01.03.2019
803	1491341ए	हवलदार	राम मगन	01.03.2019
804	1488463वाई	हवलदार	राम सिंह चौहान	01.06.2019
805	1488706वाई	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
806	1488099एल	हवलदार	रमेश नाथ पांडे	01.02.2019
807	1488166एल	हवलदार	रमजान एम	01.05.2019
808	1488307पी	हवलदार	रामजी दास	01.05.2019
809	1488293ए	हवलदार	रंजीत सिंह	01.05.2019
810	1488734एल	हवलदार	रंजीत	01.07.2019

811	1488283डब्ल्यू	हवलदार	रंजीत सिंह यादव	01.05.2019
812	1488287एम	हवलदार	रवि प्रताप सिंह	01.05.2019
813	1488584ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	01.07.2019
814	1491878वाई	हवलदार	एस मुरुगन	01.07.2019
815	1488373एक्स	हवलदार	सैलेन्द्रा कुमार राउत	01.05.2019
816	1488412एल	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.05.2019
817	1488533एम	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.07.2019
818	1488054एल	हवलदार	साथा सिवान एन	01.03.2019
819	1488327एच	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2019
820	1491335एम	हवलदार	सत्यपाल सिंह	01.03.2019
821	1488190एफ	हवलदार	शैलेंद्र सिंह	01.05.2019
822	1490748के	हवलदार	शकील अहमद	01.08.2019
823	1488554एच	हवलदार	शमशेर सिंह	01.07.2019
824	1489990एम	हवलदार	सोहिल खान	01.07.2019
825	1488427एन	हवलदार	सुबाष चंद्रा दास महापात्रा	01.05.2019
826	1488047पी	हवलदार	सुखविन्दर सिंह	01.03.2019
827	1491544के	हवलदार	एस सिंह वी	01.04.2019
828	1491373एच	हवलदार	सुराथ कुमार पात्रा	01.03.2019
829	1488281एल	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.05.2019
830	1488331एल	हवलदार	सुरेन्द्रा बहादुर सिंह	01.05.2019
831	1488505ए	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2019
832	1488365वाई	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह महारा	01.05.2019
833	1488179एच	हवलदार	सुरेश बाबू	01.05.2019
834	1488431डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.05.2019
835	1488085एल	हवलदार	सुरेश कुमार रौय	01.04.2019
836	1488716एच	हवलदार	सुरेश सहादू ईन्गोले	01.07.2019
837	1488428डब्ल्यू	हवलदार	सुरजन सिंह	01.05.2019
838	1488351वाई	हवलदार	एस यादव	01.05.2019
839	1488535एक्स	हवलदार	स्वप्न बरुआ	01.07.2019
840	1488380एन	हवलदार	तापस कुमार ताह	01.05.2019
841	1491690के	हवलदार	तारा सिंह	01.05.2019
842	1488713पी	हवलदार	उन्नीर्कशन्न पीटी	01.06.2019
843	1488668एन	हवलदार	उत्तातम कुमार दास	01.07.2019
844	1488056डब्ल्यू	हवलदार	वीरा कुमार के	01.03.2019
845	1489124एल	हवलदार	विजय कुमार पटेल	01.05.2019
846	1488360ए	हवलदार	विजय सिंह	01.05.2019
847	1488046एम	हवलदार	विनोद कुमार	01.03.2019
848	1488497एम	हवलदार	विनोद कुमार शर्मा	01.07.2019
849	1491827एल	हवलदार	विनोद सिंह	01.06.2019
850	1488102ए	हवलदार	वीरेंद्र कुमार	01.03.2019
851	1488718एन	हवलदार	युवराज शाही	01.07.2019

बॉम्बे यान्त्रिक समुह

852	1585606एक्स	हवलदार	ए स्वामी	01.07.2019
853	1587283वाई	हवलदार	अजीत सिंह	01.06.2019
854	1585693डब्ल्यू	हवलदार	अमर सिंह	01.07.2019
855	1585540एम	हवलदार	अर्विन्द प्रसाद सिंह	01.05.2019
856	1585650एफ	हवलदार	बलदेव सिंह	01.07.2019
857	1585746के	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.08.2019
858	1585302ए	हवलदार	बलोर सिंह	01.03.2019
859	1585180एफ	हवलदार	भगवान सिंह	01.03.2019
860	1585576एल	हवलदार	भांडे राज कुमार रामराव	01.05.2019
861	1585486के	हवलदार	भुंगदे दत्तत्रे शंकर	01.05.2019
862	1585228के	हवलदार	चमकौर सिंह	01.03.2019
863	1587373ए	हवलदार	चौहान विशवानाथ दादाबाहू	01.03.2019
864	1587570एच	हवलदार	छोटे लाल	01.07.2019
865	1585209वाई	हवलदार	दर्शन सिंह	01.03.2019

866	1585321एल	हवलदार	दिलबर सिंह	01.03.2019
867	1585611एच	हवलदार	गायकवाड शशिकांत जगन्नाथ	01.07.2019
868	1585206एल	हवलदार	गावडे प्रकाश तुकाराम	01.03.2019
869	1587331एन	हवलदार	घोरपडे दीपक शंकर	01.03.2019
870	1585676डब्ल्यू	हवलदार	गुरचरण सिंह कलेर	01.07.2019
871	1585143एन	हवलदार	हरदेव सिंह	01.02.2019
872	1587408एल	हवलदार	हरी सिंह	01.03.2019
873	1587575एफ	हवलदार	एच सिंह कुशवाहा	01.07.2019
874	1585449डब्ल्यू	हवलदार	हीरालाल जायसवाल	01.05.2019
875	1585469के	हवलदार	जगदीश सिंह	01.05.2019
876	1587572एन	हवलदार	जगतार सिंह	01.07.2019
877	1585698पी	हवलदार	जसपाल सिंह	01.07.2019
878	1585298एच	हवलदार	जोगिंदर लाल	01.03.2019
879	1585755एल	हवलदार	कमलजीत सिंह	01.08.2019
880	1585362पी	हवलदार	कर्म सिंह	01.04.2019
881	1585654एक्स	हवलदार	केवल सिंह	01.07.2019
882	1585514एल	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.05.2019
883	1585673एच	हवलदार	मदन रविदास	01.07.2019
884	1585207एन	हवलदार	मेजर सिंह	01.03.2019
885	1587325ए	हवलदार	मकवाना आर लक्ष्मन भाई	01.03.2019
886	1585208डब्ल्यू	हवलदार	माने राहुल वसंत	01.03.2019
887	1585428ए	हवलदार	मंगल सिंह रावत	01.05.2019
888	1585756एन	हवलदार	मोहम्मद साहबुद्दीन	01.02.2019
889	1585432एच	हवलदार	नफीस खान	01.05.2019
890	1585692एन	हवलदार	नन्द कुमार बंदू जाधव	01.07.2019
891	1585419वाई	हवलदार	नरेश कुमार	01.05.2019
892	1585365एच	हवलदार	निर्मल सिंह	01.04.2019
893	1585304एल	हवलदार	निरवैल सिंह	01.03.2019
894	1585579वाई	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2019
895	1585643एल	हवलदार	ओम प्रकाश	01.07.2019
896	1585351एच	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.04.2019
897	1585360के	हवलदार	पर्गत सिंह	01.04.2019
898	1587582एक्स	हवलदार	पाटिल नरेन्द्रा लोटन	01.07.2019
899	1585466डब्ल्यू	हवलदार	आर गिरि	01.05.2019
900	1585501एन	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
901	1585415एच	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.05.2019
902	1585675एन	हवलदार	रामदास सिंह	01.07.2019
903	1585147के	हवलदार	रावूल अरुण धुंधी	01.02.2019
904	1585231के	हवलदार	आर अहमद	01.03.2019
905	1585511एक्स	हवलदार	सलीम शेख	01.05.2019
906	1585520वाई	हवलदार	सरबजीत सिंह	01.05.2019
907	1587348एफ	हवलदार	श्रवण सिंह	01.03.2019
908	1587549ए	हवलदार	सतपाल	01.07.2019
909	1585317एच	हवलदार	शेर सिंह	01.03.2019
910	1585158डब्ल्यू	हवलदार	एस दन्यानोबा के	01.03.2019
911	1585685एक्स	हवलदार	सुब्रता मोन्डल	01.04.2019
912	1585186एच	हवलदार	सुखा सिंह	01.03.2019
913	1585319एन	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.03.2019
914	1587437ए	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.05.2019
915	1585688एल	हवलदार	एस यशवंत सहदेव	01.07.2019
916	1585744वाई	हवलदार	सुशान्ता कुमार मोन्डल	01.07.2019
917	1587630एम	हवलदार	टी सिंह	01.07.2019
918	1587659पी	हवलदार	तोनदारे सूर्यकांत विश्वनाथ	01.07.2019
919	1586044एक्स	हवलदार	उत्तातम कुमार मुंडा	01.08.2019
920	1587105डब्ल्यू	हवलदार	उतेकर विकास नाथू	01.06.2019
921	1585496एन	हवलदार	वंकर रमेश भाई के	01.05.2019
922	1585495एल	हवलदार	वी दत्तात्रिया श्रीपति	01.05.2019

923	1587622एन	हवलदार	विमल सिंह	01.07.2019
924	1585600डब्ल्यू	हवलदार	विनायक रामचंद्र गायकवाड	01.06.2019
925	1585468एफ	हवलदार	वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी	01.05.2019
926	1585493ए	हवलदार	वागेज अप्पाराव उद्धव	01.05.2019
927	1587682एच	हवलदार	जुरेकर संदीप अम्बादास	01.07.2019

अधिसूचना पलटन

928	15386995एफ	हवलदार	ए मुथु कृष्णन	01.03.2019
929	15387857एम	हवलदार	ए आर	01.03.2019
930	15386526वाई	हवलदार	ए सजीवन	01.05.2019
931	15381280एफ	हवलदार	ए विजयन	01.07.2019
932	15386957एल	हवलदार	ए मधुकर पांडुरंग	01.03.2019
933	15380716पी	हवलदार	अजय कुमार	01.05.2019
934	15389661एक्स	हवलदार	अजयन आर	01.07.2019
935	15380597के	हवलदार	अजेन्द्र सिंह	01.03.2019
936	15380987एम	हवलदार	अजीत कुमार एन	01.05.2019
937	15388003वाई	हवलदार	ए विलास तुकाराम	01.04.2019
938	15380866एल	हवलदार	अखिलेश कुमार	01.05.2019
939	15380887एफ	हवलदार	अक्षय परीद	01.05.2019
940	15380835एल	हवलदार	ए मोहन सम्पत	01.05.2019
941	15381113एल	हवलदार	अलोक सरकार	01.03.2019
942	15380286डब्ल्यू	हवलदार	ए मौलिक	01.03.2019
943	15380312एम	हवलदार	आनंद राम	01.03.2019
944	15388644एल	हवलदार	अनीश कुमार एम	01.03.2019
945	15381088एक्स	हवलदार	अंगा लावाना	01.07.2019
946	15381245वाई	हवलदार	अनिल कुमार	01.07.2019
947	15380574एच	हवलदार	अनिल कुमार	01.03.2019
948	15380281एक्स	हवलदार	अनिल कुमार	01.03.2019
949	15380249एच	हवलदार	अनिल कुमार चौरसिया	01.03.2019
950	15388665एफ	हवलदार	अनिल कुमार जे	01.03.2019
951	15389703वाई	हवलदार	अनिल कुमार केजी	01.08.2019
952	15381261डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार पी	01.07.2019
953	15381223ए	हवलदार	अनिल कुमार आर	01.07.2019
954	15380694एफ	हवलदार	अरुण कुमार	01.05.2019
955	15380794एम	हवलदार	अरुण कुमार के	01.05.2019
956	15388737ए	हवलदार	अर्विन्द कुमार	01.05.2019
957	15380366एन	हवलदार	अशानी कुमार	01.03.2019
958	15387196एक्स	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2019
959	15381145एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2019
960	15389444एफ	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2019
961	15389008के	हवलदार	अशोक कुमार जंगीर	01.05.2019
962	15380477एल	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2019
963	15380902एल	हवलदार	अशोक कुमार यादव	01.05.2019
964	15380578वाई	हवलदार	अशोक यादव	01.03.2019
965	15380246पी	हवलदार	एटीआई उल्लाह अहमद	01.03.2019
966	15389413एफ	हवलदार	अतुल कुमार	01.07.2019
967	15387579के	हवलदार	औती किसान मछिन्दरा	01.03.2019
968	15381130एल	हवलदार	बी उदया सिम्हा रेडी	01.07.2019
969	15380447एन	हवलदार	बी वरधा रेडी	01.03.2019
970	15380178एम	हवलदार	बाबू लाल यादव	01.02.2019
971	15381023के	हवलदार	बाबू जे	01.06.2019
972	15389400के	हवलदार	बहारन सिंह	01.07.2019
973	15387732पी	हवलदार	बाल राम	01.03.2019
974	15387157वाई	हवलदार	बालाकृष्णन के	01.03.2019
975	15387259पी	हवलदार	बलबीर सिंह	01.03.2019
976	15388871एल	हवलदार	बंडल धनसिंह जयसिंग	01.06.2019
977	15388498डब्ल्यू	हवलदार	बी संतोष विथोवा	01.05.2019

978	15388610एक्स	हवलदार	बसवराज के बी	01.05.2019
979	15388361के	हवलदार	भंवर सिंह	01.05.2019
980	15380482डब्ल्यू	हवलदार	भनवारा राम	01.03.2019
981	15380740एल	हवलदार	भारतलाल तिवारी	01.05.2019
982	15380483वाई	हवलदार	बी शंकर	01.03.2019
983	15389786पी	हवलदार	भीम बहादुर बिश्वकर्मा	01.05.2019
984	15389308एल	हवलदार	भीसे बालासाहेब अपासाहेब	01.05.2019
985	15389184एफ	हवलदार	भूप सिंह	01.05.2019
986	15388230वाई	हवलदार	बिजया कुमार दाश	01.05.2019
987	15381172एक्स	हवलदार	बिजया कुमार दिगल	01.07.2019
988	15382896एफ	हवलदार	बिजेन्द्र पाल	01.03.2019
989	15389679एन	हवलदार	बीजू पी	01.07.2019
990	15381029एल	हवलदार	बिकाश कुमार घोष	01.05.2019
991	15389178एन	हवलदार	बिलोचन प्रसाद खतवाल	01.05.2019
992	15388296पी	हवलदार	बीनू वी	01.05.2019
993	15380882एच	हवलदार	बिरन्च नारायण बी सिंह	01.05.2019
994	15380809के	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.05.2019
995	15389403एक्स	हवलदार	बिरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2019
996	15380583के	हवलदार	बिरेन्द्रा शर्मा	01.03.2019
997	15385104एफ	हवलदार	सी मुरुगेसन	01.06.2019
998	15390371एम	हवलदार	सी शानमुगा राज	01.08.2019
999	15380416एन	हवलदार	चांदी चरण मंडल	01.03.2019
1000	15380616के	हवलदार	चंद्रा सिंह कथयात	01.05.2019
1001	15387563वाई	हवलदार	सी शशिकांत मारुति	01.03.2019
1002	15380408पी	हवलदार	सी साहू	01.03.2019
1003	15389269एक्स	हवलदार	छिमना राम चौधरी	01.05.2019
1004	15381091एक्स	हवलदार	छिनतादा रमेश	01.07.2019
1005	15388640पी	हवलदार	डी. पेरुमल	01.03.2019
1006	15381141एक्स	हवलदार	डी. एस कुमार	01.07.2019
1007	15389466ए	हवलदार	डी. सूर्यकांत हनमंत	01.07.2019
1008	15389479एक्स	हवलदार	देब दास अधिकारी	01.07.2019
1009	15380556ए	हवलदार	देबेन्द्र पाती	01.03.2019
1010	15388417एल	हवलदार	दीपक कुमार परीद	01.03.2019
1011	15387127एफ	हवलदार	डी. दास	01.03.2019
1012	15381176एन	हवलदार	देव शरण चौहान	01.07.2019
1013	15380724एन	हवलदार	देश राज	01.05.2019
1014	15380468के	हवलदार	देवेन्द्र बहादुर एसबी	01.03.2019
1015	15380693वाई	हवलदार	धनंजय कुमार सिंह	01.05.2019
1016	15381058ए	हवलदार	धर्म चन्द	01.07.2019
1017	15380674एन	हवलदार	धर्म सिंह गुलाब सिंह	01.05.2019
1018	15384878एक्स	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.02.2019
1019	15380691एल	हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार	01.05.2019
1020	15380257एफ	हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	01.03.2019
1021	15380746एम	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.05.2019
1022	15386215एल	हवलदार	डी. मूरथया	01.07.2019
1023	15380537पी	हवलदार	दिबाकर जोशी	01.03.2019
1024	15388314एम	हवलदार	दिगम्बर	01.05.2019
1025	15381114एन	हवलदार	दिलीप कुमार सरकार	01.03.2019
1026	15381151एफ	हवलदार	दिम्बेश्वर मोहन	01.07.2019
1027	15380376एक्स	हवलदार	दीन बंदू मौर्या	01.03.2019
1028	15380280पी	हवलदार	दिनेश	01.03.2019
1029	15380248ए	हवलदार	दिनेश चन्द	01.03.2019
1030	15388365ए	हवलदार	दिनेश कुमार	01.05.2019
1031	15380963एच	हवलदार	दिनेश कुमार मिश्रा	01.05.2019
1032	15388474एम	हवलदार	दीवान सिंह नेगी	01.05.2019
1033	15386958एन	हवलदार	दुदहाडे सुदाम रोहीदास	01.03.2019
1034	15387630वाई	हवलदार	डी. लक्ष्मना राव	01.03.2019

1035	15388085एम	हवलदार	जी. जे दामोदर राव	01.03.2019
1036	15388858एफ	हवलदार	जी. मुरुगन	01.05.2019
1037	15390320वाई	हवलदार	जी. श्रीनिवासागन	01.07.2019
1038	15387379एन	हवलदार	गायकवाड शत्रुघन रामदास	01.03.2019
1039	15388928पी	हवलदार	गजे सिंह	01.05.2019
1040	15388929एक्स	हवलदार	गजराज सिंह	01.05.2019
1041	15388686एक्स	हवलदार	गांधी के	01.03.2019
1042	15381207एच	हवलदार	गनेश चंद्रा दत्ता	01.07.2019
1043	15387086एच	हवलदार	गनेश चंद्रा सरकार	01.03.2019
1044	15381096डब्ल्यू	हवलदार	गावडे शंकर महादु	01.07.2019
1045	15380996एन	हवलदार	गिरीश कुमार सी	01.05.2019
1046	15388934एच	हवलदार	गिरिधरन बी	01.05.2019
1047	15388925एफ	हवलदार	गिरीश सीजी.	01.05.2019
1048	15380264एक्स	हवलदार	गोपा कुमार पी	01.03.2019
1049	15390263एच	हवलदार	गोपाल चंद्रा जाना	01.07.2019
1050	15381353एच	हवलदार	गोपाल दत्ता	01.07.2019
1051	15389780एन	हवलदार	गोतम घोष	01.05.2019
1052	15388450एच	हवलदार	गोतम मंडल	01.03.2019
1053	15390036एच	हवलदार	गूजर बी जी.	01.07.2019
1054	15387188वाई	हवलदार	जी. मोइनुद्दीन	01.03.2019
1055	15387000वाई	हवलदार	गुरपाल सिंह	01.02.2019
1056	15389762एल	हवलदार	एच देवा राज	01.05.2019
1057	15380921डब्ल्यू	हवलदार	हकीम सिंह	01.03.2019
1058	15390169वाई	हवलदार	हान्दे उमेश सुदाम	01.07.2019
1059	15380570एम	हवलदार	हरपाल पण्डित सोपान	01.03.2019
1060	15381241एच	हवलदार	हरेन्द्र कुमार	01.07.2019
1061	15388785ए	हवलदार	हरगोविंद रघुवंशी	01.05.2019
1062	15381069एम	हवलदार	हरी चंद्रा कुमार डी.	01.07.2019
1063	15381243एन	हवलदार	हरी कुमार डी.	01.07.2019
1064	15388404एन	हवलदार	हरी प्रसाद ढाका	01.05.2019
1065	15380603एम	हवलदार	हरी शंकर यादव	01.04.2019
1066	15381037के	हवलदार	हरमेश लाल	01.05.2019
1067	15387197ए	हवलदार	एच मिश्रा	01.02.2019
1068	15381324एन	हवलदार	इंद्रजीत सिंह	01.08.2019
1069	15387043एन	हवलदार	इंद्रमणी कुशवाहा	01.02.2019
1070	15388471वाई	हवलदार	ईन्गोले राम मधुकर राव	01.05.2019
1071	15388062एल	हवलदार	जाधव नवनाथ जगन्नाथ	01.05.2019
1072	15381232एफ	हवलदार	जगदीश कुमार यू	01.07.2019
1073	15390294एच	हवलदार	जगदेवा राम	01.07.2019
1074	15387406एम	हवलदार	जगताप अशोक विनायक	01.03.2019
1075	15381263एफ	हवलदार	जगविन्दर	01.07.2019
1076	15380380ए	हवलदार	जय करन सिंह	01.03.2019
1077	15387462एल	हवलदार	जैसन मेथ्यू	01.03.2019
1078	15386973एच	हवलदार	जानकर चन्द	01.03.2019
1079	15390174के	हवलदार	जारे निवरुती ताबाजी	01.07.2019
1080	15380989एक्स	हवलदार	जशपाल सिंह	01.05.2019
1081	15381351एक्स	हवलदार	जसवीर कुमार	01.07.2019
1082	15380955के	हवलदार	जय करन सिंह	01.05.2019
1083	15380923पी	हवलदार	जय प्रकाश	01.03.2019
1084	15388123एक्स	हवलदार	जीतेन्द्र कुमार	01.03.2019
1085	15387862एक्स	हवलदार	जया बालन एन	01.03.2019
1086	15389805पी	हवलदार	जिबेस्वर गोगोई	01.05.2019
1087	15387650एम	हवलदार	जितेन्द्रा नाथ	01.03.2019
1088	15381203एम	हवलदार	जोयंता कुमार रौय	01.07.2019
1089	15381620वाई	हवलदार	के रविचंद्रन	01.07.2019
1090	15389815वाई	हवलदार	काबल सिंह	01.05.2019
1091	15390229एच	हवलदार	कल्लोल कर	01.07.2019
1092	15380930एक्स	हवलदार	कमलेश सिंह	01.05.2019

1093	15380546डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश यादवा	01.03.2019
1094	15380285एन	हवलदार	कनगराज ए	01.03.2019
1095	15380651एम	हवलदार	कंवल सिंह	01.05.2019
1096	15387453के	हवलदार	करीम बेग	01.03.2019
1097	15380348एल	हवलदार	के मासरी मालदे	01.03.2019
1098	15387883एन	हवलदार	के शोक	01.03.2019
1099	15380684एक्स	हवलदार	करुणाकरन आर	01.05.2019
1100	15387868वाई	हवलदार	करुप्पास्वामी पी	01.03.2019
1101	15380648एम	हवलदार	कश्मीरी लाल	01.05.2019
1102	15380726वाई	हवलदार	केहर सिंह	01.05.2019
1103	15389453एच	हवलदार	केन्द्रे प्रहलाद वामनराव	04.06.2019
1104	15387220एच	हवलदार	केशो प्रताप सिंह	01.02.2019
1105	15389576पी	हवलदार	के जगदीश	01.07.2019
1106	15381090पी	हवलदार	के महेश्वर राव	01.07.2019
1107	15381174एच	हवलदार	कष्णन कुमार	01.07.2019
1108	15380644डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा चंद्रा पाल	01.05.2019
1109	15381187ए	हवलदार	कृष्णाकान्त	01.07.2019
1110	15387626डब्ल्यू	हवलदार	कुबेन्धिरन के	01.04.2019
1111	15387078के	हवलदार	कुलनन्द	01.03.2019
1112	15388083एफ	हवलदार	लाल बहादुर यादव	01.03.2019
1113	15387589एल	हवलदार	एल पोपट समभाजी	01.03.2019
1114	15380383एन	हवलदार	लल्लन यादव	01.03.2019
1115	15387834एल	हवलदार	एल महादेव शामराव	01.04.2019
1116	15380587ए	हवलदार	एल कुमार उपाध्याय	01.03.2019
1117	15380763एम	हवलदार	लोक पाती पांडे	01.05.2019
1118	15388222ए	हवलदार	एल नायडू	01.05.2019
1119	15380528एन	हवलदार	एम वेंकट सुब्बैया	01.03.2019
1120	15388244वाई	हवलदार	महादेव गरई	01.05.2019
1121	15380738एन	हवलदार	महानतेश पी हीरामठ	01.05.2019
1122	15380937एफ	हवलदार	महबूब अली	01.05.2019
1123	15380454के	हवलदार	महेंद्र बहादुर	01.03.2019
1124	15389671एफ	हवलदार	महेंद्र प्रताप सिंह	01.07.2019
1125	15388652के	हवलदार	महेंद्र सिंह राजपूत	01.03.2019
1126	15385824एच	हवलदार	महेश कुमार बेहेरा	01.05.2019
1127	15381201एफ	हवलदार	मलय कुमार डे	01.07.2019
1128	15381281के	हवलदार	एम पंडा	01.07.2019
1129	15389778डब्ल्यू	हवलदार	मांदवे संजीव गोकुलदास	01.05.2019
1130	15390077एम	हवलदार	मानीकावेलू एस	01.07.2019
1131	15381067एफ	हवलदार	मनजीत	01.07.2019
1132	15388000एल	हवलदार	मनजीत सिंह	01.04.2019
1133	15380564वाई	हवलदार	मनोज कुमार	01.03.2019
1134	15388719एक्स	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.05.2019
1135	15389416पी	हवलदार	मनोज सिंह	01.07.2019
1136	15381265एम	हवलदार	मरिमुथु जी.	01.07.2019
1137	15381359के	हवलदार	माथे एस वी	01.08.2019
1138	15388326एफ	हवलदार	मोहम्मद अनीस मोहम्मद आइ	01.05.2019
1139	15380938के	हवलदार	मोहम्मद राबियुल आलम खान	01.05.2019
1140	15380493एच	हवलदार	मेरानी सदा भाई जगा भाई	01.03.2019
1141	15389049एन	हवलदार	मेवा राम	01.03.2019
1142	15387289एम	हवलदार	मिसाल सुरेश भानुदास	01.03.2019
1143	15380584एम	हवलदार	मिथलेश कुमार सिंह	01.03.2019
1144	15380266एन	हवलदार	मुकेश कुमार	01.03.2019
1145	15388827एफ	हवलदार	मुकेश सिंह नेगी	01.05.2019
1146	15380314एक्स	हवलदार	मुख्तियार सिंह	01.03.2019
1147	15380964एल	हवलदार	मुनि लाल	01.05.2019
1148	15381787एच	हवलदार	एम सिंह यादव	01.06.2019
1149	15383091डब्ल्यू	हवलदार	मुन्नू मुंडा	01.05.2019

1150	15388855एन	हवलदार	एन दीवान	01.05.2019
1151	15387898डब्ल्यू	हवलदार	नाइक विजय कुमार पुंडलिक	01.03.2019
1152	15380881ए	हवलदार	नन्द किशोर सिंह	01.05.2019
1153	15380543एच	हवलदार	नंदलाल	01.03.2019
1154	15385082एन	हवलदार	नन्हें दिलीप एस	01.04.2019
1155	15381059एच	हवलदार	नार सिंह	01.07.2019
1156	15387442एक्स	हवलदार	एन रामभव एस	01.04.2019
1157	15380361पी	हवलदार	नारायण सिंह	01.03.2019
1158	15388942एफ	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार	01.05.2019
1159	15388383एच	हवलदार	नरेश कुमार	01.05.2019
1160	15380282ए	हवलदार	नरेश कुमार	01.03.2019
1161	15380580डब्ल्यू	हवलदार	नवीन कुमार झा	01.03.2019
1162	15381185पी	हवलदार	निरंजन यादव	01.07.2019
1163	15390282एन	हवलदार	निताइ कुमार साहा	01.07.2019
1164	15388597वाई	हवलदार	ओमा राम सरन	01.05.2019
1165	15387737एन	हवलदार	ओमप्रकाश सिंह	01.03.2019
1166	15388225एन	हवलदार	पी कुमारा स्वामी	01.05.2019
1167	15380359एक्स	हवलदार	पी पान्डेमुर्गन	01.03.2019
1168	15386978एफ	हवलदार	पी सरवानन	01.03.2019
1169	15387914एच	हवलदार	पी शशि कुमार	01.03.2019
1170	15380272डब्ल्यू	हवलदार	पएला अप्पला स्वामी	01.03.2019
1171	15389320एम	हवलदार	पलवी नारायण मारूति	01.05.2019
1172	15389533ए	हवलदार	प्रशन राम चोगले	01.07.2019
1173	15388203पी	हवलदार	पटेल चंद्रा कांत भाई गोर्धन भाई	01.05.2019
1174	15388221एक्स	हवलदार	पटेल कमलेश कुमार पुरुषोथम	01.05.2019
1175	15388901एक्स	हवलदार	पाटिल गणपति विथोवा	01.06.2019
1176	15388478एच	हवलदार	पाटिल मुकुन्द माधव	01.05.2019
1177	15380191डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल सागर रामु	01.02.2019
1178	15387996डब्ल्यू	हवलदार	पवन कुमार	01.04.2019
1179	15380628वाई	हवलदार	पवन कुमार	01.05.2019
1180	15380262एम	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
1181	15389895एफ	हवलदार	पवार दिनेश्वर जगन्ध	01.05.2019
1182	15390195ए	हवलदार	पवार किरन भौसाहब	01.07.2019
1183	15388879एक्स	हवलदार	पवार सहाजी भौसाहब	01.06.2019
1184	15387284एन	हवलदार	फाटक अनिल रघुनाथ	01.03.2019
1185	15380258के	हवलदार	प्रभु दयाल	01.03.2019
1186	15381309वाई	हवलदार	प्रभु नाथ सिंह	01.07.2019
1187	15390075एफ	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.07.2019
1188	15385938एन	हवलदार	पी के.यू लेनका	01.08.2019
1189	15388250एम	हवलदार	प्रदीप्त कुमार बिस्वाल	01.05.2019
1190	15387939पी	हवलदार	प्रकास टी	01.04.2019
1191	15388005के	हवलदार	प्रकाश चंद्रा	01.04.2019
1192	15381124एक्स	हवलदार	प्रकाश एन	01.05.2019
1193	15388622एम	हवलदार	प्रहलाद पाटिल	01.03.2019
1194	15388914पी	हवलदार	प्रमोद कुमार सीपी	01.05.2019
1195	15381033एन	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.05.2019
1196	15381028एच	हवलदार	प्रसान कुमार खताई	01.05.2019
1197	15389348एम	हवलदार	प्रवीन डी.	01.05.2019
1198	15380294पी	हवलदार	प्रेम शंकर तिवारी	01.03.2019
1199	15380413ए	हवलदार	प्रदीप चेतिया	01.03.2019
1200	15381189एल	हवलदार	पूरन मल	01.07.2019
1201	15380624एच	हवलदार	पूरन सिंह महारा	01.05.2019
1202	15380481एन	हवलदार	पुरुषोथम दास पटेल	01.03.2019
1203	15387503के	हवलदार	पुशकर सिंह	01.03.2019
1204	15381272एच	हवलदार	पुष्पा प्रसाद शर्मा	01.07.2019
1205	15389553एन	हवलदार	आर कृष्णाप्रभू	01.07.2019
1206	15380300एक्स	हवलदार	आर सिवानन्दम	01.03.2019
1207	15386214एच	हवलदार	आर वी पलानीवल	01.06.2019

1208	15381054के	हवलदार	आर राम	01.07.2019
1209	15388758डब्ल्यू	हवलदार	रबीन्द्र कुमार बारिक	01.05.2019
1210	15380993ए	हवलदार	रबीन्द्र पी सिंह	01.05.2019
1211	15380920एन	हवलदार	रघु राज सिंह	01.03.2019
1212	15388916ए	हवलदार	रघुनाथ डी.	01.05.2019
1213	15380901एच	हवलदार	राज किशोर	01.05.2019
1214	15380306वाई	हवलदार	राज कुमार	01.03.2019
1215	15381125ए	हवलदार	राज कुमार मंडल	01.07.2019
1216	15384045एन	हवलदार	राजा कुमार एस	01.06.2019
1217	15380297एच	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.03.2019
1218	15387478डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्रा कुमार चौधरी	01.03.2019
1219	15381321ए	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.08.2019
1220	15380368वाई	हवलदार	राजेश कुमार	01.03.2019
1221	15380914ए	हवलदार	राजेश कुमार चौधरी	01.05.2019
1222	15389058पी	हवलदार	राजेश कुमार केआर	01.06.2019
1223	15381277एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.07.2019
1224	15380337वाई	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.03.2019
1225	15387828एक्स	हवलदार	राजनिकान्ता प्रधान	01.04.2019
1226	15386936पी	हवलदार	राजपाल	01.05.2019
1227	15380313पी	हवलदार	राजपती राम	01.03.2019
1228	15390145पी	हवलदार	राजू कलिता	01.07.2019
1229	15380699ए	हवलदार	राजू कुमार पासवान	01.05.2019
1230	15387983वाई	हवलदार	राकेश कुमार	01.04.2019
1231	15380541एक्स	हवलदार	राम अवध यादवा	01.03.2019
1232	15380378एच	हवलदार	राम चरण	01.03.2019
1233	15380971एफ	हवलदार	राम जी. राम	01.06.2019
1234	15387052पी	हवलदार	राम किशोर	01.02.2019
1235	15388763एफ	हवलदार	राम कृष्णा नायक	01.05.2019
1236	15380317एल	हवलदार	राम लाल ठाकुर	01.03.2019
1237	15389364के	हवलदार	रमेश कुमार	01.06.2019
1238	15380563डब्ल्यू	हवलदार	रामवतार	01.03.2019
1239	15380872वाई	हवलदार	रामुलु ए	01.05.2019
1240	15380886वाई	हवलदार	राणजीत मोन्दल	01.05.2019
1241	15388476एक्स	हवलदार	आर संदीपन बापू	01.05.2019
1242	15380419एफ	हवलदार	रंजीत रौय	01.03.2019
1243	15380354वाई	हवलदार	रवि कुमार	01.03.2019
1244	15389945एफ	हवलदार	रवि एस	01.05.2019
1245	15388771ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार गोड़	01.07.2019
1246	15380643एन	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.05.2019
1247	15380598एम	हवलदार	रविन्द्रन पीएम	01.04.2019
1248	15380531एन	हवलदार	आर वी देवसी	01.03.2019
1249	15380782एक्स	हवलदार	आर मिश्री	01.05.2019
1250	15380265ए	हवलदार	एस मुथु पट्टन	01.03.2019
1251	15380289के	हवलदार	एस राम बिहारी शर्मा	01.03.2019
1252	15390280एच	हवलदार	एस सेलवम	01.07.2019
1253	15380731के	हवलदार	एस एस	01.05.2019
1254	15381014एच	हवलदार	एस सुनील कुमार	01.05.2019
1255	15388646डब्ल्यू	हवलदार	एस वेलू	01.03.2019
1256	15389804एम	हवलदार	सदानन्दा चंदा	01.05.2019
1257	15389101एल	हवलदार	सादी सिवा प्रसाद	01.06.2019
1258	15381216के	हवलदार	एस गोयरी	01.07.2019
1259	15387430एच	हवलदार	साहन अन्नाराव बाबूराव	01.03.2019
1260	15387845एक्स	हवलदार	साजल मंडल	01.03.2019
1261	15381293वाई	हवलदार	साजू एस	01.07.2019
1262	15389737एम	हवलदार	एस गनेश उत्तातम	01.05.2019
1263	15388917एच	हवलदार	सालवी जे पांडुरंग	01.05.2019
1264	15380309एम	हवलदार	सनातन गोरड़	01.03.2019

1265	15380895ए	हवलदार	सनातन कर	01.05.2019
1266	15388823एल	हवलदार	संदीप कुमार	01.05.2019
1267	15381234एम	हवलदार	संगीत कुमार वर्मा	01.07.2019
1268	15381285ए	हवलदार	संजय विश्वास	01.07.2019
1269	15381073पी	हवलदार	संजय कुमार	01.07.2019
1270	15380365एल	हवलदार	संजय कुमार	01.03.2019
1271	15389482एक्स	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.07.2019
1272	15380423के	हवलदार	संजीव कुमार मिश्रा	01.03.2019
1273	15381050एन	हवलदार	संजोय कुमार सिंह	01.07.2019
1274	15380202एल	हवलदार	संकर कुमार मंडल	01.07.2019
1275	15387331ए	हवलदार	संकर पी	01.03.2019
1276	15380498एफ	हवलदार	सानम सिंह	01.03.2019
1277	15381269एच	हवलदार	संतोष कुमार	01.07.2019
1278	15381053एफ	हवलदार	एस कुमार मिश्रा	01.07.2019
1279	15380277पी	हवलदार	सर्वेश राम	01.03.2019
1280	15380339के	हवलदार	श्रवण सिंह	01.03.2019
1281	15380698एक्स	हवलदार	सरयू प्रसाद यादव	01.05.2019
1282	15381159एन	हवलदार	सत पाल	01.07.2019
1283	15381075ए	हवलदार	सत पाल सिंह	01.07.2019
1284	15388339वाई	हवलदार	सतीश के आर	01.05.2019
1285	15388933ए	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2019
1286	15389001ए	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2019
1287	15381271ए	हवलदार	एस सिंह	01.07.2019
1288	15384713वाई	हवलदार	एस ए हैदरअली	01.06.2019
1289	15380661डब्ल्यू	हवलदार	एस संजय कुमार गोविंद	01.03.2019
1290	15380667एक्स	हवलदार	शम्भू नाथ	01.03.2019
1291	15380434डब्ल्यू	हवलदार	शशिधर धनी	01.03.2019
1292	15380883एल	हवलदार	शेख शकील शेख सुलेमान	01.05.2019
1293	15380397एन	हवलदार	शिव कुमार दुबे	01.03.2019
1294	15381319एच	हवलदार	शिव प्रसाद पाल	01.08.2019
1295	15388881पी	हवलदार	शिवाले ए विलास	01.06.2019
1296	15388724एच	हवलदार	शिव प्रताप	01.05.2019
1297	15380988पी	हवलदार	एस डी.	01.05.2019
1298	15389834के	हवलदार	श्रीमंत एम	01.05.2019
1299	15388116एफ	हवलदार	श्याम सुंदर	01.03.2019
1300	15380611एल	हवलदार	श्यामल चंद्रा संतरा	01.04.2019
1301	15387958ए	हवलदार	एस विके	01.04.2019
1302	15389711एक्स	हवलदार	शिवकुमार ए	01.08.2019
1303	15387831एक्स	हवलदार	सोनवने संजय नामदेव	01.04.2019
1304	15389928एफ	हवलदार	श्रीजीथ सी	01.05.2019
1305	15389452ए	हवलदार	सुबाष चन्द	01.07.2019
1306	15380536एम	हवलदार	सुभाष रंजन रौय	01.03.2019
1307	15381224एच	हवलदार	सुबोध जी.	01.07.2019
1308	15380935डब्ल्यू	हवलदार	सुदामा प्रसाद शर्मा	01.05.2019
1309	15380552के	हवलदार	सुदर्शन सिंह	01.03.2019
1310	15388420एल	हवलदार	एस जाना	01.03.2019
1311	15382914वाई	हवलदार	सुदीप धर	01.03.2019
1312	15386767वाई	हवलदार	सुजीत तालुकदार	01.02.2019
1313	15388430पी	हवलदार	सुकान्त पौल	01.03.2019
1314	15387045वाई	हवलदार	सुमेर सिंह	01.02.2019
1315	15380441एम	हवलदार	सुनील कुमार वी	01.03.2019
1316	15380765एक्स	हवलदार	सुनील कुमार	01.05.2019
1317	15380695के	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.05.2019
1318	15381317एक्स	हवलदार	सूरज बाली यादव	01.08.2019
1319	15380442पी	हवलदार	सुरेन सिन्हा	01.03.2019
1320	15387433डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
1321	15389333के	हवलदार	सुरेश चन्द	01.05.2019
1322	15388870एच	हवलदार	सूर्यवंशी कृशान्त रामचंद्र	01.06.2019

1323	15380713एफ	हवलदार	सुशील कुमार	01.05.2019
1324	15381025पी	हवलदार	सुशील कुमार	01.05.2019
1325	15380900ए	हवलदार	स्वप्न कुमार सरकार	01.05.2019
1326	15387160वाई	हवलदार	टी डेन्नीसन	01.03.2019
1327	15387145के	हवलदार	टी मोनी	01.03.2019
1328	15388754ए	हवलदार	टी थिरुप्पथी	01.05.2019
1329	15390181ए	हवलदार	ठाकुर हरज्ञान लाल सिंह	01.07.2019
1330	15387902एन	हवलदार	टी बन्दारू	01.03.2019
1331	1538320एक्स	हवलदार	उदय प्रताप सिंह	01.08.2019
1332	15380723एल	हवलदार	उदय राज वर्मा	01.05.2019
1333	15380757वाई	हवलदार	उदयवीर सिंह	01.05.2019
1334	15389962एफ	हवलदार	उदया कुमार वी	01.05.2019
1335	15380670एक्स	हवलदार	उमेद सिंह	01.03.2019
1336	15390307पी	हवलदार	उमेश कुमार पण्डित	01.07.2019
1337	15389478पी	हवलदार	उमेश कुमार पाटिल	01.07.2019
1338	15380982एन	हवलदार	उमेश कुमार शर्मा	01.05.2019
1339	15380983डब्ल्यू	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.05.2019
1340	15387778एक्स	हवलदार	उमेश आर	01.03.2019
1341	15380247एक्स	हवलदार	उमेश राय	01.03.2019
1342	15380601एफ	हवलदार	उन्नीर्वशन्न टी	01.04.2019
1343	15388411के	हवलदार	उत्तातम कुमार नंदी	01.03.2019
1344	15380704ए	हवलदार	वी अकिलन्दम	01.03.2019
1345	15380332ए	हवलदार	वी बिनोए	01.03.2019
1346	15380840डब्ल्यू	हवलदार	वी चंद्रारासू	01.05.2019
1347	15386984पी	हवलदार	वी गुरुसामी	01.03.2019
1348	15388853एच	हवलदार	वी कृष्णामूर्ती	01.05.2019
1349	15380250एक्स	हवलदार	वी सुरेश कुमार	01.03.2019
1350	15380389पी	हवलदार	वी नाथन जी.	01.03.2019
1351	15380709वाई	हवलदार	वी पांडि ए	01.03.2019
1352	15381095एन	हवलदार	वेलमुरुगन एल	01.07.2019
1353	15387910एम	हवलदार	वेंकटेश ए	01.03.2019
1354	15390325एक्स	हवलदार	वेनुगोपालन एस	01.07.2019
1355	15380917एन	हवलदार	विजय कुमार	01.05.2019
1356	15380467एफ	हवलदार	विजय कुमार	01.03.2019
1357	15381175एल	हवलदार	विजय कुमार मिश्रा	01.07.2019
1358	15380279ए	हवलदार	विजय पाल	01.03.2019
1359	15381116वाई	हवलदार	विजय सिंह	01.03.2019
1360	15381294एफ	हवलदार	विजया कुमार के	01.07.2019
1361	15380475ए	हवलदार	विकास	01.03.2019
1362	15389084डब्ल्यू	हवलदार	विनय कुमार वर्मा	01.06.2019
1363	15387271डब्ल्यू	हवलदार	विनय शंकर मिश्रा	01.03.2019
1364	15388084के	हवलदार	विनया कुमार अवस्थी	01.03.2019
1365	15380261के	हवलदार	विनेश जे	01.03.2019
1366	15387703ए	हवलदार	विनोद कुमार पीसी	01.03.2019
1367	15381163डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार वर्मा	01.07.2019
1368	15380615एफ	हवलदार	विनोद पीएम	01.05.2019
1369	15389920पी	हवलदार	वीरेंद्र प्रसाद	01.05.2019
1370	15380808एफ	हवलदार	वीरेंद्र यादवा	01.05.2019
1371	15380576एन	हवलदार	विश्वनाथ	01.03.2019
1372	15381301एम	हवलदार	वीवी सुभा प्रकाश	01.07.2019
1373	15380568पी	हवलदार	वाबले कुंडलिक भीकोबा	01.03.2019
1374	15388473के	हवलदार	वाधे रंगनाथ आर	01.05.2019
1375	15388937डब्ल्यू	हवलदार	वाधे शरद अर्जुन	01.05.2019
1376	15390341पी	हवलदार	यादव हरी उमराव	01.07.2019
1377	15388158एन	हवलदार	येल्लईयाह सी	01.05.2019
1378	15380585पी	हवलदार	योगेन्द्रा कुमार पण्डित	01.03.2019

1379	13695773ए	हवलदार	अच्छे लाल	01.05.2019
1380	13693331एच	हवलदार	अखिलेश कुमार	01.08.2019
1381	13695672एम	हवलदार	अंशुमन शर्मा	01.05.2019
1382	13695415पी	हवलदार	अरूप हज़ारिका	01.03.2019
1383	13695759एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.05.2019
1384	13695546ए	हवलदार	बाबू डी.	01.05.2019
1385	13695568वाई	हवलदार	भाग सिंह तोमर	01.05.2019
1386	13693185एन	हवलदार	बृज लाल	01.05.2019
1387	13695416एक्स	हवलदार	चौहान प्रताप सिंह नटवर सिंह	01.03.2019
1388	13695796एफ	हवलदार	इशाक अली	01.05.2019
1389	13695403ए	हवलदार	गनपत राम	01.03.2019
1390	13695957वाई	हवलदार	गीतेश कुमार	01.08.2019
1391	13695458के	हवलदार	गुरु प्रसाद ममोलर्य	01.03.2019
1392	13693196ए	हवलदार	हरी ओम शर्मा	01.07.2019
1393	13695436एल	हवलदार	हिरण्य रौय	01.03.2019
1394	13695330वाई	हवलदार	जगवीर सिंह	01.03.2019
1395	13695395एम	हवलदार	जरनैल सिंह	01.03.2019
1396	13695595एच	हवलदार	जीवन सिंह	01.05.2019
1397	13695374डब्ल्यू	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.03.2019
1398	13695587के	हवलदार	कन्हैया राय	01.05.2019
1399	13695601एल	हवलदार	करन सिंह शेखावत	01.05.2019
1400	13693435के	हवलदार	के गन्दला छलामहिया	01.07.2019
1401	13695310एल	हवलदार	केशव सिंह	01.03.2019
1402	13695867एक्स	हवलदार	लीलू राम	01.07.2019
1403	13693277ए	हवलदार	एम बी सिंघा	01.07.2019
1404	13695446पी	हवलदार	मानब गोगोई	01.03.2019
1405	13695313वाई	हवलदार	मनजीत सिंह	01.03.2019
1406	13695307एल	हवलदार	एम कुमार	01.03.2019
1407	13695733वाई	हवलदार	मुन्नी लाल आर	01.05.2019
1408	13695576एक्स	हवलदार	मुथूवीरन एस	01.05.2019
1409	13695648डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार पटेल	01.05.2019
1410	13695419एल	हवलदार	पी संजय एन	01.03.2019
1411	13695387एन	हवलदार	परमार दिनेश कुमार पौल भाई	01.03.2019
1412	13695917एक्स	हवलदार	प्रभाश कुमार	01.07.2019
1413	13695572एफ	हवलदार	राघवेन्द्रा सिंह	01.05.2019
1414	13695537वाई	हवलदार	राजेश कुमार	01.04.2019
1415	13695665डब्ल्यू	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
1416	13695554वाई	हवलदार	राजेश सिंह	01.05.2019
1417	13695359एफ	हवलदार	राजेश सिंह	01.03.2019
1418	13695644ए	हवलदार	राजीव सिंह	01.05.2019
1419	13695575पी	हवलदार	राकेश कुमार	01.05.2019
1420	13695769एक्स	हवलदार	रामेन्द्र पाल सिंह	01.05.2019
1421	13695483एच	हवलदार	रामेश्वर लाल	01.03.2019
1422	13695856एल	हवलदार	रंजन मैक	01.06.2019
1423	13695550एच	हवलदार	सजीव टी	01.05.2019
1424	13695606के	हवलदार	शाजी के	01.05.2019
1425	13695643एक्स	हवलदार	शिव कुमार	01.05.2019
1426	13695580ए	हवलदार	सुबाष चंद्र	01.05.2019
1427	13695360डब्ल्यू	हवलदार	सुकराम पाल	01.03.2019
1428	13695509एम	हवलदार	सुनील कुमार	01.04.2019
1429	13695823ए	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार एस	01.05.2019
1430	13693192के	हवलदार	सुरेश पी बी	01.07.2019
1431	13693212एम	हवलदार	सुरेश वी	01.07.2019
1432	13695552एन	हवलदार	तरसेम लाल	01.05.2019
1433	13693335वाई	हवलदार	विजय कुमार	01.08.2019

छाताधारी सैन्यदल

1434	13620822डब्ल्यू	हवलदार	अमरीक सिंह	01.08.2019
1435	13620631एफ	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2019
1436	13620730के	हवलदार	अटल वी	01.05.2019
1437	9096959एम	हवलदार	बलबिंदर सिंह	01.08.2019
1438	13620632के	हवलदार	बसंत बल्लभ	01.03.2019
1439	4364140एल	हवलदार	बी कारदोन्ग	01.05.2019
1440	13620802एच	हवलदार	चौधरी बी रामभाई	01.07.2019
1441	13619486एच	हवलदार	दलीप सिंह एन	01.03.2019
1442	13620697एक्स	हवलदार	देवी सिंह तनवर	01.03.2019
1443	3994894डब्ल्यू	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.07.2019
1444	13619449पी	हवलदार	दीपेन्द्र सिंह	01.03.2019
1445	2890617एच	हवलदार	घनशाम सिंह तोमर	01.05.2019
1446	13619475डब्ल्यू	हवलदार	एच सोम नाथ राव	01.03.2019
1447	13619521ए	हवलदार	हरी प्रसाद	01.05.2019
1448	13620747एक्स	हवलदार	हरप्रीत सिंह	01.05.2019
1449	2994084एक्स	हवलदार	इन्द राज	01.07.2019
1450	5453023एल	हवलदार	जंग बहादुर यू	01.04.2019
1451	13619467एक्स	हवलदार	के गुरुनाथन	01.03.2019
1452	13619589एफ	हवलदार	कुंज बिहारी नय	01.07.2019
1453	13619473एल	हवलदार	मनोज प्रसाद आर्य	01.03.2019
1454	13619499ए	हवलदार	मुलख राज	01.05.2019
1455	5754236के	हवलदार	पंकज	01.05.2019
1456	2791947वाई	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
1457	13619489डब्ल्यू	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
1458	13619543वाई	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.05.2019
1459	13619596एक्स	हवलदार	पुरुषोम साहू	01.07.2019
1460	13619488एन	हवलदार	राम कुमार	01.03.2019
1461	13620639एन	हवलदार	रंजीत सिंह	01.03.2019
1462	13619575एफ	हवलदार	आरई दोर्जे शेरपा	01.07.2019
1463	13759142एफ	हवलदार	संजय कुमार	01.07.2019
1464	13619538एन	हवलदार	संतोष कुमार याद	01.05.2019
1465	13620605ए	हवलदार	सर्बजीत सिंह	01.02.2019
1466	13620774एफ	हवलदार	शिंदे अन्नासो दिगम्बर	01.06.2019
1467	13620687एन	हवलदार	शिव वीर सिंह टू	01.03.2019
1468	13620671एच	हवलदार	एस दाश	01.03.2019
1469	13620653ए	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2019
1470	13620654एच	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2019
1471	13620648पी	हवलदार	त्रीपती आचारी	01.03.2019
1472	13620769डब्ल्यू	हवलदार	विक्रम सिंह	01.05.2019

यांत्रिक पैदल सैन्यदल

1473	14920776एफ	हवलदार	अजय कुमार झा	01.03.2019
1474	14920899एन	हवलदार	ए चन्द्राप्पा एम	01.05.2019
1475	14921200डब्ल्यू	हवलदार	अलेक्स नयगम एम	01.07.2019
1476	14921324एल	हवलदार	अलेक्स पी थामस	01.07.2019
1477	14922235वाई	हवलदार	ए सिंह	01.08.2019
1478	14922000एम	हवलदार	अरुण कुमार राय	01.08.2019
1479	14920943एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.05.2019
1480	14921992एफ	हवलदार	बाबू राम	01.08.2019
1481	14920921एन	हवलदार	बालू राम डी.	01.05.2019
1482	14921008एम	हवलदार	बासकरन एस	01.07.2019
1483	14921252एम	हवलदार	भाभोर भीमा भाई डी. भाई	01.08.2019
1484	14922027के	हवलदार	भैरू मल	01.08.2019
1485	14920790एन	हवलदार	भांडे संतोष रामराव	01.04.2019
1486	14921240एक्स	हवलदार	भरत च. बारो	01.07.2019
1487	14921250एफ	हवलदार	बी एम के	01.08.2019
1488	14921967एच	हवलदार	बिजित शुक्ला बैद्य	01.08.2019

1489	14922167डब्ल्यू	हवलदार	बीजू जी.	01.08.2019
1490	14922177ए	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.08.2019
1491	14921197एफ	हवलदार	बृज नंदन राम	01.07.2019
1492	14920694वाई	हवलदार	चौहान अशोक कुमार न	01.03.2019
1493	14918774एक्स	हवलदार	छोटे लाल	01.07.2019
1494	14921438डब्ल्यू	हवलदार	दामर बहादुर गुरंग	01.07.2019
1495	14918874एच	हवलदार	देश राज	01.08.2019
1496	14920779पी	हवलदार	देवेन्द्र राय	01.03.2019
1497	14921422एल	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.07.2019
1498	14920814एम	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह भदोरिया	01.04.2019
1499	14921450एक्स	हवलदार	धीरज कुमार छत्री	01.07.2019
1500	14921350एम	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.07.2019
1501	14921097डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.07.2019
1502	14922231एच	हवलदार	दीवान सिंह	01.08.2019
1503	14921297एम	हवलदार	डोरी सिंह	01.07.2019
1504	14921199एम	हवलदार	जोर्ज एन	01.07.2019
1505	14918682एल	हवलदार	गोपाल जेआई राय	01.04.2019
1506	14921445एम	हवलदार	गोविंद सिंह	01.07.2019
1507	14921935ए	हवलदार	गुरमुख सिंह	01.08.2019
1508	14920722ए	हवलदार	एच अशोक खण्डु	01.03.2019
1509	14918710एम	हवलदार	हरदीप सिंह	01.06.2019
1510	14922039वाई	हवलदार	हरी दर्शन श्रीवास्तव	01.08.2019
1511	14920673एच	हवलदार	हरी कुमार थापा	01.02.2019
1512	14921307एल	हवलदार	जगबीर सिंह	01.07.2019
1513	14920810डब्ल्यू	हवलदार	जगमाल सिंह	01.04.2019
1514	14921299एक्स	हवलदार	जय नाथ सिंह	01.07.2019
1515	14920903एल	हवलदार	जनम वीर सिंह	01.05.2019
1516	14921346के	हवलदार	के पी	01.07.2019
1517	14918761ए	हवलदार	काली चरण	01.07.2019
1518	14921955एन	हवलदार	काली दास	01.08.2019
1519	14918599एन	हवलदार	काली दास	01.04.2019
1520	14920642एच	हवलदार	करने रामचंद्र दिनाकर	01.02.2019
1521	14918574एफ	हवलदार	के.ई रमन	01.02.2019
1522	14921441डब्ल्यू	हवलदार	केशर सिंह गुरंग	01.07.2019
1523	14921419एल	हवलदार	खेम बहादुर थापा	01.07.2019
1524	14918561के	हवलदार	लखन लाल	01.03.2019
1525	14921157ए	हवलदार	लेखा राज	01.07.2019
1526	14918668वाई	हवलदार	एम सिवानारायणा	01.04.2019
1527	14918619डब्ल्यू	हवलदार	महाबीर	01.05.2019
1528	14920831एम	हवलदार	महानंदा पाठक	01.04.2019
1529	14918641एफ	हवलदार	माखन च. जाना	01.05.2019
1530	14920665के	हवलदार	माम राज सिंह	01.02.2019
1531	14920826एफ	हवलदार	मान बहादुर थापा	01.04.2019
1532	14922157एम	हवलदार	मनोहर सिंह	01.08.2019
1533	14921383एक्स	हवलदार	मनोज कुमार	01.07.2019
1534	14921923एल	हवलदार	मनोज कुमार	01.08.2019
1535	14918692पी	हवलदार	मुकेश चंद्रा	01.06.2019
1536	14921206एक्स	हवलदार	एन मुकुशेन	01.07.2019
1537	14920821एच	हवलदार	नागेश्वर	01.04.2019
1538	14920637एक्स	हवलदार	एन भौसाहब आर	01.02.2019
1539	14920934एल	हवलदार	नन्द सिंह	01.05.2019
1540	14920768एच	हवलदार	नंदन तिग्गा	01.03.2019
1541	14918771के	हवलदार	नरेश यादव	01.07.2019
1542	14918558के	हवलदार	नसीब अली	01.03.2019
1543	14918666एन	हवलदार	नील कांथ	01.04.2019
1544	14921931के	हवलदार	ओम प्रकाश	01.08.2019
1545	14922034ए	हवलदार	ओमवीर सिंह	01.08.2019
1546	14918990एल	हवलदार	पान सिंह	01.04.2019

1547	14920872डब्ल्यू	हवलदार	परमार रवीन्द्र बाही रंजीत भाई	01.05.2019
1548	14920746के	हवलदार	प्रदीप्त किशोर लेनका	01.03.2019
1549	14921045ए	हवलदार	प्रवीना बी	01.07.2019
1550	14921141पी	हवलदार	पूर्णा चंद्रा गौड़ा	01.07.2019
1551	14922058के	हवलदार	पूर्णा चंद्रा साहू	01.08.2019
1552	14920895एक्स	हवलदार	पुष्पेन्द्रा कुमार	01.05.2019
1553	14920834ए	हवलदार	राधे स्याम गुर्जर	01.04.2019
1554	14920671एक्स	हवलदार	राजीव कुमार	01.02.2019
1555	14920764एम	हवलदार	राजेंद्रा शर्मा	01.03.2019
1556	14920657एल	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.05.2019
1557	14920956के	हवलदार	राकेश सिंह राजपूत	01.05.2019
1558	14921081एल	हवलदार	राम किशोर	01.07.2019
1559	14922074एफ	हवलदार	राम पाल सिंह दिवाकर	01.08.2019
1560	14922106वाई	हवलदार	रमा शंकर भारती	01.08.2019
1561	14921188ए	हवलदार	रामधन टी	01.07.2019
1562	14920749एक्स	हवलदार	रेवानासिद्धाप्पा के	01.03.2019
1563	14921208एच	हवलदार	ऋशिकेश मुखर्जी	01.07.2019
1564	14921203के	हवलदार	संजीव कुमार सिंह	01.07.2019
1565	14922013के	हवलदार	सांवर सिंह	01.08.2019
1566	14920947एच	हवलदार	सरोज कुमार ठाकुर	01.05.2019
1567	14921086के	हवलदार	सर्वेश चंद्रा	01.07.2019
1568	14922194ए	हवलदार	शंकर लाल	01.08.2019
1569	14921328एफ	हवलदार	श्री चन्द	01.07.2019
1570	14921236पी	हवलदार	श्री खितेश पतर	01.07.2019
1571	14921234के	हवलदार	श्री निर्मल चंद्रा बोरा	01.07.2019
1572	14921982एक्स	हवलदार	सुजान सिंह	01.08.2019
1573	14918677ए	हवलदार	सुनील प्रताप सिंह	01.04.2019
1574	14921336ए	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2019
1575	14920274वाई	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.08.2019
1576	14922011वाई	हवलदार	सुरेश सिंह	01.08.2019
1577	14921283एम	हवलदार	स्वामी नाथ मिश्रा	01.07.2019
1578	14918791एक्स	हवलदार	तुला राम पाल	01.05.2019
1579	14921444के	हवलदार	विनोद कुमार	01.07.2019
1580	14921986एन	हवलदार	विनोद कुमार	01.08.2019
1581	14920958पी	हवलदार	वीरेंद्र सिंग चौहान	01.05.2019
1582	14921403ए	हवलदार	विष्णु सिंह तनवर	01.07.2019
1583	14921366एक्स	हवलदार	यश पाल	01.07.2019

पंजाब सैन्यदल

1584	2484181वाई	हवलदार	अब्दुल अजीज़	01.03.2019
1585	2484338एन	हवलदार	अजीत कुमार	01.07.2019
1586	2486477डब्ल्यू	हवलदार	अजीत सिंह	01.02.2019
1587	2486909ए	हवलदार	अमर सिंह	01.07.2019
1588	2486872के	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.07.2019
1589	2486481वाई	हवलदार	अरुण कुमार	01.02.2019
1590	2484283पी	हवलदार	बलबीर सिंह	01.06.2019
1591	2486850एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01.07.2019
1592	2486554ए	हवलदार	बलराज सिंह	01.03.2019
1593	2486521पी	हवलदार	भजन सिंह	01.03.2019
1594	2486541एच	हवलदार	बिशन सिंह	01.03.2019
1595	2484234एम	हवलदार	चरनजीत सिंह	01.05.2019
1596	2486709के	हवलदार	दलबीर सिंह	01.05.2019
1597	2486482एफ	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.02.2019
1598	2486754डब्ल्यू	हवलदार	देव सिंह	01.05.2019
1599	2484245वाई	हवलदार	धर्म दत्ता	01.05.2019
1600	2484260एन	हवलदार	दिलीप कुमार	01.05.2019
1601	2484333पी	हवलदार	दुनी चन्द	01.07.2019

1602	2486597पी	हवलदार	गगन सिंह	01.03.2019
1603	2486767एन	हवलदार	गोपाल कष्णन	01.05.2019
1604	2486922के	हवलदार	गोपी राम	01.07.2019
1605	2486468पी	हवलदार	गुरबक्श सिंह	01.02.2019
1606	2486472एक्स	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.02.2019
1607	2486700पी	हवलदार	गुरमान सिंह	01.05.2019
1608	2484320एक्स	हवलदार	हंस राज	01.07.2019
1609	2484155एक्स	हवलदार	हरनाम सिंह	01.02.2019
1610	2484162एन	हवलदार	हेम चन्द	01.03.2019
1611	2484153एम	हवलदार	जगदीश राज	01.02.2019
1612	2486828ए	हवलदार	जगदीश सिंह	01.06.2019
1613	2484284एक्स	हवलदार	जगजीत सिंह	01.06.2019
1614	2486820एन	हवलदार	जय प्रकाश	01.06.2019
1615	2484261डब्ल्यू	हवलदार	जनक सिंह	01.05.2019
1616	2486960ए	हवलदार	जरनैल सिंह	01.07.2019
1617	2484186एक्स	हवलदार	कालिका प्रसाद	01.04.2019
1618	2486913एच	हवलदार	कन्हिया लाल	01.07.2019
1619	2484356डब्ल्यू	हवलदार	कर्म चन्द	01.07.2019
1620	2486761एम	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.05.2019
1621	2486771डब्ल्यू	हवलदार	कुलदीप सिंह परमार	01.05.2019
1622	2486505एक्स	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.03.2019
1623	2484269एच	हवलदार	मदन प्रधान	01.05.2019
1624	2486740डब्ल्यू	हवलदार	मनजीत सिंह	01.05.2019
1625	2484372एन	हवलदार	मेहर सिंह ठाकुर	01.07.2019
1626	2486743के	हवलदार	मोहिन्दर लाल	01.05.2019
1627	2486710वाई	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2019
1628	2486941पी	हवलदार	मुकेश प्राशर	01.07.2019
1629	2484296एम	हवलदार	नील कुमार	01.06.2019
1630	2484111ए	हवलदार	पी गनेश	01.02.2019
1631	2486614के	हवलदार	परम देव ठाकुर	01.03.2019
1632	2486623एल	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
1633	2486467एम	हवलदार	पवन कुमार वर्मा	01.02.2019
1634	2486906एम	हवलदार	प्रेम चन्द	01.07.2019
1635	2486626वाई	हवलदार	पूरन चन्द	01.03.2019
1636	2486522एक्स	हवलदार	क्यू लाल	01.03.2019
1637	2484334एक्स	हवलदार	राजेश कुमार	01.07.2019
1638	2486628के	हवलदार	राम सिंह	01.03.2019
1639	2484263एफ	हवलदार	रणधीर कुमार	01.05.2019
1640	2486751एच	हवलदार	रवि कुमार	01.05.2019
1641	2486702ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.05.2019
1642	2486688वाई	हवलदार	रेशम सिंह	01.05.2019
1643	2486712के	हवलदार	रेशम सिंह	01.05.2019
1644	2486724वाई	हवलदार	संजय कुमार	01.05.2019
1645	2484331के	हवलदार	संजीव कुमार	01.07.2019
1646	2484191एच	हवलदार	सरजू प्रसाद	01.04.2019
1647	2486629एम	हवलदार	सत्येन्द्र दत्ता	01.03.2019
1648	2486596एम	हवलदार	सतीश कुमार	01.03.2019
1649	2486868एफ	हवलदार	सतनाम सिंह	01.07.2019
1650	2484156ए	हवलदार	सतवीर सिंह	01.02.2019
1651	2485041वाई	हवलदार	शम्भू सिंह यादव	01.02.2019
1652	2484392एफ	हवलदार	श्याम किशोर कुमार	01.07.2019
1653	2486795ए	हवलदार	सोहन लाल	01.06.2019
1654	2486923एम	हवलदार	सुधीर सिंह	01.07.2019
1655	2486792एम	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.06.2019
1656	2486665एक्स	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.05.2019
1657	2486794एक्स	हवलदार	सुरेश कुमार	01.06.2019
1658	2484167एम	हवलदार	तरसेम लाल	01.03.2019
1659	2486822वाई	हवलदार	उत्तातम सिंह	01.06.2019

1660	2484881एम	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2019
1661	2486524एच	हवलदार	विक्रम सिंह	01.03.2019

मद्रास सैन्यदल

1662	2599142एम	हवलदार	ए चिन्नादुराई	01.07.2019
1663	2598834पी	हवलदार	ए थियागाराजन	01.03.2019
1664	2598965ए	हवलदार	ए एसदास	01.05.2019
1665	2598899एच	हवलदार	अवेयमोन के	01.05.2019
1666	2598839एन	हवलदार	ए बाबू आर	01.03.2019
1667	2598859एफ	हवलदार	अनिल कुमार बी	01.04.2019
1668	2598857डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.04.2019
1669	2597267एल	हवलदार	बी कृष्णामूर्ती	01.05.2019
1670	2599086वाई	हवलदार	बाबू राव नुका	01.07.2019
1671	2598997एच	हवलदार	बाबूराव दलावी	01.05.2019
1672	2598873एन	हवलदार	बीजू एम वरघेसे	01.05.2019
1673	2599036एन	हवलदार	बीन्नादा बैशया	01.05.2019
1674	2598921एच	हवलदार	बी के जोसफ	01.05.2019
1675	2596734एल	हवलदार	सी ज्योतिष	01.03.2019
1676	2599078ए	हवलदार	सी मारिआ अरोकीदास	01.07.2019
1677	2598749एम	हवलदार	सी सुब्रमनिअन	01.03.2019
1678	2598985एन	हवलदार	धनपडे एच श्रीराम	01.05.2019
1679	2597180के	हवलदार	दिनेशन के	01.06.2019
1680	2598910डब्ल्यू	हवलदार	दोस आइ	01.05.2019
1681	2599111एम	हवलदार	ई देवराज	01.07.2019
1682	2596676एम	हवलदार	फकीरप्पा चचादी	01.03.2019
1683	2598840एच	हवलदार	फकीरपा जी.	01.03.2019
1684	2596994डब्ल्यू	हवलदार	जी. बी नायडू	01.07.2019
1685	2598888डब्ल्यू	हवलदार	गंगाधर सी बोयोना	01.05.2019
1686	2599071डब्ल्यू	हवलदार	गोपाकुमार एनएस	01.06.2019
1687	2596928एन	हवलदार	हरीषा के.एम	01.05.2019
1688	2598755ए	हवलदार	एच आर के	01.03.2019
1689	2598943एफ	हवलदार	एच के शेक	01.05.2019
1690	2596952के	हवलदार	जयचन्द्रन बी	01.07.2019
1691	2597951एन	हवलदार	जॉन कन्नैडी पी	01.07.2019
1692	2599003एच	हवलदार	के अंबालागन	01.05.2019
1693	2599124के	हवलदार	के चक्रवर्ती	01.07.2019
1694	2598891डब्ल्यू	हवलदार	के पी	01.05.2019
1695	2598970एल	हवलदार	कर्म चन्द	01.05.2019
1696	2599115एच	हवलदार	कृष्णामूर्ती	01.07.2019
1697	2599105वाई	हवलदार	कुमारसन आर	01.07.2019
1698	2599073एफ	हवलदार	एम मणिकम	01.07.2019
1699	2598934ए	हवलदार	एम पी	01.05.2019
1700	2598711एच	हवलदार	एम सानू	01.03.2019
1701	2598768एक्स	हवलदार	एम वेंकट कृष्णा रेडी	01.03.2019
1702	2598779के	हवलदार	महानतेश अंगधी	01.03.2019
1703	2598763वाई	हवलदार	मल्ला मुरलीधरा राव	01.03.2019
1704	25968951डब्ल्यू	हवलदार	मन्जूनाथा एस	01.05.2019
1705	2599118डब्ल्यू	हवलदार	मनोज के	01.07.2019
1706	2599141के	हवलदार	मरुथा चलम वी पी	01.07.2019
1707	2598913के	हवलदार	मोहन बी	01.05.2019
1708	2598907डब्ल्यू	हवलदार	मुनि सामी एल	01.05.2019
1709	2598931एम	हवलदार	मुनीराथनम जी.	01.05.2019
1710	2598259वाई	हवलदार	मुरली	01.07.2019
1711	2598705पी	हवलदार	एन जया कुमार एंड्रयूज	01.03.2019
1712	2599031पी	हवलदार	नागप्पा कोटगी	01.05.2019
1713	2598693एल	हवलदार	नागाराजन एस	01.03.2019

1714	2598781एफ	हवलदार	नरेन्द्रा नाइक	01.03.2019
1715	2598680एन	हवलदार	नवसुदीन एस	01.02.2019
1716	2599004एल	हवलदार	पी चैनरयन	01.05.2019
1717	2598744एन	हवलदार	पी कानन्न	01.03.2019
1718	2598964एक्स	हवलदार	पी सेकार	01.05.2019
1719	2598967एल	हवलदार	पचैयप्पन एन	01.05.2019
1720	2599168एफ	हवलदार	प्रेमवीर सिंह	01.08.2019
1721	2598853ए	हवलदार	प्यारे लाल	01.03.2019
1722	2597034के	हवलदार	आर अनिल कुमार	01.05.2019
1723	2598742एच	हवलदार	आर सेल्वकुमार	01.03.2019
1724	2599087एफ	हवलदार	राधा कृष्णन के	01.07.2019
1725	2598961के	हवलदार	राजन बाबू के	01.05.2019
1726	2596798डब्ल्यू	हवलदार	राजेश यू	01.05.2019
1727	2596731एक्स	हवलदार	राम संतोष सिंह	01.03.2019
1728	2598775एन	हवलदार	रमेश बाबू कन्दुला	01.03.2019
1729	2598945एम	हवलदार	रवि कुमार जी.	01.05.2019
1730	2598685एम	हवलदार	रविचंद्रन के	01.03.2019
1731	2598894के	हवलदार	रविकुमार जी.	01.05.2019
1732	2598118के	हवलदार	एस ओ	01.06.2019
1733	2598734के	हवलदार	एस आर पांडियन	01.03.2019
1734	2596900एन	हवलदार	सदाशिव पुजेरी	01.05.2019
1735	2599079एच	हवलदार	सदेश सी एम	01.07.2019
1736	2598743एल	हवलदार	एस कुमार पी	01.03.2019
1737	2598753पी	हवलदार	सामीनाथन के	01.03.2019
1738	2598861वाई	हवलदार	संतो कुमार एस	01.04.2019
1739	2598949एच	हवलदार	सतीश कुमार बी	01.05.2019
1740	2599132एच	हवलदार	सेल्वकुमार एन	01.07.2019
1741	2598068के	हवलदार	शैलेंद्र कुमार शर्मा	01.04.2019
1742	2598795एफ	हवलदार	श्रीसैल बी	01.03.2019
1743	2599161एक्स	हवलदार	श्याम सुंदर एन	01.07.2019
1744	2598679वाई	हवलदार	श्रीजीथ गंगाधरन	01.02.2019
1745	2598776डब्ल्यू	हवलदार	श्रीनिवासु एन	01.03.2019
1746	2598860डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कृष्णा के	01.04.2019
1747	2598739एच	हवलदार	सुरेश कुमार जी. वी	01.03.2019
1748	2596761पी	हवलदार	सुरेश पीटर	01.03.2019
1749	2598999एन	हवलदार	टी महेन्द्रन	01.05.2019
1750	2598691ए	हवलदार	टी सुन्दरा राज	01.03.2019
1751	2598100एन	हवलदार	टी अली	01.06.2019
1752	2599162ए	हवलदार	उपेन चंद्रा राय	01.07.2019
1753	2598686पी	हवलदार	वी रवि	01.03.2019
1754	2598928एम	हवलदार	वी भावी	01.05.2019
1755	2598751के	हवलदार	वेकटेशन ई	01.03.2019
1756	2596687वाई	हवलदार	वी रामुलु	01.03.2019
1757	2598841एल	हवलदार	डब्ल्यू प्रदीप एस	01.03.2019
1758	2598726एल	हवलदार	विलसन थामस	01.03.2019

गोलाफ़ोक सेना

1759	2688000के	हवलदार	अब्दुल गफार	01.03.2019
1760	2687784के	हवलदार	अहमदउल्लाह खान	01.02.2019
1761	2688328एल	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.05.2019
1762	2688080एम	हवलदार	अजीत कुमार	01.03.2019
1763	2688111एफ	हवलदार	अमर सिंह	01.03.2019
1764	2688239एम	हवलदार	अनिल कुमार	01.04.2019
1765	2687893डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार	01.02.2019
1766	2688317वाई	हवलदार	अनिल कुमार	01.05.2019
1767	2687934पी	हवलदार	अंतर लाल सिंह	01.02.2019
1768	2687804एम	हवलदार	अरविंद्रा सिंह	01.02.2019
1769	2688260पी	हवलदार	अर्विन्द कुमार	01.05.2019

1770	2687861एन	हवलदार	अवधेश सिंह	01.02.2019
1771	2688181ए	हवलदार	बाबू लाल	01.03.2019
1772	2687969एल	हवलदार	बलवंत सिंह	01.03.2019
1773	2688052ए	हवलदार	भगत राम	01.03.2019
1774	2687964एम	हवलदार	भजन सिंह	01.03.2019
1775	2688356एक्स	हवलदार	भंवर सिंह	01.05.2019
1776	2687799एम	हवलदार	भरत सिंह मीना	01.02.2019
1777	2685682पी	हवलदार	बिजेन्द्र सिंह	01.05.2019
1778	2687824ए	हवलदार	बिनय प्रताप सिंह	01.02.2019
1779	2687894वाई	हवलदार	चानन सिंह	01.02.2019
1780	2687883एम	हवलदार	चंद्र हंस	01.02.2019
1781	2688157के	हवलदार	दिलीप रति राम एच	01.03.2019
1782	2688349एफ	हवलदार	दीप राज	01.05.2019
1783	2688207के	हवलदार	देलशेर	01.03.2019
1784	2685649एक्स	हवलदार	डेनिश पीटर	01.03.2019
1785	2688059के	हवलदार	देवेंद्र कुमार	01.03.2019
1786	2687820के	हवलदार	देवी सिंह	01.02.2019
1787	2688158एम	हवलदार	धर्मन्द्र सिंह	01.03.2019
1788	2688069एन	हवलदार	दीवान सिंह	01.03.2019
1789	2687902एम	हवलदार	दुर्गा सिंह शेखावत	01.02.2019
1790	2685646के	हवलदार	द्वारिका प्रसाद	01.03.2019
1791	2688013एफ	हवलदार	इकराज	01.03.2019
1792	2688116ए	हवलदार	गजब सिंह	01.03.2019
1793	2688272के	हवलदार	घान श्याम सिंह	01.05.2019
1794	2688240एफ	हवलदार	गोपाल सिंह	01.05.2019
1795	2688119एन	हवलदार	हरी पाल सिंह	01.03.2019
1796	2688108एफ	हवलदार	हरनाम सिंह	01.03.2019
1797	13620692वाई	हवलदार	जय पाल सिंह चौहान	01.03.2019
1798	2687871एक्स	हवलदार	जय प्रकाश	01.02.2019
1799	2688579पी	हवलदार	जीतू खान	01.07.2019
1800	2687812एल	हवलदार	कन्हैया लाल	01.02.2019
1801	2687875एन	हवलदार	कपूर सिंह	01.02.2019
1802	2688275एक्स	हवलदार	कप्तान सिंह	01.05.2019
1803	2687972एल	हवलदार	करतार चन्द	01.03.2019
1804	2687779वाई	हवलदार	करतार सिंह	01.02.2019
1805	2688091वाई	हवलदार	कश्मीर चन्द	01.03.2019
1806	2688190एफ	हवलदार	किशन सिंह शेखावत	01.03.2019
1807	2687847एफ	हवलदार	कृष्णा मुरारी	01.02.2019
1808	2688071एल	हवलदार	कुलदीप राज	01.03.2019
1809	2687854एक्स	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.02.2019
1810	2687882के	हवलदार	एल सिंह	01.02.2019
1811	2687760ए	हवलदार	मदन लाल	01.02.2019
1812	2687973एन	हवलदार	माही पाल	01.03.2019
1813	2688468एक्स	हवलदार	मान सिंह	01.05.2019
1814	2688311एक्स	हवलदार	मनमाथा प्रोसाद रौय	01.05.2019
1815	2688094एम	हवलदार	मनोज कुमार	01.03.2019
1816	2685661वाई	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.03.2019
1817	2688153एन	हवलदार	मुकेश कुमार	01.03.2019
1818	2688227एक्स	हवलदार	मुकेश कुमार	01.04.2019
1819	2688301एन	हवलदार	नाई पाल सिंह	01.05.2019
1820	2688142एफ	हवलदार	एन सिंह तोमर	01.03.2019
1821	2687857एल	हवलदार	पी सिंह	01.02.2019
1822	2687953ए	हवलदार	पवन कुमार	01.02.2019
1823	2687948पी	हवलदार	फूल कंवर	01.02.2019
1824	2688291पी	हवलदार	प्रदीप कुमार सिंह	01.05.2019
1825	2688139एफ	हवलदार	प्रहलाद सिंह राठोर	01.03.2019
1826	2688336के	हवलदार	रघुबीर सिंह	01.05.2019

1827	2688081पी	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2019
1828	2688009वाई	हवलदार	राकेश कुमार के	01.03.2019
1829	2685952वाई	हवलदार	राम गोविंद	01.07.2019
1830	2687919ए	हवलदार	राम मूर्ती	01.02.2019
1831	2685679पी	हवलदार	राम नरेश	01.05.2019
1832	2687815वाई	हवलदार	राम राज मीना	01.02.2019
1833	2688150ए	हवलदार	रामदास सिंह भदोरिया	01.03.2019
1834	2688112के	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.03.2019
1835	2687759एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.02.2019
1836	2688487एच	हवलदार	रामराज मीना	01.05.2019
1837	2688269के	हवलदार	रामवीर सिंह	01.05.2019
1838	2688100पी	हवलदार	राना राज सिंह	01.03.2019
1839	2687992वाई	हवलदार	रणधीर कुमार सिंह	01.03.2019
1840	2688021ए	हवलदार	रणधीर सिंह सोधा	01.03.2019
1841	2688351वाई	हवलदार	रंजीत सिंह	01.05.2019
1842	2688287एम	हवलदार	आर कुमार सिंह	01.05.2019
1843	2688262ए	हवलदार	रवि दत्त	01.05.2019
1844	2687891एल	हवलदार	आर करन	01.02.2019
1845	2688171डब्ल्यू	हवलदार	साबू काथात	01.03.2019
1846	2688097ए	हवलदार	संजीव चौहान	01.03.2019
1847	2688205वाई	हवलदार	संजीव कुमार	01.03.2019
1848	2688246एच	हवलदार	सतींद्र सिंह	01.05.2019
1849	2688019एच	हवलदार	सतीश सिंह	01.03.2019
1850	2688152एल	हवलदार	सत्य नारायण	01.03.2019
1851	2688101एक्स	हवलदार	श्याम बाली सिंह	01.03.2019
1852	2687907एल	हवलदार	शेर सिंह	01.02.2019
1853	2688107वाई	हवलदार	शिव शंकर सिंह	01.03.2019
1854	2688001एम	हवलदार	सीता राम	01.03.2019
1855	2687966एक्स	हवलदार	सोहन लाल	01.03.2019
1856	2685790वाई	हवलदार	सुभाष चंद्रा	01.05.2019
1857	2688251एन	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.05.2019
1858	2685644वाई	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.03.2019
1859	2687832वाई	हवलदार	सुरेश पटियाल	01.02.2019
1860	2687944वाई	हवलदार	सुरिन्द्र कुमार	01.02.2019
1861	2688076के	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.03.2019
1862	2687810ए	हवलदार	तहसीन अहमद	01.02.2019
1863	2688191के	हवलदार	तारा चन्द के	01.03.2019
1864	2688270वाई	हवलदार	टीकम सिंह	01.05.2019
1865	2688293ए	हवलदार	त्रिभुवन सिंह	01.05.2019
1866	2792147एम	हवलदार	उदयवीर सिंह	01.05.2019
1867	2687945एफ	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.02.2019
1868	2688005एच	हवलदार	उमेश कुमार सिंह	01.03.2019
1869	2687998ए	हवलदार	विजय कुमार	01.03.2019
1870	2687965पी	हवलदार	विजय कुमार	01.03.2019
1871	2688148एच	हवलदार	विजय सिंह	01.03.2019
1872	2688379वाई	हवलदार	विनोद कुमार	01.05.2019
1873	2687968एच	हवलदार	विनोद सिंह	01.03.2019
1874	2688325एक्स	हवलदार	विपन कुमार	01.05.2019
1875	2688082एक्स	हवलदार	विरेन्द्र कुमार	01.03.2019

मराठा लाई

1876	2790416पी	हवलदार	बी अन्ना रामचंद्र	01.04.2019
1877	2792201पी	हवलदार	बसवराज बी	01.05.2019
1878	8033720वाई	हवलदार	भगवान रंगनाथ पलवी	01.05.2019
1879	2792069ए	हवलदार	दहातोंदे वसंत रंगनाथ	01.05.2019
1880	13620630वाई	हवलदार	दलवी संजय भानुदास	01.03.2019
1881	2789754ए	हवलदार	देशमुख अजीत कुमार जे	01.05.2019

1882	13759216एल	हवलदार	डी. बाबासाहेब ईशवरा	01.07.2019
1883	2792427ए	हवलदार	धाने दिलीप गमपति	01.07.2019
1884	2791839पी	हवलदार	दिये रावासाहेब करभरी	01.02.2019
1885	2792368वाई	हवलदार	दुन्दपा जे	01.07.2019
1886	2789657एच	हवलदार	एलांगुवान केसी	01.03.2019
1887	2792076डब्ल्यू	हवलदार	जी. संजय रंभु	01.05.2019
1888	2791846एल	हवलदार	गोधा एम जी.	01.03.2019
1889	2792139एन	हवलदार	हनामन्त	01.05.2019
1890	2791890पी	हवलदार	ईदुलकर सुनील एकनाथ	01.03.2019
1891	4074068पी	हवलदार	ईनजल शामराव दादू	01.03.2019
1892	2792218एच	हवलदार	इराप्पा वाणी	01.05.2019
1893	2792429एल	हवलदार	जाधव महेंद्र विठल	01.07.2019
1894	2792208वाई	हवलदार	जे नितिन पांडुरंग	01.05.2019
1895	2792085एक्स	हवलदार	जे संजय कृष्णाराव	01.05.2019
1896	2792131एफ	हवलदार	जयराजन के	01.05.2019
1897	2791930एल	हवलदार	के धोन्दीराम बालू	01.03.2019
1898	2792230के	हवलदार	कल्लप्पा सी	01.05.2019
1899	2688040एल	हवलदार	के भास्कर राव	01.03.2019
1900	2792057एल	हवलदार	खैरनार समाधान चिमन	01.05.2019
1901	2792187एन	हवलदार	कोशती दिगम्बर रूदरप्पा	01.05.2019
1902	2789636एम	हवलदार	कोईया बी रेडी	01.03.2019
1903	2792151पी	हवलदार	महादेव जी.	01.05.2019
1904	2792374एम	हवलदार	महेश कुमार सिंह	01.07.2019
1905	2792190एन	हवलदार	एम नडफ	01.05.2019
1906	2789856डब्ल्यू	हवलदार	एम पाटिल	01.07.2019
1907	2792301ए	हवलदार	मोहम्मद राबियुल आलम	01.05.2019
1908	2792354वाई	हवलदार	एम एच	01.07.2019
1909	2792225वाई	हवलदार	मुरगेन्दर एम एम	01.05.2019
1910	2792158वाई	हवलदार	परब सुभाष काशीराम	01.05.2019
1911	2792377ए	हवलदार	पाटिल बजरंग संताराम	01.07.2019
1912	2792304एन	हवलदार	पाटिल दिगम्बर कृष्णा	01.06.2019
1913	2792027एन	हवलदार	पाटिल जयवन्त दत्तू	01.03.2019
1914	2792048के	हवलदार	पाटिल मधुकर कृष्णा	01.05.2019
1915	2792028डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल नितिन	01.03.2019
1916	2792306वाई	हवलदार	पाटिल रमेश सहाजी	01.06.2019
1917	2792390के	हवलदार	पाटिल सदासिव दनयानु	01.07.2019
1918	2792041ए	हवलदार	पाटिल शिवाजी रामु	01.04.2019
1919	2791848डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल सुनील भानुदास	01.03.2019
1920	2789809वाई	हवलदार	पाटिल वैकट डागु	01.05.2019
1921	2791862एच	हवलदार	पवार जलिन्दर राजेंद्रा	01.03.2019
1922	2789691एच	हवलदार	प्रकाश गावडे	01.03.2019
1923	2792149एक्स	हवलदार	राजाकुमार जे	01.05.2019
1924	2792020के	हवलदार	राजू माली	01.03.2019
1925	2792183एक्स	हवलदार	रमेश मगदुम	01.05.2019
1926	2792140एच	हवलदार	रामु गावडे	01.05.2019
1927	2792122ए	हवलदार	रवालू पाटिल	01.08.2019
1928	2792360एम	हवलदार	सलोखे दत्तत्रे आनंदा	01.07.2019
1929	2792227के	हवलदार	संजय सावंत	01.05.2019
1930	2792343एम	हवलदार	एस गणपति भीमराव	01.07.2019
1931	2789857वाई	हवलदार	ससाने प्रदीप विष्णु	01.07.2019
1932	2792231एम	हवलदार	सतीश कुम्भार	01.05.2019
1933	2792229पी	हवलदार	सावंत संतोष एम	01.05.2019
1934	2789930एम	हवलदार	शाजी एम	01.06.2019
1935	2791973ए	हवलदार	शेर सिंह	01.03.2019
1936	2792115के	हवलदार	शेटे बालू साहेब्रो	01.05.2019
1937	2792248ए	हवलदार	श्रीधरन ता	01.05.2019
1938	3188485एल	हवलदार	सूर्यवंशी सुनील नामदेव	01.06.2019

1939	2791882डब्ल्यू	हवलदार	तालेकर काकासाहेब दादासहाब	01.03.2019
1940	2792082के	हवलदार	टी संतोष बी	01.05.2019
1941	2792410एम	हवलदार	उगाले दादाबाहू बाबू	01.07.2019
1942	2792061एन	हवलदार	वी सेकार	01.06.2019
1943	2791858ए	हवलदार	वेंकटाचलम पी	01.03.2019
1944	2792314एक्स	हवलदार	विनोद कुमार के	01.06.2019
1945	2789658एल	हवलदार	विरूपाक्षप्पा टी	01.03.2019
1946	2791923पी	हवलदार	यादव उत्तातम विथल	01.03.2019
1947	2792236एल	हवलदार	यलप्पा काली	01.05.2019
1948	2791970एम	हवलदार	यलप्पा जी.	01.03.2019

राजपूताना बन्दूकधारी सेना

1949	2890274एक्स	हवलदार	आनंद सिंह शेखावत	01.03.2019
1950	2888497डब्ल्यू	हवलदार	आज़ाद कुमार	01.03.2019
1951	2890712पी	हवलदार	बजरंग सिंह	01.07.2019
1952	2890695ए	हवलदार	बेनुधर साहू	01.07.2019
1953	2888499एफ	हवलदार	बीर बहादुर शर्मा	01.03.2019
1954	2890587डब्ल्यू	हवलदार	दलवीर सिंह	01.05.2019
1955	2890590डब्ल्यू	हवलदार	दीप सिंह	01.05.2019
1956	2888508एक्स	हवलदार	देवी सिंह	01.03.2019
1957	2888511एक्स	हवलदार	इरशाद अहमद	01.03.2019
1958	2888670पी	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.07.2019
1959	2890260एक्स	हवलदार	जय पाल सिंह	01.03.2019
1960	2888512ए	हवलदार	कल्याण सहाय बैरवा	01.03.2019
1961	2890495के	हवलदार	मान सिंह	01.05.2019
1962	2890706एफ	हवलदार	मोहम्मद असफाक अहमद	01.07.2019
1963	2890459वाई	हवलदार	मुकेश कुमार	01.05.2019
1964	2890407एच	हवलदार	एन सिवा कुमार	01.05.2019
1965	2890461डब्ल्यू	हवलदार	नरेश सिंह	01.05.2019
1966	2890309एच	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
1967	2890212एक्स	हवलदार	पवन कुमार	01.02.2019
1968	2890601एक्स	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.05.2019
1969	2890589एफ	हवलदार	रामबीर सिंह तोमर	01.05.2019
1970	2890208पी	हवलदार	रमेश चन्द	01.02.2019
1971	2888668एक्स	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
1972	2888671एक्स	हवलदार	रनवीर सिंह	01.07.2019
1973	2888523एम	हवलदार	संतोष कुमार केसरी	01.05.2019
1974	2890432एफ	हवलदार	श्रवण सिंह शेखावत	01.05.2019
1975	2890305एम	हवलदार	सतीश कुमार	01.03.2019
1976	2888627एन	हवलदार	शीश राम	01.07.2019
1977	2890585एल	हवलदार	शिव सिंह शेखावत	01.05.2019
1978	2890226एक्स	हवलदार	एस एस जी.	01.03.2019
1979	2888517वाई	हवलदार	सुरेश राम	01.03.2019
1980	2890455एच	हवलदार	विजेन्द्र सिंह	01.05.2019

राजपूत सैन्यदल

1981	2993778एल	हवलदार	अजीत कुमार सिंह	01.05.2019
1982	2993692एम	हवलदार	अर्जुन सिंह चौहान	01.03.2019
1983	2993801एन	हवलदार	अर्विन्द सिंह बधौरिया	01.05.2019
1984	2993979के	हवलदार	बिमल सिंह	01.07.2019
1985	2993610वाई	हवलदार	देवेन्द्र कुमार	01.03.2019
1986	2993763एच	हवलदार	दिनेश सिंह खटाना	01.05.2019
1987	2992457एफ	हवलदार	गोपाल सिंह	01.03.2019
1988	2993952एम	हवलदार	जगरूप सिंह निवान	01.05.2019
1989	2994025एल	हवलदार	के सिंह	01.07.2019
1990	2993706एफ	हवलदार	खिनव सिंह बीका	01.03.2019
1991	2993810पी	हवलदार	एल राम गूजर	01.05.2019

1992	2992502एच	हवलदार	माधो सिंह कुशवाह	01.05.2019
1993	2992480पी	हवलदार	महाबीर सिंह	01.04.2019
1994	2993768एफ	हवलदार	महावीर सिंह	01.05.2019
1995	2992485एन	हवलदार	मनोज कुमार ठाकुर	01.04.2019
1996	2993850डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह गौड़	01.05.2019
1997	2994001एफ	हवलदार	नरेश पाल सिंह	01.07.2019
1998	2993710के	हवलदार	नरसी राम गुर्जर	01.03.2019
1999	2993616ए	हवलदार	पदम कुमार	01.03.2019
2000	2994009एन	हवलदार	राजू सिंह	01.07.2019
2001	2993933एफ	हवलदार	राम निवास	01.05.2019
2002	2993971एक्स	हवलदार	राम सिंह	01.07.2019
2003	2993946वाई	हवलदार	रामजी लाल गुर्जर	01.05.2019
2004	2993708एम	हवलदार	समय सिंह	01.03.2019
2005	2994087एल	हवलदार	संजीव कुमार पांडे	01.07.2019
2006	2994013डब्ल्यू	हवलदार	सारागदा एन	01.07.2019
2007	2993765एन	हवलदार	सतबीर सिंह	01.05.2019
2008	2993886पी	हवलदार	सत्य नारायण गुर्जर	01.05.2019
2009	2993743पी	हवलदार	सत्य पाल सिंह	01.05.2019

जाट सैन्यदल

2010	3186392एक्स	हवलदार	अजय पाल सिंह	01.07.2019
2011	3188379एम	हवलदार	अरुण कुमार	01.05.2019
2012	3188340ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.05.2019
2013	3188172एम	हवलदार	अवधेश कुमार	01.03.2019
2014	3188247वाई	हवलदार	भागु राम	01.03.2019
2015	3188106के	हवलदार	भुपेन्द्र सिंह	01.03.2019
2016	3186246एक्स	हवलदार	सी रमना आरईडी.	01.03.2019
2017	3188301एफ	हवलदार	दल चन्द	01.05.2019
2018	3188110एम	हवलदार	देवेंद्र पाल सिंह	01.03.2019
2019	3188219एम	हवलदार	दीपक कुमार	01.03.2019
2020	3188434एक्स	हवलदार	धर्मवीर	01.05.2019
2021	3188320एम	हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार	01.05.2019
2022	3188567एन	हवलदार	धूप सिंह	01.07.2019
2023	3186611एन	हवलदार	जी. राजेंद्र	01.07.2019
2024	13620698ए	हवलदार	गनेश राम	01.03.2019
2025	3186348एन	हवलदार	गोपाल सिंह	01.05.2019
2026	3186287एफ	हवलदार	गुरु प्रसाद सिंह	01.04.2019
2027	3188554डब्ल्यू	हवलदार	हरी राम ओएलए	01.07.2019
2028	3188460वाई	हवलदार	हरी सिंह	01.05.2019
2029	3188089पी	हवलदार	हेमराज सिंह	01.02.2019
2030	3186447डब्ल्यू	हवलदार	इन्द्रजीत यादव	01.08.2019
2031	3188223पी	हवलदार	जगदीश सिंह	01.03.2019
2032	3188233वाई	हवलदार	जय सिंह	01.03.2019
2033	3188304पी	हवलदार	जोगेन्द्र सिंह	01.05.2019
2034	3186418एफ	हवलदार	मनी राम	01.07.2019
2035	3186294एक्स	हवलदार	मंशा राम	01.05.2019
2036	3188278वाई	हवलदार	मूल्ला राम	01.03.2019
2037	3188560के	हवलदार	नेमा राम	01.07.2019
2038	3188226एच	हवलदार	पहुप सिंह	01.03.2019
2039	3188160एक्स	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
2040	3188192ए	हवलदार	प्रमोद कुमार तिओटिआ	01.03.2019
2041	3188142पी	हवलदार	राम गोपाल	01.03.2019
2042	3188218के	हवलदार	राम फल	01.03.2019
2043	3188225ए	हवलदार	रोम सिंह	01.03.2019
2044	3186305वाई	हवलदार	समशेर	01.05.2019
2045	3186295ए	हवलदार	संतोष कुमार आर	01.05.2019
2046	3188523डब्ल्यू	हवलदार	सतीश कुमार शर्मा	01.07.2019

2047	3188088एम	हवलदार	सिल्वाराज ए	01.02.2019
2048	3186158एफ	हवलदार	शत्रुघन बैठा	01.02.2019
2049	3188579एच	हवलदार	श्री निवास	01.07.2019
2050	3186180एम	हवलदार	श्री भगवान	01.03.2019
2051	3186290एफ	हवलदार	श्री पी पुरी	01.05.2019
2052	3188265एफ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
2053	3186272वाई	हवलदार	तारकेशवर सिंह	01.03.2019
2054	3186301एच	हवलदार	उपदेश कुमार	01.05.2019
2055	3188159एच	हवलदार	उपेंद्र सिंह	01.03.2019
2056	3186229एक्स	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.03.2019
सिख सैन्यदल				
2057	3396162एफ	हवलदार	अमरीक सिंह	01.05.2019
2058	3396170ए	हवलदार	अमरीक सिंह	01.05.2019
2059	3396157डब्ल्यू	हवलदार	अमृतपाल सिंह	01.05.2019
2060	3396364एच	हवलदार	अर्जन सिंह	01.05.2019
2061	3393319एल	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2019
2062	3396346ए	हवलदार	बचितर सिंह	01.05.2019
2063	3393483एन	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.07.2019
2064	3396252एच	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2019
2065	3396197एक्स	हवलदार	भजन सिंह	01.05.2019
2066	3396308के	हवलदार	दलजिंदर सिंह	01.05.2019
2067	3396269डब्ल्यू	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.05.2019
2068	4471896एच	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.02.2019
2069	3393336एल	हवलदार	ई खुशाल राय सिंह	01.06.2019
2070	3396164एम	हवलदार	गोपाल सिंह	01.05.2019
2071	3396089एन	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.05.2019
2072	3395888एक्स	हवलदार	गुरजीत सिंह	01.03.2019
2073	3393469एफ	हवलदार	हिम्मत सिंह	01.07.2019
2074	3396422एफ	हवलदार	हीरा बहादुर थापा	01.07.2019
2075	3396021एम	हवलदार	इकबाल सिंह	01.05.2019
2076	3396155एल	हवलदार	जगतार सिंह	01.05.2019
2077	3396271एन	हवलदार	जसबीर सिंह	01.05.2019
2078	3396146के	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.05.2019
2079	3396333एच	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.05.2019
2080	3396291एफ	हवलदार	जोरावर सिंह	01.05.2019
2081	3396113वाई	हवलदार	कडप्पा एम	01.05.2019
2082	3396002एफ	हवलदार	कमलजीत सिंह	01.05.2019
2083	3393511पी	हवलदार	खुशवंत सिंह	01.07.2019
2084	3396311के	हवलदार	कुलविन्दर सिंह	01.05.2019
2085	3396421वाई	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.07.2019
2086	3396211वाई	हवलदार	मलकियत सिंह	01.05.2019
2087	3393280के	हवलदार	मनजिंदर सिंह	01.03.2019
2088	3396037एक्स	हवलदार	मनजीत सिंह	01.05.2019
2089	3393323एन	हवलदार	मोहम्मद इरफान	01.03.2019
2090	3396189वाई	हवलदार	एम सिंह	01.05.2019
2091	3396094वाई	हवलदार	निर्मल सिंह	01.05.2019
2092	3393275वाई	हवलदार	पंचम राम यादव	01.03.2019
2093	3393442के	हवलदार	परमजीत सिंह	01.07.2019
2094	3396232पी	हवलदार	परवीन्दर सिंह	01.05.2019
2095	3396236एल	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.05.2019
2096	3393326एफ	हवलदार	राम बिलास राम	01.03.2019
2097	3396268एन	हवलदार	सकिन्द्र सिंह	01.05.2019
2098	3396178एम	हवलदार	सोहन सिंह	01.05.2019
2099	3393381एक्स	हवलदार	सुग्रीव सिंह	01.07.2019
2100	3395971पी	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.03.2019
2101	3396011एच	हवलदार	सुखमिंदर सिंह	01.05.2019
2102	3395952के	हवलदार	त्रिलोचन सिंह	01.03.2019
2103	3396365एल	हवलदार	वरिंदर सिंह	01.05.2019

2104	3396152एक्स	हवलदार	विक्रमाजीत सिंह	01.05.2019
सिख लघु पैदल सेना				
2105	4473732एल	हवलदार	अवतार सिंह	01.06.2019
2106	4473708पी	हवलदार	बलदेव सिंह	01.06.2019
2107	2993717एन	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.03.2019
2108	4473849के	हवलदार	बिल्लू सिंह	01.07.2019
2109	4473402एम	हवलदार	बुधू सिंह	01.02.2019
2110	4473756पी	हवलदार	सी सिंह	01.06.2019
2111	4473607एफ	हवलदार	दलेल सिंह	01.03.2019
2112	4473799के	हवलदार	दर्शन सिंह	01.06.2019
2113	4473599एन	हवलदार	धर्मपाल सिंह	01.03.2019
2114	04473743एक्स	हवलदार	गुरबिंदर सिंह	01.06.2019
2115	4473551ए	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.03.2019
2116	4473749वाई	हवलदार	गुरजंत सिंह	01.06.2019
2117	4471995एल	हवलदार	गुरलाल सिंह	01.06.2019
2118	4473742पी	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.06.2019
2119	4471894एक्स	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.02.2019
2120	4473728एच	हवलदार	हरिन्द्र सिंह	01.06.2019
2121	4473719एफ	हवलदार	जागीर सिंह	01.06.2019
2122	4473825ए	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.06.2019
2123	4473608के	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.03.2019
2124	4473592के	हवलदार	कपीलदेव सिंह	01.03.2019
2125	4473779डब्ल्यू	हवलदार	केवल सिंह	01.06.2019
2126	4472991एफ	हवलदार	एल शरण	01.07.2019
2127	4473640वाई	हवलदार	मेजर सिंह	01.04.2019
2128	4471906एफ	हवलदार	मनोज कुमार शर्मा	01.05.2019
2129	13620789के	हवलदार	एन सिंह	01.07.2019
2130	4473605डब्ल्यू	हवलदार	पिन्टू लाल दास	01.03.2019
2131	4473695एल	हवलदार	प्रीतपाल सिंह	01.06.2019
2132	4473820एफ	हवलदार	राजपाल सिंह	01.06.2019
2133	4473620एल	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2019
2134	4473804के	हवलदार	रणधीर सिंह	01.06.2019
2135	4471903एन	हवलदार	रति राम	01.04.2019
2136	4473714एच	हवलदार	रेशम सिंह	01.06.2019
2137	4471990एम	हवलदार	सरबजीत सिंह	01.06.2019
2138	4473569डब्ल्यू	हवलदार	सतनाम सिंह	01.03.2019
2139	4473698डब्ल्यू	हवलदार	सुखबंस सिंह	01.06.2019
2140	4473703डब्ल्यू	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.06.2019
2141	4473752वाई	हवलदार	तेजिन्दर सिंह	01.06.2019
2142	4473740के	हवलदार	तीर्थ सिंह	01.06.2019
2143	4473659एक्स	हवलदार	वी सिंह	01.05.2019
2144	4473690के	हवलदार	वाधे देवीदास रामराव	01.06.2019
डोगरा सैन्यदल				
2145	3994533एक्स	हवलदार	अजय कुमार	01.03.2019
2146	3994852के	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.07.2019
2147	3994840पी	हवलदार	अरुण कुमार	01.07.2019
2148	3994878वाई	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2019
2149	3994884एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2019
2150	3994769एम	हवलदार	अशवनी सिंह	01.07.2019
2151	3994592के	हवलदार	बचन सिंह	01.05.2019
2152	3994807एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.07.2019
2153	3992062डब्ल्यू	हवलदार	भगवान सिंह	01.08.2019
2154	3994800एन	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.07.2019
2155	3991990ए	हवलदार	देश राज	01.07.2019
2156	3994279वाई	हवलदार	दीवान चन्द	01.02.2019
2157	3994394वाई	हवलदार	धर्म पाल	01.03.2019

2158	3994543एफ	हवलदार	धर्म सिंह	01.03.2019
2159	3994554एन	हवलदार	धर्मदर सिंह	01.03.2019
2160	3994304एम	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.03.2019
2161	3994827एल	हवलदार	दिनेश कुमार	01.07.2019
2162	3991796एल	हवलदार	गगन सिंह	01.03.2019
2163	3994633एच	हवलदार	गिरधारी लाल	01.05.2019
2164	3994917एम	हवलदार	गुनाशेखरन सी	01.07.2019
2165	3994833वाई	हवलदार	हंस राज	01.07.2019
2166	3994492वाई	हवलदार	हरबंस सिंह	01.03.2019
2167	3395969एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	01.03.2019
2168	3994746एल	हवलदार	जगजीत सिंह	01.05.2019
2169	3994886एक्स	हवलदार	जगरूप सिंह	01.07.2019
2170	3994503ए	हवलदार	जनक राज	01.03.2019
2171	3994893एन	हवलदार	जनक सिंह	01.07.2019
2172	3994578एक्स	हवलदार	जरनैल सिंह	01.05.2019
2173	3994414एफ	हवलदार	जसबीर सिंह	01.03.2019
2174	3994837पी	हवलदार	जसवंत सिंह	01.07.2019
2175	3991869एम	हवलदार	जसवंत सिंह	01.04.2019
2176	3994313एन	हवलदार	जे कुमार	01.03.2019
2177	3994668वाई	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.05.2019
2178	3994642के	हवलदार	के सिंह	01.05.2019
2179	3994396के	हवलदार	कमल देव	01.03.2019
2180	3994453ए	हवलदार	कमल सिंह	01.03.2019
2181	3994698डब्ल्यू	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.05.2019
2182	3994693एक्स	हवलदार	के कुमार	01.05.2019
2183	3991805एफ	हवलदार	खेम बहादुर राय	01.03.2019
2184	3994804के	हवलदार	कष्णन लाल	01.07.2019
2185	3994914वाई	हवलदार	कुलबीर सिंह चिब	01.07.2019
2186	3994728एच	हवलदार	कुलदीप चन्द	01.05.2019
2187	3994598एल	हवलदार	कुलदीप राज	01.05.2019
2188	3991941एक्स	हवलदार	कुलदीप राज	01.07.2019
2189	3994519एल	हवलदार	कुलदीप राज	01.03.2019
2190	3994709एक्स	हवलदार	मदन गोपाल	01.05.2019
2191	3991984एम	हवलदार	महेन्द्र कुमार	01.07.2019
2192	3994612एम	हवलदार	मनोहर लाल	01.05.2019
2193	3994361एन	हवलदार	मोहन सिंह	01.03.2019
2194	3994928वाई	हवलदार	मोती लाल शर्मा	01.07.2019
2195	3994841एक्स	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.07.2019
2196	3186304डब्ल्यू	हवलदार	नवीन कुमार वशिष्ठ	01.05.2019
2197	3994974एन	हवलदार	एन सिंह जसवाल	01.07.2019
2198	3994354एक्स	हवलदार	ओम पाल सिंह	01.03.2019
2199	3994443डब्ल्यू	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.03.2019
2200	3994514एम	हवलदार	प्रदीप सिंह	01.03.2019
2201	3994962वाई	हवलदार	प्रवीन कुमार	01.07.2019
2202	3994545एम	हवलदार	प्रवीन कुमार	01.03.2019
2203	3991898एफ	हवलदार	पवन कुमार	01.05.2019
2204	3994459एफ	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2019
2205	3994826एच	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.07.2019
2206	3994570एल	हवलदार	रघुबीर सिंह	01.05.2019
2207	3994389एन	हवलदार	राजीव कुमार	01.03.2019
2208	3994727ए	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
2209	3991874एक्स	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
2210	3994664एच	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.05.2019
2211	3994290एक्स	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.03.2019
2212	3991865डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2019
2213	3994675पी	हवलदार	राकेश कुमार	01.05.2019
2214	3994838एक्स	हवलदार	राकेश कुमार	01.07.2019
2215	3994366एम	हवलदार	राम पाल	01.03.2019

2216	3186419के	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
2217	3991997के	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
2218	3992057एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.08.2019
2219	3994485एच	हवलदार	रंजीत सिंह	01.03.2019
2220	3994634एल	हवलदार	रंजीत सिंह	01.05.2019
2221	3992017के	हवलदार	रतन लाल	01.07.2019
2222	3994309एल	हवलदार	रवि सिंह	01.03.2019
2223	3994368एक्स	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.03.2019
2224	3991797एन	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.03.2019
2225	3994333एफ	हवलदार	रोमेश कुमार	01.03.2019
2226	3991964वाई	हवलदार	सालविन्दर सिंह	01.07.2019
2227	3994626एम	हवलदार	संजीव कुमार	01.05.2019
2228	3994493एफ	हवलदार	संजीव कुमार	01.03.2019
2229	3994704वाई	हवलदार	संजू राम ठाकुर	01.05.2019
2230	3991960एच	हवलदार	सरूप चन्द	01.07.2019
2231	3188107एम	हवलदार	श्रवण कुमार	01.03.2019
2232	3994415के	हवलदार	सतपाल सिंह, एसएम	01.03.2019
2233	3994276एल	हवलदार	शाम सिंह	01.02.2019
2234	3994775ए	हवलदार	शमशेर चन्द	01.07.2019
2235	3994784एफ	हवलदार	शशि पौल	01.07.2019
2236	3994890ए	हवलदार	सिकंदर सिंह	01.07.2019
2237	3994504एच	हवलदार	सोम राज	01.03.2019
2238	3994711पी	हवलदार	सुमन कुमार गौतम	01.05.2019
2239	3994568एन	हवलदार	सूरज कुमार	01.05.2019
2240	3994372ए	हवलदार	सुशील कुमार	01.03.2019
2241	3994416एम	हवलदार	तारा चन्द	01.03.2019
2242	3994776एच	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2019
2243	3994410एल	हवलदार	विजय कुमार	01.03.2019
2244	3994762एच	हवलदार	विजय सिंह	01.07.2019
2245	3991981वाई	हवलदार	विनोद कुमार	01.07.2019
2246	3396417डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार	01.07.2019
2247	3994788एक्स	हवलदार	यश पौल	01.07.2019

गढवाल बन्दूकधारी सेना

2248	4075803एम	हवलदार	ए कालान्गर	01.08.2019
2249	4076607वाई	हवलदार	अजय तिवारी	01.07.2019
2250	4076439एल	हवलदार	अनिल प्रसाद	01.05.2019
2251	4076551एक्स	हवलदार	अरुणपाल सिंह रावत	01.05.2019
2252	04074110एच	हवलदार	बलवंत सिंह	01.03.2019
2253	4076493वाई	हवलदार	भगत सिंह	01.05.2019
2254	4076319एम	हवलदार	भानु प्रसाद	01.04.2019
2255	4076236एफ	हवलदार	भीम सिंह	01.03.2019
2256	4074139एल	हवलदार	भूपाल सिंह	01.05.2019
2257	4076322एम	हवलदार	भूपाल सिंह	01.04.2019
2258	4074345पी	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.07.2019
2259	4076527एफ	हवलदार	बिल्लू सिंह	01.05.2019
2260	4076616ए	हवलदार	बिपिन कुमार	01.07.2019
2261	4076494एफ	हवलदार	बुधी सिंह	01.05.2019
2262	4076446एफ	हवलदार	सी पी सिंह नेगी	01.05.2019
2263	4074091एच	हवलदार	चमन सिंह	01.03.2019
2264	4076456एल	हवलदार	चन्दन सिंह	01.05.2019
2265	4076405एक्स	हवलदार	चंद्रा पाल सिंह	01.05.2019
2266	4076622एन	हवलदार	डी. एस गुसाई	01.07.2019
2267	4076562के	हवलदार	दीपक सिंग बिष्ट	01.05.2019
2268	4076317एफ	हवलदार	देपेंद्रा सिंह रावत	01.04.2019
2269	4076389एल	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.04.2019
2270	4076372एक्स	हवलदार	धन सिंह रावत	01.04.2019

2271	4076597ए	हवलदार	दीवान सिंह	01.07.2019
2272	4076498एक्स	हवलदार	फेट सिंह	01.05.2019
2273	4076656एफ	हवलदार	गजे सिंह	01.07.2019
2274	4075815एफ	हवलदार	गंगा राम	01.08.2019
2275	4074377एक्स	हवलदार	गंगा सिंह रावत	01.07.2019
2276	4076442एल	हवलदार	गोविंद चन्द	01.05.2019
2277	4076451एम	हवलदार	हरी मोहन सिंह	01.05.2019
2278	4076397के	हवलदार	हरी सिंह	01.05.2019
2279	4076431वाई	हवलदार	हेमवती नंदन	01.05.2019
2280	4076657के	हवलदार	जगमोहन सिंह रावत	01.07.2019
2281	4076500के	हवलदार	जय सिंह	01.05.2019
2282	2890472एच	हवलदार	जीत सिंह	01.05.2019
2283	04074360के	हवलदार	कलाम सिंह	01.07.2019
2284	4076402के	हवलदार	करन सिंह	01.05.2019
2285	4074136एक्स	हवलदार	केशर सिंह	01.05.2019
2286	4076660के	हवलदार	किशोर कुमार	01.07.2019
2287	04074188एन	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.07.2019
2288	4076275ए	हवलदार	महाराज सिंह	01.03.2019
2289	4076360एच	हवलदार	मनोहर लाल	01.04.2019
2290	4076681ए	हवलदार	मोहन सिंह नेगी	01.07.2019
2291	4074223एल	हवलदार	नरेंद्र सिंह	01.07.2019
2292	4076247एन	हवलदार	पंकज कुमार	01.03.2019
2293	4076584एच	हवलदार	पावर तानाजी दिनाकर	01.06.2019
2294	4076311ए	हवलदार	प्रकाश चंद्रा	01.04.2019
2295	4076251डब्ल्यू	हवलदार	रबीन्द्र कुमार	01.03.2019
2296	4076406ए	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.05.2019
2297	4076465एम	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.05.2019
2298	4074226वाई	हवलदार	राकेश कुमार	01.07.2019
2299	4076248डब्ल्यू	हवलदार	राकेश सिंह राना	01.03.2019
2300	4076636एन	हवलदार	राम चरण सिंह	01.07.2019
2301	4271408एल	हवलदार	राम पाल सिंह	01.05.2019
2302	4076245एच	हवलदार	रमेश सिंह	01.03.2019
2303	4074235ए	हवलदार	रतन मनी बदोनी	01.07.2019
2304	4076237के	हवलदार	एस नन्द	01.03.2019
2305	4076503एक्स	हवलदार	संजय कुमार	01.05.2019
2306	4076621एल	हवलदार	संजय सिंह	01.07.2019
2307	4074171ए	हवलदार	संत राम	01.05.2019
2308	4074270एच	हवलदार	सतीश गिरि	01.07.2019
2309	4076355एक्स	हवलदार	शीशपाल सिंह	01.04.2019
2310	4076475डब्ल्यू	हवलदार	सोबन सिंह	01.05.2019
2311	13620797एच	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.07.2019
2312	4074077डब्ल्यू	हवलदार	सुखपाल सिंह बिष्ट	01.03.2019
2313	4076671डब्ल्यू	हवलदार	सूरज सिंह नेगी	01.07.2019
2314	4076625एफ	हवलदार	टी एस श्रीनिवासुलू	01.07.2019
2315	4076518ए	हवलदार	तीरथ सिंह	01.05.2019
2316	4074052के	हवलदार	त्रिलोक सिंह	01.03.2019
2317	4076599एल	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2019
2318	4074340डब्ल्यू	हवलदार	विजय पाल सिंह	01.07.2019
2319	4076595पी	हवलदार	विजय सिंह	01.07.2019
2320	4076267एफ	हवलदार	विक्रम सिंह	01.03.2019
2321	4074210एन	हवलदार	विक्रम सिंह	01.07.2019
2322	4076460एन	हवलदार	यशपाल सिंह	01.05.2019

कुर्माँउ सैन्यदल

2323	4185321ए	हवलदार	ए एस मैहता	01.03.2019
2324	4185661एच	हवलदार	आनंद सिंह	01.07.2019
2325	4185542एम	हवलदार	अवधेश कुमार	01.07.2019
2326	4185373डब्ल्यू	हवलदार	भूपाल सिंह	01.03.2019

2327	4188097के	हवलदार	चन्द्र सिंह	01.03.2019
2328	4188113डब्ल्यू	हवलदार	डी. एस गौरा	01.03.2019
2329	4185563एच	हवलदार	धर्म सिंह	01.07.2019
2330	4186223एम	हवलदार	दिगम्बर सिंह	01.05.2019
2331	4185492एम	हवलदार	दिनेश पासवान	01.05.2019
2332	4188349एल	हवलदार	दीवान सिंह, एसएम	01.05.2019
2333	4185613एच	हवलदार	जी. एस भानदारी	01.07.2019
2334	4187992एच	हवलदार	गनेश सिंह	01.03.2019
2335	4187972पी	हवलदार	गोपाल सिंह	01.03.2019
2336	4185500ए	हवलदार	गोविंद सिंह	01.05.2019
2337	4185484एन	हवलदार	हरीश सिंह	01.05.2019
2338	4188282एक्स	हवलदार	हरीश सिंह	01.05.2019
2339	4185453एन	हवलदार	हीरा सिंह	01.05.2019
2340	4188263एम	हवलदार	जय वीर	01.05.2019
2341	4187999एम	हवलदार	जोध सिंह	01.03.2019
2342	4185345के	हवलदार	के एस भान दारी	01.03.2019
2343	4185410वाई	हवलदार	के एस बिष्ट	01.03.2019
2344	4188317एच	हवलदार	के एस नेगी	01.05.2019
2345	4188496एन	हवलदार	किरोदीमल यादव	01.07.2019
2346	4187990एक्स	हवलदार	मोहन सिंह	01.03.2019
2347	4187982वाई	हवलदार	एन सी सी	01.03.2019
2348	4187983एफ	हवलदार	एन एस चौहान	01.03.2019
2349	4188066के	हवलदार	नंदन सिंह	01.03.2019
2350	4188338वाई	हवलदार	नंदन सिंह	01.05.2019
2351	4188123ए	हवलदार	नारायण सिंह	01.03.2019
2352	4185436एन	हवलदार	प्रकाश राम	01.05.2019
2353	4188522के	हवलदार	प्रताप सिंह	01.07.2019
2354	4185398एच	हवलदार	प्रयाग दत्त	01.03.2019
2355	4188014एन	हवलदार	आर सी पाठक	01.03.2019
2356	4188128वाई	हवलदार	राकेश सिंह	01.03.2019
2357	4186966पी	हवलदार	रंजीत यादव	01.07.2019
2358	4185465एच	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.05.2019
2359	4188111एल	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
2360	4188539एक्स	हवलदार	वेद राम	01.08.2019
2361	4188005एम	हवलदार	विक्रम सिंह	01.03.2019
2362	4188403एन	हवलदार	यशपाल सिंह	01.05.2019

आसाम सैन्यदल

2363	4364156डब्ल्यू	हवलदार	बचन सिंह	01.07.2019
2364	4364545डब्ल्यू	हवलदार	वेनदानगयानगोर	01.08.2019
2365	4363952एम	हवलदार	बिनय राय	01.03.2019
2366	4364035पी	हवलदार	दल बहादुर थापा	01.04.2019
2367	4426954पी	हवलदार	डी. राम	01.08.2019
2368	4426951एफ	हवलदार	एच सिंह	01.07.2019
2369	4426953एम	हवलदार	हीरा सिंह	01.08.2019
2370	4426988एच	हवलदार	हीरा लाल यादव	01.04.2019
2371	4364091एन	हवलदार	जगादीश राय	01.05.2019
2372	4363965के	हवलदार	के संग	01.03.2019
2373	4364030डब्ल्यू	हवलदार	लालूनगाविआ	01.04.2019
2374	4363972ए	हवलदार	एल लियाना	01.03.2019
2375	4364132एम	हवलदार	एल हमर	01.05.2019
2376	4363897एफ	हवलदार	लालतलनलिआना	01.03.2019
2377	4427015वाई	हवलदार	एल सुब्रमण्यम	01.06.2019
2378	4364153एच	हवलदार	एल बेलन	01.06.2019
2379	4426952के	हवलदार	मोहम्मद एस मोल्ला	01.07.2019
2380	4363885एम	हवलदार	एन सानी	01.03.2019
2381	4362861डब्ल्यू	हवलदार	एन एस सिंह	01.04.2019

2382	4364041एच	हवलदार	एन नगोनगपा	01.04.2019
2383	4363867के	हवलदार	निराकार पंडा	01.06.2019
2384	4364022एक्स	हवलदार	निर्मल सिन्हा	01.04.2019
2385	4363915वाई	हवलदार	ओम प्रसाद चेतरी	01.03.2019
2386	4362813डब्ल्यू	हवलदार	पी ए अनल	01.03.2019
2387	4363997एम	हवलदार	फाटिक चंद्रा राय	01.03.2019
2388	4363926एल	हवलदार	पूर्णा लामा	01.03.2019
2389	4426948एफ	हवलदार	राज नाथ प्रसाद	01.07.2019
2390	4364018पी	हवलदार	राजू रंजन सिन्हा	01.04.2019
2391	4426950वाई	हवलदार	राम प्रीत पासवान	01.07.2019
2392	4363981एफ	हवलदार	रोहलुपूर्इया	01.03.2019
2393	4362936एच	हवलदार	सोनगडिगलेन	01.07.2019
2394	8033704एफ	हवलदार	सुभास चंद्रा बेरा	01.04.2019
2395	4363937एक्स	हवलदार	सुकु देबबर्मा	01.03.2019
2396	4426955एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा पाल	01.08.2019
2397	4426968पी	हवलदार	सुरेश कुमार राय	01.04.2019
2398	4362953एच	हवलदार	टी वाइफेइ	01.08.2019
2399	4364080एफ	हवलदार	टी एस	01.05.2019
2400	4363936पी	हवलदार	टी रंजीत एम	01.03.2019
2401	4364052पी	हवलदार	यू बी एल	01.05.2019
2402	4364134एक्स	हवलदार	यूएम बहादुर थापा	01.05.2019
2403	4362973डब्ल्यू	हवलदार	उमेश चंद्रा राय	01.08.2019

बिहार सैन्यदल

2404	4271350वाई	हवलदार	ए जॉन कन्नेडी	01.05.2019
2405	4273266एक्स	हवलदार	ए संगी	01.03.2019
2406	4273115वाई	हवलदार	अजय कुमार	01.04.2019
2407	4271427डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.07.2019
2408	4273302एक्स	हवलदार	ए कुमार लकरा	01.05.2019
2409	4273456के	हवलदार	अल्बर्ट भेंगरा	01.05.2019
2410	4271398एम	हवलदार	ए बरला	01.05.2019
2411	4271341एक्स	हवलदार	अनिल कुमार महतो	01.05.2019
2412	4273197एम	हवलदार	अनिल तोप्पो	01.03.2019
2413	4273267ए	हवलदार	अनूप एच	01.03.2019
2414	4273129वाई	हवलदार	असारी बाबू भाई के	01.03.2019
2415	4273669एक्स	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.05.2019
2416	4273227वाई	हवलदार	बागुन कोरा	01.03.2019
2417	4273608ए	हवलदार	बंदे केर्केट्टा	01.05.2019
2418	4273194वाई	हवलदार	बंधाना ओरान	01.03.2019
2419	4273358के	हवलदार	बारिया दिलीप कुमार विजय सिंह	01.05.2019
2420	4273133एफ	हवलदार	भगोरा जीवा भाई सलु भाई	01.03.2019
2421	4273622एम	हवलदार	भांजा किशोर बिस्वाल	01.05.2019
2422	4273664वाई	हवलदार	बिनोद ओरान	01.05.2019
2423	4272153एच	हवलदार	बीरेंद्र सिंह	01.04.2019
2424	4273467डब्ल्यू	हवलदार	बिरसा मुंडा	01.05.2019
2425	4273728वाई	हवलदार	बिरसा ओरान	01.07.2019
2426	4273284ए	हवलदार	बिरसा ओरान	01.03.2019
2427	4273306एन	हवलदार	बिश्नु चरण गरानायक	01.05.2019
2428	4273322एल	हवलदार	सी ए श्रीनिवास	01.05.2019
2429	4273401ए	हवलदार	चंद्रा शेखर प्रसाद	01.05.2019
2430	4273605एम	हवलदार	चंद्रपाल तोप्पो	01.05.2019
2431	4273273एन	हवलदार	सी सिंह	01.03.2019
2432	4273263के	हवलदार	कैपरियन केर्केट्टा	01.03.2019
2433	4273269एल	हवलदार	दारी ओरान	01.03.2019
2434	4273168एक्स	हवलदार	दीपक कुमार	01.03.2019
2435	4273043ए	हवलदार	दिनेश लकरा	01.03.2019
2436	4273554के	हवलदार	इलियास कुजुर	01.05.2019
2437	4273150एफ	हवलदार	फंत एन भाई एस	01.03.2019

2438	4273500एच	हवलदार	गंगू तिर्कई	01.05.2019
2439	4273034वाई	हवलदार	गुलशन भगत	01.03.2019
2440	4271236एफ	हवलदार	हनुमन्तू चिरंजी वी	01.03.2019
2441	4273239एन	हवलदार	हरमैन बरुआ	01.03.2019
2442	4273662एन	हवलदार	हीरा लाल बसंत होरो	01.05.2019
2443	4273181एफ	हवलदार	जगदीश भगत	01.03.2019
2444	4271331एन	हवलदार	जय कुमार राम	01.05.2017
2445	4273220पी	हवलदार	जितेन ओरान	01.03.2019
2446	4273708एल	हवलदार	जीतेश्वर नायक	01.07.2019
2447	4273668पी	हवलदार	जीवन तिग्गा	01.05.2019
2448	4273396ए	हवलदार	जोहन तिर्कई	01.05.2019
2449	4273356वाई	हवलदार	के कानन्न	01.05.2019
2450	4273492पी	हवलदार	कैला ओरान	01.05.2019
2451	4273253ए	हवलदार	कैलाश ओरान	01.03.2019
2452	4273640पी	हवलदार	कमल तिर्कई	01.05.2019
2453	4273409एम	हवलदार	कमलेश कुमार	01.05.2019
2454	4273336एल	हवलदार	खरादी दिनेश कुमार सलु भाई	01.05.2019
2455	4273205ए	हवलदार	कृष्णा तिर्कई	01.03.2019
2456	4273109एल	हवलदार	कशातरिया मोहन सोरन	01.03.2019
2457	4273225एन	हवलदार	कुलदीप लकरा	01.03.2019
2458	4273040एम	हवलदार	लाल देव ओरान	01.03.2019
2459	4273184पी	हवलदार	लाल मोहन ओरान	01.03.2019
2460	4273718पी	हवलदार	ललित केर्केट्टा	01.07.2019
2461	4273585के	हवलदार	लक्ष्मन ओरान	01.05.2019
2462	4273261वाई	हवलदार	लक्ष्मी धर बारेक	01.03.2019
2463	4271412एन	हवलदार	महेश प्रसाद हाज़रा	01.05.2019
2464	4273320ए	हवलदार	मनबोध ओरान	01.05.2019
2465	4273351ए	हवलदार	मावी बाडिया भाई माथुर भाई	01.05.2019
2466	4273377पी	हवलदार	मृत्युंजय कुमार दुबे	01.05.2019
2467	4273078डब्ल्यू	हवलदार	मुकेश कुमार	01.03.2019
2468	4273494ए	हवलदार	नोयल नोर्बर्ट मिंज	01.05.2019
2469	4273243डब्ल्यू	हवलदार	पातरस होरो	01.03.2019
2470	4273705एक्स	हवलदार	प्रदीप कुमार नाइक	01.07.2019
2471	4271479एम	हवलदार	प्रदीपन वी	01.05.2019
2472	4273438एफ	हवलदार	प्रकाश कुजुर	01.05.2019
2473	4273258वाई	हवलदार	प्रेमचंद तिग्गा	01.03.2019
2474	4273250एम	हवलदार	पुनाई बेक	01.03.2019
2475	4273255एल	हवलदार	पूर्णा चंद्रा टूडू	01.03.2019
2476	4273244वाई	हवलदार	राजेंद्रा ओरान	01.03.2019
2477	4273245एफ	हवलदार	राजेश सोरन	01.03.2019
2478	4271258ए	हवलदार	राकेश कुमार	01.02.2019
2479	4273052एफ	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2019
2480	4273055पी	हवलदार	राम बाली प्रसाद	01.03.2019
2481	4271385पी	हवलदार	रमेश सहाय	01.05.2019
2482	4273770एक्स	हवलदार	रवि शेखर प्रसाद	01.07.2019
2483	4273793वाई	हवलदार	साधु चरण बी	01.07.2019
2484	4273191एल	हवलदार	सैमन कुजुर	01.03.2019
2485	4273580एल	हवलदार	सम्पति ओरान	01.05.2019
2486	4273405डब्ल्यू	हवलदार	संतोष कुमार सिंह	01.05.2019
2487	4273039एक्स	हवलदार	शरत चंद्रा नायक	01.03.2019
2488	4273036के	हवलदार	सुनील कुजुर	01.03.2019
2489	4273606पी	हवलदार	सुनील ओरान	01.05.2019
2490	4273217पी	हवलदार	सुनील तिर्कई	01.03.2019
2491	4273215के	हवलदार	सूरज मिंज	01.03.2019
2492	4273794एफ	हवलदार	सुरेश मिंज	01.07.2019
2493	4273386डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश ओरान	01.05.2019
2494	4271387ए	हवलदार	सुरेश राय	01.05.2019

2495	4273475पी	हवलदार	टी तिर्कोई	01.05.2019
2496	4273353एल	हवलदार	वी प्रवीण भाई हारजी भाई	01.05.2019
2497	4273079वाई	हवलदार	विनय कुमार राकेश	01.03.2019
2498	4273237एच	हवलदार	डब्ल्यू तोप्पो	01.03.2019

माहर सैन्यदल

2499	4566192के	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.05.2019
2500	4563868डब्ल्यू	हवलदार	अशोक साह	01.07.2019
2501	4563851एच	हवलदार	अशोक सिंह	01.07.2019
2502	4566011एन	हवलदार	अशोक सिंह	01.04.2019
2503	4566237वाई	हवलदार	अवतार सिंह	01.05.2019
2504	4565955एच	हवलदार	बंसोदे राकेश सुरेश	01.03.2019
2505	4566269एफ	हवलदार	बंसोदे सुनील मारुति	01.06.2019
2506	4565693एक्स	हवलदार	बौरी बंधु नाइक	01.03.2019
2507	4566155डब्ल्यू	हवलदार	भागीरथ सेल	01.05.2019
2508	4566379डब्ल्यू	हवलदार	भगवान सिंह	01.08.2019
2509	4565570एल	हवलदार	भालेराव सुरेश शंकरराव	01.02.2019
2510	4566349वाई	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.07.2019
2511	4565797वाई	हवलदार	चन्द	01.03.2019
2512	4565729एल	हवलदार	सी कैलास एस	01.03.2019
2513	4563904डब्ल्यू	हवलदार	दलजीत सिंह	01.08.2019
2514	4563910के	हवलदार	दरोगा राम	01.08.2019
2515	4566416वाई	हवलदार	देवेन्द्र प्रताप सिंह	01.07.2019
2516	4566189के	हवलदार	धरेन्धर स्वेन	01.05.2019
2517	4563698एक्स	हवलदार	धर्मन्द्र ठाकुर	01.03.2019
2518	4566281एच	हवलदार	दिनेश कुमार	01.05.2019
2519	13620713के	हवलदार	डी. माधव विठल राव	01.04.2019
2520	4566283एन	हवलदार	दुदेकूला कासिम पीडा	01.05.2019
2521	4566163पी	हवलदार	जी. राजेंद्रा नारायण	01.06.2019
2522	4565994एफ	हवलदार	जी. बालकृष्णा रामचंद्र	01.03.2019
2523	4565697एन	हवलदार	गंधर्व	01.03.2019
2524	4563724एन	हवलदार	गंधर्व सिंह	01.05.2019
2525	4566378एन	हवलदार	जी. दत्तात्रिया रामहरी	01.07.2019
2526	4565698डब्ल्यू	हवलदार	जी. गजानन नामदेव	01.03.2019
2527	4564140पी	हवलदार	गोविन्द सिंह यादव	01.04.2019
2528	4565862एन	हवलदार	हरिकेश सिंह	01.03.2019
2529	4566320डब्ल्यू	हवलदार	ईन्गोले राजू लक्ष्मन	01.07.2019
2530	4566222डब्ल्यू	हवलदार	जे प्रमोद आत्माराम	01.05.2019
2531	4566240वाई	हवलदार	कालका प्रसाद	01.05.2019
2532	4566324एम	हवलदार	कालू सिंह	01.07.2019
2533	4566398एफ	हवलदार	कालू चरण साहू	01.05.2019
2534	4565923ए	हवलदार	काम्बले हरीबा सखाराम	01.03.2019
2535	4566409एच	हवलदार	काम्बले तानाजी गुलाब	01.03.2019
2536	4566265एल	हवलदार	कंवलजीत सिंह	01.05.2019
2537	4566299वाई	हवलदार	करन सिंह	01.06.2019
2538	4566213पी	हवलदार	कवाले दिलीप कुमार गनपत	01.02.2019
2539	4565894डब्ल्यू	हवलदार	के कृष्णन	01.03.2019
2540	4565709एक्स	हवलदार	खन्देराव एस गोपाल	01.03.2019
2541	4565930डब्ल्यू	हवलदार	किशोर लाल	01.03.2019
2542	4566310एम	हवलदार	कुंदन लाल	01.06.2019
2543	4563770एच	हवलदार	एम शंकर	01.05.2019
2544	4563624एच	हवलदार	महावीर प्रजापत	01.03.2019
2545	4563622एक्स	हवलदार	मनमोहन सिंह	01.03.2019
2546	4563697पी	हवलदार	मोहम्मद अली उल्लाह	01.03.2019
2547	4565722एफ	हवलदार	एम युवराज दगादु	01.03.2019
2548	4566193एम	हवलदार	मृतुंजय कुमार	01.05.2019
2549	4566233एच	हवलदार	मोरे पांडुरंग कादूबा	01.05.2019

2550	4566425ए	हवलदार	मुकेश सिंह	01.07.2019
2551	4565841एक्स	हवलदार	मूले रवीन्द्र रतन	01.04.2019
2552	4566031एफ	हवलदार	पी मुरलीधर सुखदेव	01.05.2019
2553	4566309एक्स	हवलदार	पी अनिल धनसिंह	01.06.2019
2554	4566082पी	हवलदार	प्रकाश चन्द्र	01.05.2019
2555	4565121डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम चंद्रा	01.04.2019
2556	4563723एल	हवलदार	प्रेम सिंह	01.05.2019
2557	4566027वाई	हवलदार	राज कुमार	01.05.2019
2558	4566342पी	हवलदार	राजू राम	01.07.2019
2559	4565815डब्ल्यू	हवलदार	राम लदिता	01.03.2019
2560	4566443एच	हवलदार	राम लाल	01.06.2019
2561	4563898एन	हवलदार	रामपाल	01.08.2019
2562	4566257एम	हवलदार	आर राम	01.05.2019
2563	4564383ए	हवलदार	एस ए	01.06.2019
2564	4565795एन	हवलदार	संजीव कुमार	01.03.2019
2565	4563650के	हवलदार	संतोष कुमार सिंह	01.03.2019
2566	4566322एफ	हवलदार	सरवन सिंह	01.07.2019
2567	4565823पी	हवलदार	सतीश चंद्रा शर्मा	01.04.2019
2568	4563812के	हवलदार	श्री कृष्णा पांडे	01.07.2019
2569	4566235एन	हवलदार	शीरसत सुधाकर मोरेश्वर	01.05.2019
2570	4566106एन	हवलदार	श्रीसाथ दीपक आत्माराम	01.05.2019
2571	4565905एक्स	हवलदार	शिवनंदन सिंह	01.03.2019
2572	4566250एच	हवलदार	शोभाराम	01.05.2019
2573	4565731एच	हवलदार	सोनवाने सुभाष भीकू	01.03.2019
2574	4566036ए	हवलदार	एस डी. हीरालाल	01.05.2019
2575	4563629एफ	हवलदार	सुदर्शन कुमार	01.03.2019
2576	4565925एल	हवलदार	सूरज	01.03.2019
2577	4565831एन	हवलदार	त्यादे मनोहर वासूदेव	01.04.2019
2578	4565809एच	हवलदार	उत्तातम कुमार जैना	01.03.2019
2579	4566245एक्स	हवलदार	विपिन बिहारी	01.05.2019
2580	4566110डब्ल्यू	हवलदार	वान्खडे विलास शालिग्राम	01.05.2019
2581	4566348डब्ल्यू	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद	01.07.2019
2582	4565865एफ	हवलदार	योगेन्द्रा सिंह यादव	01.03.2019
2583	4566295एच	हवलदार	योगराज	01.05.2019

जम्मू और कश्मीर बन्दूकधारी सेना

2584	13758926डब्ल्यू	हवलदार	अमरीक सिंह	01.05.2019
2585	13759255के	हवलदार	अनिल सिंह	01.07.2019
2586	13759283डब्ल्यू	हवलदार	अवतार सिंह	01.08.2019
2587	13758516ए	हवलदार	अजीज़ उर रहमान	01.02.2019
2588	13756451वाई	हवलदार	बलबीर सिंह	01.03.2019
2589	13756498के	हवलदार	बंसी लाल	01.04.2019
2590	13759238के	हवलदार	गनेश दास	01.07.2019
2591	13756496वाई	हवलदार	हरेन्द्र प्रसाद	01.03.2019
2592	13758914एफ	हवलदार	हरजीत सिंह	01.05.2019
2593	13756528डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश कुमार	01.05.2019
2594	4074056ए	हवलदार	जतिंद्र कुमार	01.03.2019
2595	13758765वाई	हवलदार	जीत कुमार	01.03.2019
2596	13758993एफ	हवलदार	जीवन सिंह	01.05.2019
2597	13759097ए	हवलदार	जोगिंदर लाल	01.07.2019
2598	13756683एक्स	हवलदार	कुलदीप राज	01.07.2019
2599	13759219वाई	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.07.2019
2600	13758799एम	हवलदार	लखनपाल सिंह	01.03.2019
2601	13759248एन	हवलदार	मदन लाल	01.07.2019
2602	13759165एच	हवलदार	मनजीत सिंह	01.07.2019
2603	13756592एन	हवलदार	नरेंद्र सिंह	01.07.2019
2604	13759007एन	हवलदार	नरेन्द्रा बहादुर	01.05.2019

2605	4074094डब्ल्यू	हवलदार	नेक राम	01.03.2019
2606	13756655एल	हवलदार	ओम दत्ता शर्मा	01.07.2019
2607	13756582के	हवलदार	पी सुब्रमण्यम	01.02.2019
2608	13759086एन	हवलदार	पदम सिंह	01.07.2019
2609	13756524ए	हवलदार	पी सेकिआ	01.05.2019
2610	13756526एल	हवलदार	प्रमोद एम वी	01.05.2019
2611	13759183एल	हवलदार	राज कुमार	01.07.2019
2612	13758744एच	हवलदार	रमजान खान	01.03.2019
2613	13758709ए	हवलदार	रवि कुमार	01.03.2019
2614	13758620एन	हवलदार	संजय कुमार शर्मा	01.03.2019
2615	13758685एफ	हवलदार	सतीश कुमार	01.03.2019
2616	13756565के	हवलदार	शमशेर सिंह राना	01.05.2019
2617	13759129एक्स	हवलदार	श्याम लाल	01.07.2019
2618	13756692वाई	हवलदार	श्रीराम सिंह यादव	01.06.2019
2619	13758663एच	हवलदार	सुनील कुमार	01.03.2019
2620	13759092एफ	हवलदार	सुनील शांत	01.07.2019
2621	13756487एक्स	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.03.2019
2622	13759181ए	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.07.2019
2623	13756564एफ	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार सारकी	01.05.2019
2624	13759004ए	हवलदार	सूर्या बहादुर माल	01.05.2019
2625	13759013एफ	हवलदार	तरसेम सिंह	01.05.2019
2626	4076668डब्ल्यू	हवलदार	वरिंदर सिंह	01.07.2019
2627	13756617पी	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2019
2628	13758774ए	हवलदार	विमल कुमार	01.03.2019
2629	13758986एल	हवलदार	योग राज	01.05.2019

लदाख निरीक्षक

2630	9924412के	हवलदार	चेतन अंगचौक	01.07.2019
2631	9924661एच	हवलदार	लोबजंग रिगजिन	01.08.2019
2632	9924331के	हवलदार	नाजरि हुसैन	01.02.2019
2633	9924655पी	हवलदार	पद्मा स्टेनजिन	01.08.2019
2634	9924641पी	हवलदार	पी डोरजे	01.08.2019
2635	9924660ए	हवलदार	स्टेनजिन वेंगबो	01.08.2019
2636	9924430एम	हवलदार	ताशी जी.	01.07.2019
2637	9924635एफ	हवलदार	ताशी जी.	01.08.2019
2638	9924640एम	हवलदार	थुकजे पी	01.08.2019

नागा सैन्यदल

2639	14703058एल	हवलदार	ए आसुली	01.02.2019
2640	14703063डब्ल्यू	हवलदार	ए के सेमा	01.02.2019
2641	4185358एफ	हवलदार	कवल सिंह	01.03.2019

जम्मू और कश्मीर लघु पैदल सेना

2642	9095658डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुमार शुक्ला	01.03.2019
2643	9096952एच	हवलदार	बलवान सिंह	01.07.2019
2644	9095742डब्ल्यू	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.07.2019
2645	9095690एल	हवलदार	भिंडर कुमार	01.04.2019
2646	9096751के	हवलदार	बिलाल अहमद शेख	01.03.2019
2647	9095596एफ	हवलदार	बुआ दित्ता	01.03.2019
2648	9095911एम	हवलदार	देस राज	01.06.2019
2649	9096866एक्स	हवलदार	गुलाम अहमद	01.05.2019
2650	9095625एल	हवलदार	गुलाम फरीद	01.03.2019
2651	9096493पी	हवलदार	गोतम सिंह	01.02.2019
2652	9095753एच	हवलदार	जीआर नवीन बी	01.07.2019
2653	9096854एच	हवलदार	गुलजार हुसैन	01.05.2019
2654	9095628वाई	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.03.2019
2655	13620806वाई	हवलदार	जी. नागेस्वर रेडी	01.07.2019

2656	9096953एल	हवलदार	जसवंत सिंह	01.07.2019
2657	9096807एल	हवलदार	जुगराज कुमार	01.04.2019
2658	9095620एम	हवलदार	केवल सिंह	01.03.2019
2659	9095623ए	हवलदार	किशोर कुमार	01.03.2019
2660	9095767एच	हवलदार	महमूद अहमद	01.07.2019
2661	9096935एच	हवलदार	मनीर हुसैन	01.07.2019
2662	9095762के	हवलदार	मोहम्मद अकबर	01.07.2019
2663	9096882पी	हवलदार	मोहम्मद अश्फ़ाक	01.05.2019
2664	9096871एच	हवलदार	मोहम्मद लतीफ	01.05.2019
2665	9095689डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद नाज़रि	01.04.2019
2666	9096886एल	हवलदार	मोहम्मद एस	01.05.2019
2667	9096778एफ	हवलदार	मोहम्मद याकूब कुमार	01.03.2019
2668	9095721ए	हवलदार	मोहिन्दर लाल	01.05.2019
2669	9096828एफ	हवलदार	मुश्ताक अहमद पी	01.04.2019
2670	9096791एल	हवलदार	मुश्ताक अहमद	01.03.2019
2671	9095627डब्ल्यू	हवलदार	एम खान	01.03.2019
2672	9095837डब्ल्यू	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.06.2019
2673	9096830वाई	हवलदार	राज कुमार	01.04.2019
2674	9096793डब्ल्यू	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.03.2019
2675	9095615एफ	हवलदार	रोमेश चंद्र	01.03.2019
2676	9095695के	हवलदार	सादिक हुसैन मलिक	01.04.2019
2677	9096815के	हवलदार	सलीम अहमद लोने	01.04.2019
2678	9095651एम	हवलदार	शाह नवाज़	01.03.2019
2679	9095697पी	हवलदार	सुबाष चंद्र	01.04.2019
2680	9095755एन	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.07.2019
2681	9095713एफ	हवलदार	सुरिन्दर पौल	01.05.2019
2682	9096740एक्स	हवलदार	तारिक हुसैन	01.02.2019
2683	9096476पी	हवलदार	विजय कुमार शर्मा	01.02.2019
2684	9096720के	हवलदार	ज़ाकिर हुसैन	01.02.2019

1 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2685	5045946एन	हवलदार	ऐश बहादुर गुरंग	01.02.2019
2686	5046247पी	हवलदार	बाल बहादुर पुन	01.06.2019
2687	5046067एम	हवलदार	दंबर सिंग थापा मगर	01.04.2019
2688	5046259के	हवलदार	दान बहादुर थापा	01.06.2019
2689	5045330ए	हवलदार	धन बहादुर राना	01.03.2019
2690	5046052के	हवलदार	दिल बहादुर थापा	01.04.2019
2691	5046414ए	हवलदार	दोरजय वाइ	01.08.2019
2692	5045999एम	हवलदार	जय बहादुर थापा	01.03.2019
2693	5045366वाई	हवलदार	लाल बहादुर थापा	01.05.2019
2694	5753215एफ	हवलदार	लाल बहादुर थापा	01.03.2019
2695	5046028एन	हवलदार	नान बहादुर थापा	01.04.2019
2696	5046207एन	हवलदार	नार बहादुर गुरंग	01.05.2019
2697	5045372एम	हवलदार	नार बहादुर गुरंग	01.05.2019
2698	5045960ए	हवलदार	नरेन्द्रा बहादुर डी.	01.02.2019
2699	5046159वाई	हवलदार	नोबिन गुरंग	01.03.2019
2700	5046022एम	हवलदार	प्रकाश प्रधान	01.03.2019
2701	5046121पी	हवलदार	प्रवेश गुरंग	01.03.2019
2702	5045314एच	हवलदार	पूर्णा बहादुर राना	01.02.2019
2703	5046094डब्ल्यू	हवलदार	राम केशर गुरंग	01.04.2019
2704	5046269एन	हवलदार	रेशम बहादुर गुरंग	01.06.2019
2705	5045953के	हवलदार	रेवात बहादुर डी. मगर	01.02.2019
2706	9421567एल	हवलदार	संजय थापा	01.02.2019
2707	5045378एन	हवलदार	सांता बहादुर गुरंग	01.05.2019
2708	5046205एच	हवलदार	शक्ती बहादुर गुरंग	01.05.2019
2709	5045365डब्ल्यू	हवलदार	श्रवण कुमार थापा	01.05.2019
2710	5045338एम	हवलदार	सूर्या बहादुर थापा	01.03.2019

2711	5046071पी	हवलदार	टुक बहादुर थापा	01.04.2019
2712	5045970के	हवलदार	याम बहादुर थापा	01.02.2019
2713	5046112एन	हवलदार	वाईईएन बहादुर थापा	01.04.2019

3 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2714	5247573एन	हवलदार	ए बहादुर राना	01.02.2019
2715	5247562एफ	हवलदार	अनोवर हुसैन	01.02.2019
2716	5246841ए	हवलदार	अर्जुन केसी	01.03.2019
2717	5247809एक्स	हवलदार	बाल बहादुर थापा	01.04.2019
2718	5247687वाई	हवलदार	दिल बहादुर थापा	01.04.2019
2719	5247812एक्स	हवलदार	दुर्गा बहादुर राना	01.04.2019
2720	5247867एफ	हवलदार	गंगा प्रसाद गुरंग	01.04.2019
2721	5247688एफ	हवलदार	गुप्ता बहादुर थापा	01.04.2019
2722	5247794ए	हवलदार	हीरा थापा	01.04.2019
2723	5247731एक्स	हवलदार	इश्वर गुरंग	01.04.2019
2724	5247616एक्स	हवलदार	जीत बहादुर अले मगर	01.02.2019
2725	5247699एन	हवलदार	मान बहादुर थापा मगर	01.04.2019
2726	5247713पी	हवलदार	नंदा प्रसाद गुरंग	01.04.2019
2727	5247648ए	हवलदार	नवल पुन	01.04.2019
2728	5247937पी	हवलदार	प्रेम बहादुर पुन	01.06.2019
2729	5247776एक्स	हवलदार	राज कुमार गुरंग	01.04.2019
2730	5247006एल	हवलदार	राम बी	01.02.2019
2731	5847902डब्ल्यू	हवलदार	राम बहादुर गिरि	01.06.2019
2732	5247575वाई	हवलदार	राम सिंह घले	01.02.2019
2733	5247895एन	हवलदार	संतोष थापा	01.05.2019
2734	5247650एक्स	हवलदार	शिव सिंह थापा	01.04.2019
2735	5247734एल	हवलदार	तारा प्रसाद थापा	01.04.2019
2736	5247564एम	हवलदार	तेज बहादुर गुरंग	01.02.2019
2737	5247694पी	हवलदार	ठाकुर सिंह राना	01.04.2019

4 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2738	5348023एम	हवलदार	अमर बहादुर राना	01.02.2019
2739	5348178एफ	हवलदार	दान बहादुर थापा	01.04.2019
2740	5348152एम	हवलदार	दीपक कुमार गुरंग	01.04.2019
2741	5348104एम	हवलदार	दीवान सिंह बुद्धा मगर	01.04.2019
2742	5348204एक्स	हवलदार	दुर्गा बहादुर थापा	01.04.2019
2743	5348284ए	हवलदार	जे कुमार गुरंग	01.06.2019
2744	5348001एन	हवलदार	झमन बहादुर राना	01.02.2019
2745	5347988एक्स	हवलदार	जीबन थापा	01.02.2019
2746	5348166एम	हवलदार	जे बहादुर थापा	01.04.2019
2747	5348128डब्ल्यू	हवलदार	केशर बहादुर बी	01.04.2019
2748	5348010पी	हवलदार	खडक बहादुर सी थापा	01.02.2019
2749	5348042एक्स	हवलदार	खुम बहादुर थापा	01.02.2019
2750	5348160एल	हवलदार	लोक बहादुर थापा	01.04.2019
2751	5348244वाई	हवलदार	मोहन बहादुर राना	01.05.2019
2752	5348017वाई	हवलदार	पदम बहादुर अले	01.02.2019
2753	5348328एम	हवलदार	पी बहादुर कुंवर	01.06.2019
2754	5348304एच	हवलदार	पूरन राना	01.06.2019
2755	5348227वाई	हवलदार	सदीप थापा	01.04.2019
2756	5348228एफ	हवलदार	साजन लामा	01.04.2019
2757	5347972एम	हवलदार	शिवा गुरंग	01.02.2019
2758	5347974एक्स	हवलदार	शुक्रा बहादुर राना	01.02.2019
2759	5348373वाई	हवलदार	सुरेश प्रधान	01.07.2019
2760	5348202एम	हवलदार	टेक बहादुर श्रीश	01.04.2019

5 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2761	5451916ए	हवलदार	अजय कुमार	01.03.2019
2762	5453302डब्ल्यू	हवलदार	बाल बहादुर थापा	01.07.2019

2763	5452986एल	हवलदार	बी बहादुर माहात छत्री	01.03.2019
2764	5453252डब्ल्यू	हवलदार	बिश्नू बहादुर श्रेष्ठा	01.06.2019
2765	5453093के	हवलदार	चर्का बहादुर कोवर	01.04.2019
2766	5453276ए	हवलदार	सी थापा	01.07.2019
2767	5452970ए	हवलदार	धन बहादुर राना मगर	01.03.2019
2768	5451939एफ	हवलदार	धन काजी थापा	01.05.2019
2769	5453036एच	हवलदार	ज्ञान बहादुर बुध्दा	01.04.2019
2770	5451927एम	हवलदार	हुम बहादुर गुरंग	01.03.2019
2771	5453256एम	हवलदार	ईमान सिंह थापा	01.06.2019
2772	5453134एच	हवलदार	जग बहादुर सुनार	01.05.2019
2773	5452038एफ	हवलदार	कैलाश तमंग	01.07.2019
2774	5452960डब्ल्यू	हवलदार	मिन बहादुर सिंह राना	01.03.2019
2775	5451960के	हवलदार	नेत्रा बहादुर कम्मू थापा	01.06.2019
2776	5451920एच	हवलदार	नीलम कुमार राना	01.03.2019
2777	5453020एक्स	हवलदार	पदम श्रेष्ठा	01.04.2019
2778	5451870एच	हवलदार	रेग बहादुर थापा	01.03.2019
2779	5453135एल	हवलदार	सांता कुमार गुरंग	01.05.2019
2780	5453038एन	हवलदार	टेक बहादुर पुन	01.04.2019
2781	5453112के	हवलदार	तिल बहादुर थापा	01.05.2019
2782	5452968एच	हवलदार	याम बहादुर थापा	01.03.2019

8 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2783	5753222एक्स	हवलदार	भवन सिंग अले	01.03.2019
2784	5753260एन	हवलदार	सी राना	01.03.2019
2785	5754224पी	हवलदार	देवी लाल अले	01.04.2019
2786	5754178एल	हवलदार	गजेन्द्र लामा	01.03.2019
2787	5754116एल	हवलदार	गुमान सिंह थापा	01.02.2019
2788	5754118डब्ल्यू	हवलदार	हरी कुमार श्रेष्ठा	01.02.2019
2789	5754316एफ	हवलदार	हुम बहादुर बुध्दा	01.05.2019
2790	5754430वाई	हवलदार	लाल काजी गुरंग	01.08.2019
2791	5754226ए	हवलदार	महेन्द्र सिंह गुरंग	01.04.2019
2792	5754177एच	हवलदार	एम रहमान	01.03.2019
2793	5753276वाई	हवलदार	मोहन बहादुर छत्री	01.05.2019
2794	5753382एक्स	हवलदार	मुंशी प्रसाद	01.07.2019
2795	5754203वाई	हवलदार	प्रदीप थापा	01.04.2019
2796	5754439एन	हवलदार	राम प्रसाद श्रीश	01.08.2019
2797	5754261एच	हवलदार	रमेश मल्ला	01.05.2019
2798	5754199एफ	हवलदार	सव धन सिंग थापा	01.04.2019
2799	5753218पी	हवलदार	शीतल गुरंग	01.03.2019
2800	5753307एन	हवलदार	श्याम बहादुर पुन	01.04.2019
2801	5754396के	हवलदार	टाक बहादुर गुरंग	01.07.2019
2802	5753333पी	हवलदार	तिल बहादुर आर	01.07.2019

9 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2803	5848481एल	हवलदार	अम्मर बहादुर के	01.02.2019
2804	5848459ए	हवलदार	बाला राम पी	01.02.2019
2805	5847856एम	हवलदार	बाम बहादुर थापा	01.04.2019
2806	5848719ए	हवलदार	बिश्नू खत्री	01.07.2019
2807	5848494एच	हवलदार	चित्रा बहादुर कुंवर	01.02.2019
2808	5848771एच	हवलदार	दामर मल्ला	01.08.2019
2809	5848717पी	हवलदार	धन सिंह भंडारी	01.07.2019
2810	5848589एच	हवलदार	गनेश बहादुर छत्री	01.04.2019
2811	5847860पी	हवलदार	हरी बहादुर पी	01.04.2019
2812	5848546एन	हवलदार	माधव प्रसाद सी	01.03.2019
2813	5848554एम	हवलदार	पूर्णा बहादुर छत्री	01.04.2019
2814	5848758वाई	हवलदार	राज कुमार खत्री	01.08.2019
2815	5848816एक्स	हवलदार	संजीव भंडारी	01.08.2019
2816	5848525एक्स	हवलदार	सीता राम	01.03.2019

2817	5848551वाई	हवलदार	सूरज खादका छत्री	01.04.2019
2818	5847915एन	हवलदार	सूरज कुमार छत्री	01.07.2019
2819	5848695एफ	हवलदार	टेक बहादुर छत्री	01.06.2019
2820	5848555पी	हवलदार	टेक बहादुर काकी	01.04.2019
2821	5848624ए	हवलदार	उत्तातम बहादुर छत्री	01.05.2019
2822	5848477एच	हवलदार	विनोद कुमार चौबे	01.02.2019

11 गोरखा बन्दूकधारी सेना

2823	9421672एफ	हवलदार	अमोल सुब्बा	01.03.2019
2824	9421988एन	हवलदार	आनंद लिम्बू	01.05.2019
2825	9420579एन	हवलदार	अर्विन्द राय	01.02.2019
2826	9421557एफ	हवलदार	अजीज अहमद	01.02.2019
2827	9422053ए	हवलदार	बाल कुमार राय	01.06.2019
2828	9420567वाई	हवलदार	भक्ती प्रसाद लिम्बू	01.02.2019
2829	9421826एच	हवलदार	दावा शेरपा	01.04.2019
2830	9421717डब्ल्यू	हवलदार	धन बहादुर राय	01.03.2019
2831	9422033एम	हवलदार	धन प्रसाद राय	01.06.2019
2832	9421842ए	हवलदार	दीना बहादुर राय	01.04.2019
2833	9421589के	हवलदार	गजेन्द्र बहादुर एस	01.02.2019
2834	9421716एन	हवलदार	गनेश कुमार राय	01.03.2019
2835	9422127के	हवलदार	गनेश राय	01.08.2019
2836	9421999ए	हवलदार	आइ राय	01.06.2019
2837	9421819एम	हवलदार	इन्द्रा बहादुर लिम्बू	01.04.2019
2838	9421649एन	हवलदार	जहान सिंग राय	01.02.2019
2839	9421761ए	हवलदार	कृष्णापा राम राय	01.03.2019
2840	9422098ए	हवलदार	मान कुमार पखरेन	01.07.2019
2841	9421698डब्ल्यू	हवलदार	नवीन कुमार राय	01.04.2019
2842	9421760एक्स	हवलदार	निम शिरिंग तमंग	01.03.2019
2843	9421953एक्स	हवलदार	प्रेम कुमार राय	01.05.2019
2844	9421732एल	हवलदार	प्रेम कुमार राय	01.03.2019
2845	9421748डब्ल्यू	हवलदार	पूरन राय	01.03.2019
2846	9422035एक्स	हवलदार	राज कुमार राय	01.06.2019
2847	9421955एच	हवलदार	राम धोज बिशर्मा	01.05.2019
2848	9420736पी	हवलदार	रोमन राय	01.08.2019
2849	9422034पी	हवलदार	एस कुमार राय	01.06.2019
2850	9421880डब्ल्यू	हवलदार	सुनील सुब्बा	01.04.2019
2851	9421638एफ	हवलदार	सूर्या बहादुर श्यामबो	01.02.2019
2852	9421585एन	हवलदार	टी तमंग	01.02.2019
2853	9421582ए	हवलदार	टेक बहादुर तमंग	01.02.2019
2854	9421980एफ	हवलदार	विक्रम प्रधान	01.05.2019

सेना सेवा पलटन दक्षिण

2855	14809968के	हवलदार	ए मोहम्मद रफी	01.07.2019
2856	14807670एफ	हवलदार	अभ्या कुमार भूयान	01.07.2019
2857	14809881एच	हवलदार	ए मोहम्मद अब्राहम	01.05.2019
2858	14809479वाई	हवलदार	आचार्य हर्षध कुमार आर	01.03.2019
2859	14809339एम	हवलदार	अजय कुमार उपाध्या	01.03.2019
2860	14809999के	हवलदार	अजय कुमार	01.07.2019
2861	5348223एच	हवलदार	अजीत दास	01.05.2019
2862	14807590के	हवलदार	अजीत सेकिआ	01.07.2019
2863	14810000एल	हवलदार	अखिलेश यादव	01.07.2019
2864	14810060ए	हवलदार	अखिलेश्वर झा	01.07.2019
2865	14809346एच	हवलदार	ए सिंह	01.03.2019
2866	14807222पी	हवलदार	आनंद राम	01.03.2019
2867	14807287एच	हवलदार	अनिल कुमार	01.03.2019
2868	14809781एक्स	हवलदार	अनिल कुमार	01.05.2019
2869	14809211एफ	हवलदार	आरधी वसुदेवा राव	01.03.2019
2870	14807374डब्ल्यू	हवलदार	अर्जुन सिंह	01.05.2019

2871	14809430एच	हवलदार	अर्जुन सिंह यादव	01.03.2019
2872	14809958ए	हवलदार	अरुण कुमार के	01.06.2019
2873	14809350एल	हवलदार	ए कुमार उपाध्याय	01.03.2019
2874	14809711वाई	हवलदार	अशोक कुमार	01.05.2019
2875	14809509एल	हवलदार	अशोक कुमार	01.03.2019
2876	14810091ए	हवलदार	अवध बिहारी	01.08.2019
2877	14809755डब्ल्यू	हवलदार	अवध नारायण	01.05.2019
2878	6393015डब्ल्यू	हवलदार	बी जगनाथन	01.03.2019
2879	14807669एम	हवलदार	बहादुर सिंह गुर्जर	01.07.2019
2880	14807298पी	हवलदार	बालम सिंह रावत	01.05.2019
2881	14807271एक्स	हवलदार	बलबन्त सिंह	01.03.2019
2882	14807467एल	हवलदार	बलबीर सिंह यादव	01.04.2019
2883	14809219एन	हवलदार	बलवीर सिंह	01.03.2019
2884	14809229एक्स	हवलदार	बलवीर सिंह	01.03.2019
2885	14810036के	हवलदार	बेनी सिंह	01.07.2019
2886	14807314एफ	हवलदार	ब्रामेशवर सिंह	01.05.2019
2887	14807718के	हवलदार	भैरू पाटिल	01.07.2019
2888	14809348एन	हवलदार	भूप सिंह	01.03.2019
2889	6488491ए	हवलदार	बिजय कुमार मोहंती	01.05.2019
2890	14809196एक्स	हवलदार	बिजय सिंह	01.02.2019
2891	14807668के	हवलदार	बिजेन्द्र सिंह	01.07.2019
2892	14807460एफ	हवलदार	बीजू एस	01.04.2019
2893	14809382एन	हवलदार	बिकाश रंजन दास	01.03.2019
2894	6391779डब्ल्यू	हवलदार	बिलास कान्ति राना	01.05.2019
2895	6391789ए	हवलदार	बिमल डे	01.07.2019
2896	6391775ए	हवलदार	बिंदु कुमार	01.05.2019
2897	14809567पी	हवलदार	बीनू टी	01.04.2019
2898	14809653ए	हवलदार	बिरेन्द्रा यादव	01.05.2019
2899	14807664एन	हवलदार	बिशन एस शर्मा	01.07.2019
2900	15388859के	हवलदार	भूपति आर	01.05.2019
2901	14809283एल	हवलदार	ब्रमा सिंह	01.03.2019
2902	14810031एल	हवलदार	सी मूर्ती	01.07.2019
2903	14809398वाई	हवलदार	सी उलागराजा	01.03.2019
2904	14807221एम	हवलदार	चमन लाल	01.03.2019
2905	14807203के	हवलदार	चंदेश्वर प्रसाद	01.03.2019
2906	14809920डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रा पाल सिंह	01.05.2019
2907	14809575एन	हवलदार	छोटे लाल पटेल	01.04.2019
2908	14809562डब्ल्यू	हवलदार	डी. रेनू	01.04.2019
2909	14809395एल	हवलदार	दभाई भाटी भाई गुलाब सिंह	01.03.2019
2910	14809302एल	हवलदार	दीन बंधु यू	01.03.2019
2911	14809592एन	हवलदार	देवेंद्र कुमार शर्मा	01.04.2019
2912	14807187एक्स	हवलदार	देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा	01.03.2019
2913	14807555एफ	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.06.2019
2914	14807509एम	हवलदार	धर्मेन्द्रा	01.05.2019
2915	14807461के	हवलदार	दिलीप कुमार पी	01.04.2019
2916	14809661वाई	हवलदार	दीपेन चंद्रा बोराह	01.05.2019
2917	14807351पी	हवलदार	दुदेकूला कसईयाह	01.05.2019
2918	14807397एक्स	हवलदार	ईश्वर प्रसाद पंकज	01.05.2019
2919	14809470के	हवलदार	ईश्वर रेडी अन्नापू रेडी	01.03.2019
2920	14807302एम	हवलदार	गजेन्द्र	01.05.2019
2921	14807327वाई	हवलदार	जोर्ज बी	01.03.2019
2922	14809951डब्ल्यू	हवलदार	गोरे लाल	01.06.2019
2923	6487774पी	हवलदार	गोड़ चंद्रा प्रमाणिक	01.03.2019
2924	6392706डब्ल्यू	हवलदार	गोविंद नारायण सलाम	01.03.2019
2925	14807451ए	हवलदार	गोविंद पी	01.03.2019
2926	14809980एल	हवलदार	गुलाब सिंह	01.07.2019
2927	14809878एच	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.05.2019

2928	14809715पी	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.05.2019
2929	6391802वाई	हवलदार	एच सिंह	01.08.2019
2930	14809394एच	हवलदार	हरी गौतम	01.03.2019
2931	14807383एक्स	हवलदार	हरिंद्रा	01.05.2019
2932	14807681एन	हवलदार	एच गुर्जर	01.07.2019
2933	14809349डब्ल्यू	हवलदार	हवलदार सिंह	01.03.2019
2934	14807370ए	हवलदार	हीरा राम शोउ	01.05.2019
2935	14807544पी	हवलदार	हिम्मत सिंह बिष्ट	01.06.2019
2936	14809344एक्स	हवलदार	ईश्वरी यादव	01.03.2019
2937	6393087ए	हवलदार	जे ए	01.05.2019
2938	14809234एच	हवलदार	जाड़ेजा राजेंद्रा सिंह अनिरुध सिंह	01.03.2019
2939	15390266डब्ल्यू	हवलदार	जे महा कवि राजा एन के	01.07.2019
2940	14810037एम	हवलदार	जनार्दन चतुर्वेदी	01.07.2019
2941	14809331ए	हवलदार	जयवीर सिंह	01.03.2019
2942	14809383डब्ल्यू	हवलदार	जीतेन कुमार प्रधान	01.03.2019
2943	14809772डब्ल्यू	हवलदार	जितेन्द्रा ठाकुर	01.05.2019
2944	14809373एम	हवलदार	जोगिंदर पाल	01.03.2019
2945	14807344वाई	हवलदार	के जोथी बासु	01.05.2019
2946	14809970एफ	हवलदार	के उप्रेती	01.07.2019
2947	14809511एच	हवलदार	कल्प नाथ सिंह	01.03.2019
2948	14809716एक्स	हवलदार	कमल सिंह	01.05.2019
2949	14807543एम	हवलदार	कमला कांत मिश्रा	01.06.2019
2950	14807603डब्ल्यू	हवलदार	कंवर सिंह	01.07.2019
2951	14809328ए	हवलदार	के जे भीखू भाई	01.03.2019
2952	6393200के	हवलदार	के शेक	01.06.2019
2953	14809579के	हवलदार	किशुन बीर	01.04.2019
2954	14807654के	हवलदार	कष्णन चन्द	01.07.2019
2955	14807347एम	हवलदार	कष्णन कुमार	01.05.2019
2956	14807694एल	हवलदार	कृष्णा कुमार	01.07.2019
2957	14809540एक्स	हवलदार	कृष्णा सिंह चौधरी	01.03.2019
2958	14807504एन	हवलदार	क्षीतिश चंद्रा राय	01.05.2019
2959	14807241ए	हवलदार	कुमार देवानंद	01.03.2019
2960	14809758के	हवलदार	कुमार नगेन्द्रा सिंह	01.05.2019
2961	14807197एफ	हवलदार	लुइस इक्का	01.03.2019
2962	14809971के	हवलदार	एम रघु कुमार	01.07.2019
2963	14809390एम	हवलदार	एम थंगवेल	01.03.2019
2964	14809505पी	हवलदार	मदन कुमार	01.03.2019
2965	14809658वाई	हवलदार	महादेव जी.	01.05.2019
2966	14807473वाई	हवलदार	महावीर सिंह राजपूत	01.04.2019
2967	14809644वाई	हवलदार	महेंद्र कुमार राना	01.05.2019
2968	14809515वाई	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.03.2019
2969	14807264एफ	हवलदार	माझी सुन्दी	01.03.2019
2970	14809188वाई	हवलदार	एम धईया भाई पूजा भाई	01.02.2019
2971	6391746एल	हवलदार	मान सिंह	01.03.2019
2972	6392963एन	हवलदार	मानिक चंद्रा मंडल	01.04.2019
2973	14809199एल	हवलदार	मनोहर लाल	01.02.2019
2974	14809276पी	हवलदार	मनोहर सिंह	01.03.2019
2975	14809459एल	हवलदार	मनोहर जे	01.03.2019
2976	14807333एम	हवलदार	मनोज कुमार एन	01.03.2019
2977	14807295एफ	हवलदार	मनोज कुमार पांडे	01.05.2019
2978	14807363के	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.05.2019
2979	14810025एक्स	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.07.2019
2980	14810058एच	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.07.2019
2981	14809389एक्स	हवलदार	मंसा राम बेताल	01.03.2019
2982	14809243के	हवलदार	मोहम्मद आइ	01.03.2019
2983	14807549एन	हवलदार	मोहम्मद सफीकुल इस्लाम	01.06.2019
2984	14810005के	हवलदार	एम जी. शेरपा	01.07.2019
2985	14807225एच	हवलदार	मोहन सिंह	01.03.2019

2986	14807339एन	हवलदार	मोतीराम जी.	01.05.2019
2987	14809629के	हवलदार	मुकेश कुमार	01.05.2019
2988	14809747एक्स	हवलदार	मुकेश कुमार सिंह	01.05.2019
2989	14807375वाई	हवलदार	मुना दान	01.05.2019
2990	14807632एल	हवलदार	एन करुप्पास्वामी	01.07.2019
2991	14810035एफ	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.07.2019
2992	14809731एम	हवलदार	नरेन्द्रा शर्मा	01.05.2019
2993	14809633एम	हवलदार	एन सिंघा	01.05.2019
2994	14807293डब्ल्यू	हवलदार	निर्मल सिंह	01.05.2019
2995	14807602एन	हवलदार	निर्मलजीत सिंह	01.07.2019
2996	6391781एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2019
2997	14807687पी	हवलदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.07.2019
2998	14810065वाई	हवलदार	ओम प्रकाश यादवा	01.07.2019
2999	14809967एफ	हवलदार	पंच कुमार जी.	01.07.2019
3000	14810073एक्स	हवलदार	पारस नाथ यादव	01.07.2019
3001	6391767एफ	हवलदार	पूनम सिंह	01.05.2019
3002	14809753एल	हवलदार	पूरन दान एल	01.05.2019
3003	14809976एच	हवलदार	प्रदीप कुमार एस	01.07.2019
3004	6391773पी	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.05.2019
3005	14810092एच	हवलदार	प्रकाश माधो यू	01.08.2019
3006	14807521एन	हवलदार	प्रकाश वी	01.05.2019
3007	14809213एम	हवलदार	प्रकाश वीर सिंह	01.03.2019
3008	14807296के	हवलदार	प्रताप सिंह	01.05.2019
3009	14807372एल	हवलदार	पी कुमार	01.05.2019
3010	6391787पी	हवलदार	प्रेम नारायण यादव	01.07.2019
3011	14809880ए	हवलदार	पुलक कुमार गोस्वामी	01.05.2019
3012	14807371एच	हवलदार	पी कुमार साहू	01.05.2019
3013	14807658ए	हवलदार	पुरुषोत्तम कुमार	01.07.2019
3014	14809988एक्स	हवलदार	आर राजा सेकारन	01.07.2019
3015	14809671एच	हवलदार	राधे श्याम यादवा	01.05.2019
3016	14807607एम	हवलदार	राज के बसुमा	01.07.2019
3017	14810051वाई	हवलदार	राज किशोर बैठा	01.07.2019
3018	14809935वाई	हवलदार	राज नारायण सिंह	01.05.2019
3019	14809754एन	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.05.2019
3020	14809380एच	हवलदार	राजेंद्रा बहादुर सिंह चौहान	01.03.2019
3021	14809210वाई	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.03.2019
3022	14809978एन	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.07.2019
3023	14807498एल	हवलदार	राजेश कुमार	01.05.2019
3024	14809606एच	हवलदार	राजेश कुमार	01.03.2019
3025	14809203एच	हवलदार	राजेश कुमार पाल	01.02.2019
3026	6391785के	हवलदार	राजेश कुमार शर्मा	01.07.2019
3027	14809197ए	हवलदार	राजेश प्रसाद सिंह	01.02.2019
3028	14807740पी	हवलदार	राजेश सिंह	01.08.2019
3029	14807292एन	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.05.2019
3030	14807611पी	हवलदार	राकेश	01.07.2019
3031	6393072एक्स	हवलदार	राकेश कुमार	01.04.2019
3032	14809615के	हवलदार	राकेश कुमार	01.05.2019
3033	14809876एक्स	हवलदार	राकेश कुमार	01.05.2019
3034	14807297एम	हवलदार	राम स्वरूप	01.05.2019
3035	14809657डब्ल्यू	हवलदार	रमा शंकर यादव	01.05.2019
3036	14809327एक्स	हवलदार	रामबीर सिंह	01.03.2019
3037	14809646के	हवलदार	रमेश चन्द	01.05.2019
3038	14807548एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.06.2019
3039	14810041पी	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
3040	14810071एम	हवलदार	रमेश कुमार यादवा	01.07.2019
3041	14809189एफ	हवलदार	रंजीत कुमार	01.02.2019
3042	14807506वाई	हवलदार	रतन दास	01.05.2019

3043	14809314ए	हवलदार	रतन कुमार सिंह	01.03.2019
3044	14809463एन	हवलदार	रतन लाल मालवीय	01.03.2019
3045	14809948डब्ल्यू	हवलदार	रातुल बरुयह	01.06.2019
3046	14807662एच	हवलदार	रविन्द्र कुमार एस	01.07.2019
3047	14810068एम	हवलदार	रवि शंकर कुमार रवि	01.07.2019
3048	14807301के	हवलदार	रवि शंकर शुक्ला	01.05.2019
3049	6484946एन	हवलदार	रूप सिंह	01.07.2019
3050	14807651डब्ल्यू	हवलदार	एस के एम रहमान	01.07.2019
3051	14809384वाई	हवलदार	एस रमा सुब्बू	01.03.2019
3052	14809626डब्ल्यू	हवलदार	एस सुधाकर रेडी	01.05.2019
3053	14809220एच	हवलदार	एस वाना मेल	01.03.2019
3054	14809650एम	हवलदार	साधु के	01.05.2019
3055	14809290एफ	हवलदार	सहादत हुसैन	01.03.2019
3056	14807726एच	हवलदार	सेजीथ कुमार के	01.07.2019
3057	14809605ए	हवलदार	सम्भू प्रसाद	01.03.2019
3058	6391747एन	हवलदार	सामुनद्रा सिंह	01.03.2019
3059	14809281ए	हवलदार	संगम लाल पाल	01.03.2019
3060	14810019के	हवलदार	संजय कुमार	01.07.2019
3061	14810201के	हवलदार	संजय कुमार के डब्ल्यूके चौरे	01.06.2019
3062	14807282के	हवलदार	संजय महाराज	01.04.2019
3063	14807558पी	हवलदार	संजय सिंह	01.06.2019
3064	14807663एल	हवलदार	संजय मुदली	01.07.2019
3065	14809634पी	हवलदार	संकर चेतरी	01.05.2019
3066	14807204एम	हवलदार	संतो के	01.03.2019
3067	14809233ए	हवलदार	संतो कुमार पी एम	01.03.2019
3068	14809504एम	हवलदार	संतोष कुमार	01.03.2019
3069	14809667ए	हवलदार	संतोष कुमार गुप्ता	01.05.2019
3070	14810002डब्ल्यू	हवलदार	सत पाल	01.07.2019
3071	14807730एल	हवलदार	सतेंद्र सिंह	01.08.2019
3072	14809287एफ	हवलदार	सतीश चन्द	01.03.2019
3073	14807381एम	हवलदार	सत्य बीर सिंह	01.05.2019
3074	14809599एक्स	हवलदार	सत्य प्रकाश पांडे	01.04.2019
3075	14809879एल	हवलदार	एस कुमार मंडल	01.05.2019
3076	14809537एक्स	हवलदार	सहाजी पवार	01.03.2019
3077	14809766एच	हवलदार	शकील मोहम्मद एस	01.05.2019
3078	14807468एन	हवलदार	शमशाद बेग	01.04.2019
3079	14807572एफ	हवलदार	शांता कुमार सी	01.06.2019
3080	6393174एन	हवलदार	शास्त्रा राम जी.	01.06.2019
3081	14807727एल	हवलदार	शेखावत एस आर	01.08.2019
3082	2890641वाई	हवलदार	शिव सागर बिश्नोई	01.05.2019
3083	14807414एम	हवलदार	एस सिंह तोमर	01.05.2019
3084	6393118पी	हवलदार	श्याम किशोर प्रसाद	01.05.2019
3085	14807501ए	हवलदार	श्यामल कुमार मोन्डल	01.05.2019
3086	14807652वाई	हवलदार	सीता राम	01.07.2019
3087	14809940के	हवलदार	सिवरामन ओ	01.06.2019
3088	14810061एच	हवलदार	सोहेल राज सिंह	01.07.2019
3089	14809225एफ	हवलदार	सुभाष चंद्रा पांडे	01.03.2019
3090	14807180एन	हवलदार	सुबीर कुमार बर्मन	01.02.2019
3091	14809736एल	हवलदार	सुबोध कुमार	01.05.2019
3092	6391784एफ	हवलदार	सुबोध कुमार मन्न	01.06.2019
3093	14809545डब्ल्यू	हवलदार	एस कुमार एस	01.03.2019
3094	14809565के	हवलदार	सुनील कुमार जे	01.04.2019
3095	6393241एन	हवलदार	सुनील कुमार एस एस	01.07.2019
3096	14809291के	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
3097	14807286ए	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2019
3098	14809763पी	हवलदार	सुरेश	01.05.2019
3099	14807580ए	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.06.2019
3100	6392642डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार डी.	01.05.2019

3101	14809979डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार गौतम	01.07.2019
3102	14807665डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश राम	01.07.2019
3103	14809202ए	हवलदार	सूर्या पाल	01.02.2019
3104	14809729पी	हवलदार	एस कुमार	01.05.2019
3105	14807328एफ	हवलदार	थोन्दा मल्ला एस रंगैया	01.03.2019
3106	14809643डब्ल्यू	हवलदार	टी राम	01.05.2019
3107	6393238एन	हवलदार	त्रिलोकी नाथ	01.07.2019
3108	14807653एफ	हवलदार	उदयबीर सिंह	01.07.2019
3109	6484929एन	हवलदार	उधाब चरण पाधी	01.07.2019
3110	14810056एक्स	हवलदार	उमेश कुमार	01.07.2019
3111	14809583एम	हवलदार	उमेश सिंह	01.04.2019
3112	14810059एल	हवलदार	उमेश्वर महतो	01.07.2019
3113	14809581एफ	हवलदार	उत्तातम सिंह यादव	01.04.2019
3114	14809282एच	हवलदार	वीर बंदू गनपत	01.03.2019
3115	14809449एफ	हवलदार	वीरमणि ए	01.03.2019
3116	14810063एन	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2019
3117	14807199एम	हवलदार	विजय कुमार	01.03.2019
3118	6391778एन	हवलदार	विजय कुमार	01.05.2019
3119	6391774एक्स	हवलदार	विजय सिंह	01.05.2019
3120	14809669एल	हवलदार	विजय सिंह नेगी	01.05.2019
3121	15388290एन	हवलदार	वी कुमार वी के	01.05.2019
3122	14807367ए	हवलदार	विनोद कुमार	01.05.2019
3123	6391796डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार	01.08.2019
3124	14807265के	हवलदार	विनोद कुमार गोपे	01.03.2019
3125	14809295ए	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.03.2019
3126	14809750एक्स	हवलदार	वीरेंद्र सिंह यादव	01.05.2019
3127	14809473एक्स	हवलदार	वाइ रमेश	01.03.2019
3128	14809607एल	हवलदार	योगेन्द्रा कुमार	01.03.2019
3129	14810013एच	हवलदार	योगेश कुमार सिंह	01.07.2019
3130	14809468एम	हवलदार	युद्धवीर सिंह	01.03.2019
3131	14810001एन	हवलदार	वाइ कुमार प्रधान	01.07.2019
3132	14809405के	हवलदार	जेडएडी. प्रदीप सिंह हरनाथ सिंह	01.03.2019
3133	14809445एल	हवलदार	झाला रमेश भाई डी.	01.03.2019
3134	6391794एल	हवलदार	जेड अली एस के	01.07.2019

सेना सेवा पलटन पशु परिवहन

3135	6484911एक्स	हवलदार	अमर चन्द कुंडल	01.05.2019
3136	06484924पी	हवलदार	अनिल मिंज	01.07.2019
3137	4563911एम	हवलदार	बारिया आर एफ	01.08.2019
3138	6485329एक्स	हवलदार	देवा आर	01.02.2019
3139	6484967के	हवलदार	दिनेश कुमार साह	01.07.2019
3140	6484943ए	हवलदार	गोपाल कष्णन	01.07.2019
3141	6484905के	हवलदार	हरे कष्णन पांडे	01.04.2019
3142	6488024एच	हवलदार	हरिओम सिंह	01.03.2019
3143	6484933डब्ल्यू	हवलदार	जनार्दन जैना	01.07.2019
3144	6487690एफ	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.03.2019
3145	6484963एन	हवलदार	लाल चन्द प्रसाद यादव	01.08.2019
3146	6484899एफ	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.02.2019
3147	6484904एफ	हवलदार	महेश सिंह	01.03.2019
3148	6485061एल	हवलदार	मोहम्मद बी	01.07.2019
3149	6485090ए	हवलदार	मिथलेश कुमार ठाकुर	01.03.2019
3150	6487760पी	हवलदार	मृणाल कुमार पंडा	01.03.2019
3151	06484930एच	हवलदार	एन जयरामन	01.07.2019
3152	14811427एफ	हवलदार	परमार हरगोविंद भाई ननजी भाई	01.07.2019
3153	6484960ए	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.08.2019
3154	6484901एन	हवलदार	प्रकाश चंद्रा पांडे	01.03.2019

3155	6484948वाई	हवलदार	प्रकाश साहू	01.07.2019
3156	6485029डब्ल्यू	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.02.2019
3157	6486890एल	हवलदार	राज कुमार	01.04.2019
3158	6484942एक्स	हवलदार	राम करन यादव	01.07.2019
3159	6484959एल	हवलदार	राम सागर	01.08.2019
3160	6484962एल	हवलदार	रामबीर शर्मा	01.08.2019
3161	6484934वाई	हवलदार	रामदास पी एच	01.07.2019
3162	6487821एफ	हवलदार	रंजीत सिंह	01.03.2019
3163	6487907ए	हवलदार	रौय थामस	01.06.2019
3164	6393014एन	हवलदार	एस पलानी	01.03.2019
3165	6484915एन	हवलदार	सुबीर अधिकारी	01.06.2019
3166	6484914एल	हवलदार	सुब्रता कामिला	01.06.2019
3167	6487792एक्स	हवलदार	सुजीत कुमार	01.03.2019
3168	6484916डब्ल्यू	हवलदार	सूर्या प्रकाश शुक्ला	01.06.2019
3169	6484947डब्ल्यू	हवलदार	उर्पेद्र कुमार ओझा	01.07.2019

सेना चिकित्सा पलटन

3170	13985876के	हवलदार	ए के भंडारी	01.03.2019
3171	13986387एल	हवलदार	ए के सिंह यादव	01.07.2019
3172	13985736एक्स	हवलदार	ए एल बैठा	01.03.2019
3173	13986050एच	हवलदार	ए प्रकाश	01.04.2019
3174	13986373एल	हवलदार	ए रमेश	01.07.2019
3175	13985767एक्स	हवलदार	ए एस कुशवाहा	01.03.2019
3176	13986652डब्ल्यू	हवलदार	ए वी ससिधरन	01.07.2019
3177	13985783पी	हवलदार	अचल सिंह	01.03.2019
3178	13986098डब्ल्यू	हवलदार	अजय पाल	01.05.2019
3179	13985900पी	हवलदार	अजीत कुमार	01.03.2019
3180	13986399ए	हवलदार	अजीत सिंह भादौरिया	01.07.2019
3181	13986290ए	हवलदार	अमर कुमार	01.06.2019
3182	13986386एच	हवलदार	आनंद गिरि	01.07.2019
3183	13990532पी	हवलदार	आनंद मोहन	01.08.2019
3184	13985790एल	हवलदार	अनंतन जे	01.03.2019
3185	13986292एल	हवलदार	अनिल कुमार	01.06.2019
3186	13985946एक्स	हवलदार	अनिल कुमार गुप्ता	01.03.2019
3187	13985869एन	हवलदार	अंसुमन पंडा	01.03.2019
3188	13985696एफ	हवलदार	अनुज कुमार	01.02.2019
3189	13986616एल	हवलदार	अप्पासाब	01.07.2019
3190	13986364के	हवलदार	आरिफउद्दीन	01.07.2019
3191	13985749पी	हवलदार	अर्जुन सिंह काकी	01.03.2019
3192	13985700वाई	हवलदार	आशीश कुमार मंडल	01.02.2019
3193	13986146एल	हवलदार	अशोकन के के	01.05.2019
3194	13986604डब्ल्यू	हवलदार	अशोके राना	01.07.2019
3195	13985857वाई	हवलदार	आजाद सिंह	01.03.2019
3196	13985938वाई	हवलदार	बी ए रामचंद्र	01.03.2019
3197	13985977एक्स	हवलदार	बी के अकेला	01.03.2019
3198	13986517एच	हवलदार	बी प्रताप सिंह	01.07.2019
3199	13985833पी	हवलदार	बी सोपान सखाराम	01.03.2019
3200	13985963एक्स	हवलदार	बाबू राज के	01.03.2019
3201	13986687एम	हवलदार	बैजू टी	01.08.2019
3202	13986124एम	हवलदार	बलबन्त प्रसाद	01.05.2019
3203	13986159एच	हवलदार	बालू पाटिल	01.05.2019
3204	13986397पी	हवलदार	बलवीर सिंह	01.07.2019
3205	13986066एन	हवलदार	भादरे ए जी.	01.04.2019
3206	13986263डब्ल्यू	हवलदार	भक्ता बंधु साहू	01.05.2019
3207	13986110एम	हवलदार	भंवर सिंह	01.05.2019
3208	13985747के	हवलदार	भूप सिंह	01.03.2019
3209	13985766पी	हवलदार	बिल्लू सिंह	01.03.2019
3210	13986108पी	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.05.2019

3211	13986570एन	हवलदार	बीनू सी	01.07.2019
3212	13985751एम	हवलदार	बी नाथ दुबे	01.03.2019
3213	13986402पी	हवलदार	ब्रिजेश कुमार यादवा	01.07.2019
3214	13985945पी	हवलदार	ब्यास यादव	01.03.2019
3215	13985868एल	हवलदार	सी सी भौमिक	01.03.2019
3216	13985793वाई	हवलदार	सी जगनाथन	01.03.2019
3217	13985841एन	हवलदार	सी मुनि राज	01.03.2019
3218	13986344डब्ल्यू	हवलदार	सी वी करभरी	01.06.2019
3219	13986248एफ	हवलदार	चन्द रहमान	01.05.2019
3220	13986489एफ	हवलदार	चंदू बी	01.07.2019
3221	13986078एच	हवलदार	सी श्रीनिवासुलु	01.05.2019
3222	13986437एल	हवलदार	चिरंजी बागडिया	01.07.2019
3223	13985917एच	हवलदार	डी. के संकला	01.03.2019
3224	13986347के	हवलदार	डी. पी धाकल	01.06.2019
3225	13986186एम	हवलदार	दलीप कुमार	01.05.2019
3226	13990874एच	हवलदार	दयानिधि बेहरा	01.03.2019
3227	13986240पी	हवलदार	डी. दयूरी	01.05.2019
3228	13986578ए	हवलदार	दीपक कुमार राम	01.07.2019
3229	13986566एल	हवलदार	देशराज मथुरिया	01.07.2019
3230	13986025के	हवलदार	डी. हलयाल	01.03.2019
3231	13985952एल	हवलदार	डी. लाल	01.03.2019
3232	13986509के	हवलदार	धाना राजन डी.	01.07.2019
3233	13986530एम	हवलदार	धर्मदेव चौहान	01.07.2019
3234	13985845के	हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.03.2019
3235	13986296एफ	हवलदार	दिल बैग सिंह	01.06.2019
3236	13986220एफ	हवलदार	दिलीप भक्ता	01.05.2019
3237	13985912के	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.03.2019
3238	13986418ए	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.07.2019
3239	13986354ए	हवलदार	दुन्ना सी	01.07.2019
3240	13986472एन	हवलदार	जी. एस गूजर	01.07.2019
3241	13985999डब्ल्यू	हवलदार	जी. सुरेश कुमार	01.03.2019
3242	13986197वाई	हवलदार	घनशाम कुमार साहू	01.05.2019
3243	13986097एन	हवलदार	घीतम सिंह	01.05.2019
3244	13985782एम	हवलदार	गोविंद सिंह	01.03.2019
3245	13986271पी	हवलदार	गुरमेल सिंह	01.05.2019
3246	13985891वाई	हवलदार	एच के अराजन	01.03.2019
3247	13986471एल	हवलदार	हरी मोहन	01.07.2019
3248	13986039के	हवलदार	हरिदास जी.	01.03.2019
3249	13985719एक्स	हवलदार	हरीलाल एस	01.03.2019
3250	13985942एफ	हवलदार	हरीश चंद्रा सामल	01.03.2019
3251	13986525एफ	हवलदार	इस्माइल खान	01.07.2019
3252	13985888वाई	हवलदार	जे सी एम संग	01.03.2019
3253	13986441एन	हवलदार	जे एस एस रंजीत सिंह	01.07.2019
3254	13991253डब्ल्यू	हवलदार	जदाओ एस वी	01.05.2019
3255	13985806एल	हवलदार	जगत सिंह	01.03.2019
3256	13986417एक्स	हवलदार	जगनंदन सिंह	01.07.2019
3257	13986013पी	हवलदार	जय प्रकाश	01.03.2019
3258	13986055एफ	हवलदार	जयहिन्द पाठक	01.04.2019
3259	13986392डब्ल्यू	हवलदार	जनालुद्दीन	01.07.2019
3260	13985755एच	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.03.2019
3261	13986524वाई	हवलदार	जीतेन्द्र पीडी सिंह	01.07.2019
3262	13986193एच	हवलदार	जिले सिंह	01.05.2019
3263	13985815एम	हवलदार	जितेन्द्रा सिंह	01.03.2019
3264	13985834एक्स	हवलदार	के बी चंद्रा बी	01.03.2019
3265	13985794एफ	हवलदार	के दक्षिणा मूर्ती	01.03.2019
3266	13985986वाई	हवलदार	के दत्ताता दिवेदी	01.03.2019
3267	13986636वाई	हवलदार	के के गोगोई	01.07.2019

3268	13986238एक्स	हवलदार	के मनोज विनायक	01.05.2019
3269	13986361डब्ल्यू	हवलदार	के राव जे	01.07.2019
3270	13986478पी	हवलदार	के श्रीनिवास राव	01.07.2019
3271	13985702के	हवलदार	खिरोद चंद्रा साहू	01.02.2019
3272	13986166वाई	हवलदार	खुशी लाल शर्मा	01.05.2019
3273	13986164एन	हवलदार	कष्णन देव कुमार	01.05.2019
3274	13986095एच	हवलदार	कष्णन कुमार	01.05.2019
3275	13986377एफ	हवलदार	कष्णन लाल	01.07.2019
3276	13986196डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा सिंह	01.05.2019
3277	13986044पी	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.04.2019
3278	13986368ए	हवलदार	कुमार सी	01.07.2019
3279	13991467एम	हवलदार	कुमार एस	01.05.2019
3280	13985831के	हवलदार	एल अंकुश दादाराव	01.03.2019
3281	13985734एम	हवलदार	एल के बेहेरा	01.03.2019
3282	13986162एच	हवलदार	लल्लन सिंह	01.05.2019
3283	13990327एन	हवलदार	एल राव	01.02.2019
3284	13986245एन	हवलदार	एम के टिकादेर	01.05.2019
3285	13985828के	हवलदार	एम पी सिंह	01.03.2019
3286	13986646एच	हवलदार	एम आर बाबू राव	01.07.2019
3287	13985870एच	हवलदार	एम एस बेनरजी	01.03.2019
3288	13985997एल	हवलदार	एम एस गहलोट	01.03.2019
3289	13986335पी	हवलदार	एम श्रीराम ओंकार	01.06.2019
3290	13986226एच	हवलदार	एम सुरेश विठल	01.05.2019
3291	13986455एन	हवलदार	महिंद्र सिंह	01.07.2019
3292	13990548ए	हवलदार	माली शरद विठल	01.03.2019
3293	13986593पी	हवलदार	मानस सिन्हा	01.07.2019
3294	13986433पी	हवलदार	मनी शर्मा	01.07.2019
3295	13986569वाई	हवलदार	मनोज कुमार शुक्ला	01.07.2019
3296	13985956एफ	हवलदार	मनोरंजन मिश्रा	01.03.2019
3297	13985750के	हवलदार	मोहम्मद गालिब खान	01.03.2019
3298	13986355एच	हवलदार	एमजी जया कुमार	01.07.2019
3299	13986276एन	हवलदार	मोहम्मद जे	01.05.2019
3300	13986415एम	हवलदार	मुकेश कुमार	01.07.2019
3301	13986212एच	हवलदार	एम आर	01.05.2019
3302	13985742एल	हवलदार	एन सी कबिराज	01.03.2019
3303	13986336एक्स	हवलदार	एन संदीप रमाकांत	01.06.2019
3304	13985784एक्स	हवलदार	नफे सिंह	01.03.2019
3305	13986522एन	हवलदार	नगेन्द्रा पीडी यादव	01.07.2019
3306	13986029ए	हवलदार	नंदा कुमार जे	01.04.2019
3307	13986476के	हवलदार	नंदा राम लोधी	01.07.2019
3308	13986412वाई	हवलदार	नरेश कुमार	01.07.2019
3309	13986104वाई	हवलदार	नरेश कुमार	01.05.2019
3310	13986473डब्ल्यू	हवलदार	ओ एस एल	01.07.2019
3311	13986206पी	हवलदार	ओम प्रकाश एनईएन	01.05.2019
3312	13985955वाई	हवलदार	पी के बिस्वाल	01.03.2019
3313	13986234एफ	हवलदार	पी पी भाई रूपाजी	01.05.2019
3314	13986260एच	हवलदार	पी आर कुमार सुर्जी भाई	01.05.2019
3315	13985962पी	हवलदार	पी एस पनवर	01.03.2019
3316	13985832एम	हवलदार	पी एस शिवाजी	01.03.2019
3317	13986070डब्ल्यू	हवलदार	पदमाजन पिल्लई डी.	01.05.2019
3318	13985753एक्स	हवलदार	पप्पू झा	01.03.2019
3319	13986007एफ	हवलदार	परिमल सिंह	01.03.2019
3320	13986330डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल गोपाल सुराव	01.06.2019
3321	13985966एल	हवलदार	पावलुरी सी	01.03.2019
3322	13986057एम	हवलदार	प्रबल सिंह यादव	01.04.2019
3323	13986014एक्स	हवलदार	प्रभु नाथ प्रसाद	01.03.2019
3324	13985725एल	हवलदार	प्रकाश सिंह	01.03.2019
3325	13985710एच	हवलदार	प्रेम चन्द	01.03.2019

3326	13985928पी	हवलदार	प्रेम शंकर तिवारी	01.03.2019
3327	13986466ए	हवलदार	प्रेम सिंह गुर्जर	01.07.2019
3328	13986398एक्स	हवलदार	प्रीत पौल	01.07.2019
3329	13986508एफ	हवलदार	पीयू लक्ष्मना पेरुमल	01.07.2019
3330	13990873ए	हवलदार	आर एल सिंह ठाकुर	01.03.2019
3331	13985994एक्स	हवलदार	आर एन प्रसाद	01.03.2019
3332	13986178एन	हवलदार	आर पी सिंह	01.05.2019
3333	13990482पी	हवलदार	आर आर राजपूत	01.03.2019
3334	13986210एक्स	हवलदार	आर राजेन्द्रन	01.05.2019
3335	13986428के	हवलदार	आर एस धनोला	01.07.2019
3336	13986586वाई	हवलदार	आर एस जादों	01.07.2019
3337	13992181के	हवलदार	राधा कृष्णन पी	01.07.2019
3338	13985770एक्स	हवलदार	रघुवर सिंह	01.03.2019
3339	13985698एम	हवलदार	राय सिंह	01.02.2019
3340	13985980एक्स	हवलदार	राजेंद्रा रजाक	01.03.2019
3341	13985822एच	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.03.2019
3342	13986666डब्ल्यू	हवलदार	राजेन्द्रन नायर एस	01.07.2019
3343	13985763एफ	हवलदार	राजवीर सिंह	01.03.2019
3344	13985855एन	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2019
3345	13985812वाई	हवलदार	राम आशीश सिंह	01.03.2019
3346	13985758डब्ल्यू	हवलदार	राम बाबू मिश्रा	01.03.2019
3347	13986132एल	हवलदार	राम नरेश मिश्रा	01.05.2019
3348	13985727डब्ल्यू	हवलदार	राम निवास	01.03.2019
3349	13985988के	हवलदार	राम निवास सिंह	01.03.2019
3350	13985811डब्ल्यू	हवलदार	राम सरन राम	01.03.2019
3351	13986125पी	हवलदार	रमा सिंह	01.05.2019
3352	13986465एक्स	हवलदार	रमन सिंह	01.07.2019
3353	13986009एम	हवलदार	रामआसरे शर्मा	01.03.2019
3354	13986365एम	हवलदार	रमेश सी	01.07.2019
3355	13986557के	हवलदार	रमेश कुमार	01.07.2019
3356	13985846एम	हवलदार	रामजी सिंह	01.03.2019
3357	13986065एल	हवलदार	रनबीर सिंह	01.04.2019
3358	13986317एम	हवलदार	रणधीर सिंह	01.06.2019
3359	13986427एफ	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.07.2019
3360	13985798एक्स	हवलदार	आर चेतिया	01.03.2019
3361	13986326एन	हवलदार	एस के मल्लिक	01.06.2019
3362	13986700एल	हवलदार	एस लक्ष्मन राय पी	01.08.2019
3363	13986239ए	हवलदार	एस एम राफी	01.05.2019
3364	13985746एफ	हवलदार	एस प्रसाद	01.03.2019
3365	13990708पी	हवलदार	एस रथिनाम	01.03.2019
3366	13990424एल	हवलदार	एस एस हरी नामा देव	01.03.2019
3367	13985858एफ	हवलदार	एस एस काकी	01.03.2019
3368	13985718पी	हवलदार	एस एस मधु सूदानन	01.03.2019
3369	13986481पी	हवलदार	एस उदया कुमार	01.07.2019
3370	13985717एम	हवलदार	एस वेलमुरुगन	01.03.2019
3371	13986505एन	हवलदार	एस वेलू छामी	01.07.2019
3372	13986160एक्स	हवलदार	सदा शिव माने	01.05.2019
3373	13986403एक्स	हवलदार	सदा शिव पांडे	01.07.2019
3374	13986475एफ	हवलदार	सागर राम साहू	01.06.2019
3375	13986278वाई	हवलदार	एस कुमार के	01.05.2019
3376	13985741एच	हवलदार	संजय बहादुर	01.03.2019
3377	13986426वाई	हवलदार	संजय सिंह रावत	01.07.2019
3378	13986574के	हवलदार	संजीव कुमार	01.07.2019
3379	13986037वाई	हवलदार	संतो कुमार एस	01.03.2019
3380	13986416पी	हवलदार	संतोष कुमार	01.07.2019
3381	13985930एम	हवलदार	सारथा जी.	01.03.2019
3382	13986207एक्स	हवलदार	सरोदे आकाश बालाजी	01.05.2019

3383	13985985डब्ल्यू	हवलदार	सतीश कुमार	01.03.2019
3384	13986698वाई	हवलदार	सतविनदर पाल सिंह	01.08.2019
3385	13985935एल	हवलदार	एस पराली	01.03.2019
3386	13986504एल	हवलदार	सेलवा आर	01.07.2019
3387	13986266के	हवलदार	एस कुमार एस	01.05.2019
3388	13985788एन	हवलदार	शशि कुमार	01.03.2019
3389	13986135वाई	हवलदार	एस सिंह	01.05.2019
3390	13986500पी	हवलदार	शिशामनी कुशवाहा	01.07.2019
3391	13986467एच	हवलदार	शिव दयाल गुर्जर	01.07.2019
3392	13986400के	हवलदार	शिव नरेश पाल	01.07.2019
3393	13985927एम	हवलदार	श्री निवास पटेल	01.03.2019
3394	13986155एम	हवलदार	श्री शैल वाली	01.05.2019
3395	13986229डब्ल्यू	हवलदार	श्याम कुमार सिंह	01.05.2019
3396	13986483ए	हवलदार	श्याम सुंदर एल डी.	01.07.2019
3397	13986116एन	हवलदार	सोहन सिंह रावत	01.05.2019
3398	13986444एफ	हवलदार	सोलंकी मीठा भीखा	01.07.2019
3399	13986598एन	हवलदार	श्रीकान्त प्रमानिक	01.07.2019
3400	13986254पी	हवलदार	श्रीनिवासन पी	01.05.2019
3401	13986694एच	हवलदार	सुभाष सिंह	01.08.2019
3402	13986584एन	हवलदार	सुब्रत कुमार पाल	01.07.2019
3403	13986285पी	हवलदार	सुधीरन के	01.05.2019
3404	13986588के	हवलदार	सुखदेव बी	01.07.2019
3405	13986264वाई	हवलदार	सुंदर जी.	01.05.2019
3406	13986027पी	हवलदार	सुनील के	01.03.2019
3407	13986017एल	हवलदार	सुनील कुमार	01.03.2019
3408	13986049एन	हवलदार	सुनील कुमार आर	01.04.2019
3409	13985825डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.03.2019
3410	13986496एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2019
3411	13985816पी	हवलदार	सुरेन्द्रा यादव	01.03.2019
3412	13986051एल	हवलदार	सुरेश के	01.04.2019
3413	13985787एल	हवलदार	सुरेश कुमार	01.03.2019
3414	13985745वाई	हवलदार	सुरेश कुमार	01.03.2019
3415	13985819एच	हवलदार	सुरेश कुमार यादव	01.03.2019
3416	13985951एच	हवलदार	सुरेश कुमार यादव	01.03.2019
3417	13986096एल	हवलदार	सुशील कुमार	01.05.2019
3418	13986597एल	हवलदार	तपन देबनाथ	01.07.2019
3419	13985973एफ	हवलदार	टी अहमद	01.03.2019
3420	13986188एक्स	हवलदार	त्यादे एस वी	01.05.2019
3421	13986432एम	हवलदार	तेग सिंह	01.07.2019
3422	13986404ए	हवलदार	तेज भान	01.07.2019
3423	13985976पी	हवलदार	उपेंद्र कुमार	01.03.2019
3424	13985949एल	हवलदार	उपेंद्र साह	01.03.2019
3425	13986512के	हवलदार	वी जी.	01.07.2019
3426	13986121वाई	हवलदार	वी के मौर्या	01.05.2019
3427	13986021एन	हवलदार	वी मनोहरन	01.03.2019
3428	13986041एफ	हवलदार	वी संतो कुमार	01.03.2019
3429	13985948एच	हवलदार	विजय झा	01.03.2019
3430	13986030पी	हवलदार	विजया कुमार बी	01.04.2019
3431	13986414के	हवलदार	विनोद कुमार	01.07.2019
3432	13986282एफ	हवलदार	विनोद कुमार जी.	01.05.2019
3433	13986048एल	हवलदार	विनोदन एन	01.04.2019
3434	13985730डब्ल्यू	हवलदार	वीएन संतो कुमार	01.03.2019
3435	13986258एल	हवलदार	डब्ल्यू डी. बी आर	01.05.2019
3436	13985899एल	हवलदार	जेड एम सिंह फेट सिंह	01.03.2019
3437	13986595ए	हवलदार	जाकिर हुसैन	01.07.2019

सेना आयुध पलटन

3438	6936631पी	हवलदार	ए ब्रोजेन सिंह	01.05.2019
------	-----------	--------	----------------	------------

3439	6936746एच	हवलदार	अजय कुमार	01.07.2019
3440	6936238एम	हवलदार	अजया कुमारन पिल्लई जी.	01.02.2019
3441	6934704एक्स	हवलदार	अनिल कुमार पांडे	01.03.2019
3442	6934698पी	हवलदार	अनूप कुमार मल्लिक	01.03.2019
3443	6934915ए	हवलदार	अविन्द कुमार	01.08.2019
3444	6934793एफ	हवलदार	ए पोलाया	01.05.2019
3445	6934880पी	हवलदार	बी रमना रेडी	01.07.2019
3446	6936280एल	हवलदार	बडगूजर सुनील दयाराम	01.03.2019
3447	6934899एन	हवलदार	बी बन्दो	01.08.2019
3448	6934779पी	हवलदार	बिजेन्द्र उपाध्या	01.05.2019
3449	6934865ए	हवलदार	बिरेन्द्रा शर्मा	01.07.2019
3450	6934856वाई	हवलदार	सी राजेन्द्रन	01.07.2019
3451	6934867एल	हवलदार	सी कुमार खरवार	01.07.2019
3452	6935692ए	हवलदार	दलेर सिंह	01.05.2019
3453	6934706एच	हवलदार	दशरथ तुकाराम शेवाले	01.03.2019
3454	6934785एच	हवलदार	देबाशीश सी	01.02.2019
3455	6934696के	हवलदार	धनपत सिंह	01.03.2019
3456	6934791डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश सिंह	01.05.2019
3457	6934847एक्स	हवलदार	दूध नाथ राम	01.07.2019
3458	6936721डब्ल्यू	हवलदार	जी. उन्नी पिल्लई	01.07.2019
3459	6934756एन	हवलदार	गदादे सुनील विथोवा	01.05.2019
3460	6934829पी	हवलदार	गोपाल	01.07.2019
3461	6936523एल	हवलदार	हरी कुमार छत्री	01.05.2019
3462	6934926एम	हवलदार	जगदीश सिंह बिष्ट	01.08.2019
3463	6934799एच	हवलदार	जगपाल सिंह	01.05.2019
3464	6934868एन	हवलदार	जस बहादुर तमंग	01.07.2019
3465	6934872डब्ल्यू	हवलदार	जय कांत लाल देव	01.07.2019
3466	6934763के	हवलदार	जीतेन गोगोई	01.05.2019
3467	6934719ए	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार सिंह	01.03.2019
3468	6936625एफ	हवलदार	जूलियस अम्बेदकर एस	01.05.2019
3469	6934855डब्ल्यू	हवलदार	के पलानी	01.07.2019
3470	6934727वाई	हवलदार	काले युवराज देवराम	01.03.2019
3471	6936752डब्ल्यू	हवलदार	के कुमार पांडे	01.07.2019
3472	6934752एक्स	हवलदार	केवल सिंह	01.04.2019
3473	6934900एक्स	हवलदार	कुलदीप चन्द	01.08.2019
3474	6934792वाई	हवलदार	कुमार संजीव	01.05.2019
3475	6934716एम	हवलदार	कुवर पाल	01.03.2019
3476	6934919डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र कुमार दुबे	01.08.2019
3477	6936387ए	हवलदार	महेंद्र कुमार सिंह	01.03.2019
3478	6934909एम	हवलदार	महेंद्र कुमार यादव	01.08.2019
3479	6934776एफ	हवलदार	माने सुधाकर मानिक राव	01.05.2019
3480	6936499ए	हवलदार	मनोज एम	01.05.2019
3481	6936573डब्ल्यू	हवलदार	नागमणि कोप्पुला	01.05.2019
3482	6934701के	हवलदार	नंदा कुमार वाइआर	01.03.2019
3483	6934807डब्ल्यू	हवलदार	नवीन कुमार पौदियाल	01.05.2019
3484	6934890वाई	हवलदार	निखिल महंता	01.07.2019
3485	6934911के	हवलदार	ओम प्रकाश	01.08.2019
3486	6936450के	हवलदार	पी श्रीनिवासुलु	01.05.2019
3487	6936576के	हवलदार	पाल्वे अन्नासाहिब महादेव	01.05.2019
3488	6934835एच	हवलदार	पंछान्न परीद	01.07.2019
3489	6934846पी	हवलदार	परमार गुलाब सिंह प्रताप सिंह	01.07.2019
3490	6936730एक्स	हवलदार	प्रवेश कुमार	01.07.2019
3491	6934715के	हवलदार	प्रवाकर सेठी	01.03.2019
3492	6934803ए	हवलदार	प्रेम कुमार शर्मा	01.05.2019
3493	6934797एक्स	हवलदार	प्रेम पाल सिंह	01.05.2019
3494	6934747एम	हवलदार	प्रमोद कुमार के	01.03.2019
3495	6934893एम	हवलदार	राजीवन सी एम	01.07.2019

3496	6936789एक्स	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद शर्मा	01.07.2019
3497	6934718एक्स	हवलदार	राजेश सिंह	01.03.2019
3498	6934778एम	हवलदार	राजीव कुमार	01.05.2019
3499	6934787एन	हवलदार	राकेश कुमार	01.05.2019
3500	6934836एल	हवलदार	राम देव सिंह	01.07.2019
3501	6934927पी	हवलदार	राम प्रवेश	01.08.2019
3502	6936639एफ	हवलदार	रामु राम	01.05.2019
3503	6934844के	हवलदार	रनबीर सिंह	01.07.2019
3504	6936423ए	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.03.2019
3505	6934869डब्ल्यू	हवलदार	आर काथात	01.07.2019
3506	6934705ए	हवलदार	एस सुरेश	01.03.2019
3507	6934822एल	हवलदार	एस शेख	01.06.2019
3508	6934699एक्स	हवलदार	समाई पाल	01.03.2019
3509	6934700एफ	हवलदार	संजय कुमार	01.03.2019
3510	6934790एन	हवलदार	श्रवण कुमार	01.05.2019
3511	6936256पी	हवलदार	शशि कुमार के	01.03.2019
3512	6934724एल	हवलदार	शैलेंद्र यादव	01.03.2019
3513	6935495एक्स	हवलदार	शिव चंद्र सिंह	01.05.2019
3514	6936776ए	हवलदार	शिव कुमार	01.07.2019
3515	6936653एन	हवलदार	शिवाजी बदिजर	01.05.2019
3516	6934729के	हवलदार	सोनावाने बाबन मुरलीधर	01.03.2019
3517	6935045ए	हवलदार	सुभाष चन्द	01.04.2019
3518	6934772एल	हवलदार	सुनील कुमार यादव	01.05.2019
3519	6935508के	हवलदार	सुरेश पाल	01.03.2019
3520	6934863पी	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.07.2019
3521	6934697एम	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.03.2019
3522	6936360एच	हवलदार	स्वप्न विश्वास	01.03.2019
3523	6935898एक्स	हवलदार	स्वर्ण लाल	01.07.2019
3524	6934842वाई	हवलदार	टी पापा राव	01.07.2019
3525	6934717पी	हवलदार	तरसेम सिंह	01.03.2019
3526	6934777के	हवलदार	तोदार सिंह	01.05.2019
3527	6934728एफ	हवलदार	टी पटेल	01.03.2019
3528	6934910एफ	हवलदार	योगेश कुमार	01.08.2019

विद्युत्तिय एवं यात्रिक अभियन्ता पलटन

3529	14618663एफ	हवलदार	ए बालाकृष्णन	01.05.2019
3530	14625621एक्स	हवलदार	ए करुप्पईयह	01.05.2019
3531	14625477एन	दफादार	ए श्री रामालिंगम	01.03.2019
3532	14626032एन	हवलदार	ए कुमार	01.06.2019
3533	14618731के	हवलदार	ए खान	01.05.2019
3534	14626528एच	हवलदार	अजीत कुमार सिंह	01.05.2019
3535	14625948डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुमार बर्मन	01.05.2019
3536	14618735ए	हवलदार	अमीर नाथ शर्मा	01.05.2019
3537	14626810एन	हवलदार	अनिल के	01.07.2019
3538	14625272वाई	हवलदार	अनिल कुमार एस	01.03.2019
3539	14625704एच	हवलदार	अनिल कुमार एम	01.05.2019
3540	14626316एक्स	हवलदार	अनिल कुमार एम एस	01.05.2019
3541	14624315डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.02.2019
3542	14625697एक्स	हवलदार	अनिल कुमार यादव	01.05.2019
3543	14624447के	हवलदार	ए महादेव गमपति	01.03.2019
3544	14627285पी	हवलदार	अरीवाजहागन एस	01.08.2019
3545	14627059एक्स	हवलदार	अर्जुन घोष	01.07.2019
3546	14625324के	हवलदार	अशोक कुमार यादव	01.03.2019
3547	14627021एन	हवलदार	ए उमाराव सम्पत	01.07.2019
3548	14624701एच	हवलदार	अविनाश श्रीवास्तवा	01.02.2019
3549	14626357एफ	हवलदार	अवनीश कुमार शर्मा	01.05.2019
3550	14618586एक्स	हवलदार	ए हुक	01.03.2019

3551	14624369एक्स	हवलदार	बाबर अशोक एकानाथ	01.03.2019
3552	14618803एच	हवलदार	बाबू राम विश्वास	01.05.2019
3553	14618581वाई	हवलदार	बी सिंह सी	01.04.2019
3554	14624782एन	हवलदार	बगुल दिगम्बर गोकुल	01.03.2019
3555	14624035एच	हवलदार	बगुल काशिनाथ नंदा	01.02.2019
3556	14624372एक्स	हवलदार	बी रमेश पांडुरंग	01.03.2019
3557	14627292एल	हवलदार	बालासुब्रामन्यन पीए	01.07.2019
3558	14626226डब्ल्यू	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2019
3559	14626406वाई	हवलदार	बारिया रमेश भाई माथुर भाई	01.05.2019
3560	14626086पी	हवलदार	बी आर लक्ष्मन भाई	01.05.2019
3561	14627022डब्ल्यू	हवलदार	बवाने राजू एस	01.07.2019
3562	14624418पी	हवलदार	बियंत दास	01.03.2019
3563	14625587एच	हवलदार	भरती एस श्रीरंग	01.04.2019
3564	14626625ए	हवलदार	भास्कर घोष	01.06.2019
3565	14624591वाई	हवलदार	भोसले नितिन दत्तात्रिया	01.03.2019
3566	14624436एक्स	हवलदार	भोसले संजय रतन	01.03.2019
3567	14627269एक्स	हवलदार	भूपेश कुमार	01.07.2019
3568	14624982के	हवलदार	बिकाश पकाशी	01.03.2019
3569	14618913एक्स	हवलदार	बिक्रम छत्री	01.07.2019
3570	14626927एम	हवलदार	बिनोद कुमार बिहारी	01.07.2019
3571	14618687एल	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार पाठक	01.04.2019
3572	14625806वाई	हवलदार	बोबन जॉय	01.05.2019
3573	14621229ए	हवलदार	ब्रजेन्द्र सिंह पाल	01.05.2019
3574	14624328एन	हवलदार	बृज भूषण तिवारी	01.02.2019
3575	14627066एन	हवलदार	सी श्रीनिवासुलु	01.08.2019
3576	14626815एम	हवलदार	चामार्थि सुरेन्द्रा राजू	01.07.2019
3577	14627121वाई	हवलदार	चान्द्राहास सिंह	01.07.2019
3578	14625405के	हवलदार	चंद्रमा सिंह यादव	01.03.2019
3579	14626227वाई	हवलदार	चान्द्राशेखर एस	01.05.2019
3580	14626175एन	हवलदार	चंद्रमा सिंह	01.05.2019
3581	14618666पी	हवलदार	चरण सिंह	01.05.2019
3582	14626931पी	हवलदार	चौधरी वीनूभाई एम भाई	01.07.2019
3583	14625971के	हवलदार	छोटे लाल तिवारी	01.05.2019
3584	14627231एन	हवलदार	चित्ती श्रीनू नंदिका	01.07.2019
3585	14626704पी	हवलदार	सी संतराम सायाजी	01.07.2019
3586	14625670ए	हवलदार	दभाई वाला दया भाई	01.05.2019
3587	14619111ए	हवलदार	दया राम यादव	01.07.2019
3588	14627031एक्स	हवलदार	देबब्रत घोष	01.07.2019
3589	14619088एक्स	हवलदार	देबाजीत बोराह	01.06.2019
3590	14624970पी	हवलदार	देबाशीश बेरा	01.03.2019
3591	14625820एल	हवलदार	दीपक कुमार दास	01.05.2019
3592	14625762एम	हवलदार	देवराजू मोहम्मद	01.05.2019
3593	14626841एन	हवलदार	धन कुमार नाथ	01.07.2019
3594	14626241एल	हवलदार	धन राज	01.05.2019
3595	14625415एन	हवलदार	ढडे संदीप जेड	01.04.2019
3596	14618562एन	हवलदार	धर्म नारायण सिंह	01.03.2019
3597	14625042एल	हवलदार	धर्मबीर सिंह	01.04.2019
3598	14625008एल	हवलदार	डी. बजरंग राधेश्याम	01.04.2019
3599	14625801ए	हवलदार	धीरेन टी	01.05.2019
3600	14624573डब्ल्यू	हवलदार	डी. राम साहू	01.03.2019
3601	14624967पी	हवलदार	दिलीप कुमार कर	01.03.2019
3602	14626431एक्स	हवलदार	दिलीप कुमार केपी	01.05.2019
3603	14625758के	हवलदार	दिनेश कुमार जी.	01.05.2019
3604	14627579एच	हवलदार	दिनेश कुमार शर्मा	01.08.2019
3605	14624321के	हवलदार	डी. कुमार सिंह	01.02.2019
3606	14624433के	हवलदार	डी. संदीपन शिवाजी	01.03.2019
3607	14626160एल	हवलदार	जी. वेन्कटास्वामी	01.05.2019

3608	14619106पी	हवलदार	गगन सिंह	01.07.2019
3609	14626147एफ	हवलदार	गजूला जाकिर हुसैन	01.05.2019
3610	14625235एल	हवलदार	गावडे श्रीमंत दत्तत्रे	01.03.2019
3611	14626526एक्स	हवलदार	जी. थामस	01.05.2019
3612	14626529एल	हवलदार	गोपीनाथन एम	01.05.2019
3613	14625953एफ	हवलदार	गोसपड डी.	01.05.2019
3614	14627235के	हवलदार	गोविंद कुमार जी.	01.07.2019
3615	14625041एच	हवलदार	गुदापती प्रेम कुमार	01.04.2019
3616	14618657एन	हवलदार	जी. विशेश्वर राव	01.05.2019
3617	14625007एच	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.04.2019
3618	14624732एच	हवलदार	गुरुदयाल सिंह	01.02.2019
3619	14624411एल	हवलदार	एच पतर	01.03.2019
3620	14625074एन	हवलदार	इन्द्रा सिंह बी	01.04.2019
3621	14624917के	हवलदार	इंदराज सिंह	01.03.2019
3622	14625946एल	हवलदार	इन्द्रासेन पांडे	01.05.2019
3623	14619277एफ	हवलदार	इश्वर बैठा	01.03.2019
3624	14618555एक्स	हवलदार	आइ लाल	01.03.2019
3625	14624378वाई	हवलदार	जाधव सुधीर शशिकांत	01.03.2019
3626	14618588एच	हवलदार	जाधव विठल गनपत राव	01.03.2019
3627	14625166ए	हवलदार	जे समभाजी ईश्वर	01.03.2019
3628	14624353एम	हवलदार	जगाधले विजय तुकाराम	01.03.2019
3629	14624618एल	हवलदार	जगन्ध पटेल	01.03.2019
3630	14624346डब्ल्यू	हवलदार	जगताप अनिल सदासिव	01.03.2019
3631	14618777एम	हवलदार	जैमदादे जलिनंदर भीम राव	01.05.2019
3632	14618556ए	हवलदार	जनक सिंह	01.03.2019
3633	14626303ए	हवलदार	जंगा नागराजू रेडी	01.06.2019
3634	14627027पी	हवलदार	जे शेख	01.07.2019
3635	14624610वाई	हवलदार	जयराजन के	01.03.2019
3636	14624334एफ	हवलदार	जयदेब विश्वास	01.02.2019
3637	14625958ए	हवलदार	जीतेन बसुमा	01.05.2019
3638	14618530एल	हवलदार	जितेन्द्रा नाथ महता	01.03.2019
3639	14627302के	हवलदार	जॉन जेवियर पी	01.07.2019
3640	14618487पी	हवलदार	जॉय टी एम	01.03.2019
3641	14618694एफ	हवलदार	जोयराम बोरुह	01.05.2019
3642	14627102एन	हवलदार	के अर्जुन सिंघा	01.08.2019
3643	14623177एन	हवलदार	के बालासुब्रामन्यन	01.05.2019
3644	14618869वाई	हवलदार	के मुथूवेल	01.07.2019
3645	14625710डब्ल्यू	हवलदार	के रमेश	01.05.2019
3646	14625044डब्ल्यू	हवलदार	के रवि	01.04.2019
3647	14625476एल	हवलदार	के सेलवम	01.03.2019
3648	14626778के	हवलदार	के श्रीनिवासन	01.07.2019
3649	14624352के	हवलदार	के रोहीदास नानासाहिब	01.03.2019
3650	14624998पी	हवलदार	कैलाश नाथ	01.03.2019
3651	14625251एच	हवलदार	कल्लप्पा रामु जी.	01.03.2019
3652	14625951डब्ल्यू	हवलदार	कमल छत्री	01.05.2019
3653	14618649पी	हवलदार	कमलेश कुमार राय	01.05.2019
3654	14626285एच	हवलदार	कमलेश कुमार साखवार	01.05.2019
3655	14626980एक्स	हवलदार	करन सिंह	01.07.2019
3656	14626443एम	हवलदार	करनाधर सरकार	01.05.2019
3657	14625170एच	हवलदार	काजी आर हमजा	01.03.2019
3658	14619076एच	हवलदार	केसी सुरेश बाबू	01.05.2019
3659	14618580डब्ल्यू	हवलदार	के जीतेन सिंह	01.04.2019
3660	14626567एफ	हवलदार	किंकर कुमार साहा	01.05.2019
3661	14625848एल	हवलदार	किशोर राम जाट	01.05.2019
3662	14619091एक्स	हवलदार	कोथापल्ली चिन्ना मोलाली	01.07.2019
3663	14624604एल	हवलदार	क्षीरसागर योगेश भौराव	01.03.2019
3664	14625998एफ	हवलदार	कुलबीर सिंह	01.06.2019
3665	14625138एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2019

3666	14618585पी	हवलदार	के जगन्धम	01.03.2019
3667	14627024एफ	हवलदार	लक्ष्मी कांता बेरा	01.07.2019
3668	14626749पी	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.07.2019
3669	14625977एल	हवलदार	लियाकम अली	01.05.2019
3670	14624646एक्स	हवलदार	एम बास्कर	01.03.2019
3671	14618810वाई	हवलदार	एम डी. एस	01.05.2019
3672	14626162डब्ल्यू	हवलदार	एम मदना गोपाल रेडी	01.05.2019
3673	14618472एम	हवलदार	एम वीरा आर	01.03.2019
3674	14624538एन	हवलदार	मदन लाल	01.03.2019
3675	14623932एम	हवलदार	मधुसुधाना साहू	01.02.2019
3676	14624698एन	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.02.2019
3677	14626774एन	हवलदार	महेंद्र पाल	01.07.2019
3678	14624634एच	हवलदार	महेश कुमार	01.03.2019
3679	14624423ए	हवलदार	मकवाना एशवर भाई ए भाई	01.03.2019
3680	14624340पी	हवलदार	माली अशोक नारायण	01.03.2019
3681	14618761एफ	हवलदार	मनजीत कुमार शर्मा	01.05.2019
3682	14625359ए	हवलदार	मनोज कर	01.03.2019
3683	14625060एन	हवलदार	मनोज कुमार	01.04.2019
3684	14626819एच	हवलदार	मनोज कुमार	01.07.2019
3685	14619118के	हवलदार	मनोज कुमार	01.07.2019
3686	14626472एफ	हवलदार	मनोज कुमार	01.05.2019
3687	14625521एम	हवलदार	मनोरंजन जैना	01.04.2019
3688	14624388एच	हवलदार	मराठे विजय मुरलीधर	01.03.2019
3689	14626814के	हवलदार	मस्तानवली सैयद	01.07.2019
3690	14619158एल	हवलदार	माता भीमा रेडी	01.07.2019
3691	8033755पी	हवलदार	मोहम्मद पण्डित अली	01.05.2019
3692	14624496एम	हवलदार	मेधा रवीन्द्र गनेश	01.03.2019
3693	14627079एल	हवलदार	मिथलेश कुमार	01.08.2019
3694	14625198एच	हवलदार	मोगल ई बेग	01.04.2019
3695	14627552एल	हवलदार	मोहम्मद साहबुद्दीन	01.07.2019
3696	14618644डब्ल्यू	हवलदार	मोहम्मद अशरफ गैनि	01.04.2019
3697	14624439एल	हवलदार	मोरे एस भानुदास	01.03.2019
3698	14627522एन	हवलदार	मृतुंजय रौय	01.07.2019
3699	14627513एम	हवलदार	मुकेश बाबू जाट	01.07.2019
3700	14624640डब्ल्यू	हवलदार	मुकेश कुमार भगत	01.03.2019
3701	14627063ए	हवलदार	मुनिराथनम	01.08.2019
3702	14627210एक्स	हवलदार	मुराहरी राव जी.	01.07.2019
3703	14627574के	हवलदार	एन बालसुंदरम	01.08.2019
3704	14627163एल	हवलदार	एन कृष्णाकुमार	01.07.2019
3705	14625601के	हवलदार	नाले विकास सोपान	01.04.2019
3706	14627613एक्स	हवलदार	नमो नारायण मीना	01.08.2019
3707	14627169एम	हवलदार	एन सुरेश डी.	01.07.2019
3708	14624350वाई	हवलदार	निकम दत्तात्रिया विक्रम	01.03.2019
3709	14626590पी	हवलदार	निर्मल चंद्रा त्रिपाठी	01.06.2019
3710	14624292ए	हवलदार	नितीश सिन्हा	01.02.2019
3711	14624412एन	हवलदार	ओ अर्जन भाई ए भाई	01.03.2019
3712	14626122पी	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2019
3713	14626130एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2019
3714	14624629एक्स	हवलदार	पी बालमुरुगन	01.03.2019
3715	14626157एल	हवलदार	पी गुरुवा रेडी	01.05.2019
3716	14618837डब्ल्यू	हवलदार	पयादी वेन्कटारमना मूर्ती	01.07.2019
3717	14626214एफ	हवलदार	पलानी एस	01.05.2019
3718	14618726वाई	हवलदार	पपिन्दर सिंह	01.05.2019
3719	14626642ए	हवलदार	परमार दादू सिंह प्रताप सिंह	01.05.2019
3720	14619187ए	हवलदार	परमार सेधा भाई एच भाई	01.08.2019
3721	14619182एफ	हवलदार	परमात्मा नन्द राम	01.08.2019
3722	14626102एफ	हवलदार	पटेल राजेंद्र कुमार हीराभाई	01.05.2019

3723	14625144एफ	हवलदार	पाटिल रत्नाकर हिम्मत	01.03.2019
3724	14618475ए	हवलदार	पाटिल संजय कुमार नारायण	01.03.2019
3725	14626627एल	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.06.2019
3726	14627299पी	हवलदार	प्रदीप कुमार दीपक	01.07.2019
3727	14627297के	हवलदार	प्रथीश ओ	01.07.2019
3728	14625322वाई	हवलदार	प्रेम कुमार झा	01.03.2019
3729	14625553पी	हवलदार	प्रेम प्रकाश शर्मा	01.04.2019
3730	14625692वाई	हवलदार	पुशकर विश्वाकर्मा	01.05.2019
3731	14624927एन	हवलदार	प्यारे लाल	01.03.2019
3732	14625131के	हवलदार	प्यादी श्रीनिवास राव	01.03.2019
3733	14626394पी	हवलदार	आर मुरुगन	01.05.2019
3734	14619102वाई	हवलदार	आर राजा	01.07.2019
3735	14625885वाई	हवलदार	आर रंगानाथन	01.05.2019
3736	14627050एच	हवलदार	रबीन्द्र नाथ बेरा	01.07.2019
3737	14626419डब्ल्यू	हवलदार	आर कुमार सेन	01.05.2019
3738	14618881ए	हवलदार	रघुनाथ ए	01.07.2019
3739	14627234एफ	हवलदार	राज किशोर	01.07.2019
3740	14625543एल	हवलदार	राज सिंह	01.03.2019
3741	14626183एम	हवलदार	राजीव कुमार मौर्या	01.05.2019
3742	14625073एल	हवलदार	राजीव मविला	01.04.2019
3743	14625150पी	हवलदार	राजेंद्रा सिंह गोयल	01.03.2019
3744	14627125पी	हवलदार	राजेश कुमार	01.07.2019
3745	14625444एच	हवलदार	राजेश कुमार सिंह	01.03.2019
3746	14624337पी	हवलदार	राजेश कुमार वर्मा	01.02.2019
3747	14627062एक्स	हवलदार	राजकुमार सिंघा	01.07.2019
3748	14624916एफ	हवलदार	राजपाल सिंह	01.03.2019
3749	14618933एल	हवलदार	राजू सिंह	01.08.2019
3750	14625921वाई	हवलदार	राजू सिंह तोमर	01.05.2019
3751	14624753वाई	हवलदार	आर बालासाहेब भागवत	01.03.2019
3752	14624801एन	हवलदार	राकेश सी	01.03.2019
3753	14625277एक्स	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2019
3754	14619115डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार	01.07.2019
3755	14626587पी	हवलदार	राकेश सिंह	01.06.2019
3756	14618782एक्स	हवलदार	राम बहादुर	01.05.2019
3757	14625962एच	हवलदार	राम बिलास नगर	01.05.2019
3758	14626575ए	हवलदार	राम चंद्रा	01.06.2019
3759	14618641एच	हवलदार	रमेश कुमार पुनिया	01.03.2019
3760	14625551के	हवलदार	रामजी सिंह यादव	01.04.2019
3761	14625297एल	हवलदार	रामु के	01.03.2019
3762	14627447पी	हवलदार	राठोड़ विक्रम सिंह केसरी सिंह	01.07.2019
3763	14625705एल	हवलदार	रवि सीवी	01.05.2019
3764	14626491एम	हवलदार	रवीन्द्र पी	01.05.2019
3765	14618856एफ	हवलदार	रोकाद किशोर एकनाथ	01.07.2019
3766	14624413डब्ल्यू	हवलदार	रोनांकी मनमाधा राव	01.03.2019
3767	14626384एल	हवलदार	एस अलागुमुथू	01.05.2019
3768	14626207एल	हवलदार	एस अमल राज	01.05.2019
3769	14624611एफ	हवलदार	एस सेलवा बक्था सिंह	01.03.2019
3770	14627216वाई	हवलदार	एस श्रीनिवासन	01.07.2019
3771	14624508डब्ल्यू	हवलदार	सबले प्रवीण आत्माराम	01.03.2019
3772	14627602एल	हवलदार	सच्चिदानंद तिवारी	01.08.2019
3773	14625106एल	हवलदार	सैयद अनवर मिया महम्मद मिया	01.03.2019
3774	14625406एम	हवलदार	संदीप कुमार मिश्रा	01.03.2019
3775	14625814एक्स	हवलदार	संगप्पा	01.05.2019
3776	14625740एन	हवलदार	संजय कुमार	01.05.2019
3777	14618758एफ	हवलदार	संजय कुमार	01.05.2019
3778	14625425एक्स	हवलदार	संजयन जी.	01.03.2019
3779	14625288के	हवलदार	संजीव कुमार सिंह	01.03.2019
3780	14627035एन	हवलदार	संजीत रौय	01.07.2019

3781	14625913ए	हवलदार	संतोष कुमार मलिक	01.05.2019
3782	14627211ए	हवलदार	सरवानन वी	01.07.2019
3783	14625523एक्स	हवलदार	सर्वेश कुमार सिंह	01.04.2019
3784	14618920एन	हवलदार	सतीश कुमार	01.07.2019
3785	14626011एक्स	हवलदार	एस सिंह	01.06.2019
3786	14625497एफ	हवलदार	शोक एच	01.03.2019
3787	14619141एक्स	हवलदार	शाजी के के	01.07.2019
3788	14622311एफ	हवलदार	शशिधर पांडे	01.08.2019
3789	14626112एल	हवलदार	शेख आइ शेख रसूल	01.05.2019
3790	14626863एम	हवलदार	शेख एस शेख रसीद	01.07.2019
3791	14618816ए	हवलदार	शेख याकूब हासन	01.05.2019
3792	14624510एन	हवलदार	एस कुमार सक्सेना	01.03.2019
3793	14625222एन	हवलदार	शिंदे संतोष श्रीधर	01.03.2019
3794	14625431एल	हवलदार	शिशुपाल सिंह	01.03.2019
3795	14625864एच	हवलदार	शिव दयाल जाट	01.05.2019
3796	14621093एफ	हवलदार	शोभा कांत तिवारी	01.02.2019
3797	14626404एन	हवलदार	श्री शैलप्पा हिरेकुम्बी	01.05.2019
3798	14618770एच	हवलदार	श्री राम राठोर	01.05.2019
3799	14625831एक्स	हवलदार	सिद्धनाथ तिवारी	01.05.2019
3800	14618685ए	हवलदार	सिवा कुमार	01.03.2019
3801	14624456एल	हवलदार	सोलंकी महेंद्र सिंह	01.03.2019
3802	14626678वाई	हवलदार	सोलंकी राकेश प्रेम चन्द्र भाई	01.06.2019
3803	14625223डब्ल्यू	हवलदार	सोनवाने कैलास गुलाब	01.03.2019
3804	14618611एल	हवलदार	सोनू कुमार	01.03.2019
3805	14627208ए	हवलदार	सुबाष जी.	01.07.2019
3806	14620916के	हवलदार	सुबाष प्रसाद	01.02.2019
3807	14624741के	हवलदार	सुब्रता प्रधान	01.02.2019
3808	14618760वाई	हवलदार	सुदेश कुमार	01.05.2019
3809	14626321एच	हवलदार	सुधाकर नागेश नाइक	01.05.2019
3810	14626574एक्स	हवलदार	सुधीर कुमार	01.06.2019
3811	14627043एम	हवलदार	सुजाए रंजन बेरा	01.07.2019
3812	14625152ए	हवलदार	सुनील गहलोत	01.03.2019
3813	14625023ए	हवलदार	सुनील कुमार	01.04.2019
3814	14627225ए	हवलदार	सुनील कुमार	01.07.2019
3815	14626548डब्ल्यू	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.05.2019
3816	14625402डब्ल्यू	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार यादव	01.03.2019
3817	14626343एफ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.05.2019
3818	14624625एफ	हवलदार	सुरेश कुमार आर	01.03.2019
3819	14619181वाई	हवलदार	सुरेश लाल	01.08.2019
3820	14626355डब्ल्यू	हवलदार	सुशील कुमार	01.05.2019
3821	14626453डब्ल्यू	हवलदार	स्वप्न विश्वास	01.05.2019
3822	14625428एल	हवलदार	तारा चन्द गढवाल	01.03.2019
3823	14625724डब्ल्यू	हवलदार	तेज नारायन सिंह	01.05.2019
3824	14625268डब्ल्यू	हवलदार	उन्नीर्कशन्न के	01.03.2019
3825	14624901वाई	हवलदार	उपेंद्र कुमार दाश	01.03.2019
3826	14627246डब्ल्यू	हवलदार	उपेंद्र सिंह	01.07.2019
3827	14626379ए	हवलदार	वी एस	01.05.2019
3828	14624621एल	हवलदार	वी सुब्बैया	01.03.2019
3829	14624417एम	हवलदार	वी मनुभाई बालू भाई	01.03.2019
3830	14626092एच	हवलदार	वंकर नानाभाई	01.05.2019
3831	14626154एक्स	हवलदार	वीरान्ना के	01.05.2019
3832	14626101वाई	हवलदार	वी राजेंद्र सिंह	01.05.2019
3833	14626127एन	हवलदार	विजय भूषण	01.05.2019
3834	14626769एच	हवलदार	विजय कुमार पांडे	01.07.2019
3835	14626674एच	हवलदार	विजय कुमार प्रधान	01.06.2019
3836	14618829एक्स	हवलदार	विजय शंकर तिवारी	01.06.2019
3837	14626879एक्स	हवलदार	वी कुमार टीके	01.07.2019

3838	14618681के	हवलदार	विक्रम सिंह	01.03.2019
3839	14626813एफ	हवलदार	विक्रम सिंह रावत	01.07.2019
3840	14625658वाई	हवलदार	विनोद कुमार सिंह	01.05.2019
3841	14625815ए	हवलदार	वी पातुत	01.05.2019
3842	14627082एल	हवलदार	विष्णु कुमार यादव	01.08.2019
3843	14624636एन	हवलदार	विष्णु प्रसाद चौधरी	01.03.2019
3844	14618503एफ	हवलदार	याम बहादुर थापा	01.03.2019
3845	14627184एफ	हवलदार	यंकप्पा विथल डी.	01.07.2019
3846	14626516एन	हवलदार	युमनाम एल सिंह	01.05.2019
सेना शिक्षा पलटन				
3847	9512357वाई	हवलदार	के केशवुलु	01.06.2019
3848	9512348एक्स	हवलदार	के नारायण धोंडिबा	01.05.2019
3849	9512347पी	हवलदार	पौल दिनकर अमृतराव	01.05.2019
3850	9512331के	हवलदार	आर थाराकरम	01.03.2019
3851	9512240ए	हवलदार	राधाकृष्ण के	01.05.2019
3852	9512351एक्स	हवलदार	एस सी बंशी	01.05.2019
घुड़ एवं पशुचिकित्सा पलटन				
3853	7240695एफ	दफादार	ए माइकल	01.06.2019
3854	7241079एन	दफादार	अशोक कुमार भारद्वाज	01.05.2019
3855	7240663वाई	दफादार	भूमि राज लाहा	01.03.2019
3856	7241017एन	दफादार	दीपक छत्री	01.03.2019
3857	7240687एच	दफादार	गिरीश चंद्रा शर्मा	01.07.2019
3858	7240662डब्ल्यू	दफादार	हरी राम	01.03.2019
3859	7241044एक्स	दफादार	जंग बहादुर सिंह	01.05.2019
3860	7241018डब्ल्यू	दफादार	जितेन्द्रा देकराजा	01.03.2019
3861	7241021डब्ल्यू	दफादार	जितेन्द्रा साह	01.03.2019
3862	7241171एम	दफादार	नागराज एस	01.07.2019
3863	7240686ए	दफादार	नजीमुद्दीन ए	01.06.2019
3864	7241061एक्स	दफादार	पेंथायाह पी	01.05.2019
3865	7240701के	दफादार	प्रदीप कुमार	01.08.2019
3866	7241163एन	दफादार	राम किशोर कुशवाहा	01.07.2019
3867	7241162एल	दफादार	रामटेक किसोर बी	01.07.2019
3868	7241112ए	दफादार	संजय	01.06.2019
3869	7241012पी	दफादार	शैलेंद्र बंसीलाल सेनदाने	01.03.2019
3870	7241008एम	दफादार	श्रीजीथ कुमार पी	01.03.2019
3871	7241066डब्ल्यू	दफादार	सुरेश टीसी	01.05.2019
3872	7241137एम	दफादार	वेकटेशन एस	01.07.2019
3873	7241077एच	दफादार	विजय कुमार	01.05.2019
सेना आसूचना पलटन				
3874	7431271एन	हवलदार	करतार सिंह	01.08.2019
3875	14810090एक्स	हवलदार	मनोहर सिंह	01.08.2019
3876	15467276एच	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.02.2019
3877	8033686के	हवलदार	टी नारायण पांडे	01.03.2019
3878	15312225ए	हवलदार	वाइ वेनु गोपाल राव	01.06.2019
सेना पुलिस पलटन				
3879	7778957वाई	हवलदार	आदेश कुमार	01.07.2019
3880	7777725एन	हवलदार	अजीत कुमार बख्शी	01.07.2019
3881	7777586पी	हवलदार	बनवारी लाल	01.03.2019
3882	7777653पी	हवलदार	बिजय कुमार मंडल	01.05.2019
3883	7777566एफ	हवलदार	बृज राज	01.03.2019
3884	7777562एल	हवलदार	चंद्रा शेखर सिन्हा	01.03.2019
3885	7778994एम	हवलदार	सी मोरेश्वर साहदेओ	01.07.2019
3886	7777644एन	हवलदार	दासन एम	01.05.2019
3887	7777597एफ	हवलदार	दया राम	01.05.2019
3888	7777646वाई	हवलदार	धनंजय मिश्रा	01.05.2019
3889	7777704एक्स	हवलदार	गोविंद राम चौहान	01.07.2019
3890	7778029एच	हवलदार	ईपिली श्रीनिवास	01.06.2019

3891	7777645डब्ल्यू	हवलदार	जसवंत सिंह राठोर	01.05.2019
3892	7777661एन	हवलदार	जोज़ पीटी	01.06.2019
3893	7778719एम	हवलदार	कमलेश कुमार	01.03.2019
3894	7777560ए	हवलदार	कवीसेलवन पी	01.03.2019
3895	7777583एफ	हवलदार	कष्णन कुमार यादव	01.03.2019
3896	7777598के	हवलदार	कृष्णा पाल सिंह	01.05.2019
3897	7777622पी	हवलदार	एम सिंह सोलंकी	01.05.2019
3898	7777604एम	हवलदार	मुकेश कुमार शर्मा	01.05.2019
3899	7777658एन	हवलदार	एन शंकरैया नायडू	01.06.2019
3900	7777623एक्स	हवलदार	एन सेकार	01.05.2019
3901	7777716एम	हवलदार	निरंजन यादव	01.07.2019
3902	7777557ए	हवलदार	ओम प्रकाश यादव	01.03.2019
3903	7777683एम	हवलदार	पी गोविन्द राजू	01.07.2019
3904	7777707एल	हवलदार	पबि मोहन महंता	01.07.2019
3905	7778955एन	हवलदार	पाटिल रामेश्वर भीला	01.06.2019
3906	7777671एक्स	हवलदार	परसु राम सिंह	01.06.2019
3907	7777582वाई	हवलदार	राम बी सैनी	01.03.2019
3908	7777628डब्ल्यू	हवलदार	राम पी कुशवाहा	01.05.2019
3909	7777631डब्ल्यू	हवलदार	रामजी यादव	01.05.2019
3910	7777555पी	हवलदार	रनबीर सिंह	01.03.2019
3911	7777664एफ	हवलदार	रंजीत सिंह	01.06.2019
3912	7777548वाई	हवलदार	सैलेश बर्मन	01.03.2019
3913	7777676डब्ल्यू	हवलदार	संजय कुमार	01.06.2019
3914	7777556एक्स	हवलदार	शिव राज सिंह	01.03.2019
3915	7777705ए	हवलदार	श्याम सिंह	01.07.2019
3916	7777593एल	हवलदार	सुबास चंद्रा बारिक	01.05.2019
3917	7778730एल	हवलदार	सुदेश कुमार चौधरी	01.03.2019
3918	7777526ए	हवलदार	सुनील कुमार	01.03.2019
3919	7778915एम	हवलदार	सुनील कुमार	01.06.2019
3920	7777619पी	हवलदार	सुशान्ता सिन्हा	01.05.2019
3921	7777736ए	हवलदार	टी सिन्हा महापात्रा	01.08.2019
3922	7778811एल	हवलदार	ठाकरे अनिल नामदेव	01.05.2019
3923	7777553के	हवलदार	वरिंदर पाल	01.03.2019
3924	7778151वाई	हवलदार	यशवीर सिंह	01.03.2019
अन्त्रेषक पलटन				
3925	8033701एन	हवलदार	जी. नामदेव शंकर	01.04.2019
3926	8033698वाई	हवलदार	हरवीर सिंह	01.04.2019
3927	8033869ए	हवलदार	जय बहादुर सिंह	01.08.2019
3928	8033795डब्ल्यू	हवलदार	कैलाश चन्द जाट	01.07.2019
3929	8033702डब्ल्यू	हवलदार	खरत चान्द्राकान्त लक्ष्मन	01.04.2019
3930	8033786पी	हवलदार	एल पांडुरंग नारायण	01.05.2019
3931	8033718एफ	हवलदार	एम केशवन	01.05.2019
3932	8033829वाई	हवलदार	राठोड़ के रमा	01.07.2019
3933	8033249के	हवलदार	रवि सी	01.04.2019
3934	8033250वाई	हवलदार	सुब्रता दास	01.05.2019
सेना डाक सेवा पलटन				
3935	8430852पी	हवलदार	अनिल कुमार जी.वी	01.07.2019
3936	8430846एफ	हवलदार	के कृष्णन	01.07.2019
3937	8430853एक्स	हवलदार	एम मलागी	01.07.2019
3938	8430860एन	हवलदार	मुकेश कुमार	01.08.2019
3939	8430857एन	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.08.2019
3940	8430854ए	हवलदार	राम निवास	01.08.2019
3941	8430855एच	हवलदार	सर्वेश कुमार	01.08.2019
3942	8430861डब्ल्यू	हवलदार	एस जी.	01.08.2019
रक्षा सुरक्षा पलटन				
3943	10420398एम	हवलदार	अशोक घोरे	01.06.2019

3944	9083283डब्ल्यू	हवलदार	हरबंस लाल	01.03.2019
3945	10314557एन	हवलदार	जरनैल सिंह	01.08.2019
3946	10146336एल	हवलदार	जेबी कृष्णाराव	01.06.2019
3947	10134811के	हवलदार	जे सिंह	01.08.2019
3948	8027526एन	हवलदार	के कांडा सामी	01.07.2019
3949	10436148पी	हवलदार	किशन गम्बर अहीरे	01.07.2019
3950	10146537के	हवलदार	नामदेव रामु पाटिल	01.05.2019
3951	10404901पी	हवलदार	नारायण सिंह	01.08.2019
3952	10259660डब्ल्यू	हवलदार	पी कुमार स्वेन	01.07.2019
3953	10273856पी	हवलदार	प्रफुल्ल रौय	01.08.2019
3954	10373569ए	हवलदार	राजेंद्रा यादव	01.04.2019
3955	10389528ए	हवलदार	राम पाल सिंह	01.02.2019
3956	10452249एम	हवलदार	रामचन्द्रन जी.	01.07.2019
3957	10119148ए	हवलदार	एस एस एम राव	01.07.2019
3958	10197701के	हवलदार	सानदुर सिंह	01.02.2019
3959	10134771एन	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.04.2019
3960	10134588एल	हवलदार	एसएस कटेवा	28.02.2019
3961	10436185एच	हवलदार	एस साहेब्रो किसान	01.06.2019
3962	10146541एम	हवलदार	यू सोमानाथ निवरुती	01.06.2019
3963	10146467डब्ल्यू	हवलदार	वसंत एम बी	01.06.2019
3964	10358748एच	हवलदार	विक्रमन के	01.05.2019
प्रादेशिक सेना				
3965	10136080ए	हवलदार	अमरजीत सिंह	31.03.2019
3966	10374907वाई	हवलदार	अमित गुरंग	31.03.2019
3967	10437810एल	हवलदार	अशोक कुमार राम	31.07.2019
3968	10260861एफ	हवलदार	अशोक कुमार राउत	31.03.2019
3969	10315724एल	हवलदार	बाल राम सिंह	31.03.2019
3970	10390557एफ	हवलदार	भगीरथ पटेल	31.03.2019
3971	10437769ए	हवलदार	बी भीमराव दत्तू	31.03.2019
3972	10198999एल	हवलदार	बोध राज	31.03.2019
3973	10390567एल	हवलदार	दया राम	31.03.2019
3974	10437817पी	हवलदार	देओकर राजेंद्रा टी	31.07.2019
3975	10480864ए	हवलदार	गजेन्द्र प्रसाद	28.02.2019
3976	10437734के	हवलदार	घोदे हरी निवरुती	31.03.2019
3977	10437747एफ	हवलदार	आइ संजय रामकृशना	31.03.2019
3978	10467415एम	हवलदार	जय सिंह	28.02.2019
3979	10315735एक्स	हवलदार	केवल सिंह	31.03.2019
3980	10437741ए	हवलदार	के संजय राजाराम	31.03.2019
3981	10315713वाई	हवलदार	महेंद्र सिंह	31.03.2019
3982	10315738एल	हवलदार	महेश पाल	31.03.2019
3983	10315737एच	हवलदार	एम सिंह	31.03.2019
3984	10467398एक्स	हवलदार	मुकेश कुमार	28.02.2019
3985	10390562एम	हवलदार	मुन्ना लाल	31.03.2019
3986	10315749एक्स	हवलदार	प्रवीन कुमार	31.03.2019
3987	10315741एल	हवलदार	राजेश ठाकुर	31.03.2019
3988	10228349पी	हवलदार	राजेश ठाकुर	31.03.2019
3989	10136070डब्ल्यू	हवलदार	रमेश बाबू	31.03.2019
3990	10390555डब्ल्यू	हवलदार	संतोष कुमार पटेल	28.02.2019
3991	10136093एक्स	हवलदार	सतबीर सिंह	31.03.2019
3992	10315722ए	हवलदार	शमशेर सिंह	31.03.2019
3993	10480904डब्ल्यू	हवलदार	शशि भूषण	31.07.2019
3994	10437806एच	हवलदार	सिजो ए	31.07.2019
3995	10315716एम	हवलदार	श्रीजीथ एपी	31.03.2019
3996	10390560एफ	हवलदार	श्री धनेन्द्रा प्रसाद द्विवेदी	31.03.2019
3997	10437792एन	हवलदार	श्री मोहन लाल पटेल	31.07.2019
3998	10274893पी	हवलदार	सुसंता माझी	31.03.2019
3999	10274892एम	हवलदार	स्वप्न चकर्बती	31.03.2019

4000	10274897एल	हवलदार	स्वप्न हालदार	31.03.2019
4001	10315747एम	हवलदार	तीर्थ पाल वर्मा	31.03.2019
4002	10390565ए	हवलदार	तुलसी राम पटेल	31.03.2019
4003	10315757डब्ल्यू	हवलदार	उदय प्रताप सिंह	31.03.2019

[सं. बी./43432/आई डी-19/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

अश्विनी कुमार, ले. जनरल एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2019

No. 11 (E) dated 15 August 2019.— The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Subedar to the under mentioned NCOs on the eve of **Independence Day 2019** under Para 180 of the Regulation for the Army 1987, with effect from the dates shown against their names:-

TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS**8 CAVALRY**

1	15467622N	DFR	DASHRATH SINGH KUSHWAH	01-03-2019
2	15467228H	DFR	KAN SINGH	01-02-2019
3	15468657W	DFR	NARINDER KUMAR	01-07-2019
4	15468515Y	DFR	RAJINDER SINGH	01-06-2019
5	15468167H	DFR	SANTOSH KUMAR SINGH	01-05-2019
6	15467417M	DFR	SHIV PRAKASH SINGH	01-03-2019

1 HORSE

7	15468550F	DFR	AJIT KUMAR SINGH	01-06-2019
8	15467580M	DFR	ASHEEL SINGH	01-03-2019
9	15467908H	DFR	RAJESH KUMAR	01-04-2019
10	15468357P	DFR	SANJAY KUMAR	01-05-2019
11	15467849F	DFR	SUKHDEV SINGH	01-04-2019

17 HORSE

12	15467473L	DFR	AVTAR SINGH	01-03-2019
13	15468080F	DFR	BACHCHOO SINGH	01-05-2019
14	15468248H	DFR	GURBHEJ SINGH	01-05-2019
15	15467258A	DFR	ISHAWAR SINGH	01-02-2019
16	15467487L	DFR	NEMI CHAND BHAKAR	01-03-2019
17	15468227M	DFR	SURENDRA SINGH	01-05-2019

9 HORSE

18	15467305M	DFR	KULDEEP SINGH	01-03-2019
19	15467374H	DFR	RAJESH SINGH	01-03-2019
20	15467412N	DFR	RAKESH KUMAR	01-03-2019
21	15468769W	DFR	RATAN LAL JAT	01-07-2019

14 HORSE

22	15468284N	DFR	BABU RAM	01-05-2019
23	15467946Y	DFR	BALDEV SINGH	01-04-2019
24	15468094F	HAV	KEWAL SINGH	01-05-2019
25	15468247A	DFR	KULDIP SINGH	01-05-2019

26	15467424H	DFR	MANJIT SINGH	01-03-2019
27	15468588L	DFR	PARAMJEET SINGH	01-06-2019
28	15468004P	DFR	RASPAL SINGH	01-05-2019
29	15468768N	DFR	SHUSHIL KUMAR	01-07-2019

3 CAVALRY

30	15462308W	DFR	BALBIR SINGH	01-07-2019
31	15462309Y	DFR	JAGDISH SINGH	01-07-2019
32	15468661Y	DFR	PAPPU RAM	01-07-2019

18 CAVALRY

33	15468761K	DFR	SHIMBHU SINGH	01-07-2019
----	-----------	-----	---------------	------------

4 HORSE

34	15468035P	DFR	DEVINDER SINGH	01-05-2019
----	-----------	-----	----------------	------------

CENTRAL INDIA HORSE

35	15468703A	DFR	DEVENDRA PAL	01-07-2019
36	15468838F	DFR	RAMESH KUMAR TIWARI	01-08-2019
37	15467758X	DFR	RAN SINGH	01-03-2019
38	15467236F	DFR	VIJAY KUMAR	01-02-2019

62 CAVALRY

39	15467674K	DFR	HANS RAJ	01-03-2019
40	15467958N	DFR	PARAMJIT KUMAR	01-04-2019
41	15467858H	DFR	PRAMOD KUMAR	01-04-2019
42	15467319M	DFR	SOHAN LAL	01-03-2019

20 LANCERS

43	15467672Y	DFR	NARENDRA SINGH	01-03-2019
----	-----------	-----	----------------	------------

63 CAVALRY

44	15468051M	DFR	BALVIR SINGH	01-05-2019
45	15468286Y	DFR	PRAHLAD SINGH	01-05-2019

61 CAVALRY

46	15461922Y	DFR	MOHD ISRAR KHAN	01-03-2019
47	15461923F	DFR	NK DINKERRAO PATIL	01-03-2019

65 ARMoured REGIMENT

48	15467699W	DFR	BIHARI LAL	01-03-2019
49	15468758K	DFR	HARI OM	01-07-2019
50	15468712F	DFR	MALKIT SINGH	01-07-2019

67 ARMoured REGIMENT

51	15468186N	DFR	ANIL KUMAR	01-05-2019
----	-----------	-----	------------	------------

52	15467960L	DFR	BALWINDER SINGH	01-04-2019
53	15468028Y	DFR	PHUMAN SINGH	01-05-2019
54	15468706N	DFR	RANDHIR SINGH	01-07-2019
55	15467486H	DFR	SANTOSH SINGH	01-03-2019
56	15468033K	DFR	SHAMSHER SINGH	01-05-2019

68 ARMoured REGIMENT

57	15468597M	DFR	HANSRAM GURJAR	01-06-2019
----	-----------	-----	----------------	------------

69 ARMoured REGIMENT

58	15468341K	DFR	GAVI PRASAD PATEL	01-05-2019
59	15467213A	DFR	GURBHEJ SINGH	01-02-2019
60	15468368F	DFR	NOOKA RAJU BODA	01-05-2019
61	15467286M	DFR	S S DOGRA	01-03-2019
62	15467475W	DFR	SURENDRA SINGH	01-03-2019

70 ARMoured REGIMENT

63	15468179X	DFR	ANANTA CHARAN NATH	01-05-2019
64	15467875H	DFR	DHAN PAL SINGH	01-04-2019
65	15468482Y	DFR	OINAM INAOCHA MEETEI	01-06-2019
66	15467323P	DFR	PP DNYANOBA	01-03-2019
67	15467724K	DFR	RAJA RAM PATIL	01-03-2019
68	15468498K	DFR	RS RAGHAV	01-06-2019

72 ARMoured REGIMENT

69	15468673N	DFR	RAJINDER SINGH	01-07-2019
70	15468356M	DFR	RAWAT SINGH	01-05-2019
71	15467850W	DFR	SARWAR KUMAR	01-04-2019

73 ARMoured REGIMENT

72	15468305Y	DFR	MAN SINGH	01-05-2019
73	15468626W	DFR	MOHAMMAD IRSAD	01-07-2019

74 ARMoured REGIMENT

74	15462436N	DFR	AMBIKA SINGH YADAV	01-07-2019
75	15468274K	DFR	NARESH KUMAR	01-05-2019
76	15462435L	DFR	RAM DULAR SINGH YADAV	01-07-2019

76 ARMoured REGIMENT

77	15468133P	DFR	BHARAT SINGH	01-05-2019
78	15468604X	DFR	LAKHAN SINGH	01-06-2019

81 ARMoured REGIMENT

79	15468025L	DFR	GOPAL SINGH	01-05-2019
80	15468549M	DFR	NEERAJ KUMAR SINGH	01-06-2019
81	15468024H	DFR	SIYA RAM	01-05-2019

82 ARMoured REGIMENT

82	15468418F	DFR	AMINUL ISLAM	01-05-2019
83	15468683X	DFR	DAIKHO MAO	01-07-2019
84	15468195P	DFR	G GAJANAN AMBADAS	01-05-2019
85	15467774P	DFR	GAJANAND	01-03-2019
86	15468655L	DFR	R S RATHORE	01-07-2019
87	15462127L	DFR	RAM JINISH ROY	01-05-2019
88	15468216A	DFR	SARWAN KUMAR	01-05-2019
89	15467661M	DFR	SK PUTHIYEDATH	01-03-2019
84 ARMoured REGIMENT				
90	15468412A	DFR	MANOJ SINGH	01-05-2019
91	15468175F	DFR	MD FOTEUL HOQUE	01-05-2019
92	15467942H	DFR	PUKARAM GARU	01-04-2019
85 ARMoured REGIMENT				
93	15468129M	DFR	DHARMINDER SINGH	01-05-2019
94	15468593W	DFR	LOKANATH RAM	01-06-2019
95	15467966M	DFR	MANJINDER SINGH	01-04-2019
86 ARMoured REGIMENT				
96	15467514K	DFR	JOMAN THOMAS	01-03-2019
88 ARMoured REGIMENT				
97	15468157Y	DFR	BAGHELE NAND KISHOR	01-05-2019
89 ARMoured REGIMENT				
98	15462090P	DFR	BRIJENDRA KUMAR SINGH	01-05-2019
99	15468461H	DFR	RAJESH CHAND	01-06-2019
100	15468579K	DFR	SUNIL KUMAR	01-06-2019
41 ARMoured REGIMENT				
101	15467668W	DFR	MAHENDRA KUMAR BEHERA	01-03-2019
42 ARMoured REGIMENT				
102	15468255Y	DFR	ANIL KUMAR	01-05-2019
103	15467206K	DFR	AWADHESH RAM MAURYA	01-02-2019
44 ARMoured REGIMENT				
104	15467383K	DFR	AMTESH TIWARI	01-03-2019
105	15462212N	DFR	V RAVI	01-05-2019
46 ARMoured REGIMENT				
106	15468784L	DFR	AKBAR ALI	01-07-2019
107	15468545W	DFR	RAJESH KUMAR SINGH	01-06-2019
47 ARMoured REGIMENT				
108	15467604L	DFR	KESHA BHAI RATHWA	01-03-2019
48 ARMoured REGIMENT				

109	15467418P	DFR	BARJESH KUMAR	01-03-2019
110	15468575N	DFR	BHISE BAPU SAHADU	01-06-2019
49 ARMoured REGIMENT				
111	15468434Y	DFR	JASMER SINGH	01-05-2019
112	15468421F	DFR	MANOJ SINGH	01-05-2019
113	15468397W	DFR	MRITUNJAY KUMAR	01-05-2019
114	15468031Y	DFR	SURENDRA KUMAR SINGH	01-05-2019
11 ARMoured REGIMENT				
115	15468581F	DFR	ANIL KUMAR	01-06-2019
116	15468353Y	DFR	RAJESH KUMAR SINGH	01-05-2019
117	15467366K	DFR	THOMBARE ANKUSH S	01-03-2019
118	15467729H	DFR	VIJAY KUMAR RAY	01-03-2019
119	15468676F	DFR	VINOD KUMAR	01-07-2019
12 ARMoured REGIMENT				
120	15468578F	DFR	HARMINDER SINGH	01-06-2019
13 ARMoured REGIMENT				
121	15468041H	DFR	SAWAN SINGH	01-05-2019
50 ARMoured REGIMENT				
122	15467970P	DFR	PRABHU THAKUR	01-04-2019
123	15462055M	DFR	SHAKRUDDIN	01-05-2019
51 ARMoured REGIMENT				
124	15468068A	DFR	AJEET SINGH	01-05-2019
125	15468084X	DFR	ANIL KUMAR	01-05-2019
126	15468093Y	DFR	DEVENDRA KUMAR	01-05-2019
127	15468645F	DFR	SATPAL	01-07-2019
53 ARMoured REGIMENT				
128	15467923X	DFR	KRUSHNA CHANDRA BEHERA	01-04-2019
129	15467664A	DFR	SANJEEVAN SINGH	01-03-2019
54 ARMoured REGIMENT				
130	15468367Y	DFR	B S SIKARWAR	01-05-2019
131	15468535M	DFR	S R GIRDHARILAL	01-06-2019
56 ARMoured REGIMENT				
132	15468685H	DFR	AKHILESH KUMAR SINGH	01-07-2019
ARMoured CORPS				
133	15462162N	DFR	ANADANATH	01-05-2019
134	15464941P	DFR	AP SINGH	01-03-2019

135	15467653N	DFR	ARUN KUMAR SINGH	01-03-2019
136	15461895A	DFR	ASHOK KUMAR	01-03-2019
137	15467749W	DFR	BALBIR SINGH	01-03-2019
138	15462216K	DFR	DURYODHAN SINGH	01-05-2019
139	15462044A	DFR	JETH SINGH	01-05-2019
140	15464730M	DFR	M MOHAN	01-07-2019
141	15462129W	DFR	MANOJ KUMAR SINGH	01-05-2019
142	15462332M	DFR	MATHIYAZAGAN R	01-07-2019
143	15465313M	DFR	RAM MANOHAR SRIVAS	01-04-2019
144	15462215F	DFR	RAVIPALLI VENKATA GIRI	01-05-2019
145	15462214Y	DFR	S L DATTATRAYA	01-05-2019
146	15463372A	DFR	SAMUNDER SINGH	01-06-2019
147	15468607L	DFR	SASI KUMAR B	01-06-2019
148	15465920L	DFR	SHAIKH KADIR YUSUF	01-07-2019
149	15462184M	DFR	SK BABLU ALI	01-05-2019
150	15462189L	DFR	WAKIL KHAN	01-06-2019

REGIMENT OF ARTILLERY

151	15124153K	HAV	A GOVINDA RAJ	01-07-2019
152	14411017X	HAV	A MOHAN DHAS	01-07-2019
153	14414754K	HAV	ABADHESH KUMAR	01-05-2019
154	15123541P	HAV	AJAY VIR SINGH	01-05-2019
155	14407742M	HAV	AMAR NATH SINGH YADAV	01-03-2019
156	15124452H	HAV	ANANTA CHUTIA	01-07-2019
157	15123378A	HAV	ANGREZ SINGH	01-05-2019
158	14415795A	HAV	ANIL KUMAR	01-08-2019
159	15124056M	HAV	ANIL KUMAR	01-07-2019
160	15123784A	HAV	ANIL KUMAR	01-05-2019
161	15118631M	HAV	ANIL KUMAR K	01-07-2019
162	15123873Y	HAV	ANIL SINGH BHADORIYA	01-05-2019
163	14413702F	HAV	ANUP SINGH	01-03-2019
164	14415531Y	HAV	APPA KADPODKAR	01-07-2019
165	14414676X	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-05-2019
166	15118317Y	HAV	ASHOK KR SAHA	01-02-2019
167	15124079N	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2019
168	14414249F	HAV	ASHOK KUMAR YADAV	01-03-2019
169	15123175W	HAV	ASHOK KUMAR YADAV	01-04-2019
170	15123689N	HAV	ATTAR SINGH	01-05-2019
171	15124444K	HAV	ATUL CH HAZARIKA	01-07-2019
172	14414911L	HAV	B PRABHAKAR	01-05-2019
173	15123360K	HAV	BAIDYA NATH YADAV	01-05-2019
174	9095728K	HAV	BAINAINAGARI JAYANNA	01-04-2019
175	14415711F	HAV	BAJ RANG SINGH GOLIA	01-07-2019
176	15124219P	HAV	BAJRANG BALI CHAUBEY	01-07-2019
177	14414841X	HAV	BAKHTWAR SINGH	01-05-2019
178	15123815P	HAV	BALAJIAH N	01-05-2019
179	15123262K	HAV	BALBIR SINGH	01-05-2019
180	14415142Y	HAV	BALEN THAKURIA	01-05-2019

181	14414678H	HAV	BALJIT SINGH	01-05-2019
182	14414742P	HAV	BALVIR SINGH	01-05-2019
183	14410032A	HAV	BALVIR SINGH	01-05-2019
184	14415060W	HAV	BASAVARAJ HOSAMANI	01-05-2019
185	14414455L	HAV	BASUDEV MONDAL	01-06-2019
186	14415046K	HAV	BHAGWAN SINGH	01-05-2019
187	15124474F	HAV	BHAPKAR SHANKAR KISAN	01-08-2019
188	14415179A	HAV	BHARAT SINGH TOMER	01-05-2019
189	15123742N	HAV	BHASKAR KR	01-05-2019
190	14415011N	HAV	BHIM SINGH	01-05-2019
191	15123566F	HAV	BHUPINDER SINGH	01-05-2019
192	14414548A	HAV	BIRENDRA SINGH	01-04-2019
193	15118341P	HAV	BIRKAJI RAI	01-04-2019
194	15124447X	HAV	BROJEN CHUTIA	01-07-2019
195	15123773N	HAV	BUDHRAM YADAV	01-05-2019
196	15118475N	HAV	C RASALAM	01-07-2019
197	14415410X	HAV	CHANDRA PAL	01-07-2019
198	15123365H	HAV	CHANDRASEKHARAN G	01-05-2019
199	14415143F	HAV	CHARANJIT SINGH	01-05-2019
200	15120111A	HAV	CHHABI RAM	01-02-2019
201	14415289P	HAV	CHHOTE LAL	01-07-2019
202	15124073M	HAV	D SELVARAJ	01-07-2019
203	15118364W	HAV	DAGLE BHIMRAO GULAB	01-06-2019
204	15121139M	HAV	DAKSHNA MOORTHY V	01-03-2019
205	14407751N	HAV	DAL CHAND	01-04-2019
206	15123523M	HAV	DAL SINGH YADAV	01-05-2019
207	14414866K	HAV	DALJIT SINGH	01-05-2019
208	14414184Y	HAV	DHAN PAL SINGH	01-03-2019
209	14415517M	HAV	DHANE SANTOSH TANAJI	01-07-2019
210	14415515F	HAV	DHANE UMESH RANGRAO	01-07-2019
211	14414804K	HAV	DHARMENDAR KUMAR	01-05-2019
212	15118325X	HAV	DHARMENDRA NATH TRIPATHI	01-02-2019
213	14415163P	HAV	DIBYAJYOTI NATH	01-05-2019
214	14415635A	HAV	DIMBESWAR DIHINGIA	01-07-2019
215	15124008M	HAV	DINESH KUMAR	01-07-2019
216	14414485H	HAV	DINESH KUMAR	01-03-2019
217	15123286N	HAV	DINESH KUMAR	01-05-2019
218	14407770Y	HAV	DINESH THAKUR	01-02-2019
219	15123635M	HAV	DULU KUMAR DEKA	01-05-2019
220	15124035W	HAV	ELUMALAI S	01-07-2019
221	14415281H	HAV	GAJENDRA SINGH	01-07-2019
222	14408786W	HAV	GAJRAJ SINGH	01-04-2019
223	14415500Y	HAV	GIRIDHAR GUNDLUR	01-07-2019
224	15124119K	HAV	GIRISH CHANDRA MISHRA	01-07-2019
225	15123721X	HAV	GOPA KUMAR G	01-05-2019
226	14414737K	HAV	GOPAL DASS	01-05-2019
227	14415727M	HAV	GOPALKRISHNAN V V	01-07-2019
228	14407905P	HAV	GURMEET SINGH	01-07-2019

229	15123382H	HAV	GURPARTAP SINGH	01-05-2019
230	14415352Y	HAV	GYANENDRA SINGH	01-07-2019
231	15118637N	HAV	HARDEV SINGH	01-07-2019
232	15121137F	HAV	HARENDRA SINGH	01-02-2019
233	14415783L	HAV	HARI KUMAR R	01-08-2019
234	15123739N	HAV	HARISH KUMAR SHARMA	01-05-2019
235	14415529F	HAV	HARISHA AD	01-07-2019
236	14407952M	HAV	HARMESH LAL	01-07-2019
237	14414651L	HAV	HARPAL SINGH	01-05-2019
238	15123194F	HAV	HAYAT SINGH	01-04-2019
239	15124453L	HAV	HIREN GOGOI	01-07-2019
240	15123737H	HAV	INDARSAI PORTE	01-05-2019
241	14414925L	HAV	INDRAPAL SINGH	01-05-2019
242	15122542L	HAV	ISHWAR KAWSHIK	01-02-2019
243	15120333P	HAV	ISRAIL SK	01-05-2019
244	15123115F	HAV	J VENKATA RAMULU	01-04-2019
245	14413639X	HAV	JAGMAL SINGH	01-02-2019
246	14408182X	HAV	JAGTAP BALU MADHAV	01-08-2019
247	14414705F	HAV	JAGVIR SINGH	01-05-2019
248	14414944W	HAV	JASHVIR SINGH	01-05-2019
249	15124174A	HAV	JASWANT SINGH	01-07-2019
250	15123349L	HAV	JASWINDER SINGH	01-05-2019
251	14414785K	HAV	JAY PRAKASH	01-05-2019
252	15124215Y	HAV	JEEWAN CHANDRA JOSHI	01-07-2019
253	14415618A	HAV	JETHA RAM MEGHWAL	01-07-2019
254	14415120A	HAV	JITENDRA SINGH BHADORIYA	01-05-2019
255	14415237Y	HAV	JIWAN SINGH	01-06-2019
256	14415191F	HAV	JOGENDRA SINGH	01-06-2019
257	14414547X	HAV	JOGENDRA SINGH YADAV	01-04-2019
258	15122750A	HAV	JYOTI RANJAN ROUT	01-03-2019
259	15118316W	HAV	KALI PRASAD	01-02-2019
260	15124467L	HAV	KAMLESH KUMAR MISHRA	01-07-2019
261	15123859M	HAV	KANHAIYA LAL SAINI	01-05-2019
262	14414634L	HAV	KARAN SINGH	01-05-2019
263	15124201Y	HAV	KENDRE TUKARAM SRIPATI	01-07-2019
264	15124422L	HAV	KESHARI SINGH	01-07-2019
265	14415623L	HAV	KHAGEN BORA	01-07-2019
266	14414746L	HAV	KORE VENKATESWARLU	01-05-2019
267	14407876L	HAV	KOTHADIA PRAFUL KUMAR RAVJEEBHAI	01-07-2019
268	14414919X	HAV	KRISHAN KUMAR GANGWAR	01-05-2019
269	14415466K	HAV	KULDIP RAJ	01-07-2019
270	14415078M	HAV	KULSHEKHAR PAUDEL	01-05-2019
271	15122677M	HAV	KUNDAN KUMAR	01-03-2019
272	14414906A	HAV	KURUMAI AH B	01-05-2019
273	15123947H	HAV	KUSHESWAR DAS	01-05-2019
274	14414971A	HAV	LAGAD DATTATRAYA LAXMAN	01-05-2019
275	15123899N	HAV	LALA RAM JATAV	01-05-2019
276	8033749F	HAV	MAHENDRA SINGH	01-05-2019

277	15123544H	HAV	MAHENDRA SINGH	01-05-2019
278	14414699Y	HAV	MAHIPAL SINGH	01-05-2019
279	14415125Y	HAV	MAHIPAL SINGH NARINARIYA	01-05-2019
280	14413895M	HAV	MAKANDAR RAPIKILAI	01-03-2019
281	14414927W	HAV	MANI RAM	01-05-2019
282	15124240X	HAV	MANOJ KUMAR MISHRA	01-07-2019
283	14415376H	HAV	MANOJ KUMAR YADAV	01-07-2019
284	15123797X	HAV	MANOJ PURI	01-05-2019
285	14412841Y	HAV	MD RAIHAN	01-03-2019
286	15118328L	HAV	MOHAMAD JAVED KHAN	01-03-2019
287	14410728L	HAV	MOHAN LAL	01-05-2019
288	15123870L	HAV	MOHAN TIWARI	01-05-2019
289	14414643M	HAV	MORE SHIDARTH DASHRATH	01-05-2019
290	15118814H	HAV	MUDRIKA PRASAD SHARMA	01-02-2019
291	15118406X	HAV	MUKESH KUMAR	01-06-2019
292	15123261F	HAV	N SIVA KUMAR	01-05-2019
293	14415735L	HAV	NALVAYA RAKESH BHAI SHAKARA BHAI	01-07-2019
294	14414637Y	HAV	NAND KISHORE PRAJAPATI	01-05-2019
295	14415411A	HAV	NARENDRA KUMAR SINGH	01-07-2019
296	14414561K	HAV	NARESH KUMAR	01-04-2019
297	14415358A	HAV	NEEL NIDHI SINGH	01-07-2019
298	15122592W	HAV	NEMA RAM	01-03-2019
299	14407731A	HAV	NIKAM SANJAY BHAGWAN	01-03-2019
300	15124451A	HAV	NITUL CHUTIA	01-07-2019
301	14407720N	HAV	NP KHARWAR	01-02-2019
302	15123188N	HAV	OPENDRA SINGH	01-04-2019
303	15122133X	HAV	P ANIL KUMAR	01-06-2019
304	15118318F	HAV	P ULAGANATHAN	01-02-2019
305	14415346L	HAV	PALVINDER SINGH	01-07-2019
306	15123155H	HAV	PARASHU RAM	01-03-2019
307	14415652A	HAV	PARMAR MUKESH KUMAR VAJE SINH	01-07-2019
308	15124170K	HAV	PARMOD SINGH	01-07-2019
309	14415245X	HAV	PAWAN KUMAR	01-07-2019
310	15124164W	HAV	PAWAN KUMAR	01-07-2019
311	14408240W	HAV	PAWAN KUMAR	01-02-2019
312	14414853M	HAV	PAWAN KUMAR	01-05-2019
313	15124168M	HAV	PAWAN KUMAR	01-07-2019
314	14414851F	HAV	PERUMALLA ANANDAM	01-05-2019
315	15123451N	HAV	POWAR VIJAYRAO VITHOBA	01-05-2019
316	15123293K	HAV	PRAHLAD SINGH	01-05-2019
317	14408835N	HAV	PRAKASAN KV	01-02-2019
318	15124045A	HAV	PRAMOD KUMAR	01-07-2019
319	15118336K	HAV	PRAVEEN KUMAR	01-03-2019
320	14415423P	HAV	PREM PAL SINGH	01-07-2019
321	15124450X	HAV	PUNA GOGOI	01-07-2019
322	14415602P	HAV	PURNANANDA GOHAIN	01-07-2019
323	14407866F	HAV	R SRIDHARAN	01-07-2019

324	14414630P	HAV	RABADE RAMCHANDRA MAHADEO	01-05-2019
325	15123589H	HAV	RABINARAYAN SAHOO	01-05-2019
326	15123542X	HAV	RAGHVENDRA SINGH	01-05-2019
327	15123334H	HAV	RAJ KUMAR	01-05-2019
328	15123350A	HAV	RAJ KUMAR	01-05-2019
329	15123409P	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-05-2019
330	15123842Y	HAV	RAJBEER SINGH TOMAR	01-05-2019
331	14414876N	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
332	14415540A	HAV	RAJESH KUMAR SS	01-07-2019
333	15123240L	HAV	RAJESH KUMAR UPADHYAY	01-05-2019
334	14415625W	HAV	RAJIB GOHAIN	01-07-2019
335	15124006F	HAV	RAJPAL SINGH YADAV	01-07-2019
336	15123358M	HAV	RAJVIJAY YADAV	01-05-2019
337	14415015K	HAV	RAKESH KUMAR	01-05-2019
338	14414840P	HAV	RAKESH RANA	01-05-2019
339	14415455X	HAV	RAKESH SINGH	01-07-2019
340	14407912L	HAV	RAM DHYAN YADAV	01-07-2019
341	14415124W	HAV	RAM GOVIND SINGH PARMAR	01-05-2019
342	15124423N	HAV	RAM JEEVAN SINGH	01-07-2019
343	14415400N	HAV	RAM KHELAWAN	01-07-2019
344	15121522L	HAV	RAM KRISHNA	01-05-2019
345	14408209K	HAV	RAM MURTI LAL	01-02-2019
346	14415199N	HAV	RAM NARAIN RAJBHAR	01-06-2019
347	14413625X	HAV	RAM NARAYAN YADAV	01-02-2019
348	14415192K	HAV	RAM NIWAS	01-06-2019
349	14415062F	HAV	RAMESH G	01-05-2019
350	14414762H	HAV	RAMESH KUMAR	01-05-2019
351	15124454N	HAV	RAMJI LAL	01-07-2019
352	15123550W	HAV	RAMTIRATH SINGH	01-05-2019
353	14414740K	HAV	RANJEET SINGH	01-05-2019
354	14415374X	HAV	RANJEET SINGH	01-07-2019
355	14414012K	HAV	RETNA RAJ E	01-03-2019
356	15124449H	HAV	ROMEN BORUAH	01-07-2019
357	15118350W	HAV	ROOP SINGH	01-05-2019
358	15124063H	HAV	ROOP SINGH	01-07-2019
359	15118430N	HAV	S GOVINDARAJ	01-06-2019
360	15123614W	HAV	S MOULALI	01-05-2019
361	15123598K	HAV	S SOOSAI JESU AROCKIAM	01-05-2019
362	15123232M	HAV	SADI RAMA KRISHNA	01-04-2019
363	14415235N	HAV	SAHAB SINGH	01-06-2019
364	14415470M	HAV	SAILENDRA NATH HAZRA	01-07-2019
365	14415778A	HAV	SAJI S	01-08-2019
366	15123324Y	HAV	SALWINDER SINGH	01-05-2019
367	14414909N	HAV	SAMOD KUMAR SUMAN	01-05-2019
368	15124011M	HAV	SAMPURAN SINGH	01-07-2019
369	14414713A	HAV	SANJAY KUMAR	01-05-2019
370	14415354K	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-06-2019
371	15123299L	HAV	SANJAY SINGH	01-05-2019

372	15124098Y	HAV	SANJEEV KUMAR YADAV	01-07-2019
373	14415475L	HAV	SANJIV KUMAR	01-07-2019
374	15124283M	HAV	SANJOY TALUKDER	01-07-2019
375	15118369P	HAV	SANKAR A	01-03-2019
376	15118484P	HAV	SANTHA KUMAR K	01-07-2019
377	14415021X	HAV	SANTOSH CM	01-05-2019
378	15123847X	HAV	SANTOSH KUMAR YADAV	01-05-2019
379	14415050M	HAV	SARAVANA G	01-05-2019
380	15119188W	HAV	SAROJ KUMAR VERMA	01-02-2019
381	14409789W	HAV	SATENDRA KUMAR CHOUBEY	01-08-2019
382	15124177N	HAV	SATHE PANDHRINATH PUNDLIK	01-07-2019
383	14415279L	HAV	SATISH CHAND SHARMA	01-07-2019
384	14414606Y	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2019
385	14413632N	HAV	SATYA PAL	01-02-2019
386	15124353A	HAV	SATYA PRAKASH SHANDIL	01-07-2019
387	14414768K	HAV	SATYA VIR	01-05-2019
388	15123609L	HAV	SATYENDRA PRASAD SINGH	01-05-2019
389	14415263A	HAV	SG SETTY	01-07-2019
390	14414554N	HAV	SHAILENDRA PRATAP SINGH	01-04-2019
391	15124069K	HAV	SHAM LAL	01-07-2019
392	15123751P	HAV	SHANKAR KAUSHIK	01-05-2019
393	15123965L	HAV	SHARWAN KUMAR	01-06-2019
394	15124457F	HAV	SHISH RAM	01-07-2019
395	14415088W	HAV	SHISHUPAL SINGH	01-05-2019
396	14415479F	HAV	SHIVHANDAN PD VERMA	01-07-2019
397	14415601M	HAV	SHIVNATH SINGH	01-07-2019
398	15123852H	HAV	SHRINIWAS SINGH TOMAR	01-05-2019
399	15124032H	HAV	SHYAM SUNDER JHA	01-07-2019
400	15124220K	HAV	SITANSHU PANI	01-07-2019
401	15118462W	HAV	SOLANKI CHHATRABHAI LADUBHAI	01-07-2019
402	14415409H	HAV	SOUDAN SINGH	01-07-2019
403	14414935P	HAV	SRI GOPI RAM BARO	01-05-2019
404	15123120M	HAV	SRI PUTUL SAIKIA	01-03-2019
405	15123629Y	HAV	SRINIVASA RAO SEERAPU	01-05-2019
406	14415392A	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-07-2019
407	15124327Y	HAV	SUDHEESH S	01-07-2019
408	15124188A	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-07-2019
409	15123423F	HAV	SUMESHWAR SINGH	01-05-2019
410	15123933H	HAV	SUNIL KUMAR	01-05-2019
411	14415065P	HAV	SUNIL KUMAR BARDIYA	01-05-2019
412	14414929F	HAV	SURENDRA SINGH	01-05-2019
413	15123662W	HAV	SURESH ANTANAVAR	01-05-2019
414	14414509F	HAV	SURESH CHANDER	01-04-2019
415	15124463P	HAV	SURESH KUMAR	01-07-2019
416	14415566P	HAV	SURESH KUMAR	01-07-2019
417	15124346K	HAV	SURESH KUMAR	01-07-2019
418	8033714L	HAV	SURINDER KUMAR	01-05-2019
419	15119527L	HAV	SURVE KAMLAKAR MAHADEV	01-05-2019

420	14408124N	HAV	SWAPAN KUMAR GHOSH	01-07-2019
421	14415177P	HAV	TEJPAL SINGH	01-05-2019
422	14415398F	HAV	TILAK SINGH	01-07-2019
423	15121089M	HAV	UMA KANT TIWARI	01-02-2019
424	15124357W	HAV	UMAKANT YADAV	01-07-2019
425	15123851A	HAV	UMESH SINGH BHADOURIYA	01-05-2019
426	15124016L	HAV	UTTAM CHAND	01-07-2019
427	15121142M	HAV	V LAKSHMI NARAYANA	01-08-2019
428	15119856F	HAV	VED PARKASH	01-04-2019
429	14407992N	HAV	VED PAUL	01-07-2019
430	14414810X	HAV	VIJAY BAHADUR THAPA	01-05-2019
431	14414987L	HAV	VIJAY KUMAR	01-05-2019
432	15123568M	HAV	VIJAY KUMAR	01-05-2019
433	15124431M	HAV	VIJAY SINGH	01-07-2019
434	14415146P	HAV	VIMLESH UPADHYAY	01-05-2019
435	15124042M	HAV	VINOD KUMAR	01-07-2019
436	14415588N	HAV	VINOD KUMAR TRIPATHI	01-07-2019
437	15123680Y	HAV	VIRENDER SINGH	01-05-2019
438	14414940A	HAV	VIRENDRA SINGH	01-05-2019
439	15123926M	HAV	YOUNGENDRA BAHADUR SINGH	01-05-2019

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

440	15761270K	HAV	AMAR PAL SINGH	01-05-2019
441	15761118W	HAV	AMAR SINGH	01-05-2019
442	14413946P	HAV	ANIL KUMAR	01-03-2019
443	14414575K	HAV	ANNT RAM TRIPATHI	01-04-2019
444	15118384K	HAV	ARDI VASUDEVA RAO	01-06-2019
445	15761035L	HAV	ARJUNARAM	01-05-2019
446	14413864M	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-03-2019
447	15761713A	HAV	ASHOK CHANDRA SHARMA	01-07-2019
448	15761368X	HAV	B SURESH KUMAR	01-05-2019
449	8033801Y	HAV	BACHCHA LAL	01-07-2019
450	15761196N	HAV	BALJINDER SINGH	01-05-2019
451	14414368X	HAV	BARIA SHANKAR SINH LAXMAN SINH	01-03-2019
452	15761740K	HAV	BHOM SINGH	01-07-2019
453	14409720M	HAV	BHOOP SINGH	01-05-2019
454	15761678H	HAV	BIMAL BARMAN	01-07-2019
455	14413728W	HAV	BIRPAL SINGH	01-03-2019
456	15761635N	HAV	BRHAM SINGH	01-07-2019
457	15761534A	HAV	BRIJ BHAN SINGH	01-05-2019
458	15118330H	HAV	BRIJ BHUSHAN	01-03-2019
459	15761473N	HAV	CHENARAM SINWAR	01-05-2019
460	15761611K	HAV	DAYA SHANKAR	01-07-2019
461	14407857A	HAV	DAYAL CHAND	01-07-2019
462	14408211F	HAV	DEENA NATH	01-08-2019
463	15761292H	HAV	DHIRENDRA SINGH BADORIYA	01-05-2019
464	14407855P	HAV	DWARKANATH	01-07-2019
465	15761714H	HAV	GAUTAM MAHENDRA PAL SINH RAMPRATAP	01-07-2019

466	15761498A	HAV	GHAN SHYAM SINGH TOMAR	01-05-2019
467	15761086Y	HAV	HERWINDER PAL SINGH	01-05-2019
468	15761219K	HAV	K PANDI	01-05-2019
469	15761444Y	HAV	K VINAYAGAM	01-05-2019
470	15761132H	HAV	KARAN SINGH	01-05-2019
471	15118520P	HAV	KULJINDER SINGH	01-07-2019
472	15761341A	HAV	KUMARA S	01-05-2019
473	15761569W	HAV	KUMBHAR APPASO SHANKAR	01-06-2019
474	15761095A	HAV	LAKHVINDER SINGH	01-05-2019
475	15761721Y	HAV	LAXMI CHAND	01-07-2019
476	14407980Y	HAV	MADAN KUMAR CHETTRI	01-07-2019
477	15761235F	HAV	MAHARAM SINGH	01-05-2019
478	15761339H	HAV	MAHESH CHAND DUBEY	01-05-2019
479	15761278W	HAV	MALLIKARJUNA	01-05-2019
480	15761543F	HAV	MANIMARAN N	01-05-2019
481	15761036N	HAV	MANOJ KUMAR	01-05-2019
482	14412650K	HAV	MANOJ KUMAR MISHRA	01-07-2019
483	15761681H	HAV	MANOJ KUMAR SARKAR	01-07-2019
484	15761719F	HAV	MANOJ SINGH	01-07-2019
485	15761326L	HAV	MAYA RAM SHARMA	01-05-2019
486	15761505L	HAV	MORDHVAJ SINGH PARMAR	01-05-2019
487	15761029X	HAV	MUJAFER KHAN	01-05-2019
488	15761436A	HAV	MUNNI RAM SINWAR	01-05-2019
489	15761679L	HAV	NARAYAN BEHERA	01-07-2019
490	14408198H	HAV	NARSI RAM	01-08-2019
491	15761299M	HAV	NEELAMBARAN V	01-05-2019
492	14414345W	HAV	OM PARKASH	01-03-2019
493	15761276L	HAV	PARTHIBAN J	01-05-2019
494	14408026N	HAV	PRAVIN KUMAR	01-07-2019
495	14413675H	HAV	PUSPENDRA KAKATI	01-03-2019
496	15118643F	HAV	R RAJENDIRAN	01-08-2019
497	14414426W	HAV	RAGHUVVEER SAHAY	01-03-2019
498	8033712A	HAV	RAJ KISHORE SINGH	01-04-2019
499	15761716N	HAV	RAJ KUMAR	31-05-2019
500	15761258H	HAV	RAJENDRA SINGH YADAV	01-05-2019
501	14413865P	HAV	RAJESH KUMAR	01-03-2019
502	15761706K	HAV	RAJESH KUMAR	01-07-2019
503	15761083L	HAV	RAKESH BABU	01-05-2019
504	14407959W	HAV	RAKESH KUMAR MISRA	01-07-2019
505	14414387H	HAV	RAKESH KUMAR RAI	01-03-2019
506	15761387H	HAV	RAM BIKAS PRASAD SINGH	01-05-2019
507	14414258H	HAV	RAMENDRA PAUL	01-03-2019
508	15761241P	HAV	RAMESAWAR SINGH	01-05-2019
509	14408611N	HAV	RAMESH CHANDRA	01-08-2019
510	15761584L	HAV	RAMESH KUMAR	01-06-2019
511	15761777L	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
512	14414060K	HAV	RAMESH KUMAR SINGH	01-03-2019
513	14414430Y	HAV	RAMPAT YADAV	01-03-2019

514	14413762W	HAV	RATHINDRA NATH SI	01-03-2019
515	14414384P	HAV	RAVI KUMAR	01-03-2019
516	15761023W	HAV	RAVINDER KUMAR YADAV	01-05-2019
517	14414261H	HAV	ROMEL KANTI NATH	01-03-2019
518	15761647H	HAV	S SAKTHIVEL	01-07-2019
519	15761218F	HAV	S SURIA KUMAR	01-05-2019
520	14412874K	HAV	SACHE AKABAR BANDEALI	01-06-2019
521	15761018L	HAV	SAMAR PAL SINGH	01-05-2019
522	14413951A	HAV	SANJAY KUMAR KHOLA	01-03-2019
523	15761032X	HAV	SAROJ KUMAR SINGH	01-05-2019
524	15761597H	HAV	SHAMBHU SHARAN SINGH	01-07-2019
525	15761155K	HAV	SHESHNATH PRAJAPATI	01-05-2019
526	15761345W	HAV	SHIV KUMAR	01-05-2019
527	14408157Y	HAV	SHYAMAL KUMAR MONDAL	01-07-2019
528	15761692P	HAV	SUBASH J	01-07-2019
529	14414058M	HAV	SUBHASH CHAND	01-03-2019
530	15761257A	HAV	SUDHIR KUMAR	01-05-2019
531	15761591F	HAV	SUDHIR KUMAR SINGH	01-07-2019
532	15761104W	HAV	SUNEESH PONNAM BATH	01-05-2019
533	15761778N	HAV	SURENDER SINGH	01-07-2019
534	14413689H	HAV	SURENDRA SINGH NEGI	01-03-2019
535	15761109P	HAV	SURESH KUMAR	01-05-2019
536	14414334K	HAV	SURESH SINGH BASS	01-03-2019
537	15761574F	HAV	TARSEM LAL	01-06-2019
538	15761677A	HAV	UDAY NAND YADAV	01-05-2019
539	15761662X	HAV	UDAY SANKAR PAL	01-07-2019
540	15761204F	HAV	UMA SHANKAR YADAV	01-05-2019
541	15761684W	HAV	V JAYA KUMAR	01-07-2019
542	15761682L	HAV	V NARAYANA SWAMY	01-07-2019
543	15761020H	HAV	VELPULA VENKATESWARLU	01-05-2019
544	15761413Y	HAV	VELU R	01-05-2019
545	15761690K	HAV	VIJAYA KUMAR V	01-07-2019
546	14414389N	HAV	VINAY KUMAR SHARMA	01-03-2019
547	15761787P	HAV	VINOD KUMAR	01-08-2019
548	14414394Y	HAV	VINOD KUMAR GURJAR	01-03-2019
549	15761693X	HAV	VITHAL C ULAVI	01-07-2019
550	14413770P	HAV	YENARE ASHOK RAMDAS	01-03-2019

ARMY AVIATION CORPS

551	15118377N	HAV	BRAJ KANT SINGH	01-06-2019
552	14414055Y	HAV	HARISH SINGH	01-03-2019
553	14408213M	HAV	JITENDRA SINGH	01-08-2019
554	14407764L	HAV	KAMAL PARKASH	01-05-2019
555	15123882A	HAV	LAL BABU SINGH	01-05-2019
556	15122785W	HAV	MARATHE PRASHANT PRABHAKAR	01-03-2019
557	14408072H	HAV	NARINDER SINGH	01-07-2019
558	15124234K	HAV	PRAHALAD SINGH	01-07-2019
559	14413209N	HAV	R PERUMAL	01-05-2019

560	14409820X	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
561	14414126P	HAV	RAMASHRAYA RAM YADAV	01-03-2019
562	15118549X	HAV	RAMSUSHIL SEN	01-07-2019
563	15123495L	HAV	SARANJIT SINGH	01-05-2019
564	14414295W	HAV	SHIVA RAJ	01-03-2019
565	14412660N	HAV	SHYAM BABU	01-07-2019

MADRAS ENGINEER GROUP

566	15312164N	HAV	A AROCKIA DASS	01-05-2019
567	15312241X	HAV	A BALAMURUGAN	01-06-2019
568	15312334M	HAV	A CHIDAMBARA MUTHUGANESAN	01-06-2019
569	15312320M	HAV	A ELUMALAI	01-06-2019
570	15312190P	HAV	A HENRY MAX	01-05-2019
571	15312353X	HAV	A JOHN PETER	01-06-2019
572	15314734X	HAV	A KRISHNA MURTHI	01-05-2019
573	15314592L	HAV	A VIJAYAKUMAR	01-03-2019
574	15314434W	HAV	ABDUL MUNEER	01-02-2019
575	15314603M	HAV	AJITH KUMAR C	01-03-2019
576	15312099Y	HAV	ANANDAN C	01-05-2019
577	15314414H	HAV	ANANDAN M	01-02-2019
578	15315056P	HAV	ANGRAJ BAHADUR PAL	01-08-2019
579	15312181N	HAV	ANIL DUNG DUNG	01-05-2019
580	15312068Y	HAV	ANIL KUMAR G	01-04-2019
581	15312155M	HAV	ANIL KUMAR K	01-05-2019
582	15312257H	HAV	ANILKUMAR B	01-06-2019
583	15312086F	HAV	ANILKUMAR KG	01-04-2019
584	15312317M	HAV	ANUMA SUDHAKAR	01-06-2019
585	15312310H	HAV	ARUL ANAND RAJ L	01-06-2019
586	15314427A	HAV	B PALANIVEL	01-02-2019
587	15314670X	HAV	B VENKATAIAH	01-04-2019
588	15312363F	HAV	BADRI CHINNA VENKATA SUBBAIAH	01-07-2019
589	15314615F	HAV	BAJI HASHIM	01-03-2019
590	15315046L	HAV	BALAGURU M	01-07-2019
591	15314804L	HAV	BEVARA SURESH	01-05-2019
592	15312347K	HAV	BIJU P	01-06-2019
593	15314884N	HAV	BIRAPPA RAYAGOND CHOUGALA	01-05-2019
594	15314332A	HAV	C ARUL	01-02-2019
595	15314744F	HAV	C KATHIRAVAN	01-05-2019
596	15312285P	HAV	C MUNIVEL	01-06-2019
597	8033640F	HAV	C NAGARAJAN	01-03-2019
598	15314347H	HAV	CE CHITTI BABU	01-02-2019
599	15314514N	HAV	CHANDRA SEKHARA REDDY R	01-03-2019
600	15314691N	HAV	CHINNARAJU C	01-05-2019
601	15314922Y	HAV	D KANNAN	01-05-2019
602	15312301F	HAV	DASARATHAN K	01-06-2019
603	15315007M	HAV	DHARME GOWDA CN	01-07-2019
604	15314553M	HAV	DINESAN MYLIAT	01-03-2019
605	15312289L	HAV	DIWAKAR YADAV	01-06-2019

606	15314730F	HAV	EASWARAMURTHI S	01-05-2019
607	15315001L	HAV	G PALANI KUMAR	01-07-2019
608	15313187F	HAV	G RAGU	01-06-2019
609	15314850A	HAV	GANESH POTHABATTU	01-05-2019
610	15312213L	HAV	GIDESH KUMAR B	01-05-2019
611	15312143X	HAV	HARI BHANU PANDEY	01-05-2019
612	15314424M	HAV	HARIDOSS G	01-02-2019
613	15311943K	HAV	ISRAIL MIYAN	01-03-2019
614	15312379M	HAV	J CHANDRAN	01-07-2019
615	15312279F	HAV	J DOMINIC	01-06-2019
616	15312251F	HAV	JAYAN OK	01-06-2019
617	15314864A	HAV	K DAMODARA REDDY	01-06-2019
618	15314561L	HAV	K MURUGAN	01-03-2019
619	15314702P	HAV	K SEENUVASAN	01-05-2019
620	15314425P	HAV	K SURESH BABU	01-02-2019
621	15314659Y	HAV	K THOMAS	01-04-2019
622	15312243H	HAV	KASINATHAN S	01-06-2019
623	15312674P	HAV	KC DEVARAJ	01-06-2019
624	15311923W	HAV	KRISHNAN KV	01-02-2019
625	15312050H	HAV	KS SREEKANTESAN	01-04-2019
626	15314318N	HAV	M ABDUL GANI	01-02-2019
627	15312230L	HAV	M ALEXANDER	01-06-2019
628	15312276N	HAV	M AROKIA DASS	01-06-2019
629	15312349P	HAV	M NARESH KUMAR	01-06-2019
630	15312287A	HAV	M RAMESH BABU	01-06-2019
631	15312016H	HAV	M THANGAVEL	01-04-2019
632	15314472M	HAV	MANI KANDAN S	01-03-2019
633	15314729M	HAV	MANIKANDAN K	01-05-2019
634	15311992M	HAV	MANOHARAN MATHYARI	01-03-2019
635	15312125P	HAV	MANOJ AT	01-05-2019
636	15312450P	HAV	MANOKARAN J	01-07-2019
637	15315121K	HAV	MARK M	01-08-2019
638	15314973M	HAV	MEESALA SRINIVASA RAO	01-06-2019
639	15311929X	HAV	MK ACHUTHAN KUTTY	01-03-2019
640	15312091M	HAV	MUNNA PRASAD	01-04-2019
641	15314462H	HAV	MURUGAN P	01-03-2019
642	15312173P	HAV	P JEYARAJ	01-05-2019
643	15312283K	HAV	P KOTHANDA RAMAN	01-06-2019
644	15314636X	HAV	P KUMAR	01-03-2019
645	15312316K	HAV	P VELMURUGAN	01-06-2019
646	15314453F	HAV	P VENKATESAN	01-02-2019
647	15312262N	HAV	PANNEER RAJA B	01-06-2019
648	15312272X	HAV	PARAMASIVA PERUMAL K	01-06-2019
649	15312048L	HAV	PD SAJI	01-04-2019
650	15315086M	HAV	PN GOBINATHAN	01-08-2019
651	15314797A	HAV	PRABHAKARAN P	01-05-2019
652	15312217F	HAV	PRAKASAN K	01-05-2019
653	15312031X	HAV	PRASANNA KUMAR T	01-04-2019

654	15312108P	HAV	R GOPINATH	01-05-2019
655	15312351M	HAV	R KUMAR	01-06-2019
656	15313405P	HAV	R SUBRAMANIAN	01-07-2019
657	15312102N	HAV	R VELMURUGAN	01-05-2019
658	15312171K	HAV	RAJA KUMAR R	01-05-2019
659	15314478N	HAV	RAJASEKARAN T	01-03-2019
660	15314420W	HAV	RAJESH KUMAR YADAV	01-02-2019
661	15312391N	HAV	RAJU	01-08-2019
662	15312395K	HAV	RAM	01-08-2019
663	15312226H	HAV	RAMESH BB	01-06-2019
664	15312370X	HAV	RAMNARESH PATEL	01-10-2019
665	15312157X	HAV	RASULSAB TALIKOTI	01-05-2019
666	15314598M	HAV	RAVI KONERI	01-03-2019
667	15314504K	HAV	REDDI CHARLA RAJANNA	01-03-2019
668	15312103W	HAV	S INBANATHAN	01-05-2019
669	15314591H	HAV	SAAMANDHI R	01-03-2019
670	15312449A	HAV	SADI RAJASEKHAR	01-02-2019
671	15314757Y	HAV	SAJAN S	01-05-2019
672	15312273A	HAV	SAJAN SS	01-06-2019
673	15315146W	HAV	SAJITH KUMAR TV	01-07-2019
674	15314337Y	HAV	SAKTHIVEL S	01-02-2019
675	15312152Y	HAV	SANJEEV KK	01-05-2019
676	15312161A	HAV	SASEENDRAN M	01-05-2019
677	15314923F	HAV	SATYANARAYANA REDDY R	01-05-2019
678	15312282F	HAV	SENTHILKUMAR A	01-06-2019
679	15312015A	HAV	SETHURAMAN G	01-04-2019
680	15312232W	HAV	SHIBU K	01-06-2019
681	15314985F	HAV	SHIVAKUMAR HN	01-07-2019
682	15312005W	HAV	SIDDAYYA GURUVAYYANAVAR	01-03-2019
683	15314832X	HAV	SIVAKUMAR R	01-05-2019
684	15312218K	HAV	SOUMITRA CHAKRABARTY	01-05-2019
685	15314847A	HAV	SREE KUMAR	01-05-2019
686	15312153F	HAV	SUKHVIR SINGH	01-05-2019
687	15314644W	HAV	SURESH C	01-03-2019
688	15311998N	HAV	SURESH CJ	01-03-2019
689	15312231N	HAV	SURESH V	01-06-2019
690	15312325L	HAV	T MOHAN RAJ	01-06-2019
691	15312324H	HAV	T SHAJI	01-06-2019
692	15312168K	HAV	T SILVA PERATTO	01-05-2019
693	15314416N	HAV	T VENKATESAN	01-02-2019
694	15315068K	HAV	THANGAPPAN P	01-08-2019
695	15312259N	HAV	THEENA DAYALAN K	01-06-2019
696	15312305X	HAV	THOMAS ANTONY	01-06-2019
697	15312355H	HAV	UMACHANDRA RAMESH S	01-06-2019
698	15312338H	HAV	UNNIKRISHNAN TK	01-06-2019
699	15314555X	HAV	VASANTHALAL PN	01-03-2019
700	15312364K	HAV	VENKATA RAO DASARI	01-07-2019
701	15315143H	HAV	VINUKUMAR K	01-07-2019

702	15312163L	HAV	VITTHAL HADAPAD	01-05-2019
BENGAL ENGINEER GROUP				
703	1488218W	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-05-2019
704	1488105N	HAV	AKHILESH PANDEY	01-03-2019
705	1488701A	HAV	AMRIT PAL	01-07-2019
706	1488067H	HAV	ARBIND KUMAR	01-03-2019
707	1488653L	HAV	ARJUN KUMAR SUBBA	01-07-2019
708	1488234N	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-05-2019
709	1488686W	HAV	ASHOK KUMAR MOURYA	01-07-2019
710	1487981M	HAV	ASHOK KUMAR PANDEY	01-03-2019
711	1489575L	HAV	ASHWANI KUMAR	01-02-2019
712	1488638W	HAV	AVTAR SINGH	01-07-2019
713	1487917P	HAV	BABU S	01-02-2019
714	1488404M	HAV	BALBIR CHOUDHARY	01-05-2019
715	1488023L	HAV	BALJINDER SINGH	01-03-2019
716	1491551A	HAV	BALJIT SINGH	01-05-2019
717	1488309A	HAV	BALWAN SINGH	01-05-2019
718	1488145P	HAV	BALWINDER KUMAR	01-05-2019
719	1488137W	HAV	BALWINDER SINGH	01-05-2019
720	1487979P	HAV	BHOJ RAJ SINGH	01-03-2019
721	1491257A	HAV	BHOOPENDRA SINGH	01-02-2019
722	1488029M	HAV	BIJAY KUMAR DUA	01-03-2019
723	1488447F	HAV	BINAY KUMAR SINGH	01-05-2019
724	1488065X	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-03-2019
725	1491860H	HAV	BINOD KUMAR YADAV	01-07-2019
726	1488367K	HAV	BODDU KARUNAKAR	01-05-2019
727	1487998A	HAV	DALEEP SINGH	01-03-2019
728	1491889L	HAV	DAMOR BABU LAL HIRA JI	01-07-2019
729	1487958Y	HAV	DAN SINGH	01-03-2019
730	1491907H	HAV	DASHRATH SINGH JAT	01-07-2019
731	1488366F	HAV	DEEP CHANDRA JOSHI	01-05-2019
732	1487957W	HAV	DEVENDRA KUMAR	01-03-2019
733	1487953A	HAV	DEVKI NANDAN	01-03-2019
734	1488068L	HAV	DHANANJAY KUMAR	01-03-2019
735	1491696L	HAV	DHANJIT NATH	01-05-2019
736	1488513Y	HAV	DHARMENDER KUMAR	01-07-2019
737	1488667L	HAV	DIGVIJAY NATH DWIVEDI	01-07-2019
738	1488376L	HAV	DILIP KUMAR YADAV	01-05-2019
739	1487978M	HAV	DIN BANDHU PANDEY	01-03-2019
740	1488177X	HAV	DINESH CHANDRA	01-05-2019
741	1488614M	HAV	GAJPAL SINGH ASWAL	01-07-2019
742	1489233X	HAV	GALIB ALI	01-08-2019
743	1488655W	HAV	GANESH CHAND	01-07-2019
744	1488420K	HAV	GANESH SINGH	01-05-2019
745	1488405P	HAV	GANGA SINGH RAWAT	01-05-2019
746	1488547M	HAV	GIRDHAR SINGH	01-07-2019
747	1488595M	HAV	GOPAL KUMAR DARNAL	01-07-2019

748	1488064P	HAV	GOPAL SINGH RATHORE	01-03-2019
749	1491281W	HAV	GURDEEP SINGH	01-03-2019
750	1488135L	HAV	GURMUKH SINGH	01-05-2019
751	1488530Y	HAV	HARENDRA PRASAD	01-07-2019
752	1488604H	HAV	HARENDRA SINGH NEGI	01-07-2019
753	1488280H	HAV	HARI NATH YADAV	01-05-2019
754	1487969L	HAV	HARISH KUMAR	01-03-2019
755	1488606N	HAV	HAYAT SINGH KOSHYARI	01-07-2019
756	1488398K	HAV	HEMANTA KUMAR DAS	01-05-2019
757	1488601P	HAV	HER SINGH	01-07-2019
758	1488219Y	HAV	HOSHYAR SINGH	01-05-2019
759	1488597X	HAV	HUKAM SINGH	01-07-2019
760	1491938H	HAV	INDRA SINGH PAWAR	01-08-2019
761	1488726M	HAV	JAGANNATH MANDAL	01-08-2019
762	1488094M	HAV	JAGRUP SINGH BHADOURIYA	01-04-2019
763	1488670L	HAV	JAI PRAKASH YADAV	01-07-2019
764	1487918X	HAV	JASVINDER SINGH	01-02-2019
765	1488132X	HAV	JASWINDER SINGH	01-05-2019
766	1488721N	HAV	JAVAD AHMAD GANAI	01-08-2019
767	1490713N	HAV	JIYA LAL	01-07-2019
768	1488396Y	HAV	JUDISTER SETHY	01-05-2019
769	1488618H	HAV	KANAIYA SINGH YADAV	01-07-2019
770	1488434K	HAV	KANWAR PAL	01-05-2019
771	1585277M	HAV	KASHMIR SINGH	01-03-2019
772	1488626F	HAV	KHUSHAHAL MANI	01-07-2019
773	1488206F	HAV	KRISHAN KUMAR	01-05-2019
774	1488226P	HAV	MAHABIR	01-05-2019
775	1488297W	HAV	MAHABIR SINGH	01-05-2019
776	1488611Y	HAV	MAKAN SINGH	01-07-2019
777	1488012Y	HAV	MANARANJAN JENA	01-03-2019
778	1488580K	HAV	MANGAL SINGH	01-07-2019
779	1491294N	HAV	MANJIT SINGH	01-03-2019
780	1488320Y	HAV	MD NISAR ALI	01-05-2019
781	1491905X	HAV	MD SAYER ALI	01-07-2019
782	1488285F	HAV	MOHAN SINGH	01-05-2019
783	1488130M	HAV	MUKESH	01-04-2019
784	1488460L	HAV	MUSTAKIM MALLIK	01-05-2019
785	1488233L	HAV	NARAYAN DATT	01-05-2019
786	1488008W	HAV	NARAYAN DATTA	01-03-2019
787	1488202L	HAV	NARESH KUMAR	01-05-2019
788	1488680P	HAV	NATHU YADAVA	01-07-2019
789	1488383F	HAV	NEPAL MONDAL	01-05-2019
790	1488699N	HAV	NISITH KUMAR MAHATA	01-07-2019
791	1488551P	HAV	PALWINDER SINGH	01-07-2019
792	1488495F	HAV	PATEL LALJI BHAI VELJI BHAI	01-06-2019
793	1491620L	HAV	POP SINGH	01-05-2019
794	1488111F	HAV	PRAMOD KUMAR	01-03-2019
795	1488683H	HAV	RAGHAVENDRA PRASAD SHAHI	01-07-2019

796	1488465K	HAV	RAGHAW SINGH TOMAR	01-06-2019
797	1488249W	HAV	RAGHUNATH SINGH	01-05-2019
798	1490340L	HAV	RAGHUVVEER SINGH	01-08-2019
799	1488889A	HAV	RAJ KUMAR	01-08-2019
800	1488118L	HAV	RAJ KUMAR SINGH GOUR	01-03-2019
801	1488442H	HAV	RAJENDRA PRASAD JAKHMOLA	01-05-2019
802	1488022H	HAV	RAM KISHAN	01-03-2019
803	1491341A	HAV	RAM MAGAN	01-03-2019
804	1488463Y	HAV	RAM SINGH CHAUHAN	01-06-2019
805	1488706Y	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
806	1488099L	HAV	RAMESH NATH PANDEY	01-02-2019
807	1488166L	HAV	RAMJAN MUHAMMAD	01-05-2019
808	1488307P	HAV	RAMJEE DAS	01-05-2019
809	1488293A	HAV	RANJEET SINGH	01-05-2019
810	1488734L	HAV	RANJIT	01-07-2019
811	1488283W	HAV	RANJIT SINGH YADAV	01-05-2019
812	1488287M	HAV	RAVI PRATAP SINGH	01-05-2019
813	1488584A	HAV	RAVINDER KUMAR SINGH	01-07-2019
814	1491878Y	HAV	S MURUGAN	01-07-2019
815	1488373X	HAV	SAILENDRA KUMAR ROUT	01-05-2019
816	1488412L	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-05-2019
817	1488533M	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-07-2019
818	1488054L	HAV	SATHA SIVAN N	01-03-2019
819	1488327H	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2019
820	1491335M	HAV	SATYAPAL SINGH	01-03-2019
821	1488190F	HAV	SHAILENDRA SINGH	01-05-2019
822	1490748K	HAV	SHAKIL AHMED	01-08-2019
823	1488554H	HAV	SHAMSHER SINGH	01-07-2019
824	1489990M	HAV	SOHIL KHAN	01-07-2019
825	1488427N	HAV	SUBASH CHANDRA DAS MAHAPATRA	01-05-2019
826	1488047P	HAV	SUKHVINDER SINGH	01-03-2019
827	1491544K	HAV	SUNEHR SINGH VICAL	01-04-2019
828	1491373H	HAV	SURATH KUMAR PATRA	01-03-2019
829	1488281L	HAV	SURENDER SINGH	01-05-2019
830	1488331L	HAV	SURENDRA BAHADUR SINGH	01-05-2019
831	1488505A	HAV	SURENDRA SINGH	01-07-2019
832	1488365Y	HAV	SURENDRA SINGH MAHARA	01-05-2019
833	1488179H	HAV	SURESH BABU	01-05-2019
834	1488431W	HAV	SURESH KUMAR	01-05-2019
835	1488085L	HAV	SURESH KUMAR ROY	01-04-2019
836	1488716H	HAV	SURESH SAHADU INGOLE	01-07-2019
837	1488428W	HAV	SURJAN SINGH	01-05-2019
838	1488351Y	HAV	SWAMIDIN YADAV	01-05-2019
839	1488535X	HAV	SWAPAN BARUA	01-07-2019
840	1488380N	HAV	TAPAS KUMAR TAH	01-05-2019
841	1491690K	HAV	TARA SINGH	01-05-2019
842	1488713P	HAV	UNNIKRISHNAN PT	01-06-2019
843	1488668N	HAV	UTTAM KUMAR DAS	01-07-2019

844	1488056W	HAV	VEERA KUMAR K	01-03-2019
845	1489124L	HAV	VIJAY KUMAR PATEL	01-05-2019
846	1488360A	HAV	VIJAY SINGH	01-05-2019
847	1488046M	HAV	VINOD KUMAR	01-03-2019
848	1488497M	HAV	VINOD KUMAR SHARMA	01-07-2019
849	1491827L	HAV	VINOD SINGH	01-06-2019
850	1488102A	HAV	VIRENDRA KUMAR	01-03-2019
851	1488718N	HAV	YUVRAJ SHAHI	01-07-2019

BOMBAY ENGINEER GROUP

852	1585606X	HAV	A SWAMY	01-07-2019
853	1587283Y	HAV	AJIT SINGH	01-06-2019
854	1585693W	HAV	AMAR SINGH	01-07-2019
855	1585540M	HAV	ARVIND PRASAD SINGH	01-05-2019
856	1585650F	HAV	BALDEV SINGH	01-07-2019
857	1585746K	HAV	BALJINDER SINGH	01-08-2019
858	1585302A	HAV	BALOUR SINGH	01-03-2019
859	1585180F	HAV	BHAGWAN SINGH	01-03-2019
860	1585576L	HAV	BHANDE RAJ KUMAR RAMRAO	01-05-2019
861	1585486K	HAV	BHIUNGADE DATTATRAY SHANKAR	01-05-2019
862	1585228K	HAV	CHAMKAUR SINGH	01-03-2019
863	1587373A	HAV	CHAVHAN VISHVANATH DADABHAU	01-03-2019
864	1587570H	HAV	CHHOTE LAL	01-07-2019
865	1585209Y	HAV	DARSHAN SINGH	01-03-2019
866	1585321L	HAV	DILBAR SINGH	01-03-2019
867	1585611H	HAV	GAIKWAD SHASHIKANT JAGANNATH	01-07-2019
868	1585206L	HAV	GAWADE PRAKASH TUKARAM	01-03-2019
869	1587331N	HAV	GHORPADE DIPAK SHANKAR	01-03-2019
870	1585676W	HAV	GURCHARAN SINGH KALER	01-07-2019
871	1585143N	HAV	HARDEV SINGH	01-02-2019
872	1587408L	HAV	HARI SINGH	01-03-2019
873	1587575F	HAV	HIMANCHAL SINGH KUSHWAHA	01-07-2019
874	1585449W	HAV	HIRALAL JAISWAL	01-05-2019
875	1585469K	HAV	JAGDISH SINGH	01-05-2019
876	1587572N	HAV	JAGTAR SINGH	01-07-2019
877	1585698P	HAV	JASPAL SINGH	01-07-2019
878	1585298H	HAV	JOGINDER LAL	01-03-2019
879	1585755L	HAV	KAMALJIT SINGH	01-08-2019
880	1585362P	HAV	KARAM SINGH	01-04-2019
881	1585654X	HAV	KEWAL SINGH	01-07-2019
882	1585514L	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-05-2019
883	1585673H	HAV	MADAN RAVIDAS	01-07-2019
884	1585207N	HAV	MAJOR SINGH	01-03-2019
885	1587325A	HAV	MAKWANA RAJESHBHAI LAXMAN BHAI	01-03-2019
886	1585208W	HAV	MANE RAHUL VASANT	01-03-2019
887	1585428A	HAV	MANGAL SINGH RAWAT	01-05-2019
888	1585756N	HAV	MUHAMMAD SAHABUDDIN	01-02-2019
889	1585432H	HAV	NAFEES KHAN	01-05-2019

890	1585692N	HAV	NAND KUMAR BANDU JADHAV	01-07-2019
891	1585419Y	HAV	NARESH KUMAR	01-05-2019
892	1585365H	HAV	NIRMAL SINGH	01-04-2019
893	1585304L	HAV	NIRVAIL SINGH	01-03-2019
894	1585579Y	HAV	OM PRAKASH	01-05-2019
895	1585643L	HAV	OM PRAKASH	01-07-2019
896	1585351H	HAV	PALWINDER SINGH	01-04-2019
897	1585360K	HAV	PARGAT SINGH	01-04-2019
898	1587582X	HAV	PATIL NARENDRA LOTAN	01-07-2019
899	1585466W	HAV	RAHINI GIRI	01-05-2019
900	1585501N	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
901	1585415H	HAV	RAJINDER SINGH	01-05-2019
902	1585675N	HAV	RAMDAS SINGH	01-07-2019
903	1585147K	HAV	RAWOOL ARUN DHONDI	01-02-2019
904	1585231K	HAV	RIYAJUDDIN AHAMAD	01-03-2019
905	1585511X	HAV	SALEEM SEKH	01-05-2019
906	1585520Y	HAV	SARABJIT SINGH	01-05-2019
907	1587348F	HAV	SARWAN SINGH	01-03-2019
908	1587549A	HAV	SATPAL	01-07-2019
909	1585317H	HAV	SHER SINGH	01-03-2019
910	1585158W	HAV	SHINGARE DNYANOBA KESHAVRAO	01-03-2019
911	1585685X	HAV	SUBRATA MONDAL	01-04-2019
912	1585186H	HAV	SUKHA SINGH	01-03-2019
913	1585319N	HAV	SUKHDEV SINGH	01-03-2019
914	1587437A	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-05-2019
915	1585688L	HAV	SUKI YASHWANT SAHADEV	01-07-2019
916	1585744Y	HAV	SUSHANTA KUMAR MONDAL	01-07-2019
917	1587630M	HAV	TEHIL SINGH	01-07-2019
918	1587659P	HAV	TONDARE SURYAKANT VISWANATH	01-07-2019
919	1586044X	HAV	UTTAM KUMAR MUNDA	01-08-2019
920	1587105W	HAV	UTTEKAR VIKAS NATHU	01-06-2019
921	1585496N	HAV	VANKAR RAMESH BHAI KHANABHAI	01-05-2019
922	1585495L	HAV	VELE DATTATRAYA SHRIPATI	01-05-2019
923	1587622N	HAV	VIMAL SINGH	01-07-2019
924	1585600W	HAV	VINAYAK RAMCHANDRA GAIKWAD	01-06-2019
925	1585468F	HAV	VIRENDRA KUMAR TRIPATHI	01-05-2019
926	1585493A	HAV	WAGAJ APPARAO UDDHAV	01-05-2019
927	1587682H	HAV	ZAREKAR SANDIP AMBADAS	01-07-2019

CORPS OF SIGNALS

928	15386995F	HAV	A MUTHU KRISHNAN	01-03-2019
929	15387857M	HAV	A RAMASUBRAMANIAN	01-03-2019
930	15386526Y	HAV	A SAJEEVAN	01-05-2019
931	15381280F	HAV	A VIJAYAN	01-07-2019
932	15386957L	HAV	ADLING MADHUKAR PANDURANG	01-03-2019
933	15380716P	HAV	AJAY KUMAR	01-05-2019
934	15389661X	HAV	AJAYAN R	01-07-2019
935	15380597K	HAV	AJENDER SINGH	01-03-2019

936	15380987M	HAV	AJITH KUMAR N	01-05-2019
937	15388003Y	HAV	AKATE VILAS TUKARAM	01-04-2019
938	15380866L	HAV	AKHILESH KUMAR	01-05-2019
939	15380887F	HAV	AKSHAYA PARIDA	01-05-2019
940	15380835L	HAV	ALHAT MOHAN SAMPAT	01-05-2019
941	15381113L	HAV	ALOKE SARKAR	01-03-2019
942	15380286W	HAV	AMBORISH MOULIK	01-03-2019
943	15380312M	HAV	ANAND RAM	01-03-2019
944	15388644L	HAV	ANEESH KUMAR MAVILAVEEDU	01-03-2019
945	15381088X	HAV	ANGA LAVANNA	01-07-2019
946	15381245Y	HAV	ANIL KUMAR	01-07-2019
947	15380574H	HAV	ANIL KUMAR	01-03-2019
948	15380281X	HAV	ANIL KUMAR	01-03-2019
949	15380249H	HAV	ANIL KUMAR CHOURASIA	01-03-2019
950	15388665F	HAV	ANIL KUMAR JALODIYA	01-03-2019
951	15389703Y	HAV	ANIL KUMAR KG	01-08-2019
952	15381261W	HAV	ANIL KUMAR P	01-07-2019
953	15381223A	HAV	ANIL KUMAR R	01-07-2019
954	15380694F	HAV	ARUN KUMAR	01-05-2019
955	15380794M	HAV	ARUN KUMAR KHANGER	01-05-2019
956	15388737A	HAV	ARVIND KUMAR	01-05-2019
957	15380366N	HAV	ASHANI KUMAR	01-03-2019
958	15387196X	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2019
959	15381145N	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2019
960	15389444F	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2019
961	15389008K	HAV	ASHOK KUMAR JANGIR	01-05-2019
962	15380477L	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2019
963	15380902L	HAV	ASHOK KUMAR YADAV	01-05-2019
964	15380578Y	HAV	ASHOK YADAV	01-03-2019
965	15380246P	HAV	ATI ULLAH AHMED	01-03-2019
966	15389413F	HAV	ATUL KUMAR	01-07-2019
967	15387579K	HAV	AUTI KISAN MACHHINDRA	01-03-2019
968	15381130L	HAV	B UDAYA SIMHA REDDY	01-07-2019
969	15380447N	HAV	B VARADA REDDY	01-03-2019
970	15380178M	HAV	BABOO LAL YADAV	01-02-2019
971	15381023K	HAV	BABU J	01-06-2019
972	15389400K	HAV	BAHORAN SINGH	01-07-2019
973	15387732P	HAV	BAL RAM	01-03-2019
974	15387157Y	HAV	BALAKRISHNAN K	01-03-2019
975	15387259P	HAV	BALBEER SINGH	01-03-2019
976	15388871L	HAV	BANDAL DHANSING JAYSING	01-06-2019
977	15388498W	HAV	BANSAD SANTOSH VITHOBA	01-05-2019
978	15388610X	HAV	BASAVARAJ K B	01-05-2019
979	15388361K	HAV	BHANWAR SINGH	01-05-2019
980	15380482W	HAV	BHANWARA RAM	01-03-2019
981	15380740L	HAV	BHARATLAL TIWARI	01-05-2019
982	15380483Y	HAV	BHAWANEE SHANKER	01-03-2019
983	15389786P	HAV	BHIM BAHADUR BISWAKARMA	01-05-2019

984	15389308L	HAV	BHISE BALASAHEB APPASAHEB	01-05-2019
985	15389184F	HAV	BHUP SINGH	01-05-2019
986	15388230Y	HAV	BIJAYA KUMAR DASH	01-05-2019
987	15381172X	HAV	BIJAYA KUMAR DIGAL	01-07-2019
988	15382896F	HAV	BIJENDRA PAL	01-03-2019
989	15389679N	HAV	BIJU P	01-07-2019
990	15381029L	HAV	BIKASH KUMAR GHOSH	01-05-2019
991	15389178N	HAV	BILOCHAN PRASAD KHANTWAL	01-05-2019
992	15388296P	HAV	BINU V	01-05-2019
993	15380882H	HAV	BIRANCH NARAYAN BALIYAR SINGH	01-05-2019
994	15380809K	HAV	BIRENDRA KUMAR	01-05-2019
995	15389403X	HAV	BIRENDRA PRASAD	01-07-2019
996	15380583K	HAV	BIRENDRA SHARMA	01-03-2019
997	15385104F	HAV	C MURUGESAN	01-06-2019
998	15390371M	HAV	C SHANMUGA RAJ	01-08-2019
999	15380416N	HAV	CHANDI CHARAN MANDAL	01-03-2019
1000	15380616K	HAV	CHANDRA SINGH KATHAYAT	01-05-2019
1001	15387563Y	HAV	CHAUGAL SHASHIKANT MARUTI	01-03-2019
1002	15380408P	HAV	CHHAKADI SAHOO	01-03-2019
1003	15389269X	HAV	CHIMNA RAM CHOUDHARY	01-05-2019
1004	15381091X	HAV	CHINTADA RAMESH	01-07-2019
1005	15388640P	HAV	D PERUMAL	01-03-2019
1006	15381141X	HAV	D SIVAK KUMAR	01-07-2019
1007	15389466A	HAV	DANIPHALE SURYAKANT HANMANT	01-07-2019
1008	15389479X	HAV	DEB DAS ADHIKARI	01-07-2019
1009	15380556A	HAV	DEBENDRA PATI	01-03-2019
1010	15388417L	HAV	DEEPAK KUMAR PARIDA	01-03-2019
1011	15387127F	HAV	DEEPAN DAS	01-03-2019
1012	15381176N	HAV	DEO SHARAN CHAUHAN	01-07-2019
1013	15380724N	HAV	DESH RAJ	01-05-2019
1014	15380468K	HAV	DEVENDRA BAHADUR SB	01-03-2019
1015	15380693Y	HAV	DHANANJAY KUMAR SINGH	01-05-2019
1016	15381058A	HAV	DHARAM CHAND	01-07-2019
1017	15380674N	HAV	DHARM SINGH GULAB SINGH	01-05-2019
1018	15384878X	HAV	DHARMBIR SINGH	01-02-2019
1019	15380691L	HAV	DHARMENDRA KUMAR	01-05-2019
1020	15380257F	HAV	DHARMENDRA KUMAR SINGH	01-03-2019
1021	15380746M	HAV	DHARMVIR SINGH	01-05-2019
1022	15386215L	HAV	DHATCHANA MOORTHYA	01-07-2019
1023	15380537P	HAV	DIBAKAR JOSHI	01-03-2019
1024	15388314M	HAV	DIGAMBER	01-05-2019
1025	15381114N	HAV	DILIP KUMAR SARKAR	01-03-2019
1026	15381151F	HAV	DIMBESWAR MOHAN	01-07-2019
1027	15380376X	HAV	DIN BANDU MAURYA	01-03-2019
1028	15380280P	HAV	DINESH	01-03-2019
1029	15380248A	HAV	DINESH CHAND	01-03-2019
1030	15388365A	HAV	DINESH KUMAR	01-05-2019
1031	15380963H	HAV	DINESH KUMAR MISHRA	01-05-2019

1032	15388474M	HAV	DIWAN SINGH NEGI	01-05-2019
1033	15386958N	HAV	DUDHADE SUDAM ROHIDAS	01-03-2019
1034	15387630Y	HAV	DWARAPUDI LAKSHMANA RAO	01-03-2019
1035	15388085M	HAV	G J DAMODAR RAO	01-03-2019
1036	15388858F	HAV	G MURUGAN	01-05-2019
1037	15390320Y	HAV	G SRINIVASAGAN	01-07-2019
1038	15387379N	HAV	GAIKWAD SHATRUGHAN RAMDAS	01-03-2019
1039	15388928P	HAV	GAJE SINGH	01-05-2019
1040	15388929X	HAV	GAJRAJ SINGH	01-05-2019
1041	15388686X	HAV	GANDHI K	01-03-2019
1042	15381207H	HAV	GANESH CHANDRA DUTTA	01-07-2019
1043	15387086H	HAV	GANESH CHANDRA SARKAR	01-03-2019
1044	15381096W	HAV	GAWADE SHANKAR MAHADU	01-07-2019
1045	15380996N	HAV	GIREESH KUMAR C	01-05-2019
1046	15388934H	HAV	GIRIDHARAN B	01-05-2019
1047	15388925F	HAV	GIRISH CG	01-05-2019
1048	15380264X	HAV	GOPA KUMAR P	01-03-2019
1049	15390263H	HAV	GOPAL CHANDRA JANA	01-07-2019
1050	15381353H	HAV	GOPAL DUTT	01-07-2019
1051	15389780N	HAV	GOUTAM GHOSH	01-05-2019
1052	15388450H	HAV	GOUTAM MANDAL	01-03-2019
1053	15390036H	HAV	GUJAR BHANDAS GENDALAL	01-07-2019
1054	15387188Y	HAV	GULAMKHAJA MOINUDDIN	01-03-2019
1055	15387000Y	HAV	GURPAL SINGH	01-02-2019
1056	15389762L	HAV	H DEVA RAJ	01-05-2019
1057	15380921W	HAV	HAKIM SINGH	01-03-2019
1058	15390169Y	HAV	HANDE UMESH SUDAM	01-07-2019
1059	15380570M	HAV	HARAL PANDIT SOPAN	01-03-2019
1060	15381241H	HAV	HARENDRA KUMAR	01-07-2019
1061	15388785A	HAV	HARGOVIND RAGHUWANSHI	01-05-2019
1062	15381069M	HAV	HARI CHANDRA KUMAR D	01-07-2019
1063	15381243N	HAV	HARI KUMAR D	01-07-2019
1064	15388404N	HAV	HARI PRASAD DHAKA	01-05-2019
1065	15380603M	HAV	HARI SHANKAR YADAV	01-04-2019
1066	15381037K	HAV	HARMESH LAL	01-05-2019
1067	15387197A	HAV	HRIDAYANAND MISHRA	01-02-2019
1068	15381324N	HAV	INDERJIT SINGH	01-08-2019
1069	15387043N	HAV	INDRAMANI KUSHWAHA	01-02-2019
1070	15388471Y	HAV	INGOLE RAM MADHUKAR RAO	01-05-2019
1071	15388062L	HAV	JADHAV NAVNATH JAGANNATH	01-05-2019
1072	15381232F	HAV	JAGADESH KUMAR U	01-07-2019
1073	15390294H	HAV	JAGDEWA RAM	01-07-2019
1074	15387406M	HAV	JAGTAP ASHOK VINAYAK	01-03-2019
1075	15381263F	HAV	JAGVINDER	01-07-2019
1076	15380380A	HAV	JAI KARAN SINGH	01-03-2019
1077	15387462L	HAV	JAISON MATHEW	01-03-2019
1078	15386973H	HAV	JANKAR CHAND	01-03-2019
1079	15390174K	HAV	JARE NIVRUTI TABAJI	01-07-2019

1080	15380989X	HAV	JASHPAL SINGH	01-05-2019
1081	15381351X	HAV	JASVIR KUMAR	01-07-2019
1082	15380955K	HAV	JAY KARAN SINGH	01-05-2019
1083	15380923P	HAV	JAY PRAKASH	01-03-2019
1084	15388123X	HAV	JEETENDRA KUMAR	01-03-2019
1085	15387862X	HAV	JEYA BALAN N	01-03-2019
1086	15389805P	HAV	JIBESWAR GOGOI	01-05-2019
1087	15387650M	HAV	JITENDRA NATH	01-03-2019
1088	15381203M	HAV	JOYANTA KUMAR ROY	01-07-2019
1089	15381620Y	HAV	K RAVICHANDRAN	01-07-2019
1090	15389815Y	HAV	KABAL SINGH	01-05-2019
1091	15390229H	HAV	KALLOL KAR	01-07-2019
1092	15380930X	HAV	KAMLESH SINGH	01-05-2019
1093	15380546W	HAV	KAMLESH YADAVA	01-03-2019
1094	15380285N	HAV	KANAGARAJ A	01-03-2019
1095	15380651M	HAV	KANWAL SINGH	01-05-2019
1096	15387453K	HAV	KAREEM BAIG	01-03-2019
1097	15380348L	HAV	KARENA MASARI MALDE	01-03-2019
1098	15387883N	HAV	KARUMULLAH SHAIK	01-03-2019
1099	15380684X	HAV	KARUNAKARAN R	01-05-2019
1100	15387868Y	HAV	KARUPPASAMY P	01-03-2019
1101	15380648M	HAV	KASHMIRI LAL	01-05-2019
1102	15380726Y	HAV	KEHAR SINGH	01-05-2019
1103	15389453H	HAV	KENDRE PRALHAD VAMANRAO	01-06-2019
1104	15387220H	HAV	KESHAW PRATAP SINGH	01-02-2019
1105	15389576P	HAV	KONASESHU JAGADEESH	01-07-2019
1106	15381090P	HAV	KOYANENI A MAHESHWARA RAO	01-07-2019
1107	15381174H	HAV	KRISHAN KUMAR	01-07-2019
1108	15380644W	HAV	KRISHNA CHANDRA PAL	01-05-2019
1109	15381187A	HAV	KRISHNAKANT	01-07-2019
1110	15387626W	HAV	KUBENTHIRAN K	01-04-2019
1111	15387078K	HAV	KULANAND	01-03-2019
1112	15388083F	HAV	LAL BAHADUR YADAV	01-03-2019
1113	15387589L	HAV	LALBURE POPAT SAMBHAJI	01-03-2019
1114	15380383N	HAV	LALLAN YADAV	01-03-2019
1115	15387834L	HAV	LAVAHATE MAHADEO SHAMRAO	01-04-2019
1116	15380587A	HAV	LAVKESH KUMAR UPADHYAY	01-03-2019
1117	15380763M	HAV	LOK PATI PANDEY	01-05-2019
1118	15388222A	HAV	LUKALAPUKARU NAIDU	01-05-2019
1119	15380528N	HAV	M VENKATA SUBBIAH	01-03-2019
1120	15388244Y	HAV	MAHADEB GARAI	01-05-2019
1121	15380738N	HAV	MAHANTESH PATRAYYA HIREMATH	01-05-2019
1122	15380937F	HAV	MAHBOOB ALI	01-05-2019
1123	15380454K	HAV	MAHENDRA BAHADUR	01-03-2019
1124	15389671F	HAV	MAHENDRA PRATAP SINGH	01-07-2019
1125	15388652K	HAV	MAHENDRA SINGH RAJPUT	01-03-2019
1126	15385824H	HAV	MAHESH KUMAR BEHERA	01-05-2019
1127	15381201F	HAV	MALAY KUMAR DEY	01-07-2019

1128	15381281K	HAV	MANASARANJAN PANDA	01-07-2019
1129	15389778W	HAV	MANDVE SANJEEV GOKULDAS	01-05-2019
1130	15390077M	HAV	MANICKAVELU S	01-07-2019
1131	15381067F	HAV	MANJIT	01-07-2019
1132	15388000L	HAV	MANJIT SINGH	01-04-2019
1133	15380564Y	HAV	MANOJ KUMAR	01-03-2019
1134	15388719X	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-05-2019
1135	15389416P	HAV	MANOJ SINGH	01-07-2019
1136	15381265M	HAV	MARIMUTHU G	01-07-2019
1137	15381359K	HAV	MATHE SUKHACHRI VITHOBHA	01-08-2019
1138	15388326F	HAV	MD ANIS MD ISAQUE	01-05-2019
1139	15380938K	HAV	MD RABIUL ALAM KHAN	01-05-2019
1140	15380493H	HAV	MERANI SADA BHAI JAGA BHAI	01-03-2019
1141	15389049N	HAV	MEWA RAM	01-03-2019
1142	15387289M	HAV	MISAL SURESH BHANUDAS	01-03-2019
1143	15380584M	HAV	MITHILESH KUMAR SINGH	01-03-2019
1144	15380266N	HAV	MUKESH KUMAR	01-03-2019
1145	15388827F	HAV	MUKESH SINGH NEGI	01-05-2019
1146	15380314X	HAV	MUKHTYAR SINGH	01-03-2019
1147	15380964L	HAV	MUNI LAL	01-05-2019
1148	15381787H	HAV	MUNNESH SINGH YADAV	01-06-2019
1149	15383091W	HAV	MUNNU MUNDA	01-05-2019
1150	15388855N	HAV	N DEVAN	01-05-2019
1151	15387898W	HAV	NAIK VIJAY KUMAR PUNDLIK	01-03-2019
1152	15380881A	HAV	NAND KISHOR SINGH	01-05-2019
1153	15380543H	HAV	NANDLAL	01-03-2019
1154	15385082N	HAV	NANHE DILIP SUKARU	01-04-2019
1155	15381059H	HAV	NAR SINGH	01-07-2019
1156	15387442X	HAV	NARANGE RAMBHAV SHAMRAOJI	01-04-2019
1157	15380361P	HAV	NARAYAN SINGH	01-03-2019
1158	15388942F	HAV	NARENDRA KUMAR	01-05-2019
1159	15388383H	HAV	NARESH KUMAR	01-05-2019
1160	15380282A	HAV	NARESH KUMAR	01-03-2019
1161	15380580W	HAV	NAVIN KUMAR JHA	01-03-2019
1162	15381185P	HAV	NIRANJAN YADAV	01-07-2019
1163	15390282N	HAV	NITAI KUMAR SAHA	01-07-2019
1164	15388597Y	HAV	OMA RAM SARAN	01-05-2019
1165	15387737N	HAV	OMPRAKASH SINGH	01-03-2019
1166	15388225N	HAV	P KUMARA SWAMY	01-05-2019
1167	15380359X	HAV	P PANDYMURGAN	01-03-2019
1168	15386978F	HAV	P SARAVANAN	01-03-2019
1169	15387914H	HAV	P SASI KUMAR	01-03-2019
1170	15380272W	HAV	PAILA APPALA SWAMY	01-03-2019
1171	15389320M	HAV	PALVE NARAYAN MARUTI	01-05-2019
1172	15389533A	HAV	PARASHA RAM CHOUGULE	01-07-2019
1173	15388203P	HAV	PATEL CHANDRA KANT BHAI GORDHAN BHA	01-05-2019
1174	15388221X	HAV	PATEL KAMLESH KUMAR PURSHOTTAM	01-05-2019
1175	15388901X	HAV	PATIL GANAPATI VITHOBA	01-06-2019

1176	15388478H	HAV	PATIL MUKUNDA MADHAV	01-05-2019
1177	15380191W	HAV	PATIL SAGAR RAMU	01-02-2019
1178	15387996W	HAV	PAWAN KUMAR	01-04-2019
1179	15380628Y	HAV	PAWAN KUMAR	01-05-2019
1180	15380262M	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
1181	15389895F	HAV	PAWAR DNYANESHWAR JAGANNATH	01-05-2019
1182	15390195A	HAV	PAWAR KIRAN BHAUSAHEB	01-07-2019
1183	15388879X	HAV	PAWAR SHAHAJI BHAUSAHEB	01-06-2019
1184	15387284N	HAV	PHATAK ANIL RAGHUNATH	01-03-2019
1185	15380258K	HAV	PRABHU DAYAL	01-03-2019
1186	15381309Y	HAV	PRABHU NATH SINGH	01-07-2019
1187	15390075F	HAV	PRADEEP KUMAR	01-07-2019
1188	15385938N	HAV	PRADEEPTA KU LENKA	01-08-2019
1189	15388250M	HAV	PRADIPTA KUMAR BISWAL	01-05-2019
1190	15387939P	HAV	PRAKAS T	01-04-2019
1191	15388005K	HAV	PRAKASH CHANDRA	01-04-2019
1192	15381124X	HAV	PRAKASH NITTURKAR	01-05-2019
1193	15388622M	HAV	PRALHAD PATIL	01-03-2019
1194	15388914P	HAV	PRAMOD KUMAR CP	01-05-2019
1195	15381033N	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-05-2019
1196	15381028H	HAV	PRASAN KUMAR KHATAI	01-05-2019
1197	15389348M	HAV	PRAVEEN DOCKWAL	01-05-2019
1198	15380294P	HAV	PREM SHANKAR TIWARI	01-03-2019
1199	15380413A	HAV	PRODIP CHETIA	01-03-2019
1200	15381189L	HAV	PURAN MAL	01-07-2019
1201	15380624H	HAV	PURAN SINGH MAHARA	01-05-2019
1202	15380481N	HAV	PURSHOTTAM DAS PATEL	01-03-2019
1203	15387503K	HAV	PUSHKAR SINGH	01-03-2019
1204	15381272H	HAV	PUSHPA PRASAD SHARMA	01-07-2019
1205	15389553N	HAV	R KRISHNAPRABU	01-07-2019
1206	15380300X	HAV	R SIVANANDAM	01-03-2019
1207	15386214H	HAV	R V PALANIVEL	01-06-2019
1208	15381054K	HAV	RABIDRA RAM	01-07-2019
1209	15388758W	HAV	RABINDRA KUMAR BARIK	01-05-2019
1210	15380993A	HAV	RABINDRA PATAP SINGH	01-05-2019
1211	15380920N	HAV	RAGHU RAJ SINGH	01-03-2019
1212	15388916A	HAV	RAGHUNATH D	01-05-2019
1213	15380901H	HAV	RAJ KISHORE	01-05-2019
1214	15380306Y	HAV	RAJ KUMAR	01-03-2019
1215	15381125A	HAV	RAJ KUMAR MANDAL	01-07-2019
1216	15384045N	HAV	RAJA KUMAR S	01-06-2019
1217	15380297H	HAV	RAJENDER PRASAD	01-03-2019
1218	15387478W	HAV	RAJENDRA KUMAR CHOUDHARY	01-03-2019
1219	15381321A	HAV	RAJENDRA SINGH	01-08-2019
1220	15380368Y	HAV	RAJESH KUMAR	01-03-2019
1221	15380914A	HAV	RAJESH KUMAR CHOUDHARY	01-05-2019
1222	15389058P	HAV	RAJESH KUMAR KR	01-06-2019
1223	15381277F	HAV	RAJINDER SINGH	01-07-2019

1224	15380337Y	HAV	RAJINDER SINGH	01-03-2019
1225	15387828X	HAV	RAJNIKANTA PRADHAN	01-04-2019
1226	15386936P	HAV	RAJPAL	01-05-2019
1227	15380313P	HAV	RAJPATI RAM	01-03-2019
1228	15390145P	HAV	RAJU KALITA	01-07-2019
1229	15380699A	HAV	RAJU KUMAR PASWAN	01-05-2019
1230	15387983Y	HAV	RAKESH KUMAR	01-04-2019
1231	15380541X	HAV	RAM AWADH YADAVA	01-03-2019
1232	15380378H	HAV	RAM CHARAN	01-03-2019
1233	15380971F	HAV	RAM GIREEKSH RAM	01-06-2019
1234	15387052P	HAV	RAM KISHORE	01-02-2019
1235	15388763F	HAV	RAM KRISHNA NAYAK	01-05-2019
1236	15380317L	HAV	RAM LAL THAKUR	01-03-2019
1237	15389364K	HAV	RAMESH KUMAR	01-06-2019
1238	15380563W	HAV	RAMOTAR	01-03-2019
1239	15380872Y	HAV	RAMULU A	01-05-2019
1240	15380886Y	HAV	RANAJIT MONDAL	01-05-2019
1241	15388476X	HAV	RANDHAVE SANDIPAN BAPU	01-05-2019
1242	15380419F	HAV	RANJIT ROY	01-03-2019
1243	15380354Y	HAV	RAVI KUMAR	01-03-2019
1244	15389945F	HAV	RAVI S	01-05-2019
1245	15388771A	HAV	RAVINDER KUMAR GOUR	01-07-2019
1246	15380643N	HAV	RAVINDRA KUMAR	01-05-2019
1247	15380598M	HAV	RAVINDRAN PM	01-04-2019
1248	15380531N	HAV	RAVLIA VEJANAND DEVSI	01-03-2019
1249	15380782X	HAV	RITO MISHTRI	01-05-2019
1250	15380265A	HAV	S MUTHU PATTAN	01-03-2019
1251	15380289K	HAV	S RAM BIHARI SHARMA	01-03-2019
1252	15390280H	HAV	S SELVAM	01-07-2019
1253	15380731K	HAV	S SREENIVASAGAN	01-05-2019
1254	15381014H	HAV	S SUNIL KUMAR	01-05-2019
1255	15388646W	HAV	S VELU	01-03-2019
1256	15389804M	HAV	SADANANDA CHANDA	01-05-2019
1257	15389101L	HAV	SADI SIVA PRASAD	01-06-2019
1258	15381216K	HAV	SAGEN GOYARI	01-07-2019
1259	15387430H	HAV	SAHANE ANNARAO BABURAO	01-03-2019
1260	15387845X	HAV	SAJAL MANDAL	01-03-2019
1261	15381293Y	HAV	SAJJU S	01-07-2019
1262	15389737M	HAV	SALOKH GANESH UTTAM	01-05-2019
1263	15388917H	HAV	SALVI JAYDAS PANDURANG	01-05-2019
1264	15380309M	HAV	SANATAN GORAI	01-03-2019
1265	15380895A	HAV	SANATAN KAR	01-05-2019
1266	15388823L	HAV	SANDEEP KUMAR	01-05-2019
1267	15381234M	HAV	SANGEET KUMAR VARMA	01-07-2019
1268	15381285A	HAV	SANJAY BISWAS	01-07-2019
1269	15381073P	HAV	SANJAY KUMAR	01-07-2019
1270	15380365L	HAV	SANJAY KUMAR	01-03-2019
1271	15389482X	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-07-2019

1272	15380423K	HAV	SANJIB KUMAR MISRA	01-03-2019
1273	15381050N	HAV	SANJOY KUMAR SINGH	01-07-2019
1274	15380202L	HAV	SANKAR KUMAR MANDAL	01-07-2019
1275	15387331A	HAV	SANKAR P	01-03-2019
1276	15380498F	HAV	SANNAM SINGH	01-03-2019
1277	15381269H	HAV	SANTOSH KUMAR	01-07-2019
1278	15381053F	HAV	SANTOSHA KUMAR MISHRA	01-07-2019
1279	15380277P	HAV	SARVESH RAM	01-03-2019
1280	15380339K	HAV	SARWAN SINGH	01-03-2019
1281	15380698X	HAV	SARYU PRASAD YADAV	01-05-2019
1282	15381159N	HAV	SAT PAL	01-07-2019
1283	15381075A	HAV	SAT PAL SINGH	01-07-2019
1284	15388339Y	HAV	SATHEESH K R	01-05-2019
1285	15388933A	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2019
1286	15389001A	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2019
1287	15381271A	HAV	SAVIR SINGH	01-07-2019
1288	15384713Y	HAV	SHAIK ASHARFALI HAIDARALI	01-06-2019
1289	15380661W	HAV	SHALUKAR SANJAY KUMAR GOVIND	01-03-2019
1290	15380667X	HAV	SHAMBHU NATH	01-03-2019
1291	15380434W	HAV	SHASHADHAR DHANI	01-03-2019
1292	15380883L	HAV	SHEIKH SHAKIL SHEIKH SULEMAN	01-05-2019
1293	15380397N	HAV	SHEO KUMAR DUBEY	01-03-2019
1294	15381319H	HAV	SHEO PRASAD PAL	01-08-2019
1295	15388881P	HAV	SHEVALE AVINDASH VILAS	01-06-2019
1296	15388724H	HAV	SHIV PRATAP	01-05-2019
1297	15380988P	HAV	SHRIKANTA DEVIDI	01-05-2019
1298	15389834K	HAV	SHRIMANT MALGOUDANAVAR	01-05-2019
1299	15388116F	HAV	SHYAM SUNDAR	01-03-2019
1300	15380611L	HAV	SHYAMAL CHANDRA SANTRA	01-04-2019
1301	15387958A	HAV	SHYJU VK	01-04-2019
1302	15389711X	HAV	SIVAKUMAR A	01-08-2019
1303	15387831X	HAV	SONWANE SANJAY NAMDEO	01-04-2019
1304	15389928F	HAV	SREEJITH C	01-05-2019
1305	15389452A	HAV	SUBASH CHAND	01-07-2019
1306	15380536M	HAV	SUBHASH RANJAN ROY	01-03-2019
1307	15381224H	HAV	SUBODH G	01-07-2019
1308	15380935W	HAV	SUDAMA PRASAD SHARMA	01-05-2019
1309	15380552K	HAV	SUDARSHAN SINGH	01-03-2019
1310	15388420L	HAV	SUDHANSHUSEKHAR JANA	01-03-2019
1311	15382914Y	HAV	SUDIP DHAR	01-03-2019
1312	15386767Y	HAV	SUJIT TALUKDAR	01-02-2019
1313	15388430P	HAV	SUKANTA PAUL	01-03-2019
1314	15387045Y	HAV	SUMER SINGH	01-02-2019
1315	15380441M	HAV	SUNEEL KUMAR VAGMAR	01-03-2019
1316	15380765X	HAV	SUNIL KUMAR	01-05-2019
1317	15380695K	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-05-2019
1318	15381317X	HAV	SURAJ BALI YADAW	01-08-2019
1319	15380442P	HAV	SUREN SINHA	01-03-2019

1320	15387433W	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2019
1321	15389333K	HAV	SURESH CHAND	01-05-2019
1322	15388870H	HAV	SURYAWANSHI KRISHNAT RAMCHANDRA	01-06-2019
1323	15380713F	HAV	SUSHIL KUMAR	01-05-2019
1324	15381025P	HAV	SUSHIL KUMAR	01-05-2019
1325	15380900A	HAV	SWAPAN KUMAR SARKAR	01-05-2019
1326	15387160Y	HAV	T DENNISON	01-03-2019
1327	15387145K	HAV	T MONI	01-03-2019
1328	15388754A	HAV	T THIRUPPATHI	01-05-2019
1329	15390181A	HAV	THAKUR HARGYAN LAL SINGH	01-07-2019
1330	15387902N	HAV	THIRUPATHATAH BANDARU	01-03-2019
1331	1538320X	HAV	UDAI PRATAP SINGH	01-08-2019
1332	15380723L	HAV	UDAI RAJ VARMA	01-05-2019
1333	15380757Y	HAV	UDAIVIR SINGH	01-05-2019
1334	15389962F	HAV	UDAYA KUMAR V	01-05-2019
1335	15380670X	HAV	UMED SINGH	01-03-2019
1336	15390307P	HAV	UMESH KUMAR PANDIT	01-07-2019
1337	15389478P	HAV	UMESH KUMAR PATIL	01-07-2019
1338	15380982N	HAV	UMESH KUMAR SHARMA	01-05-2019
1339	15380983W	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-05-2019
1340	15387778X	HAV	UMESH R	01-03-2019
1341	15380247X	HAV	UMESH RAY	01-03-2019
1342	15380601F	HAV	UNNIKRISHNAN T	01-04-2019
1343	15388411K	HAV	UTTAM KUMAR NANDI	01-03-2019
1344	15380704A	HAV	V AKILANDAM	01-03-2019
1345	15380332A	HAV	V BINOY	01-03-2019
1346	15380840W	HAV	V CHANDIRARASU	01-05-2019
1347	15386984P	HAV	V GURUSAMY	01-03-2019
1348	15388853H	HAV	V KRISHNAMURTHY	01-05-2019
1349	15380250X	HAV	V SURESH KUMAR	01-03-2019
1350	15380389P	HAV	VAITHIYA NATHAN G	01-03-2019
1351	15380709Y	HAV	VEERAMARUTHU PANDI A	01-03-2019
1352	15381095N	HAV	VELMURUGAN L	01-07-2019
1353	15387910M	HAV	VENKATESH A	01-03-2019
1354	15390325X	HAV	VENUGOPALAN S	01-07-2019
1355	15380917N	HAV	VIJAY KUMAR	01-05-2019
1356	15380467F	HAV	VIJAY KUMAR	01-03-2019
1357	15381175L	HAV	VIJAY KUMAR MISHRA	01-07-2019
1358	15380279A	HAV	VIJAY PAL	01-03-2019
1359	15381116Y	HAV	VIJAY SINGH	01-03-2019
1360	15381294F	HAV	VIJAYA KUMAR K	01-07-2019
1361	15380475A	HAV	VIKAS	01-03-2019
1362	15389084W	HAV	VINAY KUMAR VERMA	01-06-2019
1363	15387271W	HAV	VINAY SHANKAR MISHRA	01-03-2019
1364	15388084K	HAV	VINAYA KUMAR AWASTHI	01-03-2019
1365	15380261K	HAV	VINEESH J	01-03-2019
1366	15387703A	HAV	VINOD KUMAR PC	01-03-2019
1367	15381163W	HAV	VINOD KUMAR VERMA	01-07-2019

1368	15380615F	HAV	VINOD PM	01-05-2019
1369	15389920P	HAV	VIRENDRA PRASAD	01-05-2019
1370	15380808F	HAV	VIRENDRA YADAVA	01-05-2019
1371	15380576N	HAV	VISHWANATH	01-03-2019
1372	15381301M	HAV	VV SUBHA PRAKASH	01-07-2019
1373	15380568P	HAV	WABLE KUNDLIK BHIKOB	01-03-2019
1374	15388473K	HAV	WAGH RANGNATH RAGHOJI	01-05-2019
1375	15388937W	HAV	WAGH SHARAD ARJUN	01-05-2019
1376	15390341P	HAV	YADAV HARI UMRAO	01-07-2019
1377	15388158N	HAV	YELLAIAH CHADA	01-05-2019
1378	15380585P	HAV	YOGENDRA KUMAR PANDIT	01-03-2019

THE BRIGADE OF GUARDS

1379	13695773A	HAV	ACHHE LAL	01-05-2019
1380	13693331H	HAV	AKHILESH KUMAR	01-08-2019
1381	13695672M	HAV	ANSHUMAN SHARMA	01-05-2019
1382	13695415P	HAV	ARUP HAZARIKA	01-03-2019
1383	13695759N	HAV	ASHOK KUMAR	01-05-2019
1384	13695546A	HAV	BABU D	01-05-2019
1385	13695568Y	HAV	BHAG SINGH TOMER	01-05-2019
1386	13693185N	HAV	BRIJ LAL	01-05-2019
1387	13695416X	HAV	CHAUHAN PRATAP SINH NATVAR SINH	01-03-2019
1388	13695796F	HAV	ESHAK ALI	01-05-2019
1389	13695403A	HAV	GANPAT RAM	01-03-2019
1390	13695957Y	HAV	GITESH KUMAR	01-08-2019
1391	13695458K	HAV	GURU PRASAD MOURYA	01-03-2019
1392	13693196A	HAV	HARI OM SHARMA	01-07-2019
1393	13695436L	HAV	HIRANYA ROY	01-03-2019
1394	13695330Y	HAV	JAGVIR SINGH	01-03-2019
1395	13695395M	HAV	JARNAIL SINGH	01-03-2019
1396	13695595H	HAV	JEEVAN SINGH	01-05-2019
1397	13695374W	HAV	JITENDER SINGH	01-03-2019
1398	13695587K	HAV	KANHAIYA RAI	01-05-2019
1399	13695601L	HAV	KARAN SINGH SHEKHAWAT	01-05-2019
1400	13693435K	HAV	KATHERA GANDLA CHALAMAIAH	01-07-2019
1401	13695310L	HAV	KESHAB SINGH	01-03-2019
1402	13695867X	HAV	LILU RAM	01-07-2019
1403	13693277A	HAV	M BIROMOHAN SINGHA	01-07-2019
1404	13695446P	HAV	MANAB GOGOI	01-03-2019
1405	13695313Y	HAV	MANJEET SINGH	01-03-2019
1406	13695307L	HAV	MUNNESH KUMAR	01-03-2019
1407	13695733Y	HAV	MUNNI LAL RATHORE	01-05-2019
1408	13695576X	HAV	MUTHUVEERAN S	01-05-2019
1409	13695648W	HAV	NARENDRA KUMAR PATEL	01-05-2019
1410	13695419L	HAV	PANDAGALE SANJAY NAMDEORAO	01-03-2019
1411	13695387N	HAV	PARMAR DINESH KUMAR PAUL BHAI	01-03-2019
1412	13695917X	HAV	PRABHASH KUMAR	01-07-2019
1413	13695572F	HAV	RAGHVENDRA SINGH	01-05-2019

1414	13695537Y	HAV	RAJESH KUMAR	01-04-2019
1415	13695665W	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
1416	13695554Y	HAV	RAJESH SINGH	01-05-2019
1417	13695359F	HAV	RAJESH SINGH	01-03-2019
1418	13695644A	HAV	RAJIV SINGH	01-05-2019
1419	13695575P	HAV	RAKESH KUMAR	01-05-2019
1420	13695769X	HAV	RAMENDRA PAL SINGH	01-05-2019
1421	13695483H	HAV	RAMESHWAR LAL	01-03-2019
1422	13695856L	HAV	RANJAN MECH	01-06-2019
1423	13695550H	HAV	SAJEEV T	01-05-2019
1424	13695606K	HAV	SHAJI K	01-05-2019
1425	13695643X	HAV	SHIV KUMAR	01-05-2019
1426	13695580A	HAV	SUBASH CHANDER	01-05-2019
1427	13695360W	HAV	SUKRAM PAL	01-03-2019
1428	13695509M	HAV	SUNIL KUMAR	01-04-2019
1429	13695823A	HAV	SURANDER KUMAR SANEI	01-05-2019
1430	13693192K	HAV	SURESH P B	01-07-2019
1431	13693212M	HAV	SURESH V	01-07-2019
1432	13695552N	HAV	TARSEM LAL	01-05-2019
1433	13693335Y	HAV	VIJAY KUMAR	01-08-2019

THE PARACHUTE REGIMENT

1434	13620822W	HAV	AMRIK SINGH	01-08-2019
1435	13620631F	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2019
1436	13620730K	HAV	ATAL VEHARI	01-05-2019
1437	9096959M	HAV	BALBINDER SINGH	01-08-2019
1438	13620632K	HAV	BASANT BALLABH	01-03-2019
1439	4364140L	HAV	BHOGMAN KARDONG	01-05-2019
1440	13620802H	HAV	CHAUDHARY BHARATBHAI RAMABHAI	01-07-2019
1441	13619486H	HAV	DALIP SINGH NIRWA	01-03-2019
1442	13620697X	HAV	DEVI SINGH TANWER	01-03-2019
1443	3994894W	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-07-2019
1444	13619449P	HAV	DIPENDRA SINGH	01-03-2019
1445	2890617H	HAV	GHANSHYAM SINGH TOMAR	01-05-2019
1446	13619475W	HAV	H SOM NATH RAO	01-03-2019
1447	13619521A	HAV	HARI PRASAD	01-05-2019
1448	13620747X	HAV	HARPREET SINGH	01-05-2019
1449	2994084X	HAV	IND RAJ	01-07-2019
1450	5453023L	HAV	JANG BAHADUR UCHA	01-04-2019
1451	13619467X	HAV	K GURUNATHAN	01-03-2019
1452	13619589F	HAV	KUNJA BIHARI NAYA	01-07-2019
1453	13619473L	HAV	MANOJ PRASAD ARYA	01-03-2019
1454	13619499A	HAV	MULAKH RAJ	01-05-2019
1455	5754236K	HAV	PANKAJ	01-05-2019
1456	2791947Y	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
1457	13619489W	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
1458	13619543Y	HAV	PRAKASH CHAND	01-05-2019
1459	13619596X	HAV	PURUSOTTAM SAHOO	01-07-2019

1460	13619488N	HAV	RAM KUMAR	01-03-2019
1461	13620639N	HAV	RANJIT SINGH	01-03-2019
1462	13619575F	HAV	RE DORJI SHERPA	01-07-2019
1463	13759142F	HAV	SANJAY KUMAR	01-07-2019
1464	13619538N	HAV	SANTOSH KUMAR YAD	01-05-2019
1465	13620605A	HAV	SARBJIT SINGH	01-02-2019
1466	13620774F	HAV	SHINDE ANNASO DIGAMBAR	01-06-2019
1467	13620687N	HAV	SHIV VIR SINGH TO	01-03-2019
1468	13620671H	HAV	SUBHAKANTA DASH	01-03-2019
1469	13620653A	HAV	SURINDER SINGH	01-03-2019
1470	13620654H	HAV	SURINDER SINGH	01-03-2019
1471	13620648P	HAV	TRIPATI ACHARY	01-03-2019
1472	13620769W	HAV	VIKRAM SINGH	01-05-2019

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

1473	14920776F	HAV	AJAY KUMAR JHA	01-03-2019
1474	14920899N	HAV	AKKAPPA CHANDRAPPA MANAGANVI	01-05-2019
1475	14921200W	HAV	ALEX NAYAGAM M	01-07-2019
1476	14921324L	HAV	ALEX P THOMAS	01-07-2019
1477	14922235Y	HAV	AMARDIP SINGH	01-08-2019
1478	14922000M	HAV	ARUN KUMAR RAI	01-08-2019
1479	14920943M	HAV	ASHOK KUMAR	01-05-2019
1480	14921992F	HAV	BABU RAM	01-08-2019
1481	14920921N	HAV	BALU RAM DHAKER	01-05-2019
1482	14921008M	HAV	BASKARAN S	01-07-2019
1483	14921252M	HAV	BHABHOR BHIMA BHAI DITA BHAI	01-08-2019
1484	14922027K	HAV	BHAIRU MAL	01-08-2019
1485	14920790N	HAV	BHANDE SANTOSH RAMRAO	01-04-2019
1486	14921240X	HAV	BHARAT CH BARO	01-07-2019
1487	14921250F	HAV	BHURIYA MALSINH KIDIYABHAI	01-08-2019
1488	14921967H	HAV	BIJIT SUKLA BAIDYA	01-08-2019
1489	14922167W	HAV	BIJU G	01-08-2019
1490	14922177A	HAV	BIRENDRA SINGH	01-08-2019
1491	14921197F	HAV	BRIJ NANDAN RAM	01-07-2019
1492	14920694Y	HAV	CHAUHAN ASHOK KUMAR NA	01-03-2019
1493	14918774X	HAV	CHHOTE LAL	01-07-2019
1494	14921438W	HAV	DAMAR BAHADUR GURUNG	01-07-2019
1495	14918874H	HAV	DESH RAJ	01-08-2019
1496	14920779P	HAV	DEVENDRA RAI	01-03-2019
1497	14921422L	HAV	DHARMENDAR SINGH	01-07-2019
1498	14920814M	HAV	DHARMENDRA SINGH BHADORIA	01-04-2019
1499	14921450X	HAV	DHIRAJ KUMAR CHHETRY	01-07-2019
1500	14921350M	HAV	DILBAGH SINGH	01-07-2019
1501	14921097W	HAV	DINESH CHANDRA	01-07-2019
1502	14922231H	HAV	DIWAN SINGH	01-08-2019
1503	14921297M	HAV	DORI SINGH	01-07-2019
1504	14921199M	HAV	GEORGE N	01-07-2019
1505	14918682L	HAV	GOPAL JI RAI	01-04-2019

1506	14921445M	HAV	GOVIND SINGH	01-07-2019
1507	14921935A	HAV	GURMUKH SINGH	01-08-2019
1508	14920722A	HAV	HARAGE ASHOK KHANDU	01-03-2019
1509	14918710M	HAV	HARDEEP SINGH	01-06-2019
1510	14922039Y	HAV	HARI DARSHAN SRIVASTAVA	01-08-2019
1511	14920673H	HAV	HARI KUMAR THAPA	01-02-2019
1512	14921307L	HAV	JAGBIR SINGH	01-07-2019
1513	14920810W	HAV	JAGMAL SINGH	01-04-2019
1514	14921299X	HAV	JAI NATH SINGH	01-07-2019
1515	14920903L	HAV	JANAM VIR SINGH	01-05-2019
1516	14921346K	HAV	K PRAGALATHAN	01-07-2019
1517	14918761A	HAV	KALI CHARAN	01-07-2019
1518	14921955N	HAV	KALI DASS	01-08-2019
1519	14918599N	HAV	KALI DASS	01-04-2019
1520	14920642H	HAV	KARNE RAMCHANDRA DINAKAR	01-02-2019
1521	14918574F	HAV	KE RAMAN	01-02-2019
1522	14921441W	HAV	KESHAR SINGH GURUNG	01-07-2019
1523	14921419L	HAV	KHEM BAHADUR THAPA	01-07-2019
1524	14918561K	HAV	LAKHAN LAL	01-03-2019
1525	14921157A	HAV	LEKHA RAJ	01-07-2019
1526	14918668Y	HAV	M SIVANNARAYANA	01-04-2019
1527	14918619W	HAV	MAHABEER	01-05-2019
1528	14920831M	HAV	MAHANANDA PATHAK	01-04-2019
1529	14918641F	HAV	MAKHAN CH JANA	01-05-2019
1530	14920665K	HAV	MAM RAJ SINGH	01-02-2019
1531	14920826F	HAV	MAN BAHADUR THAPA	01-04-2019
1532	14922157M	HAV	MANOHAR SINGH	01-08-2019
1533	14921383X	HAV	MANOJ KUMAR	01-07-2019
1534	14921923L	HAV	MANOJ KUMAR	01-08-2019
1535	14918692P	HAV	MUKESH CHANDRA	01-06-2019
1536	14921206X	HAV	N MURUKESON	01-07-2019
1537	14920821H	HAV	NAGESHWAR	01-04-2019
1538	14920637X	HAV	NAIKWADE BHAUSAHEB RAKHAMAJI	01-02-2019
1539	14920934L	HAV	NAND SINGH	01-05-2019
1540	14920768H	HAV	NANDAN TIGGA	01-03-2019
1541	14918771K	HAV	NARESH YADAV	01-07-2019
1542	14918558K	HAV	NASIB ALI	01-03-2019
1543	14918666N	HAV	NEEL KANTH	01-04-2019
1544	14921931K	HAV	OM PRAKASH	01-08-2019
1545	14922034A	HAV	OMVEER SINGH	01-08-2019
1546	14918990L	HAV	PAN SINGH	01-04-2019
1547	14920872W	HAV	PARMAR RAVINDER BHAI RANJIT BHAI	01-05-2019
1548	14920746K	HAV	PRADIPTA KISHOR LENKA	01-03-2019
1549	14921045A	HAV	PRAVEENA B	01-07-2019
1550	14921141P	HAV	PURNA CHANDRA GAUDA	01-07-2019
1551	14922058K	HAV	PURNA CHANDRA SAHU	01-08-2019
1552	14920895X	HAV	PUSHPENDRA KUMAR	01-05-2019
1553	14920834A	HAV	RADHE SAYAM GURJAR	01-04-2019

1554	14920671X	HAV	RAJEEV KUMAR	01-02-2019
1555	14920764M	HAV	RAJENDRA SHARMA	01-03-2019
1556	14920657L	HAV	RAJENDRA SINGH	01-05-2019
1557	14920956K	HAV	RAKESH SINGH RAJPOOT	01-05-2019
1558	14921081L	HAV	RAM KISHORE	01-07-2019
1559	14922074F	HAV	RAM PAL SINGH DIWAKAR	01-08-2019
1560	14922106Y	HAV	RAMA SHANKAR BHARATI	01-08-2019
1561	14921188A	HAV	RAMDHAN THOKDAR	01-07-2019
1562	14920749X	HAV	REVANASIDDAPPA K	01-03-2019
1563	14921208H	HAV	RISHIKESH MUKHERJEE	01-07-2019
1564	14921203K	HAV	SANJEEV KUMAR SINGH	01-07-2019
1565	14922013K	HAV	SANWAR SINGH	01-08-2019
1566	14920947H	HAV	SAROJ KUMAR THAKUR	01-05-2019
1567	14921086K	HAV	SARVESH CHANDRA	01-07-2019
1568	14922194A	HAV	SHANKAR LAL	01-08-2019
1569	14921328F	HAV	SHRI CHAND	01-07-2019
1570	14921236P	HAV	SRI KHITISH PATAR	01-07-2019
1571	14921234K	HAV	SRI NIRMAL CHANDRA BORA	01-07-2019
1572	14921982X	HAV	SUJAN SINGH	01-08-2019
1573	14918677A	HAV	SUNIL PRATAP SINGH	01-04-2019
1574	14921336A	HAV	SURENDRA SINGH	01-07-2019
1575	14920274Y	HAV	SURESH CHANDRA	01-08-2019
1576	14922011Y	HAV	SURESH SINGH	01-08-2019
1577	14921283M	HAV	SWAMI NATH MISHRA	01-07-2019
1578	14918791X	HAV	TULA RAM PAL	01-05-2019
1579	14921444K	HAV	VINOD KUMAR	01-07-2019
1580	14921986N	HAV	VINOD KUMAR	01-08-2019
1581	14920958P	HAV	VIRENDRA SING CHAUHAN	01-05-2019
1582	14921403A	HAV	VISHNU SINGH TANWAR	01-07-2019
1583	14921366X	HAV	YASH PAL	01-07-2019

THE PUNJAB REGIMENT

1584	2484181Y	HAV	ABDUL AZIZ	01-03-2019
1585	2484338N	HAV	AJEET KUMAR	01-07-2019
1586	2486477W	HAV	AJEET SINGH	01-02-2019
1587	2486909A	HAV	AMAR SINGH	01-07-2019
1588	2486872K	HAV	AMARJEET SINGH	01-07-2019
1589	2486481Y	HAV	ARUN KUMAR	01-02-2019
1590	2484283P	HAV	BALBIR SINGH	01-06-2019
1591	2486850L	HAV	BALBIR SINGH	01-07-2019
1592	2486554A	HAV	BALRAJ SINGH	01-03-2019
1593	2486521P	HAV	BHAJAN SINGH	01-03-2019
1594	2486541H	HAV	BISHAN SINGH	01-03-2019
1595	2484234M	HAV	CHARANJIT SINGH	01-05-2019
1596	2486709K	HAV	DALBIR SINGH	01-05-2019
1597	2486482F	HAV	DAVINDER SINGH	01-02-2019
1598	2486754W	HAV	DEV SINGH	01-05-2019
1599	2484245Y	HAV	DHARAM DUTT	01-05-2019

1600	2484260N	HAV	DILIP KUMAR	01-05-2019
1601	2484333P	HAV	DUNI CHAND	01-07-2019
1602	2486597P	HAV	GAGAN SINGH	01-03-2019
1603	2486767N	HAV	GOPAL KRISHAN	01-05-2019
1604	2486922K	HAV	GOPI RAM	01-07-2019
1605	2486468P	HAV	GURBAX SINGH	01-02-2019
1606	2486472X	HAV	GURDIAL SINGH	01-02-2019
1607	2486700P	HAV	GURNAM SINGH	01-05-2019
1608	2484320X	HAV	HANS RAJ	01-07-2019
1609	2484155X	HAV	HARNAM SINGH	01-02-2019
1610	2484162N	HAV	HEM CHAND	01-03-2019
1611	2484153M	HAV	JAGDISH RAJ	01-02-2019
1612	2486828A	HAV	JAGDISH SINGH	01-06-2019
1613	2484284X	HAV	JAGJIT SINGH	01-06-2019
1614	2486820N	HAV	JAI PARKASH	01-06-2019
1615	2484261W	HAV	JANAK SINGH	01-05-2019
1616	2486960A	HAV	JARNAIL SINGH	01-07-2019
1617	2484186X	HAV	KALIKA PRASAD	01-04-2019
1618	2486913H	HAV	KANHAIA LAL	01-07-2019
1619	2484356W	HAV	KARAM CHAND	01-07-2019
1620	2486761M	HAV	KULDEEP SINGH	01-05-2019
1621	2486771W	HAV	KULDEEP SINGH PARMAR	01-05-2019
1622	2486505X	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-03-2019
1623	2484269H	HAV	MADAN PRADHAN	01-05-2019
1624	2486740W	HAV	MANJIT SINGH	01-05-2019
1625	2484372N	HAV	MEHAR SINGH THAKUR	01-07-2019
1626	2486743K	HAV	MOHINDER LAL	01-05-2019
1627	2486710Y	HAV	MOHINDER SINGH	01-05-2019
1628	2486941P	HAV	MUKESH PRASHAR	01-07-2019
1629	2484296M	HAV	NEEL KUMAR	01-06-2019
1630	2484111A	HAV	PALADUGU GANESH	01-02-2019
1631	2486614K	HAV	PARAM DEV THAKUR	01-03-2019
1632	2486623L	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
1633	2486467M	HAV	PAWAN KUMAR VERMA	01-02-2019
1634	2486906M	HAV	PREM CHAND	01-07-2019
1635	2486626Y	HAV	PURAN CHAND	01-03-2019
1636	2486522X	HAV	QIMITI LAL	01-03-2019
1637	2484334X	HAV	RAJESH KUMAR	01-07-2019
1638	2486628K	HAV	RAM SINGH	01-03-2019
1639	2484263F	HAV	RANDHEER KUMAR	01-05-2019
1640	2486751H	HAV	RAVI KUMAR	01-05-2019
1641	2486702A	HAV	RAVINDER KUMAR	01-05-2019
1642	2486688Y	HAV	RESHAM SINGH	01-05-2019
1643	2486712K	HAV	RESHAM SINGH	01-05-2019
1644	2486724Y	HAV	SANJAY KUMAR	01-05-2019
1645	2484331K	HAV	SANJEEV KUMAR	01-07-2019
1646	2484191H	HAV	SARJU PRASAD	01-04-2019
1647	2486629M	HAV	SATENDER DUTT	01-03-2019

1648	2486596M	HAV	SATISH KUMAR	01-03-2019
1649	2486868F	HAV	SATNAM SINGH	01-07-2019
1650	2484156A	HAV	SATVIR SINGH	01-02-2019
1651	2485041Y	HAV	SHAMBHOO SINGH YADAV	01-02-2019
1652	2484392F	HAV	SHYAM KISHOR KUMAR	01-07-2019
1653	2486795A	HAV	SOHAN LAL	01-06-2019
1654	2486923M	HAV	SUDHEER SINGH	01-07-2019
1655	2486792M	HAV	SUKHDEV SINGH	01-06-2019
1656	2486665X	HAV	SUKHVIR SINGH	01-05-2019
1657	2486794X	HAV	SURESH KUMAR	01-06-2019
1658	2484167M	HAV	TARSEM LAL	01-03-2019
1659	2486822Y	HAV	UTTAM SINGH	01-06-2019
1660	2484881M	HAV	VIJAY KUMAR	01-04-2019
1661	2486524H	HAV	VIKRAM SINGH	01-03-2019

THE MADRAS REGIMENT

1662	2599142M	HAV	A CHINNADURAI	01-07-2019
1663	2598834P	HAV	A THIAGARAJAN	01-03-2019
1664	2598965A	HAV	A YESUDASS	01-05-2019
1665	2598899H	HAV	ABEYMON K	01-05-2019
1666	2598839N	HAV	AJEESH BABU R	01-03-2019
1667	2598859F	HAV	ANIL KUMAR B	01-04-2019
1668	2598857W	HAV	ASHOK KUMAR	01-04-2019
1669	2597267L	HAV	B KRISHNAMURTHY	01-05-2019
1670	2599086Y	HAV	BABU RAO NOOKA	01-07-2019
1671	2598997H	HAV	BABURAV DALAVI	01-05-2019
1672	2598873N	HAV	BIJU M VARGHESE	01-05-2019
1673	2599036N	HAV	BINANDA BAISHYA	01-05-2019
1674	2598921H	HAV	BINUMON K JOSEPH	01-05-2019
1675	2596734L	HAV	C JYOTHISH	01-03-2019
1676	2599078A	HAV	C MARIA AROCKIADAS	01-07-2019
1677	2598749M	HAV	C SUBRAMANIAN	01-03-2019
1678	2598985N	HAV	DHAPADE HEMCHAND SHRIRAM	01-05-2019
1679	2597180K	HAV	DINESAN K	01-06-2019
1680	2598910W	HAV	DOSS I	01-05-2019
1681	2599111M	HAV	E DEVARAJ	01-07-2019
1682	2596676M	HAV	FAKEERAPPA CHACHADI	01-03-2019
1683	2598840H	HAV	FAKERPPA GUNDLOOR	01-03-2019
1684	2596994W	HAV	G BHUPATHI NAIDU	01-07-2019
1685	2598888W	HAV	GANGADHARA CHELLU BOINA	01-05-2019
1686	2599071W	HAV	GOPAKUMAR NS	01-06-2019
1687	2596928N	HAV	HARISHA KM	01-05-2019
1688	2598755A	HAV	HATHILA RATANSINH KALUBHAI	01-03-2019
1689	2598943F	HAV	HIMAM KAIK SHAIK	01-05-2019
1690	2596952K	HAV	JAYACHANDRAN B	01-07-2019
1691	2597951N	HAV	JOHN KENNEDY P	01-07-2019
1692	2599003H	HAV	K ANBALAGAN	01-05-2019
1693	2599124K	HAV	K CHAKKARAVARTHY	01-07-2019

1694	2598891W	HAV	K PADMARAJ	01-05-2019
1695	2598970L	HAV	KARAM CHAND	01-05-2019
1696	2599115H	HAV	KRISHNAMOORTHY	01-07-2019
1697	2599105Y	HAV	KUMARESAN R	01-07-2019
1698	2599073F	HAV	M MANICKAM	01-07-2019
1699	2598934A	HAV	M PALPANDI	01-05-2019
1700	2598711H	HAV	M SEENU	01-03-2019
1701	2598768X	HAV	M VENKATA KRISHNA REDDY	01-03-2019
1702	2598779K	HAV	MAHANTESH ANGADI	01-03-2019
1703	2598763Y	HAV	MALLA MURALEEDHARA RAO	01-03-2019
1704	25968951W	HAV	MANJUNATHA S	01-05-2019
1705	2599118W	HAV	MANOJ K	01-07-2019
1706	2599141K	HAV	MARUTHA CHALAM V P	01-07-2019
1707	2598913K	HAV	MOHAN B	01-05-2019
1708	2598907W	HAV	MUNI SAMY L	01-05-2019
1709	2598931M	HAV	MUNIRATHNAM G	01-05-2019
1710	2598259Y	HAV	MURLI	01-07-2019
1711	2598705P	HAV	N JAYA KUMAR ANDREWS	01-03-2019
1712	2599031P	HAV	NAGAPPA KOTAGI	01-05-2019
1713	2598693L	HAV	NAGARAJAN S	01-03-2019
1714	2598781F	HAV	NARENDRA NAIK	01-03-2019
1715	2598680N	HAV	NAVASUDEEN S	01-02-2019
1716	2599004L	HAV	P CHENRAYAN	01-05-2019
1717	2598744N	HAV	P KANNAN	01-03-2019
1718	2598964X	HAV	P SEKAR	01-05-2019
1719	2598967L	HAV	PACHAIYAPPAN N	01-05-2019
1720	2599168F	HAV	PREMVEER SINGH	01-08-2019
1721	2598853A	HAV	PYARE LAL	01-03-2019
1722	2597034K	HAV	R ANIL KUMAR	01-05-2019
1723	2598742H	HAV	R SELVAKUMAR	01-03-2019
1724	2599087F	HAV	RADHA KRISHNAN K	01-07-2019
1725	2598961K	HAV	RAJAN BABU K	01-05-2019
1726	2596798W	HAV	RAJESH U	01-05-2019
1727	2596731X	HAV	RAM SANTOSH SINGH	01-03-2019
1728	2598775N	HAV	RAMESH BABU KANDULA	01-03-2019
1729	2598945M	HAV	RAVI KUMAR GURUGUBELLI	01-05-2019
1730	2598685M	HAV	RAVICHANDRAN K	01-03-2019
1731	2598894K	HAV	RAVIKUMAR GUNDLUR	01-05-2019
1732	2598118K	HAV	S OHMPRAKASH	01-06-2019
1733	2598734K	HAV	S RAJVEL PANDIAN	01-03-2019
1734	2596900N	HAV	SADASIVA PUJERI	01-05-2019
1735	2599079H	HAV	SADESH CM	01-07-2019
1736	2598743L	HAV	SADHEESH KUMAR P	01-03-2019
1737	2598753P	HAV	SAMINATHAN K	01-03-2019
1738	2598861Y	HAV	SANTHOSH KUMAR S	01-04-2019
1739	2598949H	HAV	SATHEESH KUMAR BYPALLI	01-05-2019
1740	2599132H	HAV	SELVAKUMAR N	01-07-2019
1741	2598068K	HAV	SHAILENDRA KUMAR SHARMA	01-04-2019

1742	2598795F	HAV	SHRISAIL BAJENTRI	01-03-2019
1743	2599161X	HAV	SHYAM SUNDAR NETHANI	01-07-2019
1744	2598679Y	HAV	SREEJITH GANGADHARAN	01-02-2019
1745	2598776W	HAV	SRINIVASU NIMMALURI	01-03-2019
1746	2598860W	HAV	SURESH KRISHNA K	01-04-2019
1747	2598739H	HAV	SURESH KUMAR G V	01-03-2019
1748	2596761P	HAV	SURESH PETER	01-03-2019
1749	2598999N	HAV	T MAHENDRAN	01-05-2019
1750	2598691A	HAV	T SUNDARA RAJ	01-03-2019
1751	2598100N	HAV	TAHJUB ALI	01-06-2019
1752	2599162A	HAV	UPEN CHANDRA RAY	01-07-2019
1753	2598686P	HAV	V RAVI	01-03-2019
1754	2598928M	HAV	VARDHAMAN BHAVI	01-05-2019
1755	2598751K	HAV	VENKATESAN E	01-03-2019
1756	2596687Y	HAV	VUNDRALA RAMULU	01-03-2019
1757	2598841L	HAV	WANWE PRADIP SHIOPAL	01-03-2019
1758	2598726L	HAV	WILSON THOMAS	01-03-2019

THE GRENADIERS

1759	2688000K	HAV	ABDUL GAFFAR	01-03-2019
1760	2687784K	HAV	AHMADULLAH KHAN	01-02-2019
1761	2688328L	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-05-2019
1762	2688080M	HAV	AJIT KUMAR	01-03-2019
1763	2688111F	HAV	AMAR SINGH	01-03-2019
1764	2688239M	HAV	ANIL KUMAR	01-04-2019
1765	2687893W	HAV	ANIL KUMAR	01-02-2019
1766	2688317Y	HAV	ANIL KUMAR	01-05-2019
1767	2687934P	HAV	ANTAR LAL SINGH	01-02-2019
1768	2687804M	HAV	ARAVINDRA SINGH	01-02-2019
1769	2688260P	HAV	ARVIND KUMAR	01-05-2019
1770	2687861N	HAV	AWADHESH SINGH	01-02-2019
1771	2688181A	HAV	BABU LAL	01-03-2019
1772	2687969L	HAV	BALWANT SINGH	01-03-2019
1773	2688052A	HAV	BHAGAT RAM	01-03-2019
1774	2687964M	HAV	BHAJAN SINGH	01-03-2019
1775	2688356X	HAV	BHANWAR SINGH	01-05-2019
1776	2687799M	HAV	BHARAT SINGH MEENA	01-02-2019
1777	2685682P	HAV	BIJENDER SINGH	01-05-2019
1778	2687824A	HAV	BINAY PRATAP SINGH	01-02-2019
1779	2687894Y	HAV	CHANAN SINGH	01-02-2019
1780	2687883M	HAV	CHANDER HANS	01-02-2019
1781	2688157K	HAV	DEELIP RATI RAM HATWAR	01-03-2019
1782	2688349F	HAV	DEEP RAJ	01-05-2019
1783	2688207K	HAV	DELSHER	01-03-2019
1784	2685649X	HAV	DENIS PETER	01-03-2019
1785	2688059K	HAV	DEVENDER KUMAR	01-03-2019
1786	2687820K	HAV	DEVI SINGH	01-02-2019
1787	2688158M	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-03-2019

1788	2688069N	HAV	DIWAN SINGH	01-03-2019
1789	2687902M	HAV	DURGA SINGH SHEKHAWAT	01-02-2019
1790	2685646K	HAV	DWARIKA PRASAD	01-03-2019
1791	2688013F	HAV	EKRAJ	01-03-2019
1792	2688116A	HAV	GAJAB SINGH	01-03-2019
1793	2688272K	HAV	GHAN SHYAM SINGH	01-05-2019
1794	2688240F	HAV	GOPAL SINGH	01-05-2019
1795	2688119N	HAV	HARI PAL SINGH	01-03-2019
1796	2688108F	HAV	HARNAM SINGH	01-03-2019
1797	13620692Y	HAV	JAI PAL SINGH CHAUHAN	01-03-2019
1798	2687871X	HAV	JAI PARKASH	01-02-2019
1799	2688579P	HAV	JITU KHAN	01-07-2019
1800	2687812L	HAV	KANHAYA LAL	01-02-2019
1801	2687875N	HAV	KAPOOR SINGH	01-02-2019
1802	2688275X	HAV	KAPTAN SINGH	01-05-2019
1803	2687972L	HAV	KARTAR CHAND	01-03-2019
1804	2687779Y	HAV	KARTAR SINGH	01-02-2019
1805	2688091Y	HAV	KASHMIR CHAND	01-03-2019
1806	2688190F	HAV	KISHAN SINGH SHEKHAWAT	01-03-2019
1807	2687847F	HAV	KRISHNA MURARI	01-02-2019
1808	2688071L	HAV	KULDEEP RAJ	01-03-2019
1809	2687854X	HAV	KULDEEP SINGH	01-02-2019
1810	2687882K	HAV	LOOMB SINGH	01-02-2019
1811	2687760A	HAV	MADAN LAL	01-02-2019
1812	2687973N	HAV	MAHI PAL	01-03-2019
1813	2688468X	HAV	MAN SINGH	01-05-2019
1814	2688311X	HAV	MANMATHA PROSAD ROY	01-05-2019
1815	2688094M	HAV	MANOJ KUMAR	01-03-2019
1816	2685661Y	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-03-2019
1817	2688153N	HAV	MUKESH KUMAR	01-03-2019
1818	2688227X	HAV	MUKESH KUMAR	01-04-2019
1819	2688301N	HAV	NAI PAL SINGH	01-05-2019
1820	2688142F	HAV	NEERENDRA SINGH TOMAR	01-03-2019
1821	2687857L	HAV	PAHEP SINGH	01-02-2019
1822	2687953A	HAV	PAWAN KUMAR	01-02-2019
1823	2687948P	HAV	PHOOL KANWAR	01-02-2019
1824	2688291P	HAV	PRADIP KUMAR SINGH	01-05-2019
1825	2688139F	HAV	PRAHLAD SINGH RATHORE	01-03-2019
1826	2688336K	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-05-2019
1827	2688081P	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2019
1828	2688009Y	HAV	RAKESH KUMAR KRISHNIA	01-03-2019
1829	2685952Y	HAV	RAM GOVIND	01-07-2019
1830	2687919A	HAV	RAM MURTI	01-02-2019
1831	2685679P	HAV	RAM NARESH	01-05-2019
1832	2687815Y	HAV	RAM RAJ MEENA	01-02-2019
1833	2688150A	HAV	RAMDAS SINGH BHADOURIA	01-03-2019
1834	2688112K	HAV	RAMESH CHANDRA	01-03-2019
1835	2687759L	HAV	RAMESH KUMAR	01-02-2019

1836	2688487H	HAV	RAMRAJ MEENA	01-05-2019
1837	2688269K	HAV	RAMVIR SINGH	01-05-2019
1838	2688100P	HAV	RANA RAJ SINGH	01-03-2019
1839	2687992Y	HAV	RANDHIR KUMAR SINGH	01-03-2019
1840	2688021A	HAV	RANDHIR SINGH SODHA	01-03-2019
1841	2688351Y	HAV	RANJIT SINGH	01-05-2019
1842	2688287M	HAV	RATAM KUMAR SINGH	01-05-2019
1843	2688262A	HAV	RAVI DATT	01-05-2019
1844	2687891L	HAV	RIDH KARAN	01-02-2019
1845	2688171W	HAV	SABOO KATHAT	01-03-2019
1846	2688097A	HAV	SANJEEV CHOUHAN	01-03-2019
1847	2688205Y	HAV	SANJEEV KUMAR	01-03-2019
1848	2688246H	HAV	SATINDER SINGH	01-05-2019
1849	2688019H	HAV	SATISH SINGH	01-03-2019
1850	2688152L	HAV	SATYA NARAYAN	01-03-2019
1851	2688101X	HAV	SHAYAM BALI SINGH	01-03-2019
1852	2687907L	HAV	SHER SINGH	01-02-2019
1853	2688107Y	HAV	SHIV SHANKER SINGH	01-03-2019
1854	2688001M	HAV	SITA RAM	01-03-2019
1855	2687966X	HAV	SOHAN LAL	01-03-2019
1856	2685790Y	HAV	SUBHASH CHANDRA	01-05-2019
1857	2688251N	HAV	SUKHVIR SINGH	01-05-2019
1858	2685644Y	HAV	SURENDER SINGH	01-03-2019
1859	2687832Y	HAV	SURESH PATIAL	01-02-2019
1860	2687944Y	HAV	SURINDER KUMAR	01-02-2019
1861	2688076K	HAV	SURJIT SINGH	01-03-2019
1862	2687810A	HAV	TAHSEEN AHMED	01-02-2019
1863	2688191K	HAV	TARA CHAND KHYALIYA	01-03-2019
1864	2688270Y	HAV	TIKAM SINGH	01-05-2019
1865	2688293A	HAV	TRIBHUWAN SINGH	01-05-2019
1866	2792147M	HAV	UDAYVIR SINGH	01-05-2019
1867	2687945F	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-02-2019
1868	2688005H	HAV	UMESH KUMAR SINGH	01-03-2019
1869	2687998A	HAV	VIJAY KUMAR	01-03-2019
1870	2687965P	HAV	VIJAY KUMAR	01-03-2019
1871	2688148H	HAV	VIJAY SINGH	01-03-2019
1872	2688379Y	HAV	VINOD KUMAR	01-05-2019
1873	2687968H	HAV	VINOD SINGH	01-03-2019
1874	2688325X	HAV	VIPAN KUMAR	01-05-2019
1875	2688082X	HAV	VIRENDER KUMAR	01-03-2019

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

1876	2790416P	HAV	BAGEKARI ANNA RAMCHANDRA	01-04-2019
1877	2792201P	HAV	BASAVARAJ BANNUR	01-05-2019
1878	8033720Y	HAV	BHAGWAN RANGNATH PALVE	01-05-2019
1879	2792069A	HAV	DAHATONDE VASANT RANGANATH	01-05-2019
1880	13620630Y	HAV	DALAVI SANJAY BHANUDAS	01-03-2019
1881	2789754A	HAV	DESHMUKH AJIT KUMAR JAYSHINGRAO	01-05-2019

1882	13759216L	HAV	DEVAKATE BABASAHEB ISHVARA	01-07-2019
1883	2792427A	HAV	DHANE DILIP GANAPATI	01-07-2019
1884	2791839P	HAV	DIGHE RAVSAHEB KARBHARI	01-02-2019
1885	2792368Y	HAV	DUNDAPPA JINDRALI	01-07-2019
1886	2789657H	HAV	ELANGO VAN KC	01-03-2019
1887	2792076W	HAV	GARKAR SANJAY RAMBHAU	01-05-2019
1888	2791846L	HAV	GODHA MASURBHAI GAUTTAMBHAI	01-03-2019
1889	2792139N	HAV	HANAMANT	01-05-2019
1890	2791890P	HAV	INDULKAR SUNIL EKNATH	01-03-2019
1891	4074068P	HAV	INJAL SHAMRAO DADU	01-03-2019
1892	2792218H	HAV	IRAPPA WANI	01-05-2019
1893	2792429L	HAV	JADHAV MAHENDRA VITTHAL	01-07-2019
1894	2792208Y	HAV	JAMBOTKAR NITIN PANDURANG	01-05-2019
1895	2792085X	HAV	JAMBUTKAR SANJAYA KISHANRAO	01-05-2019
1896	2792131F	HAV	JAYARAJAN K	01-05-2019
1897	2791930L	HAV	KAKALI DHONDIRAM BALU	01-03-2019
1898	2792230K	HAV	KALLAPPA CHIPPALAKATTI	01-05-2019
1899	2688040L	HAV	KESAPURI BHASKARA RAO	01-03-2019
1900	2792057L	HAV	KHAIRNAR SAMADHAN CHIMAN	01-05-2019
1901	2792187N	HAV	KOSHTI DIGAMBAR RUDRAPPA	01-05-2019
1902	2789636M	HAV	KOYYA BANGARUCHITTI REDDY	01-03-2019
1903	2792151P	HAV	MAHADEV GUDAGI	01-05-2019
1904	2792374M	HAV	MAHESH KUMAR SINGH	01-07-2019
1905	2792190N	HAV	MALIKASAB NADAF	01-05-2019
1906	2789856W	HAV	MALLAPA PATIL	01-07-2019
1907	2792301A	HAV	MD RABIUL ALAM	01-05-2019
1908	2792354Y	HAV	MHALU HERAWADE	01-07-2019
1909	2792225Y	HAV	MURGENDR M MADANBHAVI	01-05-2019
1910	2792158Y	HAV	PARAB SUBHASH KASHIRAM	01-05-2019
1911	2792377A	HAV	PATIL BAJARANG SANTARAM	01-07-2019
1912	2792304N	HAV	PATIL DIGAMBER KRISHNA	01-06-2019
1913	2792027N	HAV	PATIL JAYVANT DATTU	01-03-2019
1914	2792048K	HAV	PATIL MADHUKAR KRISHNA	01-05-2019
1915	2792028W	HAV	PATIL NITIN	01-03-2019
1916	2792306Y	HAV	PATIL RAMESH SHAHAJI	01-06-2019
1917	2792390K	HAV	PATIL SADASHIV DNYANU	01-07-2019
1918	2792041A	HAV	PATIL SHIVAJI RAMU	01-04-2019
1919	2791848W	HAV	PATIL SUNIL BHANUDAS	01-03-2019
1920	2789809Y	HAV	PATIL VENKAT DAGDU	01-05-2019
1921	2791862H	HAV	PAWAR JALINDAR RAJENDRA	01-03-2019
1922	2789691H	HAV	PRAKASH GAWADE	01-03-2019
1923	2792149X	HAV	RAJAKUMAR JAINAPUR	01-05-2019
1924	2792020K	HAV	RAJU MALI	01-03-2019
1925	2792183X	HAV	RAMESH MAGADUM	01-05-2019
1926	2792140H	HAV	RAMU GAVADE	01-05-2019
1927	2792122A	HAV	RAVALU PATIL	01-08-2019
1928	2792360M	HAV	SALOKHE DATTATRAY ANANDA	01-07-2019
1929	2792227K	HAV	SANJAY SAWANT	01-05-2019

1930	2792343M	HAV	SANKAPALE GANAPATI BHIMRAO	01-07-2019
1931	2789857Y	HAV	SASANE PRADEEP VISHNU	01-07-2019
1932	2792231M	HAV	SATISH KUMBHAR	01-05-2019
1933	2792229P	HAV	SAWANT SANTOSH MEGHASHYAM	01-05-2019
1934	2789930M	HAV	SHAJI M	01-06-2019
1935	2791973A	HAV	SHER SINGH	01-03-2019
1936	2792115K	HAV	SHETE BALU SAHEBRAO	01-05-2019
1937	2792248A	HAV	SHRIDHARA TA	01-05-2019
1938	3188485L	HAV	SURYAWANSHI SUNIL NAMDEO	01-06-2019
1939	2791882W	HAV	TALEKAR KAKASAHEB DADASAHEB	01-03-2019
1940	2792082K	HAV	TEKAWADE SANTOSH BAPURRAO	01-05-2019
1941	2792410M	HAV	UGALE DADABHAU BABU	01-07-2019
1942	2792061N	HAV	V SEKAR	01-06-2019
1943	2791858A	HAV	VENKATACHALAM P	01-03-2019
1944	2792314X	HAV	VINOD KUMAR K	01-06-2019
1945	2789658L	HAV	VIRUPAXAPPA TAMBRAYANAVAR	01-03-2019
1946	2791923P	HAV	YADAV UTTAM VITHAL	01-03-2019
1947	2792236L	HAV	YALAPPA KALI	01-05-2019
1948	2791970M	HAV	YALLAPPA GANIGAR	01-03-2019

THE RAJPUTANA RIFLES

1949	2890274X	HAV	ANAND SINGH SHEKHAWAT	01-03-2019
1950	2888497W	HAV	AZAD KUMAR	01-03-2019
1951	2890712P	HAV	BAJRANG SINGH	01-07-2019
1952	2890695A	HAV	BENUDHAR SAHU	01-07-2019
1953	2888499F	HAV	BIR BAHADUR SHARMA	01-03-2019
1954	2890587W	HAV	DALVIR SINGH	01-05-2019
1955	2890590W	HAV	DEEP SINGH	01-05-2019
1956	2888508X	HAV	DEVI SINGH	01-03-2019
1957	2888511X	HAV	IRSHAD AHMAD	01-03-2019
1958	2888670P	HAV	JAGDISH PRASAD	01-07-2019
1959	2890260X	HAV	JAY PAL SINGH	01-03-2019
1960	2888512A	HAV	KALYAN SAHAY BAIRWA	01-03-2019
1961	2890495K	HAV	MAN SINGH	01-05-2019
1962	2890706F	HAV	MD ASFAQUE AHMED	01-07-2019
1963	2890459Y	HAV	MUKESH KUMAR	01-05-2019
1964	2890407H	HAV	N SIVA KUMAR	01-05-2019
1965	2890461W	HAV	NARESH SINGH	01-05-2019
1966	2890309H	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
1967	2890212X	HAV	PAWAN KUMAR	01-02-2019
1968	2890601X	HAV	RAGHUVVEER SINGH	01-05-2019
1969	2890589F	HAV	RAMBIR SINGH TOMAR	01-05-2019
1970	2890208P	HAV	RAMESH CHAND	01-02-2019
1971	2888668X	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
1972	2888671X	HAV	RANVIR SINGH	01-07-2019
1973	2888523M	HAV	SANTOSH KUMAR KESHARI	01-05-2019
1974	2890432F	HAV	SARWAN SINGH SHEKHAWAT	01-05-2019
1975	2890305M	HAV	SATISH KUMAR	01-03-2019

1976	2888627N	HAV	SHISH RAM	01-07-2019
1977	2890585L	HAV	SHIV SINGH SHEKHAWAT	01-05-2019
1978	2890226X	HAV	SRINIVA SULU GURAKA	01-03-2019
1979	2888517Y	HAV	SURESH RAM	01-03-2019
1980	2890455H	HAV	VIJENDER SINGH	01-05-2019

THE RAJPUT REGIMENT

1981	2993778L	HAV	AJEET KUMAR SINGH	01-05-2019
1982	2993692M	HAV	ARJUN SINGH CHAUHAN	01-03-2019
1983	2993801N	HAV	ARVIND SINGH BHADAURIYA	01-05-2019
1984	2993979K	HAV	BIMAL SINGH	01-07-2019
1985	2993610Y	HAV	DEVENDRA KUMAR	01-03-2019
1986	2993763H	HAV	DINESH SINGH KHATANA	01-05-2019
1987	2992457F	HAV	GOPAL SINGH	01-03-2019
1988	2993952M	HAV	JAGROOP SINGH NIRWAN	01-05-2019
1989	2994025L	HAV	KAMLENDRA SINGH	01-07-2019
1990	2993706F	HAV	KHINV SINGH BIKA	01-03-2019
1991	2993810P	HAV	LACHCHHI RAM GUJAR	01-05-2019
1992	2992502H	HAV	MADHO SINGH KUSHWAH	01-05-2019
1993	2992480P	HAV	MAHABIR SINGH	01-04-2019
1994	2993768F	HAV	MAHAVIR SINGH	01-05-2019
1995	2992485N	HAV	MANOJ KUMAR THAKUR	01-04-2019
1996	2993850W	HAV	NARENDRA SINGH GAUR	01-05-2019
1997	2994001F	HAV	NARESH PAL SINGH	01-07-2019
1998	2993710K	HAV	NARSI RAM GURJAR	01-03-2019
1999	2993616A	HAV	PADAM KUMAR	01-03-2019
2000	2994009N	HAV	RAJU SINGH	01-07-2019
2001	2993933F	HAV	RAM NIWAS	01-05-2019
2002	2993971X	HAV	RAM SINGH	01-07-2019
2003	2993946Y	HAV	RAMJI LAL GURJAR	01-05-2019
2004	2993708M	HAV	SAMAY SINGH	01-03-2019
2005	2994087L	HAV	SANJEEV KUMAR PANDAY	01-07-2019
2006	2994013W	HAV	SARAGADA NOOKANNA	01-07-2019
2007	2993765N	HAV	SATBIR SINGH	01-05-2019
2008	2993886P	HAV	SATYA NARAYAN GURJAR	01-05-2019
2009	2993743P	HAV	SATYA PAL SINGH	01-05-2019

THE JAT REGIMENT

2010	3186392X	HAV	AJAY PAL SINGH	01-07-2019
2011	3188379M	HAV	ARUN KUMAR	01-05-2019
2012	3188340A	HAV	ASHOK KUMAR	01-05-2019
2013	3188172M	HAV	AVADHESH KUMAR	01-03-2019
2014	3188247Y	HAV	BHAGU RAM	01-03-2019
2015	3188106K	HAV	BHUPENDRA SINGH	01-03-2019
2016	3186246X	HAV	CHETLA RAMANA RED	01-03-2019
2017	3188301F	HAV	DAL CHAND	01-05-2019
2018	3188110M	HAV	DAVENDRA PAL SINGH	01-03-2019
2019	3188219M	HAV	DEEPAK KUMAR	01-03-2019

2020	3188434X	HAV	DHARAMVEER	01-05-2019
2021	3188320M	HAV	DHARMENDRA KUMAR	01-05-2019
2022	3188567N	HAV	DHUP SINGH	01-07-2019
2023	3186611N	HAV	G RAJENDER	01-07-2019
2024	13620698A	HAV	GANESH RAM	01-03-2019
2025	3186348N	HAV	GOPAL SINGH	01-05-2019
2026	3186287F	HAV	GURU PRASAD SINGH	01-04-2019
2027	3188554W	HAV	HARI RAM OLA	01-07-2019
2028	3188460Y	HAV	HARI SINGH	01-05-2019
2029	3188089P	HAV	HEMRAJ SINGH	01-02-2019
2030	3186447W	HAV	INDRAJEET YADAV	01-08-2019
2031	3188223P	HAV	JAGDISH SINGH	01-03-2019
2032	3188233Y	HAV	JAY SINGH	01-03-2019
2033	3188304P	HAV	JOGENDER SINGH	01-05-2019
2034	3186418F	HAV	MANI RAM	01-07-2019
2035	3186294X	HAV	MANSHA RAM	01-05-2019
2036	3188278Y	HAV	MOOLA RAM	01-03-2019
2037	3188560K	HAV	NEMA RAM	01-07-2019
2038	3188226H	HAV	PAHUP SINGH	01-03-2019
2039	3188160X	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
2040	3188192A	HAV	PRAMOD KUMAR TEOTIA	01-03-2019
2041	3188142P	HAV	RAM GOPAL	01-03-2019
2042	3188218K	HAV	RAM PHAL	01-03-2019
2043	3188225A	HAV	ROOM SINGH	01-03-2019
2044	3186305Y	HAV	SAMSHER	01-05-2019
2045	3186295A	HAV	SANTOSH KUMAR RAMTEL	01-05-2019
2046	3188523W	HAV	SATISH KUMAR SHARMA	01-07-2019
2047	3188088M	HAV	SELVARAJ A	01-02-2019
2048	3186158F	HAV	SHATRUGHAN BAITHA	01-02-2019
2049	3188579H	HAV	SHREE NIWASS	01-07-2019
2050	3186180M	HAV	SHRI BHAGWAN	01-03-2019
2051	3186290F	HAV	SRI PARMANAD PURI	01-05-2019
2052	3188265F	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2019
2053	3186272Y	HAV	TARKESHWAR SINGH	01-03-2019
2054	3186301H	HAV	UPDESH KUMAR	01-05-2019
2055	3188159H	HAV	UPENDRA SINGH	01-03-2019
2056	3186229X	HAV	VIRENDRA SINGH	01-03-2019

THE SIKH REGIMENT

2057	3396162F	HAV	AMRIK SINGH	01-05-2019
2058	3396170A	HAV	AMRIK SINGH	01-05-2019
2059	3396157W	HAV	AMRITPAL SINGH	01-05-2019
2060	3396364H	HAV	ARJAN SINGH	01-05-2019
2061	3393319L	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2019
2062	3396346A	HAV	BACHITAR SINGH	01-05-2019
2063	3393483N	HAV	BALWINDER SINGH	01-07-2019
2064	3396252H	HAV	BALWINDER SINGH	01-05-2019
2065	3396197X	HAV	BHAJAN SINGH	01-05-2019

2066	3396308K	HAV	DALJINDER SINGH	01-05-2019
2067	3396269W	HAV	DAVINDER SINGH	01-05-2019
2068	4471896H	HAV	DEVINDER SINGH	01-02-2019
2069	3393336L	HAV	EWARE KHUSHAL RAI SINGH	01-06-2019
2070	3396164M	HAV	GOPAL SINGH	01-05-2019
2071	3396089N	HAV	GURDIAL SINGH	01-05-2019
2072	3395888X	HAV	GURJIT SINGH	01-03-2019
2073	3393469F	HAV	HIMMAT SINGH	01-07-2019
2074	3396422F	HAV	HIRA BAHADUR THAPA	01-07-2019
2075	3396021M	HAV	IQBAL SINGH	01-05-2019
2076	3396155L	HAV	JAGTAR SINGH	01-05-2019
2077	3396271N	HAV	JASBIR SINGH	01-05-2019
2078	3396146K	HAV	JASWINDER SINGH	01-05-2019
2079	3396333H	HAV	JASWINDER SINGH	01-05-2019
2080	3396291F	HAV	JORAVAR SINGH	01-05-2019
2081	3396113Y	HAV	KADDAPPA MALLANAWAR	01-05-2019
2082	3396002F	HAV	KAMALJIT SINGH	01-05-2019
2083	3393511P	HAV	KHUSHWANT SINGH	01-07-2019
2084	3396311K	HAV	KULWINDER SINGH	01-05-2019
2085	3396421Y	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-07-2019
2086	3396211Y	HAV	MALKIAT SINGH	01-05-2019
2087	3393280K	HAV	MANJINDER SINGH	01-03-2019
2088	3396037X	HAV	MANJIT SINGH	01-05-2019
2089	3393323N	HAV	MOHAMMAD IRFAN	01-03-2019
2090	3396189Y	HAV	MOHINDERPAL SINGH	01-05-2019
2091	3396094Y	HAV	NIRMAL SINGH	01-05-2019
2092	3393275Y	HAV	PANCHAM RAM YADAV	01-03-2019
2093	3393442K	HAV	PARMJIT SINGH	01-07-2019
2094	3396232P	HAV	PARVINDER SINGH	01-05-2019
2095	3396236L	HAV	RAJINDER SINGH	01-05-2019
2096	3393326F	HAV	RAM BILAS RAM	01-03-2019
2097	3396268N	HAV	SAKINDER SINGH	01-05-2019
2098	3396178M	HAV	SOHAN SINGH	01-05-2019
2099	3393381X	HAV	SUGRIV SINGH	01-07-2019
2100	3395971P	HAV	SUKHDEV SINGH	01-03-2019
2101	3396011H	HAV	SUKHMINDER SINGH	01-05-2019
2102	3395952K	HAV	TARLOCHAN SINGH	01-03-2019
2103	3396365L	HAV	VARINDER SINGH	01-05-2019
2104	3396152X	HAV	VIKRAMJIT SINGH	01-05-2019

THE SIKH LIGHT INFANTRY

2105	4473732L	HAV	AVTAR SINGH	01-06-2019
2106	4473708P	HAV	BALDEV SINGH	01-06-2019
2107	2993717N	HAV	BALWINDER SINGH	01-03-2019
2108	4473849K	HAV	BILLU SINGH	01-07-2019
2109	4473402M	HAV	BUDHU SINGH	01-02-2019
2110	4473756P	HAV	CHHINDA SINGH	01-06-2019
2111	4473607F	HAV	DALEL SINGH	01-03-2019

2112	4473799K	HAV	DARSHAN SINGH	01-06-2019
2113	4473599N	HAV	DHARAMPAL SINGH	01-03-2019
2114	4473743X	HAV	GURBINDER SINGH	01-06-2019
2115	4473551A	HAV	GURCHARAN SINGH	01-03-2019
2116	4473749Y	HAV	GURJANT SINGH	01-06-2019
2117	4471995L	HAV	GURLAL SINGH	01-06-2019
2118	4473742P	HAV	GURMEET SINGH	01-06-2019
2119	4471894X	HAV	GURNAM SINGH	01-02-2019
2120	4473728H	HAV	HARINDER SINGH	01-06-2019
2121	4473719F	HAV	JAGIR SINGH	01-06-2019
2122	4473825A	HAV	JASWINDER SINGH	01-06-2019
2123	4473608K	HAV	JOGINDER SINGH	01-03-2019
2124	4473592K	HAV	KAPILDEV SINGH	01-03-2019
2125	4473779W	HAV	KEWAL SINGH	01-06-2019
2126	4472991F	HAV	LADLE SHARAN	01-07-2019
2127	4473640Y	HAV	MAJOR SINGH	01-04-2019
2128	4471906F	HAV	MANOJ KUMAR SHARMA	01-05-2019
2129	13620789K	HAV	NANDEEP SINGH	01-07-2019
2130	4473605W	HAV	PINTU LAL DAS	01-03-2019
2131	4473695L	HAV	PRITPAL SINGH	01-06-2019
2132	4473820F	HAV	RAJPAL SINGH	01-06-2019
2133	4473620L	HAV	RAJVEER SINGH	01-04-2019
2134	4473804K	HAV	RANDHIR SINGH	01-06-2019
2135	4471903N	HAV	RATI RAM	01-04-2019
2136	4473714H	HAV	RESHAM SINGH	01-06-2019
2137	4471990M	HAV	SARABJIT SINGH	01-06-2019
2138	4473569W	HAV	SATNAM SINGH	01-03-2019
2139	4473698W	HAV	SUKHBANS SINGH	01-06-2019
2140	4473703W	HAV	SURJIT SINGH	01-06-2019
2141	4473752Y	HAV	TEJINDER SINGH	01-06-2019
2142	4473740K	HAV	TIRTH SINGH	01-06-2019
2143	4473659X	HAV	VERCHAND SINGH	01-05-2019
2144	4473690K	HAV	WAGH DEVIDAS RAMRAO	01-06-2019

THE DOGRA REGIMENT

2145	3994533X	HAV	AJAY KUMAR	01-03-2019
2146	3994852K	HAV	ARJUN SINGH	01-07-2019
2147	3994840P	HAV	ARUN KUMAR	01-07-2019
2148	3994878Y	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2019
2149	3994884M	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2019
2150	3994769M	HAV	ASHWANI SINGH	01-07-2019
2151	3994592K	HAV	BACHAN SINGH	01-05-2019
2152	3994807X	HAV	BALBIR SINGH	01-07-2019
2153	3992062W	HAV	BHAGAWAN SINGH	01-08-2019
2154	3994800N	HAV	DAVINDER SINGH	01-07-2019
2155	3991990A	HAV	DESH RAJ	01-07-2019
2156	3994279Y	HAV	DEWAN CHAND	01-02-2019
2157	3994394Y	HAV	DHARAM PAL	01-03-2019

2158	3994543F	HAV	DHARAM SINGH	01-03-2019
2159	3994554N	HAV	DHARMENDER SINGH	01-03-2019
2160	3994304M	HAV	DILBAG SINGH	01-03-2019
2161	3994827L	HAV	DINESH KUMAR	01-07-2019
2162	3991796L	HAV	GAGAN SINGH	01-03-2019
2163	3994633H	HAV	GIRDHARI LAL	01-05-2019
2164	3994917M	HAV	GUNASEKARAN C	01-07-2019
2165	3994833Y	HAV	HANS RAJ	01-07-2019
2166	3994492Y	HAV	HARBANS SINGH	01-03-2019
2167	3395969X	HAV	JAGDISH SINGH	01-03-2019
2168	3994746L	HAV	JAGJEET SINGH	01-05-2019
2169	3994886X	HAV	JAGROOP SINGH	01-07-2019
2170	3994503A	HAV	JANAK RAJ	01-03-2019
2171	3994893N	HAV	JANAK SINGH	01-07-2019
2172	3994578X	HAV	JARNAIL SINGH	01-05-2019
2173	3994414F	HAV	JASBIR SINGH	01-03-2019
2174	3994837P	HAV	JASWANT SINGH	01-07-2019
2175	3991869M	HAV	JASWANT SINGH	01-04-2019
2176	3994313N	HAV	JATTENDER KUMAR	01-03-2019
2177	3994668Y	HAV	JOGINDER SINGH	01-05-2019
2178	3994642K	HAV	KALBHUSHAN SINGH	01-05-2019
2179	3994396K	HAV	KAMAL DEV	01-03-2019
2180	3994453A	HAV	KAMAL SINGH	01-03-2019
2181	3994698W	HAV	KASHMIR SINGH	01-05-2019
2182	3994693X	HAV	KESHOR KUMAR	01-05-2019
2183	3991805F	HAV	KHAM BAHADUR RAI	01-03-2019
2184	3994804K	HAV	KRISHAN LAL	01-07-2019
2185	3994914Y	HAV	KULBIR SINGH CHIB	01-07-2019
2186	3994728H	HAV	KULDEEP CHAND	01-05-2019
2187	3994598L	HAV	KULDEEP RAJ	01-05-2019
2188	3991941X	HAV	KULDIP RAJ	01-07-2019
2189	3994519L	HAV	KULDIP RAJ	01-03-2019
2190	3994709X	HAV	MADAN GOPAL	01-05-2019
2191	3991984M	HAV	MAHENDER KUMAR	01-07-2019
2192	3994612M	HAV	MANOHAR LAL	01-05-2019
2193	3994361N	HAV	MOHAN SINGH	01-03-2019
2194	3994928Y	HAV	MOTI LAL SHARMA	01-07-2019
2195	3994841X	HAV	NARINDER SINGH	01-07-2019
2196	3186304W	HAV	NAVEEN KUMAR VASHISHT	01-05-2019
2197	3994974N	HAV	NAVSHAM SINGH JASWAL	01-07-2019
2198	3994354X	HAV	OM PAL SINGH	01-03-2019
2199	3994443W	HAV	PARDEEP KUMAR	01-03-2019
2200	3994514M	HAV	PARDEEP SINGH	01-03-2019
2201	3994962Y	HAV	PARVEEN KUMAR	01-07-2019
2202	3994545M	HAV	PARVEEN KUMAR	01-03-2019
2203	3991898F	HAV	PAWAN KUMAR	01-05-2019
2204	3994459F	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2019
2205	3994826H	HAV	PRADIP KUMAR	01-07-2019

2206	3994570L	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-05-2019
2207	3994389N	HAV	RAJEEV KUMAR	01-03-2019
2208	3994727A	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
2209	3991874X	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
2210	3994664H	HAV	RAJINDER KUMAR	01-05-2019
2211	3994290X	HAV	RAJINDER KUMAR	01-03-2019
2212	3991865W	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2019
2213	3994675P	HAV	RAKESH KUMAR	01-05-2019
2214	3994838X	HAV	RAKESH KUMAR	01-07-2019
2215	3994366M	HAV	RAM PAL	01-03-2019
2216	3186419K	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
2217	3991997K	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
2218	3992057L	HAV	RAMESH KUMAR	01-08-2019
2219	3994485H	HAV	RANJEET SINGH	01-03-2019
2220	3994634L	HAV	RANJEET SINGH	01-05-2019
2221	3992017K	HAV	RATTAN LAL	01-07-2019
2222	3994309L	HAV	RAVI SINGH	01-03-2019
2223	3994368X	HAV	RAVINDER KUMAR	01-03-2019
2224	3991797N	HAV	RAVINDER SINGH	01-03-2019
2225	3994333F	HAV	ROMESH KUMAR	01-03-2019
2226	3991964Y	HAV	SALWINDER SINGH	01-07-2019
2227	3994626M	HAV	SANJEEV KUMAR	01-05-2019
2228	3994493F	HAV	SANJEEV KUMAR	01-03-2019
2229	3994704Y	HAV	SANJU RAM THAKUR	01-05-2019
2230	3991960H	HAV	SAROOP CHAND	01-07-2019
2231	3188107M	HAV	SARWAN KUMAR	01-03-2019
2232	3994415K	HAV	SATPAL SINGH, SM	01-03-2019
2233	3994276L	HAV	SHAM SINGH	01-02-2019
2234	3994775A	HAV	SHAMSHER CHAND	01-07-2019
2235	3994784F	HAV	SHASHI PAUL	01-07-2019
2236	3994890A	HAV	SIKANDER SINGH	01-07-2019
2237	3994504H	HAV	SOM RAJ	01-03-2019
2238	3994711P	HAV	SUMAN KUMAR GAUTAM	01-05-2019
2239	3994568N	HAV	SURAJ KUMAR	01-05-2019
2240	3994372A	HAV	SUSHIL KUMAR	01-03-2019
2241	3994416M	HAV	TARA CHAND	01-03-2019
2242	3994776H	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2019
2243	3994410L	HAV	VIJAY KUMAR	01-03-2019
2244	3994762H	HAV	VIJAY SINGH	01-07-2019
2245	3991981Y	HAV	VINOD KUMAR	01-07-2019
2246	3396417W	HAV	VINOD KUMAR	01-07-2019
2247	3994788X	HAV	YASH PAUL	01-07-2019

THE GARHWAL RIFLES

2248	4075803M	HAV	A KALAINGNAR	01-08-2019
2249	4076607Y	HAV	AJAY TIWARI	01-07-2019
2250	4076439L	HAV	ANIL PRASAD	01-05-2019

2251	4076551X	HAV	ARUNPAL SINGH RAWAT	01-05-2019
2252	4074110H	HAV	BALWANT SINGH	01-03-2019
2253	4076493Y	HAV	BHAGAT SINGH	01-05-2019
2254	4076319M	HAV	BHANU PRASAD	01-04-2019
2255	4076236F	HAV	BHEEM SINGH	01-03-2019
2256	4074139L	HAV	BHUPAL SINGH	01-05-2019
2257	4076322M	HAV	BHUPAL SINGH	01-04-2019
2258	4074345P	HAV	BIKRAM SINGH	01-07-2019
2259	4076527F	HAV	BILLU SINGH	01-05-2019
2260	4076616A	HAV	BIPIN KUMAR	01-07-2019
2261	4076494F	HAV	BUDHI SINGH	01-05-2019
2262	4076446F	HAV	C P SINGH NEGI	01-05-2019
2263	4074091H	HAV	CHAMAN SINGH	01-03-2019
2264	4076456L	HAV	CHANDAN SINGH	01-05-2019
2265	4076405X	HAV	CHANDRA PAL SINGH	01-05-2019
2266	4076622N	HAV	D S GUSAIN	01-07-2019
2267	4076562K	HAV	DEEPAK SING BISHT	01-05-2019
2268	4076317F	HAV	DEPENDRA SINGH RAWAT	01-04-2019
2269	4076389L	HAV	DEVENDRA SINGH	01-04-2019
2270	4076372X	HAV	DHAN SINGH RAWAT	01-04-2019
2271	4076597A	HAV	DIWAN SINGH	01-07-2019
2272	4076498X	HAV	FATE SINGH	01-05-2019
2273	4076656F	HAV	GAJE SINGH	01-07-2019
2274	4075815F	HAV	GANGA RAM	01-08-2019
2275	4074377X	HAV	GANGA SINGH RAWAT	01-07-2019
2276	4076442L	HAV	GOVIND CHAND	01-05-2019
2277	4076451M	HAV	HARI MOHAN SINGH	01-05-2019
2278	4076397K	HAV	HARI SINGH	01-05-2019
2279	4076431Y	HAV	HEMWATI NANDAN	01-05-2019
2280	4076657K	HAV	JAGMOHAN SINGH RAWAT	01-07-2019
2281	4076500K	HAV	JAY SINGH	01-05-2019
2282	2890472H	HAV	JEET SINGH	01-05-2019
2283	4074360K	HAV	KALAM SINGH	01-07-2019
2284	4076402K	HAV	KARAN SINGH	01-05-2019
2285	4074136X	HAV	KESHAR SINGH	01-05-2019
2286	4076660K	HAV	KISHOR KUMAR	01-07-2019
2287	4074188N	HAV	KULWANT SINGH	01-07-2019
2288	4076275A	HAV	MAHARAJ SINGH	01-03-2019
2289	4076360H	HAV	MANOHAR LAL	01-04-2019
2290	4076681A	HAV	MOHAN SINGH NEGI	01-07-2019
2291	4074223L	HAV	NARENDER SINGH	01-07-2019
2292	4076247N	HAV	PANKAJ KUMAR	01-03-2019
2293	4076584H	HAV	POWER TANAJI DINAKAR	01-06-2019
2294	4076311A	HAV	PRAKASH CHANDRA	01-04-2019
2295	4076251W	HAV	RABINDRA KUMAR	01-03-2019
2296	4076406A	HAV	RAJENDER SINGH	01-05-2019
2297	4076465M	HAV	RAJENDRA SINGH	01-05-2019
2298	4074226Y	HAV	RAKESH KUMAR	01-07-2019

2299	4076248W	HAV	RAKESH SINGH RANA	01-03-2019
2300	4076636N	HAV	RAM CHARAN SINGH	01-07-2019
2301	4271408L	HAV	RAM PAL SINGH	01-05-2019
2302	4076245H	HAV	RAMESH SINGH	01-03-2019
2303	4074235A	HAV	RATAN MANI BADONI	01-07-2019
2304	4076237K	HAV	SACHIDA NAND	01-03-2019
2305	4076503X	HAV	SANJAY KUMAR	01-05-2019
2306	4076621L	HAV	SANJAY SINGH	01-07-2019
2307	4074171A	HAV	SANT RAM	01-05-2019
2308	4074270H	HAV	SATISH GIRI	01-07-2019
2309	4076355X	HAV	SHEESHPAL SINGH	01-04-2019
2310	4076475W	HAV	SOBAN SINGH	01-05-2019
2311	13620797H	HAV	SUKHDEV SINGH	01-07-2019
2312	4074077W	HAV	SUKHPAL SINGH BISHT	01-03-2019
2313	4076671W	HAV	SURAJ SINGH NEGI	01-07-2019
2314	4076625F	HAV	T S SHRINIVASULU	01-07-2019
2315	4076518A	HAV	TEERATH SINGH	01-05-2019
2316	4074052K	HAV	TRILOK SINGH	01-03-2019
2317	4076599L	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2019
2318	4074340W	HAV	VIJAY PAL SINGH	01-07-2019
2319	4076595P	HAV	VIJAY SINGH	01-07-2019
2320	4076267F	HAV	VIKRAM SINGH	01-03-2019
2321	4074210N	HAV	VIKRAM SINGH	01-07-2019
2322	4076460N	HAV	YASHPAL SINGH	01-05-2019

THE KUMAON REGIMENT

2323	4185321A	HAV	A S MEHATA	01-03-2019
2324	4185661H	HAV	ANAND SINGH	01-07-2019
2325	4185542M	HAV	AWADHESH KUMAR	01-07-2019
2326	4185373W	HAV	BHUPAL SINGH	01-03-2019
2327	4188097K	HAV	CHANDAR SINGH	01-03-2019
2328	4188113W	HAV	D S GAIRA	01-03-2019
2329	4185563H	HAV	DHARAM SINGH	01-07-2019
2330	4186223M	HAV	DIGAMBAR SINGH	01-05-2019
2331	4185492M	HAV	DINESH PASWAN	01-05-2019
2332	4188349L	HAV	DIWAN SINGH, SM	01-05-2019
2333	4185613H	HAV	G S BHANDARI	01-07-2019
2334	4187992H	HAV	GANESH SINGH	01-03-2019
2335	4187972P	HAV	GOPAL SINGH	01-03-2019
2336	4185500A	HAV	GOVIND SINGH	01-05-2019
2337	4185484N	HAV	HARISH SINGH	01-05-2019
2338	4188282X	HAV	HARISH SINGH	01-05-2019
2339	4185453N	HAV	HIRA SINGH	01-05-2019
2340	4188263M	HAV	JAI VEER	01-05-2019
2341	4187999M	HAV	JODH SINGH	01-03-2019
2342	4185345K	HAV	K S BHAN DARI	01-03-2019
2343	4185410Y	HAV	K S BISHT	01-03-2019
2344	4188317H	HAV	K S NEGI	01-05-2019

2345	4188496N	HAV	KIRODIMAL YADAV	01-07-2019
2346	4187990X	HAV	MOHAN SINGH	01-03-2019
2347	4187982Y	HAV	N C CHILKOTI	01-03-2019
2348	4187983F	HAV	N S CHAUHAN	01-03-2019
2349	4188066K	HAV	NANDAN SINGH	01-03-2019
2350	4188338Y	HAV	NANDAN SINGH	01-05-2019
2351	4188123A	HAV	NARAIN SINGH	01-03-2019
2352	4185436N	HAV	PRAKASH RAM	01-05-2019
2353	4188522K	HAV	PRATAP SINGH	01-07-2019
2354	4185398H	HAV	PRAYAG DATT	01-03-2019
2355	4188014N	HAV	R C PATHAK	01-03-2019
2356	4188128Y	HAV	RAKESH SINGH	01-03-2019
2357	4186966P	HAV	RANAJEET YADAV	01-07-2019
2358	4185465H	HAV	SATYAVIR SINGH	01-05-2019
2359	4188111L	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2019
2360	4188539X	HAV	VED RAM	01-08-2019
2361	4188005M	HAV	VIKRAM SINGH	01-03-2019
2362	4188403N	HAV	YASHPAL SINGH	01-05-2019

THE ASSAM REGIMENT

2363	4364156W	HAV	BACHAN SINGH	01-07-2019
2364	4364545W	HAV	BENDANGYANGER	01-08-2019
2365	4363952M	HAV	BINAY RAY	01-03-2019
2366	4364035P	HAV	DAL BAHADUR THAPA	01-04-2019
2367	4426954P	HAV	DULO RAM	01-08-2019
2368	4426951F	HAV	HARRUP SINGH	01-07-2019
2369	4426953M	HAV	HEERA SINGH	01-08-2019
2370	4426988H	HAV	HIRA LAL YADAV	01-04-2019
2371	4364091N	HAV	JAGADISH RAY	01-05-2019
2372	4363965K	HAV	K SANGA	01-03-2019
2373	4364030W	HAV	LALLUNGAWIA	01-04-2019
2374	4363972A	HAV	LALPEK LIANA	01-03-2019
2375	4364132M	HAV	LALSIEMREM HMAR	01-05-2019
2376	4363897F	HAV	LALTLANLIANA	01-03-2019
2377	4427015Y	HAV	LODDANGI SUBRAMANYAM	01-06-2019
2378	4364153H	HAV	LUKHU BELEN	01-06-2019
2379	4426952K	HAV	MD SAFIKAR MOLLA	01-07-2019
2380	4363885M	HAV	N SANI	01-03-2019
2381	4362861W	HAV	NGANGBAM SENDOZ SINGH	01-04-2019
2382	4364041H	HAV	NGONGLET NGONGPA	01-04-2019
2383	4363867K	HAV	NIRAKAR PANDA	01-06-2019
2384	4364022X	HAV	NIRMAL SINHA	01-04-2019
2385	4363915Y	HAV	OM PRASAD CHETRI	01-03-2019
2386	4362813W	HAV	P ANGPU ANAL	01-03-2019
2387	4363997M	HAV	PHATIK CHANDRA RAY	01-03-2019
2388	4363926L	HAV	PURNA LAMA	01-03-2019
2389	4426948F	HAV	RAJ NATH PRASAD	01-07-2019
2390	4364018P	HAV	RAJU RANJAN SINHA	01-04-2019

2391	4426950Y	HAV	RAM PRIT PASWAN	01-07-2019
2392	4363981F	HAV	ROHLUPUIA	01-03-2019
2393	4362936H	HAV	SONGDINGLIEN	01-07-2019
2394	8033704F	HAV	SUBHAS CHANDRA BERA	01-04-2019
2395	4363937X	HAV	SUKU DEBBARMA	01-03-2019
2396	4426955X	HAV	SURENDRA PAL	01-08-2019
2397	4426968P	HAV	SURESH KUMAR RAI	01-04-2019
2398	4362953H	HAV	THANGULIEN VAIPHEI	01-08-2019
2399	4364080F	HAV	THAUGJALET SUAVTAK KUKI	01-05-2019
2400	4363936P	HAV	THENGUJAM RANJIT MEETEI	01-03-2019
2401	4364052P	HAV	U BANSYNHAR LYGDOH	01-05-2019
2402	4364134X	HAV	UM BAHADUR THAPA	01-05-2019
2403	4362973W	HAV	UMESH CHANDRA RAY	01-08-2019

THE BIHAR REGIMENT

2404	4271350Y	HAV	A JOHN KENNEDY	01-05-2019
2405	4273266X	HAV	AGHNA SANGA	01-03-2019
2406	4273115Y	HAV	AJAY KUMAR	01-04-2019
2407	4271427W	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-07-2019
2408	4273302X	HAV	AKUL KUMAR LAKRA	01-05-2019
2409	4273456K	HAV	ALBERT BHENGRA	01-05-2019
2410	4271398M	HAV	AMBRUS BARLA	01-05-2019
2411	4271341X	HAV	ANIL KUMAR MAHTO	01-05-2019
2412	4273197M	HAV	ANIL TOPPO	01-03-2019
2413	4273267A	HAV	ANUP HERANGE	01-03-2019
2414	4273129Y	HAV	ASARI BABU BHAI KAVAJI	01-03-2019
2415	4273669X	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-05-2019
2416	4273227Y	HAV	BAGUN KORAH	01-03-2019
2417	4273608A	HAV	BANDE KERKETTA	01-05-2019
2418	4273194Y	HAV	BANDHANA ORAON	01-03-2019
2419	4273358K	HAV	BARIA DILIP KUMAR VIJAY SINH	01-05-2019
2420	4273133F	HAV	BHAGORA JIVA BHAI SALU BHAI	01-03-2019
2421	4273622M	HAV	BHANJA KISHOR BISWAL	01-05-2019
2422	4273664Y	HAV	BINOD ORAON	01-05-2019
2423	4272153H	HAV	BIRANDER SINGH	01-04-2019
2424	4273467W	HAV	BIRSA MUNDA	01-05-2019
2425	4273728Y	HAV	BIRSA ORAON	01-07-2019
2426	4273284A	HAV	BIRSA ORAON	01-03-2019
2427	4273306N	HAV	BISHNU CHARAN GARANAYAK	01-05-2019
2428	4273322L	HAV	C A SRINIVAS	01-05-2019
2429	4273401A	HAV	CHANDRA SHEKHAR PRASAD	01-05-2019
2430	4273605M	HAV	CHANDRAPAL TOPPO	01-05-2019
2431	4273273N	HAV	CHHATHU SINGH	01-03-2019
2432	4273263K	HAV	CYPRIAN KERKETTA	01-03-2019
2433	4273269L	HAV	DARI ORAON	01-03-2019
2434	4273168X	HAV	DEEPAK KUMAR	01-03-2019
2435	4273043A	HAV	DINESH LAKRA	01-03-2019
2436	4273554K	HAV	ELIAS KUJUR	01-05-2019

2437	4273150F	HAV	FANT NAVJI BHAI SUKAJI	01-03-2019
2438	4273500H	HAV	GANGU TIRKEY	01-05-2019
2439	4273034Y	HAV	GULSHAN BHAGAT	01-03-2019
2440	4271236F	HAV	HANUMANTU CHIRANJEE VULU	01-03-2019
2441	4273239N	HAV	HERMAN BARUA	01-03-2019
2442	4273662N	HAV	HIRA LAL BASANT HORO	01-05-2019
2443	4273181F	HAV	JAGDISH BHAGAT	01-03-2019
2444	4271331N	HAV	JAY KUMAR RAM	01-05-2017
2445	4273220P	HAV	JITAN ORAON	01-03-2019
2446	4273708L	HAV	JITESHWAR NAYAK	01-07-2019
2447	4273668P	HAV	JIWAN TIGGA	01-05-2019
2448	4273396A	HAV	JOHAN TIRKEY	01-05-2019
2449	4273356Y	HAV	K KANNAN	01-05-2019
2450	4273492P	HAV	KAILA ORAON	01-05-2019
2451	4273253A	HAV	KAILASH ORAON	01-03-2019
2452	4273640P	HAV	KAMAL TIRKEY	01-05-2019
2453	4273409M	HAV	KAMLESH KUMAR	01-05-2019
2454	4273336L	HAV	KHARADI DINESH KUMAR SALU BHAI	01-05-2019
2455	4273205A	HAV	KRISHNA TIRKEY	01-03-2019
2456	4273109L	HAV	KSHETRA MOHAN SOREN	01-03-2019
2457	4273225N	HAV	KULDIP LAKRA	01-03-2019
2458	4273040M	HAV	LAL DEO ORAON	01-03-2019
2459	4273184P	HAV	LAL MOHAN ORAON	01-03-2019
2460	4273718P	HAV	LALIT KERKETTA	01-07-2019
2461	4273585K	HAV	LAXMAN ORAON	01-05-2019
2462	4273261Y	HAV	LAXMI DHAR BARAIK	01-03-2019
2463	4271412N	HAV	MAHESH PRASAD HAZARA	01-05-2019
2464	4273320A	HAV	MANBODH ORAON	01-05-2019
2465	4273351A	HAV	MAVI BADIA BHAI MATHUR BHAI	01-05-2019
2466	4273377P	HAV	MRITYUNJAY KUMAR DUBEY	01-05-2019
2467	4273078W	HAV	MUKESH KUMAR	01-03-2019
2468	4273494A	HAV	NOEL NORBERT MINJ	01-05-2019
2469	4273243W	HAV	PATRAS HORO	01-03-2019
2470	4273705X	HAV	PRADEEP KUMAR NAIK	01-07-2019
2471	4271479M	HAV	PRADEEPAN V	01-05-2019
2472	4273438F	HAV	PRAKASH KUJUR	01-05-2019
2473	4273258Y	HAV	PREMCHAND TIGGA	01-03-2019
2474	4273250M	HAV	PUNAI BECK	01-03-2019
2475	4273255L	HAV	PURNA CHANDRA TUDU	01-03-2019
2476	4273244Y	HAV	RAJENDRA ORAON	01-03-2019
2477	4273245F	HAV	RAJESH SOREN	01-03-2019
2478	4271258A	HAV	RAKESH KUMAR	01-02-2019
2479	4273052F	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2019
2480	4273055P	HAV	RAM BALI PRASAD	01-03-2019
2481	4271385P	HAV	RAMESH SAHAYA	01-05-2019
2482	4273770X	HAV	RAVI SHEKAR PRASAD	01-07-2019
2483	4273793Y	HAV	SADHU CHARAN BIRUA	01-07-2019
2484	4273191L	HAV	SAIMON KUJUR	01-03-2019

2485	4273580L	HAV	SAMPATI ORAON	01-05-2019
2486	4273405W	HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	01-05-2019
2487	4273039X	HAV	SHARAT CHANDRA NAYAK	01-03-2019
2488	4273036K	HAV	SUNIL KUJUR	01-03-2019
2489	4273606P	HAV	SUNIL ORAON	01-05-2019
2490	4273217P	HAV	SUNIL TIRKEY	01-03-2019
2491	4273215K	HAV	SURAJ MINZ	01-03-2019
2492	4273794F	HAV	SURESH MINZ	01-07-2019
2493	4273386W	HAV	SURESH ORAON	01-05-2019
2494	4271387A	HAV	SURESH RAY	01-05-2019
2495	4273475P	HAV	TANIS TIRKEY	01-05-2019
2496	4273353L	HAV	VARSAT PRAVIN BHAI HARJI BHAI	01-05-2019
2497	4273079Y	HAV	VINAY KUMAR RAKESH	01-03-2019
2498	4273237H	HAV	WILLAM TOPPO	01-03-2019

THE MAHAR REGIMENT

2499	4566192K	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-05-2019
2500	4563868W	HAV	ASHOK SAH	01-07-2019
2501	4563851H	HAV	ASHOK SINGH	01-07-2019
2502	4566011N	HAV	ASHOK SINGH	01-04-2019
2503	4566237Y	HAV	AVTAR SINGH	01-05-2019
2504	4565955H	HAV	BANSODE RAKESH SURESH	01-03-2019
2505	4566269F	HAV	BANSODE SUNIL MARUTI	01-06-2019
2506	4565693X	HAV	BAURI BANDHU NAIK	01-03-2019
2507	4566155W	HAV	BHAGIRATH SEL	01-05-2019
2508	4566379W	HAV	BHAGWAN SINGH	01-08-2019
2509	4565570L	HAV	BHALERAO SURESH SHANKARRAO	01-02-2019
2510	4566349Y	HAV	BIKRAM SINGH	01-07-2019
2511	4565797Y	HAV	CHAND	01-03-2019
2512	4565729L	HAV	CHIMANKARE KAILAS SUKALAL	01-03-2019
2513	4563904W	HAV	DALJEET SINGH	01-08-2019
2514	4563910K	HAV	DAROGA RAM	01-08-2019
2515	4566416Y	HAV	DEVENDRA PRATAP SINGH	01-07-2019
2516	4566189K	HAV	DHARANIDHAR SWAIN	01-05-2019
2517	4563698X	HAV	DHARMENDRA THAKUR	01-03-2019
2518	4566281H	HAV	DINESH KUMAR	01-05-2019
2519	13620713K	HAV	DUBUKWAD MADHAV VITTHAL RAO	01-04-2019
2520	4566283N	HAV	DUDEKULA KASIM PEERA GADKARI RAJENDRA	01-05-2019
2521	4566163P	HAV	NARAYAN GANCHARI BALKRUSHNA	01-06-2019
2522	4565994F	HAV	RAMCHANDRA	01-03-2019
2523	4565697N	HAV	GANDHARV	01-03-2019
2524	4563724N	HAV	GANDHARV SINGH GAVITRE DATTATRAYA	01-05-2019
2525	4566378N	HAV	RAMHARI GHEGHATE GAJANAN	01-07-2019
2526	4565698W	HAV	NAMDEO	01-03-2019
2527	4564140P	HAV	GOVINDA SINGH YADAV	01-04-2019
2528	4565862N	HAV	HARIKESH SINGH	01-03-2019
2529	4566320W	HAV	INGOLE RAJU LAXMAN	01-07-2019
2530	4566222W	HAV	JANJAL PRAMOD ATMARAM	01-05-2019

2531	4566240Y	HAV	KALKA PRASAD	01-05-2019
2532	4566324M	HAV	KALOO SINGH	01-07-2019
2533	4566398F	HAV	KALU CHARAN SAHOO KAMBALE HARIBA	01-05-2019
2534	4565923A	HAV	SAKHARAM	01-03-2019
2535	4566409H	HAV	KAMBALE TANAJI GULAB	01-03-2019
2536	4566265L	HAV	KANWALJIT SINGH	01-05-2019
2537	4566299Y	HAV	KARAN SINGH	01-06-2019
2538	4566213P	HAV	KAWALE DEELIP KUMAR GANPAT	01-02-2019
2539	4565894W	HAV	KEWAL KRISHAN	01-03-2019
2540	4565709X	HAV	KHANDERAO SHANTSHIL GOPAL	01-03-2019
2541	4565930W	HAV	KISHOR LAL	01-03-2019
2542	4566310M	HAV	KUNDAN LAL	01-06-2019
2543	4563770H	HAV	M SHANKAR	01-05-2019
2544	4563624H	HAV	MAHAVEER PARJAPAT	01-03-2019
2545	4563622X	HAV	MANMOHAN SINGH	01-03-2019
2546	4563697P	HAV	MD ALI ULLAH	01-03-2019
2547	4565722F	HAV	MEGHE YUVRAJ DAGADU	01-03-2019
2548	4566193M	HAV	MIRTUNJAY KUMAR MORE PANDURANG	01-05-2019
2549	4566233H	HAV	KADUBA	01-05-2019
2550	4566425A	HAV	MUKESH SINGH	01-07-2019
2551	4565841X	HAV	MULE RAVINDRA RATAN	01-04-2019
2552	4566031F	HAV	PATODE MURLIDHAR SUKHDEO	01-05-2019
2553	4566309X	HAV	PATTHE ANIL DHANSING	01-06-2019
2554	4566082P	HAV	PRAKASH CHAND	01-05-2019
2555	4565121W	HAV	PREM CHANDRA	01-04-2019
2556	4563723L	HAV	PREM SINGH	01-05-2019
2557	4566027Y	HAV	RAJ KUMAR	01-05-2019
2558	4566342P	HAV	RAJU RAM	01-07-2019
2559	4565815W	HAV	RAM LADETA	01-03-2019
2560	4566443H	HAV	RAM LAL	01-06-2019
2561	4563898N	HAV	RAMPAL	01-08-2019
2562	4566257M	HAV	RATANA RAM	01-05-2019
2563	4564383A	HAV	S ANNAKODI	01-06-2019
2564	4565795N	HAV	SANJEEV KUMAR	01-03-2019
2565	4563650K	HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	01-03-2019
2566	4566322F	HAV	SARVAN SINGH	01-07-2019
2567	4565823P	HAV	SATISH CHANDRA SHARMA	01-04-2019
2568	4563812K	HAV	SHIRI KRISHNA PANDEY	01-07-2019
2569	4566235N	HAV	SHIRSAT SUDHAKAR MORESHWAR	01-05-2019
2570	4566106N	HAV	SHIRSATH DIPAK ATMARAM	01-05-2019
2571	4565905X	HAV	SHIVANANDAN SINGH	01-03-2019
2572	4566250H	HAV	SHOBHARAM SONAWANE SUBHASH	01-05-2019
2573	4565731H	HAV	BHIKU	01-03-2019
2574	4566036A	HAV	SONDAWALE DHARMASHIL HIRALAL	01-05-2019
2575	4563629F	HAV	SUDARSHAN KUMAR	01-03-2019
2576	4565925L	HAV	SURAJ	01-03-2019
2577	4565831N	HAV	TAYADE MANOHAR WASUDEO	01-04-2019
2578	4565809H	HAV	UTTAM KUMAR JENA	01-03-2019

2579	4566245X	HAV	VIPIN BIHARI	01-05-2019
2580	4566110W	HAV	WANKHADE VILAS SHALIGRAM	01-05-2019
2581	4566348W	HAV	YOGENDRA PRASAD	01-07-2019
2582	4565865F	HAV	YOGENDRA SINGH YADAV	01-03-2019
2583	4566295H	HAV	YOGRAJ	01-05-2019

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

2584	13758926W	HAV	AMRIK SINGH	01-05-2019
2585	13759255K	HAV	ANIL SINGH	01-07-2019
2586	13759283W	HAV	AVTAR SINGH	01-08-2019
2587	13758516A	HAV	AZIZ UR REHMAN	01-02-2019
2588	13756451Y	HAV	BALBIR SINGH	01-03-2019
2589	13756498K	HAV	BANSI LAL	01-04-2019
2590	13759238K	HAV	GANESH DASS	01-07-2019
2591	13756496Y	HAV	HARENDRA PRASAD	01-03-2019
2592	13758914F	HAV	HARJIT SINGH	01-05-2019
2593	13756528W	HAV	JAGDISH KUMAR	01-05-2019
2594	4074056A	HAV	JATINDER KUMAR	01-03-2019
2595	13758765Y	HAV	JEET KUMAR	01-03-2019
2596	13758993F	HAV	JIWAN SINGH	01-05-2019
2597	13759097A	HAV	JOGINDER LAL	01-07-2019
2598	13756683X	HAV	KULDEEP RAJ	01-07-2019
2599	13759219Y	HAV	KULDEEP SINGH	01-07-2019
2600	13758799M	HAV	LAKHANPAL SINGH	01-03-2019
2601	13759248N	HAV	MADAN LAL	01-07-2019
2602	13759165H	HAV	MANJIT SINGH	01-07-2019
2603	13756592N	HAV	NARENDER SINGH	01-07-2019
2604	13759007N	HAV	NARENDRA BAHADUR	01-05-2019
2605	4074094W	HAV	NEK RAM	01-03-2019
2606	13756655L	HAV	OM DUTT SHARMA	01-07-2019
2607	13756582K	HAV	P SUBRAHMANYAM	01-02-2019
2608	13759086N	HAV	PADAM SINGH	01-07-2019
2609	13756524A	HAV	PORAG SAIKIA	01-05-2019
2610	13756526L	HAV	PRAMOD M V	01-05-2019
2611	13759183L	HAV	RAJ KUMAR	01-07-2019
2612	13758744H	HAV	RAMJAN KHAN	01-03-2019
2613	13758709A	HAV	RAVI KUMAR	01-03-2019
2614	13758620N	HAV	SANJAY KUMAR SHARMA	01-03-2019
2615	13758685F	HAV	SATISH KUMAR	01-03-2019
2616	13756565K	HAV	SHAMSHER SINGH RANA	01-05-2019
2617	13759129X	HAV	SHYAM LAL	01-07-2019
2618	13756692Y	HAV	SRIRAM SINGH YADAV	01-06-2019
2619	13758663H	HAV	SUNIL KUMAR	01-03-2019
2620	13759092F	HAV	SUNIL SHANT	01-07-2019
2621	13756487X	HAV	SURENDER KUMAR	01-03-2019
2622	13759181A	HAV	SURENDER KUMAR	01-07-2019
2623	13756564F	HAV	SURENDRA KUMAR SARKI	01-05-2019

2624	13759004A	HAV	SURYA BAHADUR MALL	01-05-2019
2625	13759013F	HAV	TARSEM SINGH	01-05-2019
2626	4076668W	HAV	VARINDER SINGH	01-07-2019
2627	13756617P	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2019
2628	13758774A	HAV	VIMAL KUMAR	01-03-2019
2629	13758986L	HAV	YOG RAJ	01-05-2019

THE LADAKH SCOUTS

2630	9924412K	HAV	CHETAN ANGCHOK	01-07-2019
2631	9924661H	HAV	LOBZANG RIGZIN	01-08-2019
2632	9924331K	HAV	NAZIR HUSSAIN	01-02-2019
2633	9924655P	HAV	PADMA STANZIN	01-08-2019
2634	9924641P	HAV	PHUNTSOG DORJEY	01-08-2019
2635	9924660A	HAV	STANZIN WANGBO	01-08-2019
2636	9924430M	HAV	TASHI GAILSON	01-07-2019
2637	9924635F	HAV	TASHI GAILTSON	01-08-2019
2638	9924640M	HAV	THUKJE PALJOR	01-08-2019

THE NAGA REGIMENT

2639	14703058L	HAV	A ASULI	01-02-2019
2640	14703063W	HAV	A KHEHOTO SEMA	01-02-2019
2641	4185358F	HAV	KAWAL SINGH	01-03-2019

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

2642	9095658W	HAV	AJAY KUMAR SHUKLA	01-03-2019
2643	9096952H	HAV	BALWAN SINGH	01-07-2019
2644	9095742W	HAV	BALWINDER SINGH	01-07-2019
2645	9095690L	HAV	BHINDER KUMAR	01-04-2019
2646	9096751K	HAV	BILAL AHMED SHEIKH	01-03-2019
2647	9095596F	HAV	BUA DITTA	01-03-2019
2648	9095911M	HAV	DES RAJ	01-06-2019
2649	9096866X	HAV	GHULAM AHMED	01-05-2019
2650	9095625L	HAV	GHULAM FAREED	01-03-2019
2651	9096493P	HAV	GOTAM SINGH	01-02-2019
2652	9095753H	HAV	GR NAVEEN BALWAL	01-07-2019
2653	9096854H	HAV	GULZAR HUSSAIN	01-05-2019
2654	9095628Y	HAV	GURDYAL SINGH	01-03-2019
2655	13620806Y	HAV	GURKA NAGESWARA REDDY	01-07-2019
2656	9096953L	HAV	JASWANT SINGH	01-07-2019
2657	9096807L	HAV	JUGRAJ KUMAR	01-04-2019
2658	9095620M	HAV	KEWAL SINGH	01-03-2019
2659	9095623A	HAV	KISHOR KUMAR	01-03-2019
2660	9095767H	HAV	MAHMOOD AHMED	01-07-2019
2661	9096935H	HAV	MANIR HUSSAIN	01-07-2019
2662	9095762K	HAV	MOHD AKBAR	01-07-2019
2663	9096882P	HAV	MOHD ASHFAQ	01-05-2019
2664	9096871H	HAV	MOHD LATIEF	01-05-2019
2665	9095689W	HAV	MOHD NAZIR	01-04-2019

2666	9096886L	HAV	MOHD SHAF A	01-05-2019
2667	9096778F	HAV	MOHD YAQOOB KUMAR	01-03-2019
2668	9095721A	HAV	MOHINDER LAL	01-05-2019
2669	9096828F	HAV	MUSHTAQ AHMAD PARRAY	01-04-2019
2670	9096791L	HAV	MUSHTAQ AHMED	01-03-2019
2671	9095627W	HAV	MUZAFAR KHAN	01-03-2019
2672	9095837W	HAV	PRITAM SINGH	01-06-2019
2673	9096830Y	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2019
2674	9096793W	HAV	RAJINDER SINGH	01-03-2019
2675	9095615F	HAV	ROMESH CHANDER	01-03-2019
2676	9095695K	HAV	SADIQ HUSSAIN MALIK	01-04-2019
2677	9096815K	HAV	SALEEM AHMAD LONE	01-04-2019
2678	9095651M	HAV	SHAH NAWAZ	01-03-2019
2679	9095697P	HAV	SUBASH CHANDER	01-04-2019
2680	9095755N	HAV	SUKHDEV SINGH	01-07-2019
2681	9095713F	HAV	SURINDER PAUL	01-05-2019
2682	9096740X	HAV	TARIQ HUSSAIN	01-02-2019
2683	9096476P	HAV	VIJAY KUMAR SHARMA	01-02-2019
2684	9096720K	HAV	ZAKIR HUSSAIN	01-02-2019

1 GORKHA RIFLES

2685	5045946N	HAV	ASH BAHADUR GURUNG	01-02-2019
2686	5046247P	HAV	BAL BAHADUR PUN	01-06-2019
2687	5046067M	HAV	DAMBAR SING THAPA MAGAR	01-04-2019
2688	5046259K	HAV	DAN BAHADUR THAPA	01-06-2019
2689	5045330A	HAV	DHAN BAHADUR RANA	01-03-2019
2690	5046052K	HAV	DIL BAHADUR THAPA	01-04-2019
2691	5046414A	HAV	DORJAY YOLMOO	01-08-2019
2692	5045999M	HAV	JAI BAHADUR THAPA	01-03-2019
2693	5045366Y	HAV	LAL BAHADUR THAPA	01-05-2019
2694	5753215F	HAV	LAL BAHADUR THAPA	01-03-2019
2695	5046028N	HAV	NAN BAHADUR THAPA	01-04-2019
2696	5046207N	HAV	NAR BAHADUR GURUNG	01-05-2019
2697	5045372M	HAV	NAR BAHADUR GURUNG	01-05-2019
2698	5045960A	HAV	NARENDRA BAHADUR DURA	01-02-2019
2699	5046159Y	HAV	NOBIN GURUNG	01-03-2019
2700	5046022M	HAV	PRAKASH PRADHAN	01-03-2019
2701	5046121P	HAV	PRAWESH GURUNG	01-03-2019
2702	5045314H	HAV	PURNA BAHADUR RANA	01-02-2019
2703	5046094W	HAV	RAM KESHAR GURUNG	01-04-2019
2704	5046269N	HAV	RESHAM BAHADUR GURUNG	01-06-2019
2705	5045953K	HAV	REWAT BAHADUR DHENGA MAGAR	01-02-2019
2706	9421567L	HAV	SANJAY THAPA	01-02-2019
2707	5045378N	HAV	SANTA BAHADUR GURUNG	01-05-2019
2708	5046205H	HAV	SHAKTI BAHADUR GURUNG	01-05-2019
2709	5045365W	HAV	SHARVAN KUMAR THAPA	01-05-2019
2710	5045338M	HAV	SURYA BAHADUR THAPA	01-03-2019
2711	5046071P	HAV	TUK BAHADUR THAPA	01-04-2019

2712	5045970K	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-02-2019
2713	5046112N	HAV	YEN BAHADUR THAPA	01-04-2019

3 GORKHA RIFLES

2714	5247573N	HAV	AGIN BAHADUR RANA	01-02-2019
2715	5247562F	HAV	ANOWAR HOSSAIN	01-02-2019
2716	5246841A	HAV	ARJUN KC	01-03-2019
2717	5247809X	HAV	BAL BAHADUR THAPA	01-04-2019
2718	5247687Y	HAV	DIL BAHADUR THAPA	01-04-2019
2719	5247812X	HAV	DURGA BAHADUR RANA	01-04-2019
2720	5247867F	HAV	GANGA PRASAD GURUNG	01-04-2019
2721	5247688F	HAV	GUPTA BAHADUR THAPA	01-04-2019
2722	5247794A	HAV	HIRA THAPA	01-04-2019
2723	5247731X	HAV	ISHWAR GURUNG	01-04-2019
2724	5247616X	HAV	JIT BAHADUR ALE MAGAR	01-02-2019
2725	5247699N	HAV	MAN BAHADUR THAPA MAGAR	01-04-2019
2726	5247713P	HAV	NANDA PRASAD GURUNG	01-04-2019
2727	5247648A	HAV	NAVAL PUN	01-04-2019
2728	5247937P	HAV	PREM BAHADUR PUN	01-06-2019
2729	5247776X	HAV	RAJ KUMAR GURUNG	01-04-2019
2730	5247006L	HAV	RAM BADAI	01-02-2019
2731	5847902W	HAV	RAM BAHADUR GIRI	01-06-2019
2732	5247575Y	HAV	RAM SINGH GHALE	01-02-2019
2733	5247895N	HAV	SANTOSH THAPA	01-05-2019
2734	5247650X	HAV	SHIV SINGH THAPA	01-04-2019
2735	5247734L	HAV	TARA PRASAD THAPA	01-04-2019
2736	5247564M	HAV	TEJ BAHADUR GURUNG	01-02-2019
2737	5247694P	HAV	THAKUR SINGH RANA	01-04-2019

4 GORKHA RIFLES

2738	5348023M	HAV	AMAR BAHADUR RANA	01-02-2019
2739	5348178F	HAV	DAN BAHADUR THAPA	01-04-2019
2740	5348152M	HAV	DEEPAK KUMAR GURUNG	01-04-2019
2741	5348104M	HAV	DEWAN SINGH BUDHA MAGAR	01-04-2019
2742	5348204X	HAV	DURGA BAHADUR THAPA	01-04-2019
2743	5348284A	HAV	JHAKENDRA KUMAR GURUNG	01-06-2019
2744	5348001N	HAV	JHAMAN BAHADUR RANA	01-02-2019
2745	5347988X	HAV	JIBAN THAPA	01-02-2019
2746	5348166M	HAV	JYAM BAHADUR THAPA	01-04-2019
2747	5348128W	HAV	KESHAR BAHADUR BARAGHARE	01-04-2019
2748	5348010P	HAV	KHADAK BAHADUR CHHANTELE THAPA	01-02-2019
2749	5348042X	HAV	KHUM BAHADUR THAPA	01-02-2019
2750	5348160L	HAV	LOK BAHADUR THAPA	01-04-2019
2751	5348244Y	HAV	MOHAN BAHADUR RANA	01-05-2019
2752	5348017Y	HAV	PADAM BAHADUR ALE	01-02-2019
2753	5348328M	HAV	PITAM BAHADUR KUWAR	01-06-2019
2754	5348304H	HAV	PURAN RANA	01-06-2019

2755	5348227Y	HAV	SADEEP THAPA	01-04-2019
2756	5348228F	HAV	SAJAN LAMA	01-04-2019
2757	5347972M	HAV	SHIVA GURUNG	01-02-2019
2758	5347974X	HAV	SHUKRA BAHADUR RANA	01-02-2019
2759	5348373Y	HAV	SURESH PRADHAN	01-07-2019
2760	5348202M	HAV	TEK BAHADUR SHRISH	01-04-2019

5 GORKHA RIFLES

2761	5451916A	HAV	AJAY KUMAR	01-03-2019
2762	5453302W	HAV	BAL BAHADUR THAPA	01-07-2019
2763	5452986L	HAV	BHOT BAHADUR MAHAT CHHETRI	01-03-2019
2764	5453252W	HAV	BISHNU BAHADUR SHRESTHA	01-06-2019
2765	5453093K	HAV	CHAKRA BAHADUR KOWAR	01-04-2019
2766	5453276A	HAV	CHHABILAL THAPA DHAN BAHADUR RANA	01-07-2019
2767	5452970A	HAV	MAGAR	01-03-2019
2768	5451939F	HAV	DHAN KAJI THAPA	01-05-2019
2769	5453036H	HAV	GYAN BAHADUR BUDHA	01-04-2019
2770	5451927M	HAV	HUM BAHADUR GURUNG	01-03-2019
2771	5453256M	HAV	IMAN SINGH THAPA	01-06-2019
2772	5453134H	HAV	JAG BAHADUR SUNAR	01-05-2019
2773	5452038F	HAV	KAILASH TAMANG	01-07-2019
2774	5452960W	HAV	MIN BAHADUR SINGH RANA	01-03-2019
2775	5451960K	HAV	NETRA BAHADUR KAMMU THAPA	01-06-2019
2776	5451920H	HAV	NILAM KUMAR RANA	01-03-2019
2777	5453020X	HAV	PADAM SHRESTHA	01-04-2019
2778	5451870H	HAV	REG BAHADUR THAPA	01-03-2019
2779	5453135L	HAV	SANTA KUMAR GURUNG	01-05-2019
2780	5453038N	HAV	TEK BAHADUR PUN	01-04-2019
2781	5453112K	HAV	TIL BAHADUR THAPA	01-05-2019
2782	5452968H	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-03-2019

8 GORKHA RIFLES

2783	5753222X	HAV	BHAWAN SING ALE	01-03-2019
2784	5753260N	HAV	CHHABU RANA	01-03-2019
2785	5754224P	HAV	DEVI LAL ALE	01-04-2019
2786	5754178L	HAV	GAJENDRA LAMA	01-03-2019
2787	5754116L	HAV	GUMAN SINGH THAPA	01-02-2019
2788	5754118W	HAV	HARI KUMAR SHRESTHA	01-02-2019
2789	5754316F	HAV	HUM BAHADUR BUDHA	01-05-2019
2790	5754430Y	HAV	LAL KAJI GURUNG	01-08-2019
2791	5754226A	HAV	MAHENDRA SINGH GURUNG	01-04-2019
2792	5754177H	HAV	MASIUR RAHAMAN	01-03-2019
2793	5753276Y	HAV	MOHAN BAHADUR CHHETRI	01-05-2019
2794	5753382X	HAV	MUNSHI PRASAD	01-07-2019
2795	5754203Y	HAV	PRADIP THAPA	01-04-2019
2796	5754439N	HAV	RAM PRASAD SHRISH	01-08-2019
2797	5754261H	HAV	RAMESH MALLA	01-05-2019

2798	5754199F	HAV	SAV DHAN SING THAPA	01-04-2019
2799	5753218P	HAV	SHEETAL GURUNG	01-03-2019
2800	5753307N	HAV	SHYAM BAHADUR PUN	01-04-2019
2801	5754396K	HAV	TAK BAHADUR GURUNG	01-07-2019
2802	5753333P	HAV	TIL BAHADUR RESHMI	01-07-2019

9 GORKHA RIFLES

2803	5848481L	HAV	AMMAR BAHADUR KUNWOR	01-02-2019
2804	5848459A	HAV	BALA RAM PACHHAI	01-02-2019
2805	5847856M	HAV	BAM BAHADUR THAPA	01-04-2019
2806	5848719A	HAV	BISHNU KHATRI	01-07-2019
2807	5848494H	HAV	CHITRA BAHADUR KUNWAR	01-02-2019
2808	5848771H	HAV	DAMMAR MALLA	01-08-2019
2809	5848717P	HAV	DHAN SINGH BHANDARI	01-07-2019
2810	5848589H	HAV	GANESH BAHADUR CHHETRI	01-04-2019
2811	5847860P	HAV	HARI BAHADUR PACHHAI	01-04-2019
2812	5848546N	HAV	MADHAVA PRASAD CHAPAGAIN	01-03-2019
2813	5848554M	HAV	PURNA BAHADUR CHHETRI	01-04-2019
2814	5848758Y	HAV	RAJ KUMAR KHATRI	01-08-2019
2815	5848816X	HAV	SANJIB BHANDARI	01-08-2019
2816	5848525X	HAV	SITA RAM	01-03-2019
2817	5848551Y	HAV	SURAJ KHADKA CHHETRI	01-04-2019
2818	5847915N	HAV	SURAJ KUMAR CHHETRI	01-07-2019
2819	5848695F	HAV	TEK BAHADUR CHHETRI	01-06-2019
2820	5848555P	HAV	TEK BAHADUR KARKI	01-04-2019
2821	5848624A	HAV	UTTAM BAHADUR CHHETRI	01-05-2019
2822	5848477H	HAV	VINOD KUMAR CHOUBEY	01-02-2019

11 GORKHA RIFLES

2823	9421672F	HAV	AMOL SUBBA	01-03-2019
2824	9421988N	HAV	ANAND LIMBOO	01-05-2019
2825	9420579N	HAV	ARVIND RAI	01-02-2019
2826	9421557F	HAV	AZIZ AHAMD	01-02-2019
2827	9422053A	HAV	BAL KUMAR RAI	01-06-2019
2828	9420567Y	HAV	BHAKTI PRASAD LIMBU	01-02-2019
2829	9421826H	HAV	DAWA SHERPA	01-04-2019
2830	9421717W	HAV	DHAN BAHADUR RAI	01-03-2019
2831	9422033M	HAV	DHAN PRASAD RAI	01-06-2019
2832	9421842A	HAV	DINA BAHADUR RAI	01-04-2019
2833	9421589K	HAV	GAJENDRA BAHADUR SENDANG (LIMBU)	01-02-2019
2834	9421716N	HAV	GANESH KUMAR RAI	01-03-2019
2835	9422127K	HAV	GANESH RAI	01-08-2019
2836	9421999A	HAV	IJAKIEL RAI	01-06-2019
2837	9421819M	HAV	INDRA BAHADUR LIMBU	01-04-2019
2838	9421649N	HAV	JAHAN SING RAI	01-02-2019
2839	9421761A	HAV	KRIPA RAM RAI	01-03-2019
2840	9422098A	HAV	MAN KUMAR PAKHRIN	01-07-2019
2841	9421698W	HAV	NAVIN KUMAR RAI	01-04-2019

2842	9421760X	HAV	NIM TSHERING TAMANG	01-03-2019
2843	9421953X	HAV	PREM KUMAR RAI	01-05-2019
2844	9421732L	HAV	PREM KUMAR RAI	01-03-2019
2845	9421748W	HAV	PURAN RAI	01-03-2019
2846	9422035X	HAV	RAJ KUMAR RAI	01-06-2019
2847	9421955H	HAV	RAM DHOJ BISHWAKARMA	01-05-2019
2848	9420736P	HAV	ROMAN RAI	01-08-2019
2849	9422034P	HAV	SAVIN KUMAR RAI	01-06-2019
2850	9421880W	HAV	SUNIL SUBBA	01-04-2019
2851	9421638F	HAV	SURYA BAHADUR SYANGBO	01-02-2019
2852	9421585N	HAV	TARJEL TAMANG	01-02-2019
2853	9421582A	HAV	TEK BAHADUR TAMANG	01-02-2019
2854	9421980F	HAV	VIKRAM PRADHAN	01-05-2019

ARMY SERVICE CORPS (SOUTH)

2855	14809968K	HAV	A MOHAMED RAFI	01-07-2019
2856	14807670F	HAV	ABHAYA KUMAR BHUYAN	01-07-2019
2857	14809881H	HAV	ABUNACHAR MD ABRAHAM	01-05-2019
2858	14809479Y	HAV	ACHARYA HARSHAD KUMAR RAGURAY	01-03-2019
2859	14809339M	HAV	AJAI KUMAR UPADHYA	01-03-2019
2860	14809999K	HAV	AJAY KUMAR	01-07-2019
2861	5348223H	HAV	AJIT DAS	01-05-2019
2862	14807590K	HAV	AJIT SAIKIA	01-07-2019
2863	14810000L	HAV	AKHILESH YADAV	01-07-2019
2864	14810060A	HAV	AKHILESHWAR JHA	01-07-2019
2865	14809346H	HAV	AKSHAYABAR SINGH	01-03-2019
2866	14807222P	HAV	ANAND RAM	01-03-2019
2867	14807287H	HAV	ANIL KUMAR	01-03-2019
2868	14809781X	HAV	ANIL KUMAR	01-05-2019
2869	14809211F	HAV	ARDHI VASUDEVA RAO	01-03-2019
2870	14807374W	HAV	ARJUN SINGH	01-05-2019
2871	14809430H	HAV	ARJUN SINGH YADAV	01-03-2019
2872	14809958A	HAV	ARUN KUMAR K	01-06-2019
2873	14809350L	HAV	ARUNABH KUMAR UPADHYAY	01-03-2019
2874	14809711Y	HAV	ASHOK KUMAR	01-05-2019
2875	14809509L	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2019
2876	14810091A	HAV	AWADH BIHARI	01-08-2019
2877	14809755W	HAV	AWADH NARAYAN	01-05-2019
2878	6393015W	HAV	B JAGANATHAN	01-03-2019
2879	14807669M	HAV	BAHADUR SINGH GURJAR	01-07-2019
2880	14807298P	HAV	BALAM SINGH RAWAT	01-05-2019
2881	14807271X	HAV	BALAVANT SINGH	01-03-2019
2882	14807467L	HAV	BALBIR SINGH YADAV	01-04-2019
2883	14809219N	HAV	BALVEER SINGH	01-03-2019
2884	14809229X	HAV	BALVIR SINGH	01-03-2019
2885	14810036K	HAV	BANI SINGH	01-07-2019
2886	14807314F	HAV	BARMESHWAR SINGH	01-05-2019

2887	14807718K	HAV	BHAIRU PATIL	01-07-2019
2888	14809348N	HAV	BHOOP SINGH	01-03-2019
2889	6488491A	HAV	BIJAY KUMAR MOHANTY	01-05-2019
2890	14809196X	HAV	BIJAY SINGH	01-02-2019
2891	14807668K	HAV	BIJENDRA SINGH	01-07-2019
2892	14807460F	HAV	BIJU S	01-04-2019
2893	14809382N	HAV	BIKASH RANJAN DAS	01-03-2019
2894	6391779W	HAV	BILASH KANTI RANA	01-05-2019
2895	6391789A	HAV	BIMAL DEY	01-07-2019
2896	6391775A	HAV	BINDU KUMAR	01-05-2019
2897	14809567P	HAV	BINU T	01-04-2019
2898	14809653A	HAV	BIRENDRA YADAV	01-05-2019
2899	14807664N	HAV	BISHAN SHWAROOP SHARMA	01-07-2019
2900	15388859K	HAV	BOOPATHI R	01-05-2019
2901	14809283L	HAV	BRAHMA SINGH	01-03-2019
2902	14810031L	HAV	C MURTHY	01-07-2019
2903	14809398Y	HAV	C ULAGARAJA	01-03-2019
2904	14807221M	HAV	CHAMAN LAL	01-03-2019
2905	14807203K	HAV	CHANDESHWAR PRASAD	01-03-2019
2906	14809920W	HAV	CHANDRA PAL SINGH	01-05-2019
2907	14809575N	HAV	CHHOTE LAL PATEL	01-04-2019
2908	14809562W	HAV	D RENU	01-04-2019
2909	14809395L	HAV	DABHI BHATHI BHAI GULAB SINH	01-03-2019
2910	14809302L	HAV	DEEN BANDHU UPADDHAYA	01-03-2019
2911	14809592N	HAV	DEVENDER KUMAR SHARMA	01-04-2019
2912	14807187X	HAV	DEVENDRA PRASAD MISHRA	01-03-2019
2913	14807555F	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-06-2019
2914	14807509M	HAV	DHARMINDRA	01-05-2019
2915	14807461K	HAV	DILEEP KUMAR P	01-04-2019
2916	14809661Y	HAV	DIPEN CHANDRA BORAH	01-05-2019
2917	14807351P	HAV	DUDEKULA KASAIH	01-05-2019
2918	14807397X	HAV	ESHWAR PRASAD PANKAJ	01-05-2019
2919	14809470K	HAV	ESWAR REDDY ANNAPU REDDY	01-03-2019
2920	14807302M	HAV	GAJENDRA	01-05-2019
2921	14807327Y	HAV	GEORGE B	01-03-2019
2922	14809951W	HAV	GORE LAL	01-06-2019
2923	6487774P	HAV	GOUR CHANDRA PRAMANIK	01-03-2019
2924	6392706W	HAV	GOVIND NARAYAN SALAM	01-03-2019
2925	14807451A	HAV	GOVIND PRADESHI	01-03-2019
2926	14809980L	HAV	GULAB SINGH	01-07-2019
2927	14809878H	HAV	GURNAM SINGH	01-05-2019
2928	14809715P	HAV	GYAN SINGH	01-05-2019
2929	6391802Y	HAV	HAOBAMKEN SINGH	01-08-2019
2930	14809394H	HAV	HARI GAUTAM	01-03-2019
2931	14807383X	HAV	HARINDRA	01-05-2019
2932	14807681N	HAV	HARSHAY GURJAR	01-07-2019
2933	14809349W	HAV	HAWALDAR SINGH	01-03-2019
2934	14807370A	HAV	HEERA RAM SHOU	01-05-2019

2935	14807544P	HAV	HIMMAT SINGH BISHT	01-06-2019
2936	14809344X	HAV	ISHWARI YADAV	01-03-2019
2937	6393087A	HAV	J ANJALALIAH	01-05-2019
2938	14809234H	HAV	JADEJA RAJENDRA SINH ANIRUDH SINH	01-03-2019
2939	15390266W	HAV	JANAGA MAHA KAVI RAJA N K	01-07-2019
2940	14810037M	HAV	JANARDAN CHATURVEDI	01-07-2019
2941	14809331A	HAV	JAYAVIR SINGH	01-03-2019
2942	14809383W	HAV	JITEN KUMAR PRADHAN	01-03-2019
2943	14809772W	HAV	JITENDRA THAKUR	01-05-2019
2944	14809373M	HAV	JOGINDER PAL	01-03-2019
2945	14807344Y	HAV	K JOTHI BASU	01-05-2019
2946	14809970F	HAV	KAJIRAM UPRETI	01-07-2019
2947	14809511H	HAV	KALP NATH SINGH	01-03-2019
2948	14809716X	HAV	KAMAL SINGH	01-05-2019
2949	14807543M	HAV	KAMLA KANT MISHRA	01-06-2019
2950	14807603W	HAV	KANWAR SINGH	01-07-2019
2951	14809328A	HAV	KANZARIYA JENTILAL BHIKHU BHAI	01-03-2019
2952	6393200K	HAV	KHAJAVALI SHAIK	01-06-2019
2953	14809579K	HAV	KISHUN BIR	01-04-2019
2954	14807654K	HAV	KRISHAN CHAND	01-07-2019
2955	14807347M	HAV	KRISHAN KUMAR	01-05-2019
2956	14807694L	HAV	KRISHNA KUMAR	01-07-2019
2957	14809540X	HAV	KRISHNA SINGH CHAUDHRI	01-03-2019
2958	14807504N	HAV	KSHITISH CHANDRA RAY	01-05-2019
2959	14807241A	HAV	KUMAR DEVANAND	01-03-2019
2960	14809758K	HAV	KUMAR NAGENDRA SINGH	01-05-2019
2961	14807197F	HAV	LUIS EKKA	01-03-2019
2962	14809971K	HAV	M RAGHU KUMAR	01-07-2019
2963	14809390M	HAV	M THANGAVEL	01-03-2019
2964	14809505P	HAV	MADAN KUMAR	01-03-2019
2965	14809658Y	HAV	MAHADEV GAWADA	01-05-2019
2966	14807473Y	HAV	MAHAVEER SINGH RAJPUT	01-04-2019
2967	14809644Y	HAV	MAHENDRA KUMAR RANA	01-05-2019
2968	14809515Y	HAV	MAHENDRA SINGH	01-03-2019
2969	14807264F	HAV	MAJHI SUNDI	01-03-2019
2970	14809188Y	HAV	MALIVAD DAHYA BHAI PUJA BHAI	01-02-2019
2971	6391746L	HAV	MAN SINGH	01-03-2019
2972	6392963N	HAV	MANIK CHANDRA MANDAL	01-04-2019
2973	14809199L	HAV	MANOHAR LAL	01-02-2019
2974	14809276P	HAV	MANOHAR SINGH	01-03-2019
2975	14809459L	HAV	MANOHER JAMANIYA	01-03-2019
2976	14807333M	HAV	MANOJ KUMAR N	01-03-2019
2977	14807295F	HAV	MANOJ KUMAR PANDEY	01-05-2019
2978	14807363K	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-05-2019
2979	14810025X	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-07-2019
2980	14810058H	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-07-2019
2981	14809389X	HAV	MANSA RAM BETAL	01-03-2019

2982	14809243K	HAV	MD IBRAHEEM	01-03-2019
2983	14807549N	HAV	MD SAFIKUL ISLAM	01-06-2019
2984	14810005K	HAV	MING GYALPO SHERPA	01-07-2019
2985	14807225H	HAV	MOHAN SINGH	01-03-2019
2986	14807339N	HAV	MOTIRAM G	01-05-2019
2987	14809629K	HAV	MUKESH KUMAR	01-05-2019
2988	14809747X	HAV	MUKESH KUMAR SINGH	01-05-2019
2989	14807375Y	HAV	MUNA DAN	01-05-2019
2990	14807632L	HAV	N KARUPPASAMY	01-07-2019
2991	14810035F	HAV	NARENDRA KUMAR MISHRA	01-07-2019
2992	14809731M	HAV	NARENDRA SHARMA	01-05-2019
2993	14809633M	HAV	NILAJIT SINGHA	01-05-2019
2994	14807293W	HAV	NIRMAL SINGH	01-05-2019
2995	14807602N	HAV	NIRMALJIT SINGH	01-07-2019
2996	6391781N	HAV	OM PRAKASH	01-05-2019
2997	14807687P	HAV	OM PRAKASH SHARMA	01-07-2019
2998	14810065Y	HAV	OM PRAKASH YADAWA	01-07-2019
2999	14809967F	HAV	PANCH KUMAR GURUPANCH	01-07-2019
3000	14810073X	HAV	PARAS NATH YADAV	01-07-2019
3001	6391767F	HAV	POONAM SINGH	01-05-2019
3002	14809753L	HAV	POORAN DAN LAKHAWAT	01-05-2019
3003	14809976H	HAV	PRADEEP KUMAR S	01-07-2019
3004	6391773P	HAV	PRAKASH CHAND	01-05-2019
3005	14810092H	HAV	PRAKASH MADHO URKUDE	01-08-2019
3006	14807521N	HAV	PRAKASH V	01-05-2019
3007	14809213M	HAV	PRAKASH VIR SINGH	01-03-2019
3008	14807296K	HAV	PRATAP SINGH	01-05-2019
3009	14807372L	HAV	PRAWEEEN KUMAR	01-05-2019
3010	6391787P	HAV	PREM NARAYAN YADAV	01-07-2019
3011	14809880A	HAV	PULAK KUMAR GOSWAMI	01-05-2019
3012	14807371H	HAV	PURENDRA KUMAR SAHU	01-05-2019
3013	14807658A	HAV	PURUSHOTAM KUMAR	01-07-2019
3014	14809988X	HAV	R RAJA SEKARAN	01-07-2019
3015	14809671H	HAV	RADHEY SHYAM YADAVA	01-05-2019
3016	14807607M	HAV	RAJ KHUNGUR BASUMATARY	01-07-2019
3017	14810051Y	HAV	RAJ KISHORE BAITHA	01-07-2019
3018	14809935Y	HAV	RAJ NARAIN SINGH	01-05-2019
3019	14809754N	HAV	RAJENDER SINGH	01-05-2019
3020	14809380H	HAV	RAJENDRA BAHADUR SINGH CHAUHAN	01-03-2019
3021	14809210Y	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-03-2019
3022	14809978N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-07-2019
3023	14807498L	HAV	RAJESH KUMAR	01-05-2019
3024	14809606H	HAV	RAJESH KUMAR	01-03-2019
3025	14809203H	HAV	RAJESH KUMAR PAL	01-02-2019
3026	6391785K	HAV	RAJESH KUMAR SHARMA	01-07-2019
3027	14809197A	HAV	RAJESH PRASAD SINGH	01-02-2019
3028	14807740P	HAV	RAJESH SINGH	01-08-2019
3029	14807292N	HAV	RAJINDER SINGH	01-05-2019

3030	14807611P	HAV	RAKESH	01-07-2019
3031	6393072X	HAV	RAKESH KUMAR	01-04-2019
3032	14809615K	HAV	RAKESH KUMAR	01-05-2019
3033	14809876X	HAV	RAKESH KUMAR	01-05-2019
3034	14807297M	HAV	RAM SWARUP	01-05-2019
3035	14809657W	HAV	RAMA SHANKER YADAV	01-05-2019
3036	14809327X	HAV	RAMBIR SINGH	01-03-2019
3037	14809646K	HAV	RAMESH CHAND	01-05-2019
3038	14807548L	HAV	RAMESH KUMAR	01-06-2019
3039	14810041P	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
3040	14810071M	HAV	RAMESH KUMAR YADAVA	01-07-2019
3041	14809189F	HAV	RANJEET KUMAR	01-02-2019
3042	14807506Y	HAV	RATAN DAS	01-05-2019
3043	14809314A	HAV	RATAN KUMAR SINGH	01-03-2019
3044	14809463N	HAV	RATAN LAL MALVIYA	01-03-2019
3045	14809948W	HAV	RATUL BARUAH	01-06-2019
3046	14807662H	HAV	RAVENDRA KUMAR SHAKAYA	01-07-2019
3047	14810068M	HAV	RAVI SHANKAR KUMAR RAVI	01-07-2019
3048	14807301K	HAV	RAVI SHANKAR SHUKLA	01-05-2019
3049	6484946N	HAV	ROOP SINGH	01-07-2019
3050	14807651W	HAV	S K MOJIBUR RAHAMAN	01-07-2019
3051	14809384Y	HAV	S RAMA SUBBU	01-03-2019
3052	14809626W	HAV	S SUDHAKAR REDDY	01-05-2019
3053	14809220H	HAV	S VANA MAIL	01-03-2019
3054	14809650M	HAV	SADHU K	01-05-2019
3055	14809290F	HAV	SAHADAT HUSSAIN	01-03-2019
3056	14807726H	HAV	SAJITH KUMAR K	01-07-2019
3057	14809605A	HAV	SAMBHU PRASAD	01-03-2019
3058	6391747N	HAV	SAMUNDRA SINGH	01-03-2019
3059	14809281A	HAV	SANGAM LAL PAL	01-03-2019
3060	14810019K	HAV	SANJAY KUMAR	01-07-2019
3061	14810201K	HAV	SANJAY KUMAR KALICHAND WAK CHAURE	01-06-2019
3062	14807282K	HAV	SANJAY MAHARAJ	01-04-2019
3063	14807558P	HAV	SANJAY SINGH	01-06-2019
3064	14807663L	HAV	SANJAYA MUDULI	01-07-2019
3065	14809634P	HAV	SANKAR CHETRI	01-05-2019
3066	14807204M	HAV	SANTHOSH K	01-03-2019
3067	14809233A	HAV	SANTHOSH KUMAR P M	01-03-2019
3068	14809504M	HAV	SANTOSH KUMAR	01-03-2019
3069	14809667A	HAV	SANTOSH KUMAR GUPTA	01-05-2019
3070	14810002W	HAV	SAT PAL	01-07-2019
3071	14807730L	HAV	SATENDRA SINGH	01-08-2019
3072	14809287F	HAV	SATISH CHAND	01-03-2019
3073	14807381M	HAV	SATYA BIR SINGH	01-05-2019
3074	14809599X	HAV	SATYA PRAKASH PANDEY	01-04-2019
3075	14809879L	HAV	SAUMEN KUMAR MANDAL	01-05-2019
3076	14809537X	HAV	SHAHAJI PAWAR	01-03-2019
3077	14809766H	HAV	SHAKEEL MOHAMMAD SIDDIKEE	01-05-2019

3078	14807468N	HAV	SHAMSHAD BEG	01-04-2019
3079	14807572F	HAV	SHANTHA KUMAR C	01-06-2019
3080	6393174N	HAV	SHASTRI RAM GONDS	01-06-2019
3081	14807727L	HAV	SHEKHAWAT SURENDERSINGH RANWATSINGH	01-08-2019
3082	2890641Y	HAV	SHIV SAGAR BISHNOI	01-05-2019
3083	14807414M	HAV	SHIVVEER SINGH TOMAR	01-05-2019
3084	6393118P	HAV	SHYAM KISHOR PRASAD	01-05-2019
3085	14807501A	HAV	SHYAMAL KUMAR MONDAL	01-05-2019
3086	14807652Y	HAV	SITA RAM	01-07-2019
3087	14809940K	HAV	SIVARAMAN O	01-06-2019
3088	14810061H	HAV	SOHAL RAJ SINGH	01-07-2019
3089	14809225F	HAV	SUBHASH CHANDRA PANDEY	01-03-2019
3090	14807180N	HAV	SUBIR KUMAR BARMAN	01-02-2019
3091	14809736L	HAV	SUBODH KUMAR	01-05-2019
3092	6391784F	HAV	SUBODH KUMAR MANNA	01-06-2019
3093	14809545W	HAV	SUGATHA KUMAR S	01-03-2019
3094	14809565K	HAV	SUNIL KUMAR J	01-04-2019
3095	6393241N	HAV	SUNIL KUMAR S S	01-07-2019
3096	14809291K	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2019
3097	14807286A	HAV	SURENDRA SINGH	01-03-2019
3098	14809763P	HAV	SURESH	01-05-2019
3099	14807580A	HAV	SURESH CHANDRA	01-06-2019
3100	6392642W	HAV	SURESH KUMAR D	01-05-2019
3101	14809979W	HAV	SURESH KUMAR GAUTAM	01-07-2019
3102	14807665W	HAV	SURESH RAM	01-07-2019
3103	14809202A	HAV	SURYA PAL	01-02-2019
3104	14809729P	HAV	SUYOG KUMAR	01-05-2019
3105	14807328F	HAV	THONDAMALLA S RANGAIAH	01-03-2019
3106	14809643W	HAV	TOLU RAM	01-05-2019
3107	6393238N	HAV	TRILOKI NATH	01-07-2019
3108	14807653F	HAV	UDAYBIR SINGH	01-07-2019
3109	6484929N	HAV	UDHAB CHARAN PADHI	01-07-2019
3110	14810056X	HAV	UMESH KUMAR	01-07-2019
3111	14809583M	HAV	UMESH SINGH	01-04-2019
3112	14810059L	HAV	UMESHWAR MAHTO	01-07-2019
3113	14809581F	HAV	UTTAM SINGH YADAV	01-04-2019
3114	14809282H	HAV	VEER BANDU GANPAT	01-03-2019
3115	14809449F	HAV	VEERAMANI A	01-03-2019
3116	14810063N	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2019
3117	14807199M	HAV	VIJAY KUMAR	01-03-2019
3118	6391778N	HAV	VIJAY KUMAR	01-05-2019
3119	6391774X	HAV	VIJAY SINGH	01-05-2019
3120	14809669L	HAV	VIJAY SINGH NEGI	01-05-2019
3121	15388290N	HAV	VIJEESH KUMAR V K	01-05-2019
3122	14807367A	HAV	VINOD KUMAR	01-05-2019
3123	6391796W	HAV	VINOD KUMAR	01-08-2019
3124	14807265K	HAV	VINOD KUMAR GOPE	01-03-2019
3125	14809295A	HAV	VIRENDRA SINGH	01-03-2019

3126	14809750X	HAV	VIRENDRA SINGH YADAV	01-05-2019
3127	14809473X	HAV	YELLAVENKATA RAMESH	01-03-2019
3128	14809607L	HAV	YOGENDRA KUMAR	01-03-2019
3129	14810013H	HAV	YOGESH KUMAR SINGH	01-07-2019
3130	14809468M	HAV	YUDHVIR SINGH	01-03-2019
3131	14810001N	HAV	YUWARAJ KUMAR PRADHAN	01-07-2019
3132	14809405K	HAV	ZAD PRADIP SINH HARNATH SINH	01-03-2019
3133	14809445L	HAV	ZALA RAMESH BHAI DAVUBHAI	01-03-2019
3134	6391794L	HAV	ZIAD ALI S K	01-07-2019

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

3135	6484911X	HAV	AMAR CHAND KUNDAL	01-05-2019
3136	6484924P	HAV	ANIL MINJ	01-07-2019
3137	4563911M	HAV	BARIA RAMANSINH FATESINH	01-08-2019
3138	6485329X	HAV	DEVA RADDY	01-02-2019
3139	6484967K	HAV	DINESH KUMAR SAH	01-07-2019
3140	6484943A	HAV	GOPAL KRISHAN	01-07-2019
3141	6484905K	HAV	HARE KRISHAN PANDEY	01-04-2019
3142	6488024H	HAV	HARIOM SINGH.	01-03-2019
3143	6484933W	HAV	JANARDAN JENA	01-07-2019
3144	6487690F	HAV	JOGINDER SINGH	01-03-2019
3145	6484963N	HAV	LAL CHAND PRASAD YADAV	01-08-2019
3146	6484899F	HAV	MAHENDRA SINGH	01-02-2019
3147	6484904F	HAV	MAHESH SINGH	01-03-2019
3148	6485061L	HAV	MD BADIUZZAMAN	01-07-2019
3149	6485090A	HAV	MITHLESH KUMAR THAKUR	01-03-2019
3150	6487760P	HAV	MRINAL KUMAR PANDA	01-03-2019
3151	6484930H	HAV	N JAYARAMAN	01-07-2019
3152	14811427F	HAV	PARMAR HARGOVIND BHAI NANJI BHAI	01-07-2019
3153	6484960A	HAV	PARMOD KUMAR	01-08-2019
3154	6484901N	HAV	PRAKASH CHANDRA PANDEY	01-03-2019
3155	6484948Y	HAV	PRAKASH SAHOO	01-07-2019
3156	6485029W	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-02-2019
3157	6486890L	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2019
3158	6484942X	HAV	RAM KARAN YADAV	01-07-2019
3159	6484959L	HAV	RAM SAGAR	01-08-2019
3160	6484962L	HAV	RAMBIR SHARMA	01-08-2019
3161	6484934Y	HAV	RAMDAS PUNDLIC HINGNE	01-07-2019
3162	6487821F	HAV	RANJIT SINGH	01-03-2019
3163	6487907A	HAV	ROY THOMAS	01-06-2019
3164	6393014N	HAV	S PALANI	01-03-2019
3165	6484915N	HAV	SUBIR ADHIKARY	01-06-2019
3166	6484914L	HAV	SUBRATA KAMILA	01-06-2019
3167	6487792X	HAV	SUJEET KUMAR	01-03-2019
3168	6484916W	HAV	SURYA PRAKASH SHUKLA	01-06-2019
3169	6484947W	HAV	UPENDRA KUMAR OJHA	01-07-2019

ARMY MEDICAL CORPS

3170	13985876K	HAV	A K BHANDARY	01-03-2019
------	-----------	-----	--------------	------------

3171	13986387L	HAV	A K SINGH YADAV	01-07-2019
3172	13985736X	HAV	A L BAITHA	01-03-2019
3173	13986050H	HAV	A PRAKASH	01-04-2019
3174	13986373L	HAV	A RAMESH	01-07-2019
3175	13985767X	HAV	A S KUSHWAHA	01-03-2019
3176	13986652W	HAV	A V SASIDHARAN	01-07-2019
3177	13985783P	HAV	ACHAL SINGH	01-03-2019
3178	13986098W	HAV	AJAY PAL	01-05-2019
3179	13985900P	HAV	AJEET KUMAR	01-03-2019
3180	13986399A	HAV	AJIT SINGH BHADAURIA	01-07-2019
3181	13986290A	HAV	AMAR KUMAR	01-06-2019
3182	13986386H	HAV	ANAND GIRI	01-07-2019
3183	13990532P	HAV	ANAND MOHAN	01-08-2019
3184	13985790L	HAV	ANANTHAN J	01-03-2019
3185	13986292L	HAV	ANIL KUMAR	01-06-2019
3186	13985946X	HAV	ANIL KUMAR GUPTA	01-03-2019
3187	13985869N	HAV	ANSUMAN PANDA	01-03-2019
3188	13985696F	HAV	ANUJ KUMAR	01-02-2019
3189	13986616L	HAV	APPASAB	01-07-2019
3190	13986364K	HAV	ARIFUDDIN	01-07-2019
3191	13985749P	HAV	ARJUN SINGH KARKI	01-03-2019
3192	13985700Y	HAV	ASHISH KUMAR MANDAL	01-02-2019
3193	13986146L	HAV	ASHOKAN K K	01-05-2019
3194	13986604W	HAV	ASHOKE RANA	01-07-2019
3195	13985857Y	HAV	AZAD SINGH	01-03-2019
3196	13985938Y	HAV	B A RAMCHAND	01-03-2019
3197	13985977X	HAV	B K AKELA	01-03-2019
3198	13986517H	HAV	B PRATAP SINGH	01-07-2019
3199	13985833P	HAV	B SOPAN SAKHARAM	01-03-2019
3200	13985963X	HAV	BABU RAJ K	01-03-2019
3201	13986687M	HAV	BAIJU T	01-08-2019
3202	13986124M	HAV	BALAVANT PRASAD	01-05-2019
3203	13986159H	HAV	BALU PATIL	01-05-2019
3204	13986397P	HAV	BALVIR SINGH	01-07-2019
3205	13986066N	HAV	BHADRE A G	01-04-2019
3206	13986263W	HAV	BHAKTA BANDHU SAHOO	01-05-2019
3207	13986110M	HAV	BHANWAR SINGH	01-05-2019
3208	13985747K	HAV	BHOOP SINGH	01-03-2019
3209	13985766P	HAV	BILLU SINGH	01-03-2019
3210	13986108P	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-05-2019
3211	13986570N	HAV	BINU C	01-07-2019
3212	13985751M	HAV	BIPENDR NATH DUBE	01-03-2019
3213	13986402P	HAV	BRIJESH KUMAR YADAVA	01-07-2019
3214	13985945P	HAV	BYAS YADAV	01-03-2019
3215	13985868L	HAV	C C BHAUMIK	01-03-2019
3216	13985793Y	HAV	C JAGANATHAN	01-03-2019
3217	13985841N	HAV	C MUNI RAJ	01-03-2019
3218	13986344W	HAV	C V KARBHARI	01-06-2019

3219	13986248F	HAV	CHAND RAHAMAN	01-05-2019
3220	13986489F	HAV	CHANDU BAITH	01-07-2019
3221	13986078H	HAV	CHILUKA SRINIVASULU	01-05-2019
3222	13986437L	HAV	CHIRANJI BAGARIA	01-07-2019
3223	13985917H	HAV	D K SANKLA	01-03-2019
3224	13986347K	HAV	D P DHAKAL	01-06-2019
3225	13986186M	HAV	DALEEP KUMAR	01-05-2019
3226	13990874H	HAV	DAYANIDHI BEHRA	01-03-2019
3227	13986240P	HAV	DEBANAN DEURI	01-05-2019
3228	13986578A	HAV	DEEPAK KUMAR RAM	01-07-2019
3229	13986566L	HAV	DESHRAJ MATHURIA	01-07-2019
3230	13986025K	HAV	DEVARADDEPPA HALYAL	01-03-2019
3231	13985952L	HAV	DEVE LAL	01-03-2019
3232	13986509K	HAV	DHANA RAJAN D	01-07-2019
3233	13986530M	HAV	DHARMDEO CHAUHAN	01-07-2019
3234	13985845K	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-03-2019
3235	13986296F	HAV	DIL BAG SINGH	01-06-2019
3236	13986220F	HAV	DILIP BHAKTA	01-05-2019
3237	13985912K	HAV	DINESH CHANDRA	01-03-2019
3238	13986418A	HAV	DINESH CHANDRA	01-07-2019
3239	13986354A	HAV	DUNNA CHINNAYANA	01-07-2019
3240	13986472N	HAV	G S GOOJAR	01-07-2019
3241	13985999W	HAV	G SURESH KUMAR	01-03-2019
3242	13986197Y	HAV	GHANSHYAM KUMAR SAHU	01-05-2019
3243	13986097N	HAV	GITAM SINGH	01-05-2019
3244	13985782M	HAV	GOVIND SINGH	01-03-2019
3245	13986271P	HAV	GURMEL SINGH	01-05-2019
3246	13985891Y	HAV	H K ARAJAN	01-03-2019
3247	13986471L	HAV	HARI MOHAN	01-07-2019
3248	13986039K	HAV	HARIDAS G	01-03-2019
3249	13985719X	HAV	HARILAL S	01-03-2019
3250	13985942F	HAV	HARISH CHANDRA SAMAL	01-03-2019
3251	13986525F	HAV	ISMAIL KHAN	01-07-2019
3252	13985888Y	HAV	J C MOHBAT SANG	01-03-2019
3253	13986441N	HAV	J S S RANJIT SINH	01-07-2019
3254	13991253W	HAV	JADHAO S V	01-05-2019
3255	13985806L	HAV	JAGAT SINGH	01-03-2019
3256	13986417X	HAV	JAGNANDAN SINGH	01-07-2019
3257	13986013P	HAV	JAI PRAKASH	01-03-2019
3258	13986055F	HAV	JAIHIND PATHAK	01-04-2019
3259	13986392W	HAV	JANALUDDIN	01-07-2019
3260	13985755H	HAV	JASWINDER SINGH	01-03-2019
3261	13986524Y	HAV	JEETENDRA PD SINGH	01-07-2019
3262	13986193H	HAV	JILE SINGH	01-05-2019
3263	13985815M	HAV	JITENDRA SINGH	01-03-2019
3264	13985834X	HAV	K B CHANDRA BHAGAVAT	01-03-2019
3265	13985794F	HAV	K DAKSHINA MURTHY	01-03-2019
3266	13985986Y	HAV	K DATTA DEVEDI	01-03-2019

3267	13986636Y	HAV	K K GOGOI	01-07-2019
3268	13986238X	HAV	K MANOJ VINAYAK	01-05-2019
3269	13986361W	HAV	K RAO J	01-07-2019
3270	13986478P	HAV	K SRINIVASA RAO	01-07-2019
3271	13985702K	HAV	KHIROD CHNDRA SAHOO	01-02-2019
3272	13986166Y	HAV	KHUSHI LAL SHARMA	01-05-2019
3273	13986164N	HAV	KRISHAN DEV KUMAR	01-05-2019
3274	13986095H	HAV	KRISHAN KUMAR	01-05-2019
3275	13986377F	HAV	KRISHAN LAL	01-07-2019
3276	13986196W	HAV	KRISHNA SINGH	01-05-2019
3277	13986044P	HAV	KULWANT SINGH	01-04-2019
3278	13986368A	HAV	KUMAR C	01-07-2019
3279	13991467M	HAV	KUMAR S	01-05-2019
3280	13985831K	HAV	L ANKUSH DADARAO	01-03-2019
3281	13985734M	HAV	L K BEHERA	01-03-2019
3282	13986162H	HAV	LALLAN SINGH	01-05-2019
3283	13990327N	HAV	LEKKALAVENKATA RAO	01-02-2019
3284	13986245N	HAV	M K TIKADER	01-05-2019
3285	13985828K	HAV	M P SINGH	01-03-2019
3286	13986646H	HAV	M R BABU RAO	01-07-2019
3287	13985870H	HAV	M S BANERJEE	01-03-2019
3288	13985997L	HAV	M S GAHLOT	01-03-2019
3289	13986335P	HAV	M SHRIRAM ONKAR	01-06-2019
3290	13986226H	HAV	M SURESH VITTHAL	01-05-2019
3291	13986455N	HAV	MAHINDER SINGH	01-07-2019
3292	13990548A	HAV	MALI SHARAD VITTHAL	01-03-2019
3293	13986593P	HAV	MANAS SINHA	01-07-2019
3294	13986433P	HAV	MANISH SHARMA	01-07-2019
3295	13986569Y	HAV	MANOJ KUMAR SHUKLA	01-07-2019
3296	13985956F	HAV	MANORANJAN MISHRA	01-03-2019
3297	13985750K	HAV	MD GALIB KHAN	01-03-2019
3298	13986355H	HAV	MG JAYA KUMAR	01-07-2019
3299	13986276N	HAV	MOHAMMAD JALLI	01-05-2019
3300	13986415M	HAV	MUKESH KUMAR	01-07-2019
3301	13986212H	HAV	MUTHUPPANDI R	01-05-2019
3302	13985742L	HAV	N C KABIRAJ	01-03-2019
3303	13986336X	HAV	N SANDEEP RAMAKANT	01-06-2019
3304	13985784X	HAV	NAFE SINGH	01-03-2019
3305	13986522N	HAV	NAGENDRA PD YADAV	01-07-2019
3306	13986029A	HAV	NANDA KUMAR J	01-04-2019
3307	13986476K	HAV	NANDA RAM LODHI	01-07-2019
3308	13986412Y	HAV	NARESH KUMAR	01-07-2019
3309	13986104Y	HAV	NARESH KUMAR	01-05-2019
3310	13986473W	HAV	O S LAHKOIDYA	01-07-2019
3311	13986206P	HAV	OM PRAKASH NEN	01-05-2019
3312	13985955Y	HAV	P K BISWAL	01-03-2019
3313	13986234F	HAV	P P BHAI RUPAJI	01-05-2019
3314	13986260H	HAV	P R KUMAR SURJI BHAI	01-05-2019

3315	13985962P	HAV	P S PANWAR	01-03-2019
3316	13985832M	HAV	P S SHIVAJI	01-03-2019
3317	13986070W	HAV	PADMAJAN PILLAI D	01-05-2019
3318	13985753X	HAV	PAPPU JHA	01-03-2019
3319	13986007F	HAV	PARIMAL SINGH	01-03-2019
3320	13986330W	HAV	PATIL GOPAL SUBRAO	01-06-2019
3321	13985966L	HAV	PAVULURI CHOWDARI	01-03-2019
3322	13986057M	HAV	PRABAL SINGH YADAV	01-04-2019
3323	13986014X	HAV	PRABHU NATH PRASAD	01-03-2019
3324	13985725L	HAV	PRAKASH SINGH	01-03-2019
3325	13985710H	HAV	PREM CHAND	01-03-2019
3326	13985928P	HAV	PREM SHANKAR TIWARI	01-03-2019
3327	13986466A	HAV	PREM SINGH GURJAR	01-07-2019
3328	13986398X	HAV	PRIT PAUL	01-07-2019
3329	13986508F	HAV	PU LAKSHMANA PERUMAL	01-07-2019
3330	13990873A	HAV	R L SINGH THAKUR	01-03-2019
3331	13985994X	HAV	R N PRASAD	01-03-2019
3332	13986178N	HAV	R P SINGH	01-05-2019
3333	13990482P	HAV	R R RAJPUT	01-03-2019
3334	13986210X	HAV	R RAJENDRAN	01-05-2019
3335	13986428K	HAV	R S DHANOLA	01-07-2019
3336	13986586Y	HAV	R S JADON	01-07-2019
3337	13992181K	HAV	RADHA KRISHNAN P	01-07-2019
3338	13985770X	HAV	RAGHUBAR SINGH	01-03-2019
3339	13985698M	HAV	RAI SINGH	01-02-2019
3340	13985980X	HAV	RAJENDRA RAJAK	01-03-2019
3341	13985822H	HAV	RAJENDRA SINGH	01-03-2019
3342	13986666W	HAV	RAJENDRAN NAIR S	01-07-2019
3343	13985763F	HAV	RAJVIR SINGH	01-03-2019
3344	13985855N	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2019
3345	13985812Y	HAV	RAM ASHISH SINGH	01-03-2019
3346	13985758W	HAV	RAM BABU MISRA	01-03-2019
3347	13986132L	HAV	RAM NARESH MISHRA	01-05-2019
3348	13985727W	HAV	RAM NIWAS	01-03-2019
3349	13985988K	HAV	RAM NIWAS SINGH	01-03-2019
3350	13985811W	HAV	RAM SARAN RAM	01-03-2019
3351	13986125P	HAV	RAMA SINGH	01-05-2019
3352	13986465X	HAV	RAMAN SINGH	01-07-2019
3353	13986009M	HAV	RAMASRE SHARMA	01-03-2019
3354	13986365M	HAV	RAMESH C	01-07-2019
3355	13986557K	HAV	RAMESH KUMAR	01-07-2019
3356	13985846M	HAV	RAMJEE SINGH	01-03-2019
3357	13986065L	HAV	RANBIR SINGH	01-04-2019
3358	13986317M	HAV	RANDHIR SINGH	01-06-2019
3359	13986427F	HAV	RAVINDRA SINGH	01-07-2019
3360	13985798X	HAV	RUPAM CHETIA	01-03-2019
3361	13986326N	HAV	S K MALLICK	01-06-2019
3362	13986700L	HAV	S LAXMAN RAI PURE	01-08-2019

3363	13986239A	HAV	S M RAFFI	01-05-2019
3364	13985746F	HAV	S PRASAD	01-03-2019
3365	13990708P	HAV	S RATHINAM	01-03-2019
3366	13990424L	HAV	S S HARI NAMA DEO	01-03-2019
3367	13985858F	HAV	S S KARKI	01-03-2019
3368	13985718P	HAV	S S MADHU SOODANAN	01-03-2019
3369	13986481P	HAV	S UDAYA KUMAR	01-07-2019
3370	13985717M	HAV	S VELMURUGAN	01-03-2019
3371	13986505N	HAV	S VELU CHAMY	01-07-2019
3372	13986160X	HAV	SADA SHIV MANE	01-05-2019
3373	13986403X	HAV	SADA SHIV PANDEY	01-07-2019
3374	13986475F	HAV	SAGAR RAM SAHU	01-06-2019
3375	13986278Y	HAV	SANDOSH KUMAR K	01-05-2019
3376	13985741H	HAV	SANJAY BAHADUR	01-03-2019
3377	13986426Y	HAV	SANJAY SINGH RAWAT	01-07-2019
3378	13986574K	HAV	SANJIV KUMAR	01-07-2019
3379	13986037Y	HAV	SANTHOSH KUMAR S	01-03-2019
3380	13986416P	HAV	SANTOSH KUMAR	01-07-2019
3381	13985930M	HAV	SARATA GHADEI	01-03-2019
3382	13986207X	HAV	SARODE AKASH BALAJI	01-05-2019
3383	13985985W	HAV	SATISH KUMAR	01-03-2019
3384	13986698Y	HAV	SATVINDER PAL SINGH	01-08-2019
3385	13985935L	HAV	SAYISH PARALI	01-03-2019
3386	13986504L	HAV	SELVA RAYEN	01-07-2019
3387	13986266K	HAV	SENJIL KUMAR S	01-05-2019
3388	13985788N	HAV	SHASHI KUMAR	01-03-2019
3389	13986135Y	HAV	SHAURAJ SINGH	01-05-2019
3390	13986500P	HAV	SHESHMANI KUSHWAHA	01-07-2019
3391	13986467H	HAV	SHIV DAYAL GURJAR	01-07-2019
3392	13986400K	HAV	SHIV NARESH PAL	01-07-2019
3393	13985927M	HAV	SHRI NIWAS PATEL	01-03-2019
3394	13986155M	HAV	SHRI SHAIL WALI	01-05-2019
3395	13986229W	HAV	SHYAM KUMAR SINGH	01-05-2019
3396	13986483A	HAV	SHYAM SUNDAR L D	01-07-2019
3397	13986116N	HAV	SOHAN SINGH RAWAT	01-05-2019
3398	13986444F	HAV	SOLANKI MITHA BHIKHA	01-07-2019
3399	13986598N	HAV	SRIKANTA PRAMANICK	01-07-2019
3400	13986254P	HAV	SRINIVASAN P	01-05-2019
3401	13986694H	HAV	SUBHASH SINGH	01-08-2019
3402	13986584N	HAV	SUBRAT KUMAR PAL	01-07-2019
3403	13986285P	HAV	SUDHEERAN K	01-05-2019
3404	13986588K	HAV	SUKHDEV BARPETE	01-07-2019
3405	13986264Y	HAV	SUNDER G	01-05-2019
3406	13986027P	HAV	SUNIL K	01-03-2019
3407	13986017L	HAV	SUNIL KUMAR	01-03-2019
3408	13986049N	HAV	SUNIL KUMAR R	01-04-2019
3409	13985825W	HAV	SURENDRA KUMAR SINGH	01-03-2019
3410	13986496X	HAV	SURENDRA PRASAD	01-07-2019

3411	13985816P	HAV	SURENDRA YADAV	01-03-2019
3412	13986051L	HAV	SURESH K	01-04-2019
3413	13985787L	HAV	SURESH KUMAR	01-03-2019
3414	13985745Y	HAV	SURESH KUMAR	01-03-2019
3415	13985819H	HAV	SURESH KUMAR YADAV	01-03-2019
3416	13985951H	HAV	SURESH KUMAR YADAV	01-03-2019
3417	13986096L	HAV	SUSHIL KUMAR	01-05-2019
3418	13986597L	HAV	TAPAN DEBNATH	01-07-2019
3419	13985973F	HAV	TASHIRUDDIN AHAMED	01-03-2019
3420	13986188X	HAV	TAYDE S V	01-05-2019
3421	13986432M	HAV	TEG SINGH	01-07-2019
3422	13986404A	HAV	TEJ BHAN	01-07-2019
3423	13985976P	HAV	UPENDRA KUMAR	01-03-2019
3424	13985949L	HAV	UPENDRA SAH	01-03-2019
3425	13986512K	HAV	V GANANAGURU	01-07-2019
3426	13986121Y	HAV	V K MAURYA	01-05-2019
3427	13986021N	HAV	V MANOHARAN	01-03-2019
3428	13986041F	HAV	V SANTHOSH KUMAR	01-03-2019
3429	13985948H	HAV	VIJAY JHA	01-03-2019
3430	13986030P	HAV	VIJAYA KUMAR B	01-04-2019
3431	13986414K	HAV	VINOD KUMAR	01-07-2019
3432	13986282F	HAV	VINOD KUMAR G	01-05-2019
3433	13986048L	HAV	VINODAN N	01-04-2019
3434	13985730W	HAV	VN SANTHOSH KUMAR	01-03-2019
3435	13986258L	HAV	WAKADE D B R	01-05-2019
3436	13985899L	HAV	Z M SINH FATE SINH	01-03-2019
3437	13986595A	HAV	ZAKIR HOSSAIN	01-07-2019
ARMY ORDNANCE CORPS				
3438	6936631P	HAV	AHONGSHANGBAM BROJEN SINGH	01-05-2019
3439	6936746H	HAV	AJAY KUMAR	01-07-2019
3440	6936238M	HAV	AJAYA KUMARAN PILLAI G	01-02-2019
3441	6934704X	HAV	ANIL KUMAR PANDEY	01-03-2019
3442	6934698P	HAV	ANUP KUMAR MALLICK	01-03-2019
3443	6934915A	HAV	ARVIND KUMAR	01-08-2019
3444	6934793F	HAV	ASPADHANA POLAYYA	01-05-2019
3445	6934880P	HAV	B RAMANA REDDY	01-07-2019
3446	6936280L	HAV	BADGUJAR SUNIL DAYARAM	01-03-2019
3447	6934899N	HAV	BALKISHUN BANDO	01-08-2019
3448	6934779P	HAV	BIJENDRA UPADHYA	01-05-2019
3449	6934865A	HAV	BIRENDRA SHARMA	01-07-2019
3450	6934856Y	HAV	C RAJENDRAN	01-07-2019
3451	6934867L	HAV	CHANDERSHIL KUMAR KHARWAR	01-07-2019
3452	6935692A	HAV	DALER SINGH	01-05-2019
3453	6934706H	HAV	DASHARTH TUKARAM SHEWALE	01-03-2019
3454	6934785H	HAV	DEBASISH CHITRAKA	01-02-2019
3455	6934696K	HAV	DHANPAT SINGH	01-03-2019
3456	6934791W	HAV	DINESH SINGH	01-05-2019
3457	6934847X	HAV	DOODH NATH RAM	01-07-2019

3458	6936721W	HAV	G UNNI PILLAI	01-07-2019
3459	6934756N	HAV	GADADE SUNIL VITHOBA	01-05-2019
3460	6934829P	HAV	GOPAL	01-07-2019
3461	6936523L	HAV	HARI KUMAR CHHETRI	01-05-2019
3462	6934926M	HAV	JAGDISH SINGH BISHT	01-08-2019
3463	6934799H	HAV	JAGPAL SINGH	01-05-2019
3464	6934868N	HAV	JAS BAHADUR TAMANG	01-07-2019
3465	6934872W	HAV	JAY KANT LAL DEO	01-07-2019
3466	6934763K	HAV	JITEN GOGOI	01-05-2019
3467	6934719A	HAV	JITENDRA KUMAR SINGH	01-03-2019
3468	6936625F	HAV	JULIUS AMBETHKAR S	01-05-2019
3469	6934855W	HAV	K PALANI	01-07-2019
3470	6934727Y	HAV	KALE YUVRAJ DEVRAM	01-03-2019
3471	6936752W	HAV	KAMALWSHWAR KUMAR PANDEY	01-07-2019
3472	6934752X	HAV	KEWAL SINGH	01-04-2019
3473	6934900X	HAV	KULDIP CHAND	01-08-2019
3474	6934792Y	HAV	KUMAR SANJIVA	01-05-2019
3475	6934716M	HAV	KUNWAR PAL	01-03-2019
3476	6934919W	HAV	MAHENDRA KUMAR DUBEY	01-08-2019
3477	6936387A	HAV	MAHENDRA KUMAR SINGH	01-03-2019
3478	6934909M	HAV	MAHENDRA KUMAR YADAV	01-08-2019
3479	6934776F	HAV	MANE SUDHAKAR MANIK RAO	01-05-2019
3480	6936499A	HAV	MANOJ M	01-05-2019
3481	6936573W	HAV	NAGAMANI KOPPULA	01-05-2019
3482	6934701K	HAV	NANDA KUMAR YR	01-03-2019
3483	6934807W	HAV	NAVEEN KUMAR PAUDIYAL	01-05-2019
3484	6934890Y	HAV	NIKHIL MAHANTA	01-07-2019
3485	6934911K	HAV	OM PRAKASH	01-08-2019
3486	6936450K	HAV	P SRINIVASULU	01-05-2019
3487	6936576K	HAV	PALWE ANNASHEB MAHADEV	01-05-2019
3488	6934835H	HAV	PANCHANAN PARIDA	01-07-2019
3489	6934846P	HAV	PARMAR GULAB SINH PRATAP SINH	01-07-2019
3490	6936730X	HAV	PARVESH KUMAR	01-07-2019
3491	6934715K	HAV	PRAVAKAR SETHI	01-03-2019
3492	6934803A	HAV	PREM KUMAR SHARMA	01-05-2019
3493	6934797X	HAV	PREM PAL SINGH	01-05-2019
3494	6934747M	HAV	PREMOD KUMAR K	01-03-2019
3495	6934893M	HAV	RAJEEVAN CM	01-07-2019
3496	6936789X	HAV	RAJENDRA PRASAD SHARMA	01-07-2019
3497	6934718X	HAV	RAJESH SINGH	01-03-2019
3498	6934778M	HAV	RAJIV KUMAR	01-05-2019
3499	6934787N	HAV	RAKESH KUMAR	01-05-2019
3500	6934836L	HAV	RAM DEO SINGH	01-07-2019
3501	6934927P	HAV	RAM PRAWESH	01-08-2019
3502	6936639F	HAV	RAMU RAM	01-05-2019
3503	6934844K	HAV	RANBIR SINGH	01-07-2019
3504	6936423A	HAV	RAVINDRA SINGH	01-03-2019
3505	6934869W	HAV	RESHMUDDEEN KATHAT	01-07-2019

3506	6934705A	HAV	S SURESH	01-03-2019
3507	6934822L	HAV	SAHAJMAL SHAIKH	01-06-2019
3508	6934699X	HAV	SAMAI PAL	01-03-2019
3509	6934700F	HAV	SANJAY KUMAR	01-03-2019
3510	6934790N	HAV	SARWAN KUMAR	01-05-2019
3511	6936256P	HAV	SASI KUMAR K	01-03-2019
3512	6934724L	HAV	SHAILENDRA YADAV	01-03-2019
3513	6935495X	HAV	SHIV CHANDER SINGH	01-05-2019
3514	6936776A	HAV	SHIV KUMAR	01-07-2019
3515	6936653N	HAV	SHIVAJI BADIGER	01-05-2019
3516	6934729K	HAV	SONEWANE BABAN MURLIDHAR	01-03-2019
3517	6935045A	HAV	SUBHASH CHAND	01-04-2019
3518	6934772L	HAV	SUNIL KUMAR YADAV	01-05-2019
3519	6935508K	HAV	SURESH PAL	01-03-2019
3520	6934863P	HAV	SURINDER SINGH	01-07-2019
3521	6934697M	HAV	SURJEET KUMAR	01-03-2019
3522	6936360H	HAV	SWAPAN BISWAS	01-03-2019
3523	6935898X	HAV	SWARAN LAL	01-07-2019
3524	6934842Y	HAV	TAMMINANA PAPA RAO	01-07-2019
3525	6934717P	HAV	TARSEM SINGH	01-03-2019
3526	6934777K	HAV	TODAR SINGH	01-05-2019
3527	6934728F	HAV	TULSEEDAS PATEL	01-03-2019
3528	6934910F	HAV	YOGESH KUMAR	01-08-2019

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

3529	14618663F	HAV	A BALAKRISHNAN	01-05-2019
3530	14625621X	HAV	A KARUPPAIAH	01-05-2019
3531	14625477N	DFR	A SRI RAMALINGAM	01-03-2019
3532	14626032N	HAV	ABLESH KUMAR	01-06-2019
3533	14618731K	HAV	AHELKHAR KHAN	01-05-2019
3534	14626528H	HAV	AJIT KUMAR SINGH	01-05-2019
3535	14625948W	HAV	AJOY KUMAR BARMAN	01-05-2019
3536	14618735A	HAV	AMIR NATH SHARMA	01-05-2019
3537	14626810N	HAV	ANIL K	01-07-2019
3538	14625272Y	HAV	ANIL KUMAR S	01-03-2019
3539	14625704H	HAV	ANIL KUMAR MENDOLKAR	01-05-2019
3540	14626316X	HAV	ANIL KUMAR MS	01-05-2019
3541	14624315W	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-02-2019
3542	14625697X	HAV	ANIL KUMAR YADAV	01-05-2019
3543	14624447K	HAV	AOUSARE MAHADEO GANPATI	01-03-2019
3544	14627285P	HAV	ARIVAZHAGAN S	01-08-2019
3545	14627059X	HAV	ARJUN GHOSH	01-07-2019
3546	14625324K	HAV	ASHOK KUMAR YADAV	01-03-2019
3547	14627021N	HAV	ATHILKAR UMARAO SAMPAT	01-07-2019
3548	14624701H	HAV	AVINASH SHRIVASTAVA	01-02-2019
3549	14626357F	HAV	AVNESH KUMAR SHARMA	01-05-2019
3550	14618586X	HAV	AYNUL HOQUE	01-03-2019
3551	14624369X	HAV	BABAR ASHOK EKANATH	01-03-2019
3552	14618803H	HAV	BABU RAM BISWAS	01-05-2019

3553	14618581Y	HAV	BADDU SINGH C	01-04-2019
3554	14624782N	HAV	BAGUL DIGAMBAR GOKUL	01-03-2019
3555	14624035H	HAV	BAGUL KASHINATH NANDA	01-02-2019
3556	14624372X	HAV	BAHIRAMKAR RAMESH PANDURANG	01-03-2019
3557	14627292L	HAV	BALASUBRAMANIAN PA	01-07-2019
3558	14626226W	HAV	BALVINDER SINGH	01-05-2019
3559	14626406Y	HAV	BARIA RAMESH BHAI MATHUR BHAI	01-05-2019
3560	14626086P	HAV	BARIYA RAMESHBHAI LAXMAN BHAI	01-05-2019
3561	14627022W	HAV	BAWANE RAJU SHARAVAN	01-07-2019
3562	14624418P	HAV	BEANT DASS	01-03-2019
3563	14625587H	HAV	BHARATI SHRIPAD SHRIRANG	01-04-2019
3564	14626625A	HAV	BHASKAR GHOSH	01-06-2019
3565	14624591Y	HAV	BHOSALE NITIN DATTATRAYA	01-03-2019
3566	14624436X	HAV	BHOSALE SANJAY RATAN	01-03-2019
3567	14627269X	HAV	BHUPESH KUMAR	01-07-2019
3568	14624982K	HAV	BIKASH PAKRASHI	01-03-2019
3569	14618913X	HAV	BIKRAM CHHETRI	01-07-2019
3570	14626927M	HAV	BINOD KUMAR BIHARI	01-07-2019
3571	14618687L	HAV	BIRANDRA KUMAR PATHAK	01-04-2019
3572	14625806Y	HAV	BOBAN JOY	01-05-2019
3573	14621229A	HAV	BRAJENDRA SINGH PAL	01-05-2019
3574	14624328N	HAV	BRIJ BHUSHAN TIWARI	01-02-2019
3575	14627066N	HAV	C SREENIVASULU	01-08-2019
3576	14626815M	HAV	CHAMARTHI SURENDRA RAJU	01-07-2019
3577	14627121Y	HAV	CHANDRAHAS SINGH	01-07-2019
3578	14625405K	HAV	CHANDRAMA SINGH YADAV	01-03-2019
3579	14626227Y	HAV	CHANDRASHEKHAR SURYVNASHE	01-05-2019
3580	14626175N	HAV	CHANDRMA SINGH	01-05-2019
3581	14618666P	HAV	CHARAN SINGH	01-05-2019
3582	14626931P	HAV	CHAUDHARY VINUBHAI MEGJI BHAI	01-07-2019
3583	14625971K	HAV	CHHOTE LAL TIWARI	01-05-2019
3584	14627231N	HAV	CHITTI SREENU NANDIKA	01-07-2019
3585	14626704P	HAV	CHORMARE SANTRAM SAYAJI	01-07-2019
3586	14625670A	HAV	DABHI VALA DAYA BHAI	01-05-2019
3587	14619111A	HAV	DAYA RAM YADAV	01-07-2019
3588	14627031X	HAV	DEBABRATA GHOSH	01-07-2019
3589	14619088X	HAV	DEBAJIT BORAH	01-06-2019
3590	14624970P	HAV	DEBASISH BERA	01-03-2019
3591	14625820L	HAV	DEEPAK KUMAR DAS	01-05-2019
3592	14625762M	HAV	DEVARAJU MD	01-05-2019
3593	14626841N	HAV	DHAN KUMAR NATH	01-07-2019
3594	14626241L	HAV	DHAN RAJ	01-05-2019
3595	14625415N	HAV	DHANDE SANDIP ZIBLAJI	01-04-2019
3596	14618562N	HAV	DHARAM NARAYAN SINGH	01-03-2019
3597	14625042L	HAV	DHARAMBIR SINGH	01-04-2019
3598	14625008L	HAV	DHARGE BAJRANG RADHESHAM	01-04-2019
3599	14625801A	HAV	DHIREN TERON	01-05-2019

3600	14624573W	HAV	DILAHARAN RAM SAHU	01-03-2019
3601	14624967P	HAV	DILIP KUMAR KAR	01-03-2019
3602	14626431X	HAV	DILIP KUMAR KP	01-05-2019
3603	14625758K	HAV	DINESH KUMAR GOHITE	01-05-2019
3604	14627579H	HAV	DINESH KUMAR SHARMA	01-08-2019
3605	14624321K	HAV	DIRENDRA KUMAR SINGH	01-02-2019
3606	14624433K	HAV	DUDHAL SANDIPAN SHIWAJI	01-03-2019
3607	14626160L	HAV	G VENKATSWAMY	01-05-2019
3608	14619106P	HAV	GAGAN SINGH	01-07-2019
3609	14626147F	HAV	GAJULA JAKIR HUSSAIN	01-05-2019
3610	14625235L	HAV	GAWADE SHRIMANT DATTATRAY	01-03-2019
3611	14626526X	HAV	GIJI THOMAS	01-05-2019
3612	14626529L	HAV	GOPINATHAN M	01-05-2019
3613	14625953F	HAV	GOSPAD DASTHAGIRI	01-05-2019
3614	14627235K	HAV	GOVIND KUMAR GODHWAL	01-07-2019
3615	14625041H	HAV	GUDAPATI PREM KUMAR	01-04-2019
3616	14618657N	HAV	GUNAPU VISWESWARA RAO	01-05-2019
3617	14625007H	HAV	GURMIT SINGH	01-04-2019
3618	14624732H	HAV	GURUDAYAL SINGH	01-02-2019
3619	14624411L	HAV	HUMESWAR PATAR	01-03-2019
3620	14625074N	HAV	INDRA SINGH BASNAL	01-04-2019
3621	14624917K	HAV	INDRAJ SINGH	01-03-2019
3622	14625946L	HAV	INDRASEN PANDEY	01-05-2019
3623	14619277F	HAV	ISHWAR BAITHA	01-03-2019
3624	14618555X	HAV	ITWARI LAL	01-03-2019
3625	14624378Y	HAV	JADHAV SUDHIR SHASHIKANT	01-03-2019
3626	14618588H	HAV	JADHAV VITTHAL GANPAT RAO	01-03-2019
3627	14625166A	HAV	JADHAWAR SAMBHAJI ESHWAR	01-03-2019
3628	14624353M	HAV	JAGADALE VIJAY TUKARAM	01-03-2019
3629	14624618L	HAV	JAGANNATH PATEL	01-03-2019
3630	14624346W	HAV	JAGTAP ANIL SADASHIV	01-03-2019
3631	14618777M	HAV	JAMDADDE JALINDAR BHIM RAO	01-05-2019
3632	14618556A	HAV	JANAK SINGH	01-03-2019
3633	14626303A	HAV	JANGA NAGARAJU REDDY	01-06-2019
3634	14627027P	HAV	JASIMUDDEN SHAIKH	01-07-2019
3635	14624610Y	HAV	JAYARAJAN K	01-03-2019
3636	14624334F	HAV	JAYDEB BISWAS	01-02-2019
3637	14625958A	HAV	JEETEN BASUMATARY	01-05-2019
3638	14618530L	HAV	JITENDRA NATH MAHATA	01-03-2019
3639	14627302K	HAV	JOHN XAVIER P	01-07-2019
3640	14618487P	HAV	JOY T M	01-03-2019
3641	14618694F	HAV	JOYRAM BORUAH	01-05-2019
3642	14627102N	HAV	K ARJUN SINGHA	01-08-2019
3643	14623177N	HAV	K BALASUBRAMANIAN	01-05-2019
3644	14618869Y	HAV	K MUTHUVEL	01-07-2019
3645	14625710W	HAV	K RAMESH	01-05-2019
3646	14625044W	HAV	K RAVI	01-04-2019
3647	14625476L	HAV	K SELVAM	01-03-2019

3648	14626778K	HAV	K SRINIVASAN	01-07-2019
3649	14624352K	HAV	KADBHANE ROHIDAS NANASAHEB	01-03-2019
3650	14624998P	HAV	KAILASH NATH	01-03-2019
3651	14625251H	HAV	KALLAPPA RAMU GONDHALI	01-03-2019
3652	14625951W	HAV	KAMAL CHHETRI	01-05-2019
3653	14618649P	HAV	KAMALESH KUMAR RAI	01-05-2019
3654	14626285H	HAV	KAMLESH KUMAR SAKHWAR	01-05-2019
3655	14626980X	HAV	KARAN SINGH	01-07-2019
3656	14626443M	HAV	KARNADHAR SARKAR	01-05-2019
3657	14625170H	HAV	KAZI RIYASUDDIN HAMZA	01-03-2019
3658	14619076H	HAV	KC SURESH BABU	01-05-2019
3659	14618580W	HAV	KHUMUCHAM JITEN SINGH	01-04-2019
3660	14626567F	HAV	KINKAR KUMAR SAHA	01-05-2019
3661	14625848L	HAV	KISHOR RAM JAT	01-05-2019
3662	14619091X	HAV	KOTHAPALLI CHINNA MOULALI	01-07-2019
3663	14624604L	HAV	KSHIRSAGAR YOGESH BHAURAO	01-03-2019
3664	14625998F	HAV	KULBIR SINGH	01-06-2019
3665	14625138N	HAV	KULDIP SINGH	01-03-2019
3666	14618585P	HAV	KUTTUMU JAGANNADHAM	01-03-2019
3667	14627024F	HAV	LAKSHMI KANTA BERA	01-07-2019
3668	14626749P	HAV	LAXMAN SINGH	01-07-2019
3669	14625977L	HAV	LIYAKAT ALI	01-05-2019
3670	14624646X	HAV	M BASKAR	01-03-2019
3671	14618810Y	HAV	M D SUFIULLAH	01-05-2019
3672	14626162W	HAV	M MADANA GOPALA REDDY	01-05-2019
3673	14618472M	HAV	M VEERA RAGHAVULU	01-03-2019
3674	14624538N	HAV	MADAN LAL	01-03-2019
3675	14623932M	HAV	MADHUSUDANA SAHU	01-02-2019
3676	14624698N	HAV	MAHENDER SINGH	01-02-2019
3677	14626774N	HAV	MAHENDRA PAL	01-07-2019
3678	14624634H	HAV	MAHESH KUMAR	01-03-2019
3679	14624423A	HAV	MAKWANA ISHVAR BHAI ALJI BHAI	01-03-2019
3680	14624340P	HAV	MALI ASHOK NARAYAN	01-03-2019
3681	14618761F	HAV	MANJEET KUMAR SHARMA	01-05-2019
3682	14625359A	HAV	MANOJ KAR	01-03-2019
3683	14625060N	HAV	MANOJ KUMAR	01-04-2019
3684	14626819H	HAV	MANOJ KUMAR	01-07-2019
3685	14619118K	HAV	MANOJ KUMAR	01-07-2019
3686	14626472F	HAV	MANOJ KUMAR	01-05-2019
3687	14625521M	HAV	MANORANJAN JENA	01-04-2019
3688	14624388H	HAV	MARATHE VIJAY MURLIDHAR	01-03-2019
3689	14626814K	HAV	MASTANVALI SYED	01-07-2019
3690	14619158L	HAV	MATA BHIMA REDDY	01-07-2019
3691	8033755P	HAV	MD PANDIT ALI	01-05-2019
3692	14624496M	HAV	MEDHA RAVINDRA GANESH	01-03-2019
3693	14627079L	HAV	MITHILESH KUMAR	01-08-2019
3694	14625198H	HAV	MOGAL ENTIYAZ BAIG	01-04-2019
3695	14627552L	HAV	MOHAMMAD SAHABUDDIN	01-07-2019

3696	14618644W	HAV	MOHD ASHRAF GANIE	01-04-2019
3697	14624439L	HAV	MORE SHAHIR BHANUDAS	01-03-2019
3698	14627522N	HAV	MRITUNJOY ROY	01-07-2019
3699	14627513M	HAV	MUKESH BABU JAT	01-07-2019
3700	14624640W	HAV	MUKESH KUMAR BHAGAT	01-03-2019
3701	14627063A	HAV	MUNIRATHANAM	01-08-2019
3702	14627210X	HAV	MURAHARI RAO G	01-07-2019
3703	14627574K	HAV	N BALASUNDRAM	01-08-2019
3704	14627163L	HAV	N KRISHNAKUMAR	01-07-2019
3705	14625601K	HAV	NALE VIKAS SOPAN	01-04-2019
3706	14627613X	HAV	NAMO NARAYAN MEENA	01-08-2019
3707	14627169M	HAV	NAPIK SURESH DHARYAPPA	01-07-2019
3708	14624350Y	HAV	NIKAM DATTATRAYA VIKRAM	01-03-2019
3709	14626590P	HAV	NIRMAL CHANDRA TRIPATHY	01-06-2019
3710	14624292A	HAV	NITISH SINHA	01-02-2019
3711	14624412N	HAV	ODEDERA ARJAN BHAI ARASHI BHAI	01-03-2019
3712	14626122P	HAV	OM PRAKASH	01-05-2019
3713	14626130N	HAV	OM PRAKASH	01-05-2019
3714	14624629X	HAV	P BALAMURUGAN	01-03-2019
3715	14626157L	HAV	P GURUVA REDDY	01-05-2019
3716	14618837W	HAV	PAIDI VENKATARAMANA MURTHY	01-07-2019
3717	14626214F	HAV	PALANI S	01-05-2019
3718	14618726Y	HAV	PAPINDER SINGH	01-05-2019
3719	14626642A	HAV	PARMAR DADU SINH PRATAP SINH	01-05-2019
3720	14619187A	HAV	PARMAR SEDHA BHAI HARKHA BHAI	01-08-2019
3721	14619182F	HAV	PARMATMA NAND RAM	01-08-2019
3722	14626102F	HAV	PATEL RAJENDER KUMAR HIRABHAI	01-05-2019
3723	14625144F	HAV	PATIL RATNAKAR HIMMAT	01-03-2019
3724	14618475A	HAV	PATIL SANJAY KUMAR NARAYAN	01-03-2019
3725	14626627L	HAV	PRADEEP KUMAR	01-06-2019
3726	14627299P	HAV	PRADEEP KUMAR DEEPAK	01-07-2019
3727	14627297K	HAV	PRATHEESH O	01-07-2019
3728	14625322Y	HAV	PREM KUMAR JHA	01-03-2019
3729	14625553P	HAV	PREM PRAKASH SHARMA	01-04-2019
3730	14625692Y	HAV	PUSHKAR VISHWAKARMA	01-05-2019
3731	14624927N	HAV	PYARE LAL	01-03-2019
3732	14625131K	HAV	PYDI SRINIVASA RAO	01-03-2019
3733	14626394P	HAV	R MURUGAN	01-05-2019
3734	14619102Y	HAV	R RAJA	01-07-2019
3735	14625885Y	HAV	R RENGANATHAN	01-05-2019
3736	14627050H	HAV	RABINDRA NATH BERA	01-07-2019
3737	14626419W	HAV	RABINESH KUMAR SEN	01-05-2019
3738	14618881A	HAV	RAGHUNATH A	01-07-2019
3739	14627234F	HAV	RAJ KISHORE	01-07-2019
3740	14625543L	HAV	RAJ SINGH	01-03-2019
3741	14626183M	HAV	RAJEEV KUMAR MAURYA	01-05-2019
3742	14625073L	HAV	RAJEEV MAVILA	01-04-2019
3743	14625150P	HAV	RAJENDRA SINGH GOYAL	01-03-2019

3744	14627125P	HAV	RAJESH KUMAR	01-07-2019
3745	14625444H	HAV	RAJESH KUMAR SINGH	01-03-2019
3746	14624337P	HAV	RAJESH KUMAR VERMA	01-02-2019
3747	14627062X	HAV	RAJKUMAR SINGHA	01-07-2019
3748	14624916F	HAV	RAJPAL SINGH	01-03-2019
3749	14618933L	HAV	RAJU SINGH	01-08-2019
3750	14625921Y	HAV	RAJU SINGH TOMAR	01-05-2019
3751	14624753Y	HAV	RAKATE J BALASAHEB BHAGWAT	01-03-2019
3752	14624801N	HAV	RAKESH C	01-03-2019
3753	14625277X	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2019
3754	14619115W	HAV	RAKESH KUMAR	01-07-2019
3755	14626587P	HAV	RAKESH SINGH	01-06-2019
3756	14618782X	HAV	RAM BAHADUR	01-05-2019
3757	14625962H	HAV	RAM BILASH NAGAR	01-05-2019
3758	14626575A	HAV	RAM CHANDRA	01-06-2019
3759	14618641H	HAV	RAMESH KUMAR PUNIA	01-03-2019
3760	14625551K	HAV	RAMJI SINGH YADAV	01-04-2019
3761	14625297L	HAV	RAMU K	01-03-2019
3762	14627447P	HAV	RATHOD VIKRAM SINH KESARI SINH	01-07-2019
3763	14625705L	HAV	RAVI CV	01-05-2019
3764	14626491M	HAV	RAVINDER P	01-05-2019
3765	14618856F	HAV	ROKADE KISHOR EKANATH	01-07-2019
3766	14624413W	HAV	RONANKI MANMADHA RAO	01-03-2019
3767	14626384L	HAV	S ALAGUMUTHU	01-05-2019
3768	14626207L	HAV	S AMAL RAJ	01-05-2019
3769	14624611F	HAV	S SELVA BAKTHA SINGH	01-03-2019
3770	14627216Y	HAV	S SRINIVASAN	01-07-2019
3771	14624508W	HAV	SABLE PRAVIN ATMARAM	01-03-2019
3772	14627602L	HAV	SACHCHIDANAND TIWARI	01-08-2019
3773	14625106L	HAV	SAIYED ANVER MIYA MAHAMMAD MIYA	01-03-2019
3774	14625406M	HAV	SANDEEP KUMAR MISHRA	01-03-2019
3775	14625814X	HAV	SANGAPPA	01-05-2019
3776	14625740N	HAV	SANJAY KUMAR	01-05-2019
3777	14618758F	HAV	SANJAY KUMAR	01-05-2019
3778	14625425X	HAV	SANJAYAN G	01-03-2019
3779	14625288K	HAV	SANJEEV KUMAR SINGH	01-03-2019
3780	14627035N	HAV	SANJIT ROY	01-07-2019
3781	14625913A	HAV	SANTOSH KUMAR MALLIK	01-05-2019
3782	14627211A	HAV	SARAVANAN V	01-07-2019
3783	14625523X	HAV	SARVESH KUMAR SINGH	01-04-2019
3784	14618920N	HAV	SATISH KUMAR	01-07-2019
3785	14626011X	HAV	SEVENDRA SINGH	01-06-2019
3786	14625497F	HAV	SHAIK HANSANA	01-03-2019
3787	14619141X	HAV	SHAJI K K	01-07-2019
3788	14622311F	HAV	SHASHIDHAR PANDEY	01-08-2019
3789	14626112L	HAV	SHEKH ISAK SHEKH RASUL	01-05-2019
3790	14626863M	HAV	SHEKH SHAMOON SHEKH RASID	01-07-2019
3791	14618816A	HAV	SHEKH YAKUB HASAN	01-05-2019

3792	14624510N	HAV	SHELESH KUMAR SAXENA	01-03-2019
3793	14625222N	HAV	SHINDE SANTOSH SHRIDHAR	01-03-2019
3794	14625431L	HAV	SHISHUPAL SINGH	01-03-2019
3795	14625864H	HAV	SHIV DAYAL JAT	01-05-2019
3796	14621093F	HAV	SHOBHA KANT TIWARI	01-02-2019
3797	14626404N	HAV	SHREE SHAILAPPA HIREKUMBI	01-05-2019
3798	14618770H	HAV	SHRI RAM RATHORE	01-05-2019
3799	14625831X	HAV	SIDHNATH TIWARI	01-05-2019
3800	14618685A	HAV	SIVA KUMAR	01-03-2019
3801	14624456L	HAV	SOLANKI MAHENDRA SINH	01-03-2019
3802	14626678Y	HAV	SOLANKI RAKESH PREM CHANDAR BHAI	01-06-2019
3803	14625223W	HAV	SONAWANE KAILAS GULAB	01-03-2019
3804	14618611L	HAV	SONU KUMAR	01-03-2019
3805	14627208A	HAV	SUBASH G	01-07-2019
3806	14620916K	HAV	SUBASH PRASAD	01-02-2019
3807	14624741K	HAV	SUBRATA PRADHAN	01-02-2019
3808	14618760Y	HAV	SUDESH KUMAR	01-05-2019
3809	14626321H	HAV	SUDHAKAR NAGESH NAIK	01-05-2019
3810	14626574X	HAV	SUDHIR KUMAR	01-06-2019
3811	14627043M	HAV	SUJOY RANJAN BERA	01-07-2019
3812	14625152A	HAV	SUNIL GEHLOT	01-03-2019
3813	14625023A	HAV	SUNIL KUMAR	01-04-2019
3814	14627225A	HAV	SUNIL KUMAR	01-07-2019
3815	14626548W	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-05-2019
3816	14625402W	HAV	SURENDRA KUMAR YADAV	01-03-2019
3817	14626343F	HAV	SURESH KUMAR	01-05-2019
3818	14624625F	HAV	SURESH KUMAR R	01-03-2019
3819	14619181Y	HAV	SURESH LAL	01-08-2019
3820	14626355W	HAV	SUSHIL KUMAR	01-05-2019
3821	14626453W	HAV	SWAPAN BISWAS	01-05-2019
3822	14625428L	HAV	TARA CHAND GARHWAL	01-03-2019
3823	14625724W	HAV	TEJ NARAIN SINGH	01-05-2019
3824	14625268W	HAV	UNNIKRISHNAN K	01-03-2019
3825	14624901Y	HAV	UPENDRA KUMAR DASH	01-03-2019
3826	14627246W	HAV	UPENDRA SINGH	01-07-2019
3827	14626379A	HAV	V SIVAPPERUMAL	01-05-2019
3828	14624621L	HAV	V SUBBAIAH	01-03-2019
3829	14624417M	HAV	VANAR MANUBHAI BALU BHAI	01-03-2019
3830	14626092H	HAV	VANKAR NANABHAI	01-05-2019
3831	14626154X	HAV	VEERANNA KOMALLA	01-05-2019
3832	14626101Y	HAV	VIHOL RAJENDER SINH	01-05-2019
3833	14626127N	HAV	VIJAY BHUSHAN	01-05-2019
3834	14626769H	HAV	VIJAY KUMAR PANDEY	01-07-2019
3835	14626674H	HAV	VIJAY KUMAR PRADHAN	01-06-2019
3836	14618829X	HAV	VIJAY SHANKAR TIWARI	01-06-2019
3837	14626879X	HAV	VIJIL KUMAR TK	01-07-2019
3838	14618681K	HAV	VIKRAM SINGH	01-03-2019
3839	14626813F	HAV	VIKRAM SINGH RAWAT	01-07-2019

3840	14625658Y	HAV	VINOD KUMAR SINGH	01-05-2019
3841	14625815A	HAV	VIRUPAKSHA PATRUT	01-05-2019
3842	14627082L	HAV	VISHNU KUMAR YADAV	01-08-2019
3843	14624636N	HAV	VISHNU PRASAD CHOUDHARY	01-03-2019
3844	14618503F	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-03-2019
3845	14627184F	HAV	YANKAPPA VITHAL DODDAGOL	01-07-2019
3846	14626516N	HAV	YUMNAM LAIBA SINGH	01-05-2019

ARMY EDUCATION CORPS

3847	9512357Y	HAV	K KESAVULU	01-06-2019
3848	9512348X	HAV	KHATKE NARAYAN DHONDIBA	01-05-2019
3849	9512347P	HAV	PAUL DINAKAR AMRITRAO	01-05-2019
3850	9512331K	HAV	R THARAKARAM	01-03-2019
3851	9512240A	HAV	RADHAKRISHNAN K	01-05-2019
3852	9512351X	HAV	SILLODE CHATURSING BANSHI	01-05-2019

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

3853	7240695F	DFR	A MAIKEL	01-06-2019
3854	7241079N	DFR	ASHOK KUMAR BHARDWAJ	01-05-2019
3855	7240663Y	DFR	BHUMI RAJ LAHA	01-03-2019
3856	7241017N	DFR	DEEPAK CHHETRI	01-03-2019
3857	7240687H	DFR	GIRISH CHANDRA SHARMA	01-07-2019
3858	7240662W	DFR	HARI RAM	01-03-2019
3859	7241044X	DFR	JANG BAHADUR SINGH	01-05-2019
3860	7241018W	DFR	JITENDRA DEKARAJA	01-03-2019
3861	7241021W	DFR	JITENDRA SAH	01-03-2019
3862	7241171M	DFR	NAGARAJ S	01-07-2019
3863	7240686A	DFR	NAZEEMUDEEN A	01-06-2019
3864	7241061X	DFR	PENTAIAH PASHAM	01-05-2019
3865	7240701K	DFR	PRADEEP KUMAR	01-08-2019
3866	7241163N	DFR	RAM KISHORE KUSHWAHA	01-07-2019
3867	7241162L	DFR	RAMTEKE KISORE BHAYYALAL	01-07-2019
3868	7241112A	DFR	SANJAY	01-06-2019
3869	7241012P	DFR	SHAIENDRA BANSILAL SAINDANE	01-03-2019
3870	7241008M	DFR	SREEJITH KUMAR P	01-03-2019
3871	7241066W	DFR	SURESH TC	01-05-2019
3872	7241137M	DFR	VENKATESAN S	01-07-2019
3873	7241077H	DFR	VIJAY KUMAR	01-05-2019

THE INTELLIGENCE CORPS

3874	7431271N	HAV	KARTAR SINGH	01-08-2019
3875	14810090X	HAV	MANOHAR SINGH	01-08-2019
3876	15467276H	HAV	SURENDRA KUMAR	01-02-2019
3877	8033686K	HAV	TRIVIDH NARAYAN PANDEY	01-03-2019
3878	15312225A	HAV	Y VENU GOPAL RAO	01-06-2019

CORPS OF MILITARY POLICE

3879	7778957Y	HAV	ADESH KUMAR	01-07-2019
3880	7777725N	HAV	AJIT KUMAR BAKSHI	01-07-2019
3881	7777586P	HAV	BANWARI LAL	01-03-2019
3882	7777653P	HAV	BIJAY KUMAR MANDAL	01-05-2019
3883	7777566F	HAV	BRIJ RAJ	01-03-2019

3884	7777562L	HAV	CHANDRA SEKHAR SINHA	01-03-2019
3885	7778994M	HAV	CHAURAGADE MORESHWAR SAHADEO	01-07-2019
3886	7777644N	HAV	DASAN M	01-05-2019
3887	7777597F	HAV	DAYA RAM	01-05-2019
3888	7777646Y	HAV	DHANANJAY MISHRA	01-05-2019
3889	7777704X	HAV	GOBIND RAM CHAUHAN	01-07-2019
3890	7778029H	HAV	IPPILI SRINIVASA	01-06-2019
3891	7777645W	HAV	JASWANT SINGH RATHORE	01-05-2019
3892	7777661N	HAV	JOSE PT	01-06-2019
3893	7778719M	HAV	KAMLESH KUMAR	01-03-2019
3894	7777560A	HAV	KAVISELVAN P	01-03-2019
3895	7777583F	HAV	KRISHAN KUMAR YADAV	01-03-2019
3896	7777598K	HAV	KRISHNA PAL SINGH	01-05-2019
3897	7777622P	HAV	MEHRBEN SINGH SOLANKEY	01-05-2019
3898	7777604M	HAV	MUKESH KUMAR SHARMA	01-05-2019
3899	7777658N	HAV	N SANKARAI AH NAIDU	01-06-2019
3900	7777623X	HAV	N SEKAR	01-05-2019
3901	7777716M	HAV	NIRANJAN YADAV	01-07-2019
3902	7777557A	HAV	OM PRAKASH YADAV	01-03-2019
3903	7777683M	HAV	P GOVINDA RAJU	01-07-2019
3904	7777707L	HAV	PABITRA MOHAN MAHANTA	01-07-2019
3905	7778955N	HAV	PATIL RAMESHWAR BHILA	01-06-2019
3906	7777671X	HAV	PERSU RAM SINGH	01-06-2019
3907	7777582Y	HAV	RAM BILASJ SAINI	01-03-2019
3908	7777628W	HAV	RAM PRAWESH KUSHAWAHA	01-05-2019
3909	7777631W	HAV	RAMJI YADAV	01-05-2019
3910	7777555P	HAV	RANBIR SINGH	01-03-2019
3911	7777664F	HAV	RANJIT SINGH	01-06-2019
3912	7777548Y	HAV	SAILESH BARMAN	01-03-2019
3913	7777676W	HAV	SANJAY KUMAR	01-06-2019
3914	7777556X	HAV	SHIV RAJ SINGH	01-03-2019
3915	7777705A	HAV	SHYAM SINGH	01-07-2019
3916	7777593L	HAV	SUBAS CHANDRA BARIK	01-05-2019
3917	7778730L	HAV	SUDESH KUMAR CHOUDHARY	01-03-2019
3918	7777526A	HAV	SUNIL KUMAR	01-03-2019
3919	7778915M	HAV	SUNIL KUMAR	01-06-2019
3920	7777619P	HAV	SUSHANTA SINHA	01-05-2019
3921	7777736A	HAV	TARASANKAR SINHA MAHAPATRA	01-08-2019
3922	7778811L	HAV	THAKARE ANIL NAMDEO	01-05-2019
3923	7777553K	HAV	VARINDER PAL	01-03-2019
3924	7778151Y	HAV	YASHVIR SINGH	01-03-2019

THE PIONEER CORPS

3925	8033701N	HAV	GORULE NAMDEV SHANKAR	01-04-2019
3926	8033698Y	HAV	HARVIR SINGH	01-04-2019
3927	8033869A	HAV	JAI BAHADUR SINGH	01-08-2019
3928	8033795W	HAV	KAILASH CHAND JAT	01-07-2019
3929	8033702W	HAV	KHARAT CHANDRAKANT LAXMAN	01-04-2019
3930	8033786P	HAV	LANDKAR PANDURANG NARAYAN	01-05-2019

3931	8033718F	HAV	M KESAVAN	01-05-2019
3932	8033829Y	HAV	RATHOD KESHAVLAL RAMA	01-07-2019
3933	8033249K	HAV	RAVI C	01-04-2019
3934	8033250Y	HAV	SUBRATA DAS	01-05-2019

ARMY POSTAL SERVICE

3935	8430852P	HAV	ANIL KUMAR GV	01-07-2019
3936	8430846F	HAV	K KRISHNAN	01-07-2019
3937	8430853X	HAV	MAHALING MALAGI	01-07-2019
3938	8430860N	HAV	MUKESH KUMAR	01-08-2019
3939	8430857N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-08-2019
3940	8430854A	HAV	RAM NIVAS	01-08-2019
3941	8430855H	HAV	SARVESH KUMAR	01-08-2019
3942	8430861W	HAV	SHAIJU G	01-08-2019

DEFENCE SECURITY CORPS

3943	10420398M	HAV	ASHOK GHOGARE	01-06-2019
3944	9083283W	HAV	HARBANS LAL	01-03-2019
3945	10314557N	HAV	JARNAIL SINGH	01-08-2019
3946	10146336L	HAV	JB KRISHNARAO	01-06-2019
3947	10134811K	HAV	JORDAR SINGH	01-08-2019
3948	8027526N	HAV	K KANDA SAMI	01-07-2019
3949	10436148P	HAV	KISHAN GAMBER AHIRE	01-07-2019
3950	10146537K	HAV	NAMDEO RAMU PATIL	01-05-2019
3951	10404901P	HAV	NARAIN SINGH	01-08-2019
3952	10259660W	HAV	PRADEEPTA KUMAR SWAIN	01-07-2019
3953	10273856P	HAV	PRAFULLA ROY	01-08-2019
3954	10373569A	HAV	RAJENDRA YADAV	01-04-2019
3955	10389528A	HAV	RAM PAL SINGH	01-02-2019
3956	10452249M	HAV	RAMACHANDRAN G	01-07-2019
3957	10119148A	HAV	S S M RAO	01-07-2019
3958	10197701K	HAV	SANDHUR SINGH	01-02-2019
3959	10134771N	HAV	SATYAVIR SINGH	01-04-2019
3960	10134588L	HAV	SS KATEWA	28-02-2019
3961	10436185H	HAV	SWAKAR SAHEBRAO KISAN	01-06-2019
3962	10146541M	HAV	UBAL SOMANATH NIVRUTTI	01-06-2019
3963	10146467W	HAV	VASANT MARTANDA BIRANGE	01-06-2019
3964	10358748H	HAV	VIKRAMAN K	01-05-2019

TERRITORIAL ARMY

3965	10136080A	HAV	AMARJEET SINGH	01-04-2019
3966	10374907Y	HAV	AMIT GURUNG	01-04-2019
3967	10437810L	HAV	ASHOK KUMAR RAM	01-08-2019
3968	10260861F	HAV	ASHOK KUMAR ROUT	01-04-2019

3969	10315724L	HAV	BAL RAM SINGH	01-04-2019
3970	10390557F	HAV	BHAGIRATH PATEL	01-04-2019
3971	10437769A	HAV	BINNAR BHIMRAO DATTU	01-04-2019
3972	10198999L	HAV	BODH RAJ	01-04-2019
3973	10390567L	HAV	DAYA RAM	01-04-2019
3974	10437817P	HAV	DEOKAR RAJENDRA T	01-08-2019
3975	10480864A	HAV	GAJENDRA PRASAD	01-03-2019
3976	10437734K	HAV	GHODE HARI NIVRUTTI	01-04-2019
3977	10437747F	HAV	INDHE SANJAY RAMKRISHNA	01-04-2019
3978	10467415M	HAV	JAI SINGH	01-03-2019
3979	10315735X	HAV	KEWAL SINGH	01-04-2019
3980	10437741A	HAV	KUNDE SANJAY RAJARAM	01-04-2019
3981	10315713Y	HAV	MAHENDER SINGH	01-04-2019
3982	10315738L	HAV	MAHESH PAL	01-04-2019
3983	10315737H	HAV	MAKHA SINGH	01-04-2019
3984	10467398X	HAV	MUKESH KUMAR	01-03-2019
3985	10390562M	HAV	MUNNA LAL	01-04-2019
3986	10315749X	HAV	PRAVEEN KUMAR	01-04-2019
3987	10315741L	HAV	RAJESH THAKUR	01-04-2019
3988	10228349P	HAV	RAJESH THAKUR	01-04-2019
3989	10136070W	HAV	RAMESH BABU	01-04-2019
3990	10390555W	HAV	SANTOSH KUMAR PATEL	01-04-2019
3991	10136093X	HAV	SATBIR SINGH	01-04-2019
3992	10315722A	HAV	SHAMSHER SINGH	01-04-2019
3993	10480904W	HAV	SHASHI BHUSHAN	01-08-2019
3994	10437806H	HAV	SIJO AUGUSTIAN	01-08-2019
3995	10315716M	HAV	SREEJITH AP	01-04-2019
3996	10390560F	HAV	SRI DHANENDRA PRASAD DWIVEDI	01-04-2019
3997	10437792N	HAV	SRI MOHAN LAL PATEL	01-08-2019
3998	10274893P	HAV	SUSANTA MAJHI	01-04-2019
3999	10274892M	HAV	SWAPAN CHAKRABORTY	01-04-2019
4000	10274897L	HAV	SWAPAN HALDAR	01-04-2019
4001	10315747M	HAV	TIRTH PAL VERMA	01-04-2019
4002	10390565A	HAV	TULSI RAM PATEL	01-04-2019
4003	10315757W	HAV	UDAI PRATAP SINGH	01-04-2019

[No. B/43432/ID19/AG/CW-2]

ASHWANI KUMAR, Lt.Gen. Adjutant General

संशोधन

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2019

सं. 12 (अ) दिनांक 15 अगस्त, 2019.—1. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 11 (ई) दिनांक 15 अगस्त 2012 के अवसर पर जे सी ओज़ को सेवानिवृति पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:—

अवैतनिक सूबेदार के रूप में (सेवानिवृति पर)**सेना चिकित्सा कोर**

क्रम संख्या 477 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

2. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 09 (ई) दिनांक 15 अगस्त, 2018 के अवसर पर जे सी ओज़ को सेवानिवृति पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:—

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रूप में (सेवा में रहते हुये)**महार रेजीमेंट**

क्रम संख्या	729	के लिए	: जादव भारत भाई शाम भाई
		पढ़ें	: जादव भारत भाई शामजी भाई

3. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 02 (ई) दिनांक 15 अगस्त, 2018 के अवसर पर जे सी ओज़ को सेवा निवृति पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :-

अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवानिवृति पर)**महार रेजीमेंट**

क्रम संख्या 2092	के लिए	: अवैतनिक सूबेदार मेजर
	पढ़ें	: अवैतनिक कप्तान
क्रम संख्या 2093	के लिए	: अवैतनिक सूबेदार मेजर
	पढ़ें	: अवैतनिक कप्तान

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर कोर

क्रम संख्या 3380	के लिए	: अवैतनिक सूबेदार मेजर
	पढ़ें	: अवैतनिक कप्तान

अवैतनिक रिसालदार मेजर/ सूबेदार मेजर के रूप में (सेवानिवृति पर)**सिख लाईट इनफैंट्री**

क्रम संख्या 1652 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

4. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 01 (ई) दिनांक 26 जनवरी, 2019 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा में रहते हुये सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:—

अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवा में रहते हुए)

ग्रेनिडियर्स

क्रम संख्या 112	के लिए	: बृजेश कुमार सिंग
	पदें	: बृजेश कुमार सिंह

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रूप में (सेवा में रहते हुये)

कवचित कोर

क्रम संख्या	1	के लिए	: 1 हॉर्स
		पदें	: 8 कैवलरी
क्रम संख्या	26	के लिए	: 58 आर्मड रेजीमेंट
		पदें	: 59 आर्मड रेजीमेंट

तोपखाना रेजीमेंट

क्रम संख्या	94	के लिए	: गणेश दत्त
		पदें	: गणेश दत्त चौसली

सिग्नल कोर

क्रम संख्या	328	के लिए	: लखपत सिंह
		पदें	: लखापत सिंह
क्रम संख्या	330	के लिए	: माइकल राजू एस
		पदें	: माइकल राज एस

ग्रेनिडियर्स

क्रम संख्या	478	के लिए	: अशन अली
		पदें	: अहसान अली

राजपूताना राईफल्स

क्रम संख्या	524	के लिए	: रिचापाल सिंह जोधा
		पदें	: रिचपाल सिंह जोधा

5. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 02 (ई) दिनांक 26 जनवरी, 2019 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निवृत्ति पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:—

अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवानिवृत्ति पर)

राजपूत रेजीमेंट

क्रम संख्या	381	के लिए	: 01 जनवरी 2019
		पदें	: 01 सितम्बर 2018

अवैतनिक रिसालदार मेजर/ सूबेदार मेजर के रूप में (सेवानिवृत्ति पर)तोपखाना रेजीमेंट

क्रम संख्या 64 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

सिख रेजीमेंट

क्रम संख्या 1150 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

आसाम रेजीमेंट

क्रम संख्या	1341	के लिए	: एस लबुनगोमाचा सिंघा
		पढ़ें	: एस आईबुनगोमाचा सिंघा

1 गोरखा राईफल्स

क्रम संख्या 1586 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

अवैतनिक रिसालदार/ सूबेदार के रूप में (सेवानिवृत्ति पर)तोपखाना रेजीमेंट

क्रम संख्या	07	के लिए	: तोपखाना रेजीमेंट
		पढ़ें	: 5 गोरखा राईफल्स

क्रम संख्या	12	के लिए	: तोपखाना रेजीमेंट
		पढ़ें	: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर कोर

बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप

क्रम संख्या 48 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर कोर

क्रम संख्या	122	के लिए	: जेसी 768669एफ
		पढ़ें	: जेसी768696एफ

6. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 03 (ई) दिनांक 26 जनवरी के अवसर पर एन सी ओज को सेवा निवृत्ति पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:-

अवैतनिक नायब रिसालदार/ नायब सूबेदार के रूप में (सेवानिवृत्ति पर)तोपखाना रेजीमेंट

क्रम संख्या	70	के लिए	: ए एस सुरेश बाबु
		पढ़ें	: एएस सुरेश बाबु
क्रम संख्या	141	के लिए	: जे शिवाजी संदु
		पढ़ें	: जम्भुलकर शिवाजी संदु
क्रम संख्या	147	के लिए	: के पांडुरंग गणपति
		पढ़ें	: काम्बले पांडुरंग गणपति

क्रम संख्या	182	के लिए पढ़ें	: एन एस शिवाजी राव : एनएस शिवाजी राव
क्रम संख्या	203	के लिए पढ़ें	: फड रावसाहेब मानिकराव : फड रावसाहेब मानिक राव
क्रम संख्या	233	के लिए पढ़ें	: एस के के शर्मा : श्री कमलेश कुमार शर्मा
क्रम संख्या	273	के लिए पढ़ें	: टी के गंगाधर : थोमबारे कैलाश गंगाधर
क्रम संख्या	279	के लिए पढ़ें	: वी हीरेमथ : वीरभद्राया हीरेमथ

ग्रेनिडियर्स

क्रम संख्या	1435	के लिए पढ़ें	: 2687551ए : 2687551एच
-------------	------	-----------------	---------------------------

राजपूत रेजीमेंट

क्रम संख्या 1635 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर कोर

क्रम संख्या 3147 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटायें।

प्रदेशिक सेना

क्रम संख्या	3369	के लिए पढ़ें	: 30.09.2018 : 01.10.2018
क्रम संख्या	3370	के लिए पढ़ें	: 30.09.2018 : 01.10.2018
			4
क्रम संख्या	3377	के लिए पढ़ें	: 30.09.2018 : 01.10.2018
क्रम संख्या	3381	के लिए पढ़ें	: 30.09.2018 : 01.10.2018

[सं. बी./43432/संशोधन/आईडी-2019/ए जी/सी डब्ल्यू -2]

अश्विनी कुमार, ले. जनरल एडजुटेंट जनरल

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th August, 2019

No : 12(E) August, 15 Aug 2019.—1.The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 11 (E) dated 15 Aug. 2012 notifying the grant of honorary rank to JCOs on the eve of Independence Day 2012 on retirement under Para 179 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

UNDER HEADING TO BE HONORARY SUB (ON RETIREMENT)**ARMY MEDICAL CORPS**

DELETE SER NO 477 AND CONNECTED ENTRIES

2. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 09 (E) dated 15 August 2018 notifying the grant of honorary commission to JCOs on the eve of Independence Day 2018 on retirement under Para 177 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE HONORARY LT (ON ACTIVE LIST)</u>		
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>			
SER NO 729	FOR	-	JADAV BHARAT BHAI SHAM BHAI
	READ	-	JADAV BHARAT BHAI SHAMJI BHAI

3. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 10 (E) dated 15 August 2018 notifying the grant of honorary rank to JCOs on the eve of Independence Day 2018 on retirement under Para 179 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE HONORARY CAPTAIN (ON RETIREMENT)</u>		
<u>THE MAHAR REGIMENT</u>			
SER NO 2092	FOR	-	HONY SUB MAJ
	READ	-	HONY CAPT
SER NO 2093	FOR	-	HONY SUB MAJ
	READ	-	HONY CAPT

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

SER NO 3380	FOR	-	HONY SUB MAJ
	READ	-	HONY CAPT

UNDER HEADING TO BE HONORARY RIS MAJ/SUB MAJ (ON RETIREMENT)

THE SIKH LIGHT INFANTRY

DELETE SER NO 1652 AND CONNECTED ENTRIES

4. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 01 (E) dated 26 Jan 2019 notifying the grant of honorary commission to JCOs on the eve of Republic Day 2019 on active list under Para 177 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE HONORARY CAPTAIN (ON ACTIVE LIST)</u>		
<u>THE GRENADIERS</u>			
SER NO 112	FOR	-	BRIJESH KUMAR SING
	READ	-	BRIJESH KUMAR SINGH

UNDER HEADING TO BE HONORARY LIEUTENANT (ON ACTIVE LIST)

ARMOURED CORPS

SER NO 1	FOR	-	1 HORSE
	READ	-	8 CAVALRY
SER NO 26	FOR	-	58 ARMOURED REGIMENT

<u>REGIMENT OF ARTILLERY</u>	READ	-	59 ARMOURED REGIMENT
SER NO 94	FOR	-	GANESH DUTT
	READ	-	GANESH DATT CHOUSALI
<u>CORPS OF SIGNALS</u>			
SER NO 328	FOR	-	LAKHPAT SINGH
	READ	-	LAKHAPAT SINGH
SER NO 330	FOR	-	MICHAEL RAJU S
	READ	-	MICHAEL RAJ S
<u>THE GRENADIERS</u>			
SER NO 478	FOR	-	ASHAN ALI
	READ	-	AHSAN ALI
<u>THE RAJPUTANA RIFLES</u>			
SER NO 524	FOR	-	RICHAPAL SINGH JODHA
	READ	-	RICHPAL SINGH JODHA

5. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 02 (E) dated 26 Jan 2019 notifying the grant of honorary rank to JCOs on the eve of Republic Day 2019 on retirement under Para 179 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

UNDER HEADING**TO BE HONORARY CAPTAIN (ON RETIREMENT)****THE RAJPUT REGIMENT**

SER NO 381	FOR	-	01 JAN 2019
	READ	-	01 SEP 2018

UNDER HEADING**TO BE HONORARY RIS MAJ/SUB MAJ (ON RETIREMENT)****REGIMENT OF ARTILLERY**

DELETE SER NO 64 AND CONNECTED ENTRIES

THE SIKH REGIMENT

DELETE SER NO 1150 AND CONNECTED ENTRIES

THE ASSAM REGIMENT

SER NO 1341	FOR	-	S LBUNGOMACHA SINGHA
	READ	-	S IBUNGOMACHA SINGHA

1 GORKHA RIFLES

DELETE SER NO 1586 AND CONNECTED ENTRIES

UNDER HEADING**TO BE HONORARY RIS/SUB (ON RETIREMENT)**

SER NO 7

FOR	-	<u>REGIMENT OF ARTILLERY</u>	
		JC618335X NB SUB DINESH THAPA	- 01-01-2019

READ - **5 GORKHA RIFLES**
 JC618335X NB SUB DINESH THAPA - 01-01-2019

SER NO 12

FOR - **REGIMENT OF ARTILLERY**
 JC769429M NB SUB NIDHU RANJAN DAS - 01-11-2018

READ - **CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**
 JC769429M NB SUB NIDHU RANJAN DAS - 01-11-2018

BOMBAY ENGINEER GROUP

DELETE SER NO 48 AND CONNECTED ENTRIES

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

SER NO 122 FOR JC768669F NB SUB BHANWAR LAL DIA 01-09-2018

READ JC768696F NB SUB BHANWAR LAL DIA 01-09-2018

6. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 03 (E) dated 26 Jan 2019 notifying the grant of honorary rank of Naib Risaldar/ Naib Subedar to NCOs on the eve of Republic Day 2019 on retirement under Para 180 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

UNDER HEADING TO BE HONORARY NAIB RISALDAR / NAIB SUBEDAR (RETIREMENT)**REGIMENT OF ARTILLERY**

SER NO 70 FOR - A S SURESH BABU

READ - AS SURESH BABU

SER NO 141 FOR - J SHIVAJI SANDU

READ - JAMBHULKAR SHIVAJI SANDU

SER NO 147 FOR - K PANDURANG GANAPATI

READ - KAMBALE PANDURANG GANAPATI

SER NO 182 FOR - N S SHIVAJI RAO

READ - NS SHIVAJI RAO

SER NO 203 FOR - PHAD RAOSAHEB MANIKRAO

READ - PHAD RAOSAHEB MANIK RAO

SER NO 233 FOR - S K K SHARMA

READ - SRI KAMLESH KUMAR SHARMA

SER NO 273 FOR - T K GANGADHAR

READ - THOMBARE KAILAS GANGADHAR

SER NO 279 FOR - V HIREMATH

READ - VEERABHADRAYYA HIREMATH

THE GRENADIERS

SER NO 1435 FOR - 2687551A HAV JAGDISH
 READ - 2687551H HAV JAGDISH

THE RAJPUT REGIMENT

DELETE SER NO 1635 AND CONNECTED ENTRIES

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

DELETE SER NO 3147 AND CONNECTED ENTRIES

TERRITORIAL ARMY

SER NO 3369 FOR - 30-09-2018
 READ - 01-10-2018
 SER NO 3370 FOR - 30-09-2018
 READ - 01-10-2018
 SER NO 3377 FOR - 30-09-2018
 READ - 01-10-2018
 SER NO 3381 FOR - 30-09-2018
 READ - 01-10-2018

[No. B/43432/CORRIGENDUM/ID-2019/AG/CW-2]

ASHWANI KUMAR, Lt. Gen. Adjutant General

(वायु शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त 2019

सं. 13(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2019.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियामावली 1964 पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित ऑनरेरी फ्लाईंग अफसरों को 15 अगस्त 2019 से ऑनरेरी फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्चर	ट्रेड
1.	681020-आर	मा वा अ (आ फ अ)	राजेन्द्र कुमार जाडली	ए डी एस ओ
2.	667690-ए	मा वा अ (आ फ अ)	सोलुंके चंद्रशेखर भैय्यासाहेब	ए एफ फिटर
3.	668815-बी	मा वा अ (आ फ अ)	होशियार सिंह राजपूत	ए एफ फिटर
4.	669049-ए	मा वा अ (आ फ अ)	युवराज महलावत	ए एफ फिटर
5.	678961-एल	मा वा अ (आ फ अ)	अजय कुमार ठाकुर	ए एफ फिटर
6.	679759-एन	मा वा अ (आ फ अ)	गणेशन एम	ए एफ फिटर
7.	627556-एल	मा वा अ (आ फ अ)	रमेश कुमार अहलावत	ए एफ एस ओ
8.	671200-बी	मा वा अ (आ फ अ)	वीरेन्द्र कुमार पाल	क्लर्क अकाउंट्स
9.	671881-एल	मा वा अ (आ फ अ)	महेश चन्द्र जोशी	क्लर्क अकाउंट्स

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
10.	672549-एस	मा वा अ (आ फ अ)	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	क्लर्क अकाउंट्स
11.	671132-जी	मा वा अ (आ फ अ)	जोगेन्द्र नाथ डेका	क्लर्क जी डी
12.	672053-के	मा वा अ (आ फ अ)	राजबीर	क्लर्क जी डी
13.	694983-एच	मा वा अ (आ फ अ)	सुधांशु कुमार सामल	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर
14.	627042-एच	मा वा अ (आ फ अ)	सौमित्रा मित्रा	इलेक्ट फिटर
15.	637256-बी	मा वा अ (आ फ अ)	धीरेन्द्र डेका	इलेक्ट फिटर
16.	638794-बी	मा वा अ (आ फ अ)	जयकंवर कौशिक	इलेक्ट फिटर
17.	673554-ए	मा वा अ (फ अ आ)	हरिओम	इलेक्ट फिटर
18.	680431-जी	मा वा अ (आ फ अ)	कुवंर पाल सिंह चौहान	इलेक्ट फिटर
19.	680758-एच	मा वा अ (आ फ अ)	अमीर सिंह	इलेक्ट फिटर
20.	665713-एफ	मा वा अ (आ फ अ)	शिब्वन लाल गुप्ता	इंजन फिटर
21.	668886-ए	मा वा अ (आ फ अ)	मनमोहन चौधरी	इंजन फिटर
22.	675145-एन	मा वा अ (आ फ अ)	सतीश शर्मा	इंजन फिटर
23.	675604-बी	मा वा अ (आ फ अ)	उज्ज्वल कुमार कोनार	इंजन फिटर
24.	675976-आर	मा वा अ (आ फ अ)	गुलाम रब्बानी	इंजन फिटर
25.	671912-टी	मा वा अ (आ फ अ)	मदन सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
26.	627169-एफ	मा वा अ (आ फ अ)	सरपन हांडा	आई ए एफ (पी)
27.	653106-एल	मा वा अ (आ फ अ)	उमाशंकर मौर्य	इन्सट्रुमेंट फिटर
28.	653291-एन	मा वा अ (आ फ अ)	विनोद कुमार मिश्रा	इन्सट्रुमेंट फिटर
29.	653901-एल	मा वा अ (आ फ अ)	कृष्ण कुमार सिंह	इन्सट्रुमेंट फिटर
30.	655963-एन	मा वा अ (आ फ अ)	अतुल सिंह	मेडिकल असिस्टेंट
31.	656211-के	मा वा अ (आ फ अ)	कृष्ण राज सिंह	मेडिकल असिस्टेंट
32.	656306-के	मा वा अ (आ फ अ)	शशि कुमार कूनत	मेडिकल असिस्टेंट
33.	656385-के	मा वा अ (आ फ अ)	दुर्ग सिंह कच्छावा	मेडिकल असिस्टेंट
34.	675767-एल	मा वा अ (आ फ अ)	सुसान्त चरण साहु	एम एस फिटर (एम)
35.	676066-एस	मा वा अ (आ फ अ)	रविन्द्र नाथ पाल	एम एस फिटर (एम)
36.	624714-एन	मा वा अ (आ फ अ)	जय भगवान सिंह तोमर	एम टी डी
37.	625954-एच	मा वा अ (आ फ अ)	रामचन्द्र सिंह मातवा	एम टी डी
38.	627777-बी	मा वा अ (आ फ अ)	सतीश चन्द त्यागी	एम टी डी
39.	627932-एच	मा वा अ (आ फ अ)	बलजीत सिंह बैस	एम टी डी
40.	662874-एच	मा वा अ (आ फ अ)	आशिष विश्वास	एम टी फिटर
41.	667074-ए	मा वा अ (आ फ अ)	कृष्ण पाल सिंह	एम टी फिटर
42.	668550-ए	मा वा अ (आ फ अ)	अशोक कुमार सिंह	एम टी फिटर
43.	638502-एन	मा वा अ (आ फ अ)	योगेश सिंह	रडार फिटर
44.	652531-एन	मा वा अ (आ फ अ)	श्री नारायण मिश्र	रडार फिटर
45.	653701-जी	मा वा अ (आ फ अ)	कर्मवीर सिंह	रडार फिटर
46.	674459-ए	मा वा अ (आ फ अ)	गजेन्द्रनाथ विश्वाल	रडार फिटर
47.	674585-एल	मा वा अ (आ फ अ)	पारथ सिंह चौहान	रडार फिटर

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
48.	684549-एच	मा वा अ (आ फ अ)	ब्रजेश कुमार शर्मा	रडार फिटर
49.	690335-एच	मा वा अ (आ फ अ)	विनोद कुमार तोमर	रडार फिटर
50.	625429-बी	मा वा अ (आ फ अ)	उमेद सिंह गहलौत	रेडियो फिटर
51.	638569-आर	मा वा अ (आ फ अ)	अरूण कुमार पाण्डेय	रेडियो फिटर
52.	639423-एस	मा वा अ (आ फ अ)	सुभाष विश्वनाथ उत्तरवार	रेडियो फिटर
53.	673351-जी	मा वा अ (आ फ अ)	कृष्ण लाल	रेडियो फिटर
54.	673622-एस	मा वा अ (आ फ अ)	यशवंत बापुरावजी तिनगसे	रेडियो फिटर
55.	674110-एस	मा वा अ (आ फ अ)	विजय पाल सिंह	रेडियो फिटर
56.	674312-आर	मा वा अ (आ फ अ)	उमेश गिरी	रेडियो फिटर
57.	674668-एफ	मा वा अ (आ फ अ)	प्रेम लाल	रेडियो फिटर
58.	680889-ए	मा वा अ (आ फ अ)	उत्तम सिंह	रेडियो फिटर
59.	638282-एल	मा वा अ (आ फ अ)	विनोद कुमार शङ्कीया	रेडियो टेक
60.	638691-ए	मा वा अ (आ फ अ)	सुनील गुलाचंद अग्रवाल	रेडियो टेक
61.	678824-के	मा वा अ (आ फ अ)	परमवीर सिंह सेंगर	एस ई डब्लू
62.	675021-जी	मा वा अ (आ फ अ)	रास बिहारी योगेन्द्र	वेपन फिटर
63.	675235-एल	मा वा अ (आ फ अ)	करुणाकरण वी आर	वेपन फिटर

[सं. वा से मु /सी 40254/1/1/पीए (सीपीसी)]

अमित तिवारी, एयर मार्शल
कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

(AIR BRANCH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2019

No. 13(E) dated 15 August 2019.—The under mentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 15 August 2019 on the occasion of Independence Day under Para 344 of Regulations for the Air Force, 1964 :-

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
1.	681020-R	MWO(HFO)	RAJENDRA KUMAR JADLI	ADSO
2.	667690-A	MWO(HFO)	SOLUNKE CHANDRASHEKHAR BHAIYASAHEB	AF FIT
3.	668815-B	MWO(HFO)	HOSHIYAR SINGH RAJPUT	AF FIT
4.	669049-A	MWO(HFO)	YUVRAJ MAHLAWAT	AF FIT
5.	678961-L	MWO(HFO)	AJAY KUMAR THAKUR	AF FIT
6.	679759-N	MWO(HFO)	GANESAN M	AF FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
7.	627556-L	MWO(HFO)	RAMESH KUMAR AHLAWAT	AFSO
8.	671200-B	MWO(HFO)	VIRENDRA KUMAR PAL	CLK ACCTS
9.	671881-L	MWO(HFO)	MAHESH CHANDRA JOSHI	CLK ACCTS
10.	672549-S	MWO(HFO)	RAMESH CHANDRA SRIVASTAVA	CLK ACCTS
11.	671132-G	MWO(HFO)	JOGENDRA NATH DEKA	CLK GD
12.	672053-K	MWO(HFO)	RAJVIR	CLK GD
13.	694983-H	MWO(HFO)	SUDHANSU KUMAR SAMAL	EDN INSTR
14.	627042-H	MWO(HFO)	SAUMITRA MITRA	ELECT FIT
15.	637256-B	MWO(HFO)	DHIRENDRA DEKA	ELECT FIT
16.	638794-B	MWO(HFO)	JAI KANWAR KAUSHIK	ELECT FIT
17.	673554-A	MWO(HFO)	HARIOM	ELECT FIT
18.	680431-G	MWO(HFO)	KUNWAR PAL SINGH CHAUHAN	ELECT FIT
19.	680758-H	MWO(HFO)	AMIR SINGH	ELECT FIT
20.	665713-F	MWO(HFO)	SHIBBAN LAL GUPTA	ENG FIT
21.	668886-A	MWO(HFO)	MANMOHAN CHOUDHURY	ENG FIT
22.	675145-N	MWO(HFO)	SATISH SHARMA	ENG FIT
23.	675604-B	MWO(HFO)	UZZWAL KUMAR KONER	ENG FIT
24.	675976-R	MWO(HFO)	GULAM RABBANI	ENG FIT
25.	671912-T	MWO(HFO)	MADAN SINGH	EQPT ASST
26.	627169-F	MWO(HFO)	SARPAN HANDA	IAF (P)
27.	653106-L	MWO(HFO)	UMASHANKAR MAURYA	INST FIT
28.	653291-N	MWO(HFO)	VINOD KUMAR MISHRA	INST FIT
29.	653901-L	MWO(HFO)	KRISHNA KUMAR SINGH	INST FIT
30.	655963-N	MWO(HFO)	ATUL SINGH	MED ASST
31.	656211-K	MWO(HFO)	KRISHNA RAJ SINGH	MED ASST
32.	656306-K	MWO(HFO)	SASI KUMAR KOONATH	MED ASST
33.	656385-K	MWO(HFO)	DURG SINGH KACHHAWA	MED ASST
34.	675767-L	MWO(HFO)	SUSANTA CHARAN SAHOO	MS FIT(M)
35.	676066-S	MWO(HFO)	RABINDRA NATH PAUL	MS FIT(M)
36.	624714-N	MWO(HFO)	JAI BHAGWAN SINGH TOMER	MTD
37.	625954-H	MWO(HFO)	RAMCHANDRA SINGH MATWA	MTD
38.	627777-B	MWO(HFO)	SATISH CHAND TYAGI	MTD
39.	627932-H	MWO(HFO)	BALJIT SINGH BAINS	MTD
40.	662874-H	MWO(HFO)	ASHIS BISWAS	MT FIT
41.	667074-A	MWO(HFO)	KRISHNA PAL SINGH	MT FIT
42.	668550-A	MWO(HFO)	ASHOK KUMAR SINGH	MT FIT
43.	638502-N	MWO(HFO)	YOGESH SINGH	RAD FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
44.	652531-N	MWO(HFO)	SHRI NARAYAN MISHRA	RAD FIT
45.	653701-G	MWO(HFO)	KARM BIR SINGH	RAD FIT
46.	674459-A	MWO(HFO)	GAJENDRANATH BISWAL	RAD FIT
47.	674585-L	MWO(HFO)	PARATH SINGH CHAUHAN	RAD FIT
48.	684549-H	MWO(HFO)	BRAJESH KUMAR SHARMA	RAD FIT
49.	690335-H	MWO(HFO)	VINOD KUMAR TOMAR	RAD FIT
50.	625429-B	MWO(HFO)	UMED SINGH GEHLAUT	RDO FIT
51.	638569-R	MWO(HFO)	ARUN KUMAR PANDEY	RDO FIT
52.	639423-S	MWO(HFO)	SUBHASH VISHWANATH UTTARWAR	RDO FIT
53.	673351-G	MWO(HFO)	KRISHAN LAL	RDO FIT
54.	673622-S	MWO(HFO)	YASHWANT BAPURAO TINGASE	RDO FIT
55.	674110-S	MWO(HFO)	VIJAYA PAL SINGH	RDO FIT
56.	674312-R	MWO(HFO)	UMESH GIRI	RDO FIT
57.	674668-F	MWO(HFO)	PREM LAL	RDO FIT
58.	680889-A	MWO(HFO)	UTTAM SINGH	RDO FIT
59.	638282-L	MWO(HFO)	BINODE KUMAR SAIKIA	RDO TECH
60.	638691-A	MWO(HFO)	SUNIL GULABCHAND AGRAWAL	RDO TECH
61.	678824-K	MWO(HFO)	PARAMVIR SINGH SENGAR	SEW
62.	675021-G	MWO(HFO)	RAS BIHARI YOGENDER	WPN FIT
63.	675235-L	MWO(HFO)	KARUNAKARAN V R	WPN FIT

[No. Air HQ/C 40254/1/1/PA (CPC)]

AMIT TIWARI, Air Marshal

Air Officer-in-Charge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त] 2019

सं. 14(अ) दिनांक 15 अगस्त 2019.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियामावली 1964 के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 15 अगस्त 2019 से ऑनरेरी फ्लाईंग अफसर रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है।

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
1.	676103-एन	मा वा अ	कवलजीत सिंह भसीन	एसीएच जीडी
2.	639166-जी	मा वा अ	राजबीर सिंह	ए डी एस ओ
3.	673327-ए	मा वा अ	सर्वजीत सिंह	ए डी एस ओ
4.	683311-एस	वा अ	कमलेश कुमार	ए डी एस ओ
5.	683620-एन	मा वा अ	सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय	ए डी एस ओ
6.	691246-एस	मा वा अ	सुनील कुमार	ए डी एस ओ

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
7.	662498-एल	मा वा अ	राम पुकार यादव	ए एफ फिटर
8.	662548-एल	मा वा अ	हरिश चन्द्र	ए एफ फिटर
9.	666706-के	मा वा अ	ध्रुव कुमार सिंह	ए एफ फिटर
10.	666951-जी	मा वा अ	भोरिक	ए एफ फिटर
11.	667029-के	मा वा अ	राम कुमार सिंह भामू	ए एफ फिटर
12.	668022-जी	मा वा अ	पृथ्वी पाल सिंह सब्बरवाल	ए एफ फिटर
13.	668066-के	वा अ	चन्द्रिका प्रसाद	ए एफ फिटर
14.	668070-जी	मा वा अ	मोहम्मद मुकीम	ए एफ फिटर
15.	668408-जी	मा वा अ	राधा बिहारी दिक्षित	ए एफ फिटर
16.	668588-आर	मा वा अ	शरद रामचंद्र पाटील	ए एफ फिटर
17.	668593-एच	मा वा अ	प्रेम सागर	ए एफ फिटर
18.	668895-टी	मा वा अ	कोम्मारेड्डि गोविन्दा राजुलु	ए एफ फिटर
19.	669367-आर	वा अ	राज कुमार	ए एफ फिटर
20.	675462-एल	मा वा अ	दिलबाग सिंह सिलक	ए एफ फिटर
21.	675762-के	मा वा अ	राम चन्द्र नाथ	ए एफ फिटर
22.	676023-के	मा वा अ	नरेश कुमार	ए एफ फिटर
23.	676037-के	मा वा अ	सत्य कुमार	ए एफ फिटर
24.	676089-आर	मा वा अ	अनिल कुमार	ए एफ फिटर
25.	676819-आर	मा वा अ	अशोक कुमार सिंह	ए एफ फिटर
26.	677620-एच	मा वा अ	असगर अली	ए एफ फिटर
27.	678630-एन	मा वा अ	सुरेन सिंह	ए एफ फिटर
28.	627365-एफ	मा वा अ	मौजी लाल यादव	ए एफ एस ओ
29.	638384-एस	मा वा अ	देव कुमार पाईन	ए एफ एस ओ
30.	668166-बी	मा वा अ	अशोक कुमार	ए एफ एस ओ
31.	675108-एफ	मा वा अ	रतन कुमार शील	ए एफ एस ओ
32.	675305-ए	वा अ	प्रकाश चंद्रा पारीक	ए एफ एस ओ
33.	627558-एफ	मा वा अ	लक्ष्मण सिंह	केटरिंग असिस्टेंट
34.	671564-एन	मा वा अ	आन्नद कुमार	क्लर्क अकाउंट्स
35.	672193-ए	मा वा अ	रवि शंकर तिवारी	क्लर्क अकाउंट्स
36.	672567-एन	मा वा अ	अशोक कुमार सिंह	क्लर्क अकाउंट्स
37.	672572-जी	मा वा अ	गोरे लाल यादव	क्लर्क अकाउंट्स
38.	672716-के	मा वा अ	जसवीर सिंह	क्लर्क अकाउंट्स
39.	673006-एस	मा वा अ	प्रजीत शुक्ला	क्लर्क अकाउंट्स
40.	673568-ए	मा वा अ	अनिल कुमार ढाका	क्लर्क अकाउंट्स
41.	674133-आर	मा वा अ	उपेन्द्र सिंह	क्लर्क अकाउंट्स

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
42.	674473-एल	मा वा अ	तपन कुमार दे	क्लर्क अकाउंट्स
43.	676061-आर	मा वा अ	प्रदीप्त राय	क्लर्क अकाउंट्स
44.	670546-जी	मा वा अ	इकराम अहमद अब्दुल रहीम पटेल	क्लर्क जी डी
45.	671148-टी	मा वा अ	राम नारायण सिंह	क्लर्क जी डी
46.	671887-के	मा वा अ	कमला सिंह यादव	क्लर्क जी डी
47.	672050-ए	मा वा अ	राम अधार शाही	क्लर्क जी डी
48.	672488-जी	मा वा अ	राजेंद्र सिंह	क्लर्क जी डी
49.	672588-टी	मा वा अ	कानु मजुमदार	क्लर्क जी डी
50.	678716-आर	मा वा अ	सुमन्त भारद्वाज	क्लर्क जी डी
51.	674678-टी	मा वा अ	बीर सिंह	क्रिप्टो
52.	692229-एच	मा वा अ	प्रफुल्ल चन्द्र झा	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर
53.	693677-के	मा वा अ	श्याम सुन्दर कर्मकार	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर
54.	694784-टी	मा वा अ	देब सिंह खाती	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर
55.	704419-जी	मा वा अ	मारकण्डेय द्विवेदी	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर
56.	626111-के	वा अ	रोड्रिग्स रुडोल्फ फ्रान्सिस	इलेक्ट फिटर
57.	626137-एस	वा अ	मौ नूरजमल	इलेक्ट फिटर
58.	626187-के	मा वा अ	सुबास चन्द्र दाश	इलेक्ट फिटर
59.	626809-आर	वा अ	राज कुमार शरमा	इलेक्ट फिटर
60.	637766-ए	मा वा अ	कमला पति राय	इलेक्ट फिटर
61.	639311-एस	वा अ	हरबंश सिंह रावत	इलेक्ट फिटर
62.	639510-जी	वा अ	कमल कुमार वर्मा	इलेक्ट फिटर
63.	639778-के	वा अ	अशोक कुमार अगनेश	इलेक्ट फिटर
64.	652823-के	मा वा अ	शैलेन्द्र कुमार यादव	इलेक्ट फिटर
65.	653292-के	वा अ	कृष्ण श्याम	इलेक्ट फिटर
66.	653884-एफ	मा वा अ	आन्नद सिंह शाही	इलेक्ट फिटर
67.	654566-ए	वा अ	कुवँर करमबीर सिंह	इलेक्ट फिटर
68.	672897-आर	मा वा अ	शर्मा मणिराम रामबहल	इलेक्ट फिटर
69.	680348-बी	मा वा अ	कुन्हि रामन जोथी प्रकाश	इलेक्ट फिटर
70.	680432-बी	मा वा अ	पंकज पाल	इलेक्ट फिटर
71.	680939-ए	वा अ	राजकुमार सिंह	इलेक्ट फिटर
72.	681023-एफ	मा वा अ	देवेन्द्र प्रसाद	इलेक्ट फिटर
73.	681325-आर	मा वा अ	नित्या नन्द साहा	इलेक्ट फिटर
74.	683662-एफ	वा अ	वेद प्रकाश पाल	इलेक्ट फिटर
75.	691375-एस	वा अ	ऋषि पाल	इलेक्ट फिटर
76.	662684-एस	मा वा अ	जगदीप चौधरी	इंजन फिटर

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
77.	662798-के	मा वा अ	देवाषीश दत्ता	इंजन फिटर
78.	662819-बी	मा वा अ	लखवीर सिंह	इंजन फिटर
79.	665300-के	मा वा अ	बिष्णु कुमार सिंह	इंजन फिटर
80.	667141-ए	मा वा अ	ज्योति कुमार सिंह	इंजन फिटर
81.	667500-एस	वा अ	असीम कुमार चन्द्रा	इंजन फिटर
82.	667861-टी	मा वा अ	राजेन्द्र कुमार	इंजन फिटर
83.	668534-एस	मा वा अ	बिभु दत्त मिश्रा	इंजन फिटर
84.	668770-आर	मा वा अ	एम रहीम	इंजन फिटर
85.	669086-के	वा अ	देवेन्द्र प्रसाद सिंह	इंजन फिटर
86.	669198-के	मा वा अ	देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी	इंजन फिटर
87.	669219-बी	मा वा अ	ओम प्रकाश यादव	इंजन फिटर
88.	669372-एच	मा वा अ	कमल किशोर अग्निहोत्री	इंजन फिटर
89.	669407-ए	मा वा अ	आजाद सिंह	इंजन फिटर
90.	669531-टी	मा वा अ	कैलाश चंद्र शर्मा	इंजन फिटर
91.	669679-ए	मा वा अ	राकेश चन्द्र उपाध्याय	इंजन फिटर
92.	675425-बी	मा वा अ	जय गोविंद सिंह	इंजन फिटर
93.	675655-एल	मा वा अ	चिन्ता वेंकटा राव	इंजन फिटर
94.	676083-एस	मा वा अ	नारायण प्रधान	इंजन फिटर
95.	676085-के	मा वा अ	राम गोविन्द	इंजन फिटर
96.	672584-एन	मा वा अ	अरुण कुमार त्रिपाठी	इक्कीपमेंट असिस्टेंट
97.	676503-एफ	मा वा अ	कल्या बुधेश्वर राव	फ्लाईट इंजीनियर
98.	679798-आर	मा वा अ	अनिल कुमार राँय	फ्लाइट गनर
99.	626172-एन	मा वा अ	कमलेश्वर प्रसाद तिवारी	आई ए एफ (पी)
100.	626640-ए	मा वा अ	एम बास्करन	आई ए एफ (पी)
101.	626992-एफ	मा वा अ	रविद्रानाथ आर	आई ए एफ (पी)
102.	627559-ए	मा वा अ	सुभाष चन्द्र	आई ए एफ (पी)
103.	627802-एल	मा वा अ	बाबू जैकब	आई ए एफ (पी)
104.	627867-ए	मा वा अ	ओंकार नाथ त्रिपाठी	आई ए एफ (पी)
105.	624128-एस	वा अ	मोटाराम चोधरी	इन्सट्रुमेंट फिटर
106.	624651-के	मा वा अ	के संतोष कुमार	इन्सट्रुमेंट फिटर
107.	626020-आर	मा वा अ	महेन्द्र सिंह	इन्सट्रुमेंट फिटर
108.	626294-एच	मा वा अ	राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी	इन्सट्रुमेंट फिटर
109.	626479-जी	मा वा अ	ब्रह्म प्रकाश	इन्सट्रुमेंट फिटर
110.	639022-के	मा वा अ	रामरतन राजपूत	इन्सट्रुमेंट फिटर
111.	639086-बी	मा वा अ	शशिकांत जयसिंगराव माने	इन्सट्रुमेंट फिटर

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
112.	639223-एल	मा वा अ	हर्ष वर्धन सिंह	इन्सट्रुमेंट फिटर
113.	654578-एच	मा वा अ	कुशल कुमार	इन्सट्रुमेंट फिटर
114.	680116-ए	मा वा अ	बृजनंदन प्रसाद	इन्सट्रुमेंट फिटर
115.	681711-जी	मा वा अ	भास्कर चंद्र जेना	इन्सट्रुमेंट फिटर
116.	624440-एन	मा वा अ	अखिलेश कुमार सिन्हा	मेडिकल असिस्टेंट
117.	655988-एफ	मा वा अ	रामास्वामी श्रीधर	मेडिकल असिस्टेंट
118.	656059-एन	मा वा अ	अम्बरीष कुमार शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट
119.	656067-आर	मा वा अ	सत्यदेव शर्मा	मेडिकल असिस्टेंट
120.	656071-एल	मा वा अ	आर्थर जी मोमिन	मेडिकल असिस्टेंट
121.	656213-बी	मा वा अ	अभय कुमार	मेडिकल असिस्टेंट
122.	656218-एफ	मा वा अ	उष्णिक्कृष्णन वेलायुधन	मेडिकल असिस्टेंट
123.	656239-के	मा वा अ	दिनेश कुमार मिश्रा	मेडिकल असिस्टेंट
124.	656269-एन	मा वा अ	मनोहर मरिपप्पन	मेडिकल असिस्टेंट
125.	656308-बी	वा अ	शेख एम जब्बार एम रियाज़	मेडिकल असिस्टेंट
126.	656328-एल	मा वा अ	दुर्गा शंकर अग्निहोत्री	मेडिकल असिस्टेंट
127.	656341-जी	मा वा अ	दया शंकर	मेडिकल असिस्टेंट
128.	656356-बी	वा अ	तपन कुमार बिस्वास	मेडिकल असिस्टेंट
129.	656382-ए	मा वा अ	शामपाद बारिक	मेडिकल असिस्टेंट
130.	637422-टी	मा वा अ	राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे	मेट असिस्टेंट
131.	683866-आर	मा वा अ	बलवन्त कुमार श्रीवास्तव	एम एस फिटर (ई)
132.	681127-बी	मा वा अ	हराधन प्रसाद तिवारी	एम एस फिटर (एल)
133.	675437-के	मा वा अ	डिगेन्द्र सिंह तोमर	एम एस फिटर (एम)
134.	675720-टी	मा वा अ	राजेन्द्र प्रसाद गोतम	एम एस फिटर (एम)
135.	676032-एच	वा अ	सतवीर सिंह	एम एस फिटर (एम)
136.	678404-के	वा अ	वेद प्रकाश	एम एस फिटर (एम)
137.	679015-ए	मा वा अ	अंजल कुमार	एम एस फिटर (एम)
138.	624898-एच	मा वा अ	सुर्य नारायण पाण्डेय	एम टी डी
139.	625126-आर	मा वा अ	राम नरेश शुक्ला	एम टी डी
140.	625129-एफ	मा वा अ	सेत बहादुर सिंह	एम टी डी
141.	625623-के	मा वा अ	दलीप सिंह	एम टी डी
142.	626883-एन	मा वा अ	चंद्रशेखर शर्मा	एम टी डी
143.	627130-एन	मा वा अ	नवीन चन्द्र नौटियाल	एम टी डी
144.	627387-जी	मा वा अ	सीता राम प्रसाद	एम टी डी
145.	627541-आर	मा वा अ	शिव कुमार झा	एम टी डी
146.	627776-जी	मा वा अ	धर्म वीर सिंह	एम टी डी

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
147.	627893-टी	वा अ	मनोहर सिंह कन्याल	एम टी डी
148.	627895-एल	मा वा अ	नेमपाल सिंह मथुरिया	एम टी डी
149.	627903-ए	मा वा अ	नागेन्द्र सिंह	एम टी डी
150.	627980-एच	मा वा अ	कलपुरकल शिवरामन नायर सुरेद्रन नायर	एम टी डी
151.	627983-एस	मा वा अ	अरविंदाक्षन तनिककपरम्बिल	एम टी डी
152.	628197-जी	मा वा अ	सतवीर सिंह	एम टी डी
153.	662547-आर	मा वा अ	इनद्र मोहन झा	एम टी फिटर
154.	662754-जी	मा वा अ	दिलीप कुमार गुप्ता	एम टी फिटर
155.	666690-के	मा वा अ	प्रदीप कुमार सिंह	एम टी फिटर
156.	668016-एस	वा अ	महावीर सिंह	एम टी फिटर
157.	668841-ए	वा अ	रणदिवे श्रीकांत पंढरीनाथ	एम टी फिटर
158.	668844-के	मा वा अ	सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज	एम टी फिटर
159.	675240-एफ	मा वा अ	उदय कुमार एस	एम टी फिटर
160.	675595-एस	वा अ	राधाकृष्ण नेवार	एम टी फिटर
161.	675866-एच	मा वा अ	अशोक कुमार सिंह	एम टी फिटर
162.	676092-आर	मा वा अ	सुशील कुमार	एम टी फिटर
163.	676249-बी	वा अ	तुंग नाथ तिवारी	एम टी फिटर
164.	628763-एन	वा अ	राजेश मातापरशाद राजपूत	म्युजिशियन
165.	681709-बी	मा वा अ	सैलेश कुमार दास	फोटो फिटर
166.	628363-बी	मा वा अ	अजीत सिंह राणा	पी जे आई
167.	639168-टी	मा वा अ	रणजीत सिंह प्रताप	पी एम एफ (ई)
168.	669096-एफ	मा वा अ	हरेन्द्र साह	पी एम एफ (एम)
169.	625985-एच	वा अ	नरेन्द्र कुमार त्यागी	रडार फिटर
170.	626450-के	मा वा अ	राकेश कुमार पाल	रडार फिटर
171.	626799-एन	मा वा अ	जय सिंह	रडार फिटर
172.	653355-एन	मा वा अ	नरेन्द्र सिंह	रडार फिटर
173.	654221-बी	मा वा अ	अलीहसन खान	रडार फिटर
174.	654362-के	मा वा अ	विश्वजीत कुमार	रडार फिटर
175.	654564-एच	मा वा अ	मनोज कुमार मल्होत्रा	रडार फिटर
176.	674046-जी	मा वा अ	जयकिशन	रडार फिटर
177.	674067-एल	मा वा अ	हरी सिंह	रडार फिटर
178.	674241-के	मा वा अ	नबा कुमार मजुमदार	रडार फिटर
179.	674277-एल	मा वा अ	सतीश कुमार शर्मा	रडार फिटर
180.	674339-टी	मा वा अ	विजय कुमार उपाध्याय	रडार फिटर
181.	674483-जी	मा वा अ	राम वीर सिंह	रडार फिटर

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
182.	674549-टी	मा वा अ	हरिश चंद्र गुर्जर	रडार फिटर
183.	674569-एच	मा वा अ	सत्य प्रकाश शर्मा	रडार फिटर
184.	674711-के	मा वा अ	राम रतन	रडार फिटर
185.	680105-के	मा वा अ	दिलीप कुमार मुखर्जी	रडार फिटर
186.	680520-एच	मा वा अ	विजेन्द्र सिंह धनकड.	रडार फिटर
187.	680527-बी	मा वा अ	सुरेन्द्र कुमार धिंच	रडार फिटर
188.	680686-जी	मा वा अ	लक्ष्मण कुमार पाण्डे	रडार फिटर
189.	680689-आर	वा अ	भूपेन्द्र कुमार	रडार फिटर
190.	681356-आर	मा वा अ	इ गणेश	रडार फिटर
191.	681551-टी	मा वा अ	भूपेन्द्र कुमार राठौर	रडार फिटर
192.	683563-एच	मा वा अ	मनोज कुमार	रडार फिटर
193.	683567-एन	मा वा अ	कुंज बिहारी प्रसाद	रडार फिटर
194.	683957-के	मा वा अ	कोट्टारत्तिल् चन्द्रशेखरन् परमेश्वरन् वि एस एम	रडार फिटर
195.	684553-एफ	मा वा अ	दुष्यन्त शर्मा	रडार फिटर
196.	684567-एफ	मा वा अ	लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	रडार फिटर
197.	691754-बी	मा वा अ	रणवीर सिंह राणा	रडार फिटर
198.	625410-ए	मा वा अ	सुभाष चन्द्र आईच	रेडियो फिटर
199.	636707-टी	मा वा अ	प्रताप सिंह	रेडियो फिटर
200.	637910-आर	मा वा अ	ब्रिजेश कुमार	रेडियो फिटर
201.	638868-एस	मा वा अ	परमेश्वर पाल	रेडियो फिटर
202.	639595-एफ	मा वा अ	भगवत सिंह	रेडियो फिटर
203.	653643-एफ	मा वा अ	इस्लाम अली	रेडियो फिटर
204.	653781-बी	मा वा अ	रतन लाल	रेडियो फिटर
205.	654351-टी	मा वा अ	चरण सिंह मोतलिया	रेडियो फिटर
206.	654545-आर	मा वा अ	सुरेन्द्र पाल शर्मा	रेडियो फिटर
207.	654613-एल	मा वा अ	कौशल कुमार दुबे	रेडियो फिटर
208.	672828-के	मा वा अ	भगवान सिंह राठौर	रेडियो फिटर
209.	672960-के	मा वा अ	हाकिम सिंह	रेडियो फिटर
210.	673124-जी	मा वा अ	श्याम प्रकाश	रेडियो फिटर
211.	673968-एल	मा वा अ	मुहम्मद इकबाल अंसारी	रेडियो फिटर
212.	673980-के	मा वा अ	धर्मराज सिंह	रेडियो फिटर
213.	674379-एस	मा वा अ	बिमल कुमार पाठक	रेडियो फिटर
214.	674547-जी	मा वा अ	राधेश्याम वर्मा	रेडियो फिटर
215.	674917-एन	मा वा अ	सुशील बर्मन	रेडियो फिटर
216.	680095-एच	मा वा अ	पीयूष कात्रि साहा	रेडियो फिटर

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
217.	680141-बी	मा वा अ	गोवर्धन साहु	रेडियो फिटर
218.	680450-टी	वा अ	उमेश गिरी	रेडियो फिटर
219.	680662-एल	वा अ	शशी भूषण तिवारी	रेडियो फिटर
220.	680719-जी	वा अ	असित रंजन दास	रेडियो फिटर
221.	681047-टी	मा वा अ	कृष्ण कुमार	रेडियो फिटर
222.	681211-बी	मा वा अ	एस के अभिनुर रहमान	रेडियो फिटर
223.	681228-एल	वा अ	आशीष कुमार चँन्द	रेडियो फिटर
224.	681359-एफ	मा वा अ	कमरैया रविन्द्रन	रेडियो फिटर
225.	681402-के	मा वा अ	देशमुख अनिल भाऊराव	रेडियो फिटर
226.	683481-एल	वा अ	सुब्रोतो कुमार घोष	रेडियो फिटर
227.	690343-के	मा वा अ	राजेंद्र रावत	रेडियो फिटर
228.	690490-जी	मा वा अ	भीम नारायण दूबे	रेडियो फिटर
229.	690717-बी	वा अ	कुँवरपाल सिंह राजपूत	रेडियो फिटर
230.	691890-एच	मा वा अ	बलदेव राज जस्टा	रेडियो फिटर
231.	639531-एल	वा अ	रणवीर सिंह	रेडियो टेक
232.	654550-एच	मा वा अ	रविन्द्र सिंह	रेडियो टेक
233.	680703-एन	वा अ	अपूर्व कृष्ण कर	रेडियो टेक
234.	682488-आर	मा वा अ	सुकमल गंगोपाध्याय	रेडियो टेक
235.	682902-एफ	मा वा अ	हिसम सिंह	रेडियो टेक
236.	683495-एल	मा वा अ	सतीश कुमार शर्मा	रेडियो टेक
237.	667567-टी	मा वा अ	राकेश त्रिपाठी	एस ई डब्लू
238.	668715-के	मा वा अ	हरि शंकर सिंह	एस ई डब्लू
239.	678826-बी	मा वा अ	अरूण प्रकाश श्रीवास्तव	एस ई डब्लू
240.	638805-ए	मा वा अ	हरीमंगल	टेलिस्ट आर टी ओ
241.	674498-बी	मा वा अ	कुलदीप सिंह राणा	टेलिस्ट आर टी ओ
242.	662842-एल	मा वा अ	संजय कुमार त्रिपाठी	वेपन फिटर
243.	666831-एफ	मा वा अ	सुरेश कुमार	वेपन फिटर
244.	667376-एल	मा वा अ	बचन सिंह	वेपन फिटर
245.	669848-जी	मा वा अ	गैरोला बृज भूषण	वेपन फिटर
246.	675078-एन	मा वा अ	रिज़वान मुहम्मद	वेपन फिटर
247.	675338-एन	मा वा अ	आनंद चन्द्र प्रकाश	वेपन फिटर
248.	675764-बी	मा वा अ	निरंजन गिरि	वेपन फिटर
249.	676311-ए	मा वा अ	साहब सिंह	वेपन फिटर
250.	678962-एच	मा वा अ	अनिल कुमार चौरसिया	वेपन फिटर
251.	679332-टी	वा अ	मलय चंदन रे	वेपन फिटर

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
252.	665493-बी	मा वा अ	राम सिंह रावत	डब्लू एस फिटर (बी)
253.	667551-जी	मा वा अ	रामसजीवन	डब्लू एस फिटर (सी)
254.	666981-के	मा वा अ	रामसरन जनमेदा	डब्लू एस फिटर (एम)

[सं. वा से मु /सी 40254/1/1/पी ए (सीपीसी)]

अमित तिवारी, एयर मार्शल
कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 15 August 2019

No. 14(E) dated 15 August 2019.—The under mentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Honorary Flying Officer with effect from 15th August 2019 on the occasion of Independence Day under Para 344 of Regulations for the Air Force, 1964 :—

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	676103-N	MWO	KAWALJIT SINGH BHASIN	ACH GD
2.	639166-G	MWO	RAJBIR SINGH	ADSO
3.	673327-A	MWO	SARVJIT SINGH	ADSO
4.	683311-S	WO	KAMLESH KUMAR	ADSO
5.	683620-N	MWO	SURENDRA KUMAR UPADHYAY	ADSO
6.	691246-S	MWO	SUNIL KUMAR	ADSO
7.	662498-L	MWO	RAM PUKAR YADAV	AF FIT
8.	662548-L	MWO	HARISH CHANDRA	AF FIT
9.	666706-K	MWO	DHRUVA KUMAR SINGH	AF FIT
10.	666951-G	MWO	BHORIK	AF FIT
11.	667029-K	MWO	RAM KUMAR SINGH BHAMU	AF FIT
12.	668022-G	MWO	PIRTHVI PAL SINGH SABHARWAL	AF FIT
13.	668066-K	WO	CHANDRIKA PRASAD	AF FIT
14.	668070-G	MWO	MOHAMMAD MUQUEEM	AF FIT
15.	668408-G	MWO	RADHA BIHARI DIXIT	AF FIT
16.	668588-R	MWO	SHARAD RAMCHANDRA PATIL	AF FIT
17.	668593-H	MWO	PREM SAGAR	AF FIT
18.	668895-T	MWO	KOMMAREDDY GOVINDA RAJULU	AF FIT
19.	669367-R	WO	RAJ KUMAR	AF FIT
20.	675462-L	MWO	DILBAG SINGH SILAK	AF FIT
21.	675762-K	MWO	RAMA CHANDRA NATH	AF FIT
22.	676023-K	MWO	NARESH KUMAR	AF FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
23.	676037-K	MWO	SATYA KUMAR	AF FIT
24.	676089-R	MWO	ANIL KUMAR	AF FIT
25.	676819-R	MWO	ASHOK KUMAR SINGH	AF FIT
26.	677620-H	MWO	ASGAR ALI	AF FIT
27.	678630-N	MWO	SURAIN SINGH	AF FIT
28.	627365-F	MWO	MAUJI LAL YADAV	AFSO
29.	638384-S	MWO	DEV KUMAR PYNE	AFSO
30.	668166-B	MWO	ASHOK KUMAR	AFSO
31.	675108-F	MWO	RATAN KUMAR SEAL	AFSO
32.	675305-A	WO	PRAKASH CHANDRA PAREEK	AFSO
33.	627558-F	MWO	LAXMAN SINGH	CAT ASST
34.	671564-N	MWO	ANAND KUMAR	CLK ACCTS
35.	672193-A	MWO	RAVI SHANKER TEWARI	CLK ACCTS
36.	672567-N	MWO	ASHOK KUMAR SINGH	CLK ACCTS
37.	672572-G	MWO	GORE LAL YADAV	CLK ACCTS
38.	672716-K	MWO	JASVIR SINGH	CLK ACCTS
39.	673006-S	MWO	PARJEET SHUKLA	CLK ACCTS
40.	673568-A	MWO	ANIL KUMAR DHAKA	CLK ACCTS
41.	674133-R	MWO	UPENDRA SINGH	CLK ACCTS
42.	674473-L	MWO	TAPAN KUMAR DEY	CLK ACCTS
43.	676061-R	MWO	PRADIPTA ROY	CLK ACCTS
44.	670546-G	MWO	IKRAM AHMAD ABDUL RAHIM PATEL	CLK GD
45.	671148-T	MWO	RAM NARAIN SINGH	CLK GD
46.	671887-K	MWO	KAMLA SINGH YADAV	CLK GD
47.	672050-A	MWO	RAM ADHAR SHAHI	CLK GD
48.	672488-G	MWO	RAJENDRA SINGH	CLK GD
49.	672588-T	MWO	KANU MAZUMDAR	CLK GD
50.	678716-R	MWO	SUMANT BHARDWAS	CLK GD
51.	674678-T	MWO	BIR SINGH	CRYPTO
52.	692229-H	MWO	PRAFULLA CHANDRA JHA	EDN INSTR
53.	693677-K	MWO	SHYAM SUNDAR KARMAKAR	EDN INSTR
54.	694784-T	MWO	DEB SINGH KHATI	EDN INSTR
55.	704419-G	MWO	MARKANDEY DWIVEDI	EDN INSTR

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
56.	626111-K	WO	RODRIGUES RUDOLPH FRANCIS	ELECT FIT
57.	626137-S	WO	MD NURZAMAL	ELECT FIT
58.	626187-K	MWO	SUBASH CHANDRA DASH	ELECT FIT
59.	626809-R	WO	RAJ KUMAR SHARMA	ELECT FIT
60.	637766-A	MWO	KAMALA PATI RAI	ELECT FIT
61.	639311-S	WO	HARBANS SINGH RAWAT	ELECT FIT
62.	639510-G	WO	KAMAL KUMAR VERMA	ELECT FIT
63.	639778-K	WO	ASHOK KUMAR AGNESH	ELECT FIT
64.	652823-K	MWO	SHAIENDRA KUMAR YADAV	ELECT FIT
65.	653292-K	WO	KRISHNA SHYAM	ELECT FIT
66.	653884-F	MWO	ANAND SINGH SHAHI	ELECT FIT
67.	654566-A	WO	KUVER KARAMBIR SINGH	ELECT FIT
68.	672897-R	MWO	SHARMA MANIRAM RAMBAHAL	ELECT FIT
69.	680348-B	MWO	KUNHI RAMAN JOTHI PRAKASH	ELECT FIT
70.	680432-B	MWO	PANKAJ PAUL	ELECT FIT
71.	680939-A	WO	RAJKUMAR SINGH	ELECT FIT
72.	681023-F	MWO	DEVINDER PARSHAD	ELECT FIT
73.	681325-R	MWO	NITYA NANDA SAHA	ELECT FIT
74.	683662-F	WO	VED PRAKASH PAL	ELECT FIT
75.	691375-S	WO	RISHI PAL	ELECT FIT
76.	662684-S	MWO	JAGDEEP CHOUDHARY	ENG FIT
77.	662798-K	MWO	DEBASHISH DUTTA	ENG FIT
78.	662819-B	MWO	LAKHBIR SINGH	ENG FIT
79.	665300-K	MWO	BISHNU KUMAR SINGH	ENG FIT
80.	667141-A	MWO	JYOTI KUMAR SINGH	ENG FIT
81.	667500-S	WO	ASHIM KUMAR CHANDRA	ENG FIT
82.	667861-T	MWO	RAJENDRA KUMAR	ENG FIT
83.	668534-S	MWO	BIBHU DUTTA MISHRA	ENG FIT
84.	668770-R	MWO	M RAHIM	ENG FIT
85.	669086-K	WO	DEVENDRA PD SINGH	ENG FIT
86.	669198-K	MWO	DEVENDRA KUMAR TRIPATHI	ENG FIT
87.	669219-B	MWO	OM PRAKASH YADAV	ENG FIT
88.	669372-H	MWO	KAMAL KISHOR AGNIHOTRI	ENG FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
89.	669407-A	MWO	AZAD SINGH	ENG FIT
90.	669531-T	MWO	KAILASH CHANDRA SHARMA	ENG FIT
91.	669679-A	MWO	RAKESH CHANDRA UPADHYAYA	ENG FIT
92.	675425-B	MWO	JAY GOVIND SINGH	ENG FIT
93.	675655-L	MWO	CHINTA VENKATA RAO	ENG FIT
94.	676083-S	MWO	NARAYAN PRADHAN	ENG FIT
95.	676085-K	MWO	RAM GOVIND	ENG FIT
96.	672584-N	MWO	ARUN KUMAR TRIPATHI	EQPT ASST
97.	676503-F	MWO	KALYA BUDDESWAR RAO	FLT ENG
98.	679798-R	MWO	ANIL KUMAR ROY	FLT GUN
99.	626172-N	MWO	KAMLESHWAR PRASAD TIWARI	IAF (P)
100.	626640-A	MWO	M BASKARAN	IAF (P)
101.	626992-F	MWO	RAVINDRANATH R	IAF (P)
102.	627559-A	MWO	SUBHASH CHANDER	IAF (P)
103.	627802-L	MWO	BABU JACOB	IAF (P)
104.	627867-A	MWO	ONKAR NATH TRIPATHI	IAF (P)
105.	624128-S	WO	MOTARAM CHOWDHARY	INST FIT
106.	624651-K	MWO	K SANTOSH KUMAR	INST FIT
107.	626020-R	MWO	MAHENDER SINGH	INST FIT
108.	626294-H	MWO	RAJESHWAR PRASAD DWIVEDI	INST FIT
109.	626479-G	MWO	BIRHAM PARKASH	INST FIT
110.	639022-K	MWO	RAM RATAN RAJPUT	INST FIT
111.	639086-B	MWO	MANE SHASHIKANT JAYASINGRAO	INST FIT
112.	639223-L	MWO	HARSHVARDHAN SINGH	INST FIT
113.	654578-H	MWO	KUSHAL KUMAR	INST FIT
114.	680116-A	MWO	BRIJNANDAN PRASAD	INST FIT
115.	681711-G	MWO	BHASKAR CHANDRA JENA	INST FIT
116.	624440-N	MWO	AKHILESH KUMAR SINHA	MED ASST
117.	655988-F	MWO	RAMASWAMY SREEDHAR	MED ASST
118.	656059-N	MWO	AMBRISH KUMAR SHARMA	MED ASST
119.	656067-R	MWO	SATYDAVE SHARMA	MED ASST
120.	656071-L	MWO	ARTHUR G MOMIN	MED ASST
121.	656213-B	MWO	ABHAY KUMAR	MED ASST

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
122.	656218-F	MWO	UNNI KRISHNAN VELAYUDHAN	MED ASST
123.	656239-K	MWO	DINESH KUMAR MISHRA	MED ASST
124.	656269-N	MWO	MANOHAR MARIAPPAN	MED ASST
125.	656308-B	WO	SHAIKH M JABBAR M RIYAZ	MED ASST
126.	656328-L	MWO	DURGA SHANKER AGNIHOTRI	MED ASST
127.	656341-G	MWO	DAYA SHANKER	MED ASST
128.	656356-B	WO	TAPAN KUMAR BISWAS	MED ASST
129.	656382-A	MWO	SHYAMPADA BARIK	MED ASST
130.	637422-T	MWO	RAJENDRA PRASAD PANDEY	MET ASST
131.	683866-R	MWO	BALWANT KUMAR SRIVASTAVA	MS FIT(E)
132.	681127-B	MWO	HARADHAN PRASAD TEWARY	MS FIT(L)
133.	675437-K	MWO	DIGANDER SINGH TOMAR	MS FIT(M)
134.	675720-T	MWO	RAJENDRA PRASAD GOTAM	MS FIT(M)
135.	676032-H	WO	SATVIR SINGH	MS FIT(M)
136.	678404-K	WO	VED PRAKASH	MS FIT(M)
137.	679015-A	MWO	ANJAL KUMAR	MS FIT(M)
138.	624898-H	MWO	SURYA NARAYAN PANDEY	MTD
139.	625126-R	MWO	RAM NARESH SHUKLA	MTD
140.	625129-F	MWO	SET BAHADUR SINGH	MTD
141.	625623-K	MWO	DALIP SINGH	MTD
142.	626883-N	MWO	CHANDRA SHAKER SHARMA	MTD
143.	627130-N	MWO	NAVIN CHANDRA NAUTIYAL	MTD
144.	627387-G	MWO	SITA RAM PRASAD	MTD
145.	627541-R	MWO	SHIV KUMAR JHA	MTD
146.	627776-G	MWO	DHARAM VIR SINGH	MTD
147.	627893-T	WO	MANOHAR SINGH KANYAL	MTD
148.	627895-L	MWO	NAIMPAL SINGH MATHURIA	MTD
149.	627903-A	MWO	NAGENDRA SINGH	MTD
150.	627980-H	MWO	KALAPPURACKAL SIVARAMAN NAIR SURENDRAN NAIR	MTD
151.	627983-S	MWO	ARAVINDAKSHAN THANIKKAPARAMBIL	MTD
152.	628197-G	MWO	SATVIR SINGH	MTD
153.	662547-R	MWO	INDRA MOHAN JHA	MT FIT
154.	662754-G	MWO	DILIP KUMAR GUPTA	MT FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
155.	666690-K	MWO	PRADIP KUMAR SINGH	MT FIT
156.	668016-S	WO	MAHABIR SINGH	MT FIT
157.	668841-A	WO	RANDIVE SHRIKANT PANDHARINATH	MT FIT
158.	668844-K	MWO	SURENDER KUMAR BHARDWAJ	MT FIT
159.	675240-F	MWO	UDAYAKUMAR S	MT FIT
160.	675595-S	WO	RADHA KRISHNA NEWAR	MT FIT
161.	675866-H	MWO	ASHOK KUMAR SINGH	MT FIT
162.	676092-R	MWO	SUSHIL KUMAR	MT FIT
163.	676249-B	WO	TUNG NATH TIWARI	MT FIT
164.	628763-N	WO	RAJESH MATAPARSHAD RAJPUT	MUSN
165.	681709-B	MWO	SAILESH KUMAR DAS	PHOTO FIT
166.	628363-B	MWO	AJIT SINGH RANA	PJI
167.	639168-T	MWO	RANJIT SINGH PRATAP	PMF (ELECT)
168.	669096-F	MWO	HARENDRA SAH	PMF (MECH)
169.	625985-H	WO	NARENDRA KUMAR TYAGI	RAD FIT
170.	626450-K	MWO	RAKESH KUMAR PAL	RAD FIT
171.	626799-N	MWO	JAI SINGH	RAD FIT
172.	653355-N	MWO	NARENDER SINGH	RAD FIT
173.	654221-B	MWO	ALIHASAN KHAN	RAD FIT
174.	654362-K	MWO	VISHWAJIT KUMAR	RAD FIT
175.	654564-H	MWO	MANOJ KUMAR MALHOTRA	RAD FIT
176.	674046-G	MWO	JAI KISHAN	RAD FIT
177.	674067-L	MWO	HARI SINGH	RAD FIT
178.	674241-K	MWO	NABA KUMAR MAJUMDAR	RAD FIT
179.	674277-L	MWO	SATISH KUMAR SHARMA	RAD FIT
180.	674339-T	MWO	VIJAY KUMAR UPADHYAY	RAD FIT
181.	674483-G	MWO	RAM VIR SINGH	RAD FIT
182.	674549-T	MWO	HARISH CHANDRA GURJAR	RAD FIT
183.	674569-H	MWO	SATYA PARKASH SHARMA	RAD FIT
184.	674711-K	MWO	RAM RATTAN	RAD FIT
185.	680105-K	MWO	DILIP KUMAR MUKHARJEE	RAD FIT
186.	680520-H	MWO	VIJENDRA SINGH DHANKER	RAD FIT
187.	680527-B	MWO	SURENDER KUMAR DHINCH	RAD FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
188.	680686-G	MWO	LAKSHMAN KUMAR PANDE	RAD FIT
189.	680689-R	WO	BHOOPENDRA KUMAR	RAD FIT
190.	681356-R	MWO	E GANESH	RAD FIT
191.	681551-T	MWO	BHUPENDRA KUMAR RATHOR	RAD FIT
192.	683563-H	MWO	MANOJ KUMAR	RAD FIT
193.	683567-N	MWO	KUNJ BIHARI PRASAD	RAD FIT
194.	683957-K	MWO	KOTTARATHIL CHANDRASEKARAN PARAMESWARAN VSM	RAD FIT
195.	684553-F	MWO	DUSHYANT SHARMA	RAD FIT
196.	684567-F	MWO	LAKSHMI NARAIN PANDEY	RAD FIT
197.	691754-B	MWO	RANVIR SINGH RANA	RAD FIT
198.	625410-A	MWO	SUBHAS CHANDRA AICH	RDO FIT
199.	636707-T	MWO	PRATAP SINGH	RDO FIT
200.	637910-R	MWO	BRIJESH KUMAR	RDO FIT
201.	638868-S	MWO	PARAMASWAR PAUL	RDO FIT
202.	639595-F	MWO	BHAGWAT SINGH	RDO FIT
203.	653643-F	MWO	ISLAM ALI	RDO FIT
204.	653781-B	MWO	RATAN LAL	RDO FIT
205.	654351-T	MWO	CHARAN SINGH MOTLIA	RDO FIT
206.	654545-R	MWO	SURENDR PAL SHARMA	RDO FIT
207.	654613-L	MWO	KAUSHAL KUMAR DUBEY	RDO FIT
208.	672828-K	MWO	BHAGWAN SINGH RATHOUR	RDO FIT
209.	672960-K	MWO	HAKIM SINGH	RDO FIT
210.	673124-G	MWO	PRAKASH SHYAM	RDO FIT
211.	673968-L	MWO	MUHAMMAD IQUEBAL ANSARI	RDO FIT
212.	673980-K	MWO	DHARM RAJ SINGH	RDO FIT
213.	674379-S	MWO	BIMAL KUMAR PATHAK	RDO FIT
214.	674547-G	MWO	VERMA RADHEY SHYAM	RDO FIT
215.	674917-N	MWO	SUSIL BARMAN	RDO FIT
216.	680095-H	MWO	PIJUSH KANTI SAHA	RDO FIT
217.	680141-B	MWO	GOBARDHAN SAHU	RDO FIT
218.	680450-T	WO	UMESH GIRI	RDO FIT
219.	680662-L	WO	SHASHI BHUSHAN TIWARI	RDO FIT
220.	680719-G	WO	ASHIT RANJAN DAS	RDO FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
221.	681047-T	MWO	KRISHAN KUMAR	RDO FIT
222.	681211-B	MWO	SK AMINUR RAHAMAN	RDO FIT
223.	681228-L	WO	ASISH KUMAR CHAND	RDO FIT
224.	681359-F	MWO	KUMARIAH RAVINDRAN	RDO FIT
225.	681402-K	MWO	DESHMUKH ANIL BHAURAO	RDO FIT
226.	683481-L	WO	SUBRATA KUMAR GHOSH	RDO FIT
227.	690343-K	MWO	RAJENDER RAWAT	RDO FIT
228.	690490-G	MWO	BHIM NARAYAN DUBEY	RDO FIT
229.	690717-B	WO	KUNWARPAL SINGH RAJPUT	RDO FIT
230.	691890-H	MWO	BALDEV RAJ JUSTA	RDO FIT
231.	639531-L	WO	RANBIR SINGH	RDO TECH
232.	654550-H	MWO	RAVINDER SINGH	RDO TECH
233.	680703-N	WO	APURBA KRISHNA KAR	RDO TECH
234.	682488-R	MWO	SUKAMAL GANGOPADHYAY	RDO TECH
235.	682902-F	MWO	HISSAM SINGH	RDO TECH
236.	683495-L	MWO	SATISH KUMAR SHARMA	RDO TECH
237.	667567-T	MWO	RAKESH TRIPATHI	SEW
238.	668715-K	MWO	HARI SHANKAR SINGH	SEW
239.	678826-B	MWO	ARUN PRAKASH SRIVASTAVA	SEW
240.	638805-A	MWO	HARIMANGAL	TELST RTO
241.	674498-B	MWO	KULDEEP SINGH RANA	TELST RTO
242.	662842-L	MWO	SANJAY KUMAR TRIPATHY	WPN FIT
243.	666831-F	MWO	SURESH KUMAR	WPN FIT
244.	667376-L	MWO	BACHAN SINGH	WPN FIT
245.	669848-G	MWO	GAIROLA BRIJ BHUSHAN	WPN FIT
246.	675078-N	MWO	RIZVAN MOHAMMAD	WPN FIT
247.	675338-N	MWO	ANAND CHANDRA PRAKASH	WPN FIT
248.	675764-B	MWO	NIRANJAN GIRI	WPN FIT
249.	676311-A	MWO	SAHAB SINGH	WPN FIT
250.	678962-H	MWO	ANIL KUMAR CHOURASIA	WPN FIT
251.	679332-T	WO	MALAY CHANDAN RAY	WPN FIT
252.	665493-B	MWO	RAM SINGH RAWAT	WS FIT(B)
253.	667551-G	MWO	RAMSAJIWAN	WS FIT(C)
254.	666981-K	MWO	RAMSARAN JANMEDA	WS FIT(M)

[No. Air HQ/C 40254/1/1/PA(CPC)]

AMIT TIWARI, Air Marshal
Air Officer-in-Charge Personnel**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2019

सं. 15(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2019.— स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियामावली 1964 के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सूची में निम्नलिखित सेवानिवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 15 अगस्त 2019 से ऑनरेरी फ्लाईंग अफसर रैंक प्रदान किया जाता है।

क्र. सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राश्नर	ट्रेड
1.	649646-के	मा वा अ	प्रभु नाथ गुप्ता (सेवानिवृत्त)	एसीएच जीडी
2.	649716-टी	मा वा अ	देवन्द्र नाथ उपाध्याय (सेवानिवृत्त)	क्लर्क जीडी
3.	669877-एन	मा वा अ	अशोक कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त)	फ्लाईट इंजीनियर
4.	653397-एफ	मा वा अ	स्वामी राव संपत (सेवानिवृत्त)	पी एम एफ (ई)
5.	691241-आर	मा वा अ	दयानन्द शर्मा (सेवानिवृत्त)	रेडियो फ़िटर

[सं. वा से मु /सी 40254/1/1/पीए (सीपीसी)]

अमित तिवारी, एयर मार्शल
कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2019

No. 15(E) dated 15 August 2019.— The under mentioned retired MWOs are granted the Honorary Rank of Flying Officer with effect from 15th August 2019 on the occasion of Independence Day under Para 345 of Regulations for the Air Force, 1964 :-

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	649646-K	MWO	PRABHU NATH GUPTA (RETD)	ACH GD
2.	649716-T	MWO	DEVENDRA NATH UPADHYAY (RETD)	CLK GD
3.	669877-N	MWO	ASHOK KUMAR SRIVASTAVA (RETD)	FLT ENG
4.	653397-F	MWO	SWAMI RAO SAMPATH (RETD)	PMF (ELECT)
5.	691241-R	MWO	DAYANAND SHARMA (RETD)	RDO FIT

[No. Air HQ/C 40254/1/1/PA (CPC)]

AMIT TIWARI, Air Marshal
Air Officer-in-Charge Personnel

(नौसेना शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2019

सं. 16(अ) दिनांक 15 अगस्त 2019.— राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं।

भारतीय नौसेना
स्थायी काडर
विशेष ड्यूटी सूची

निम्नलिखित मास्टर चीफ़ पेटी अफसरों को विशेष ड्यूटी सूची पर 15 अगस्त 2019 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रम	नाम	रैंक	नंबर
1.	साहब सिंह	एमसीपीओ एम यूडबल्यू एम1	111960 F
2.	सुरेश पाल सिंह तोमर	एमसीपीओ (यूडबल्यू) एएसडबल्यूआई(डबल्यू)	112045 Z

3.	सुबोध चन्द्र पॉल	एमसी मेक (एएल) ।	112056	Z
4.	लक्ष्मी नारायण	एमसी मेक ।	112631	F
5.	दलेर सिंह	एमसी ईएलए (आर) ।	112887	N
6.	नटराजन अरावामुथन	एमसीपीओ लॉग (एससी) ।	145973	H
7.	हरेन्द्र कुमार	एमसीपीओ । (यूएस) एएसडबल्यूआई(एस)	148606	T
8.	सुदेश्वर सिंह	एमसी मेक (पी) ।	148616	R
9.	रामू सिंह यादवा	एमसी मेक (पी) ।	148824	N
10.	मनोहर लाल परिहार	एमसी ईएल (आर) ।	148881	T
11.	ओम प्रकाश वर्मा	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) । एस ।	148968	R
12.	सुभाष चन्द्र	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	149021	K
13.	धर्म पाल	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	149075	H
14.	जगरूप सिंह यादव	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीडबल्यू 1	149181	Z
15.	रमेश यादव	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) ।	149187	N
16.	लक्ष्मण सिंह नेगी	एमसीपीओ । (जीएस) जीआई (एस)	149252	K
17.	अमीलाल यादव	एमसी एमई ।	149840	Y
18.	बी शंकर सुपकर	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) ।	150067	N
19.	शेर सिंह यादव	एमसी एट आर्म्स ।	150096	B
20.	लोकनाथ सरकार	एमसीपीओ एचएस ।	150177	N
21.	बलवंत सिंह नेगी	एमसीपीओ । (आरपी) पीआरआई	160657	F
22.	लक्ष्मी नारायण	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	161410	T
23.	तीर्थ राज	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीडबल्यू 1	162372	B
24.	रमेश कुमार	एमसीपीओ कॉम (टेल) । डबल्यू ।	163044	F
25.	धनपाल	एमसीए (मेट) । मेट । पार्ट II	163428	B
26.	नरेन्द्र सिंह	एमसी ईएल (पी) ।	165080	H
27.	बीसी मईति	एमसीपीओ एओएफ़ ।	165095	T
28.	शेर सिंह	एमसी ईएल (आर) ।	165588	N
29.	मकरा साहू	एमसी ईआरए ।	171021	K
30.	रमेश गहलोत	एमसीपीओ एएफ़ ।	171317	H
31.	निका राम वर्मा	एमसी मेक ।	171429	N
32.	विरेन्द्र सिंह यादव	एमसी एमई ।	173650	K
33.	शेख शाजहान	एमसी मेक ।	173813	F
34.	प्रकाशचन्द्र मौलेखी	एमसी मेक (एआर) ।	177580	T
35.	राजेश कुमार शर्मा	एमसी ईए (पी) ।	178110	Y
36.	गितेन्द्र चौधरी	एमसी ईआरए ।	187334	K
37.	अवतार सिंह	एमसी ईए (पी) ।	187379	N
38.	प्रेम पाल सिंह	एमसी ईएए (आर) ।	187649	A
39.	पेमेन्द्र आचारीया	एमसी ईएए (आर) ।	191650	W
40.	सुरदीप कुमार त्रिवेदी	एमसी एए (डबल्यू) ।	193078	R

अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रम	नाम	रैंक	नंबर
1.	रघुबीर सिंह	एमसीपीओ । (जीएस) जीएस1	111843 R
2.	नन्द लाल	एमसीपीओ । (एचवाय) एचवाय1	111871 B
3.	कैलाश सिंह	एमसीपीओ एएफ ।	112046 A
4.	राकेश कुमार	एमसी ईएल (आर) ।	112123 A
5.	आश नारायन सिंह	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) । एस आई	112190 B
6.	देश राज	एमसी एमई ।	112265 Z
7.	संतोष पाल सिंह	एमसी ईएल (पी) ।	112286 Y
8.	रविन्द्र कुमार	एमसीपीओ । (यूडबल्यू) यूडबल्यू1	112296 W
9.	गोपाल दुबे	एमसीपीओ एम । आर्ट1	112310 A
10.	अजीत सिंह	एमसी एमई ।	112331 Z
11.	मेघ सिंह	एमसी मेक (आर) ।	112362 W
12.	संजय कुमार सिंह	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	112449 T
13.	राज कुमार	एमसीपीओ एम । यूडबल्यूएम1	112638 Y
14.	धनंजय सिंह	एमसी एएम (डबल्यू) ।	112749 Z
15.	गजेन्द्र सिंह	एमसीपीओ । (पीटी) पीटी1	112755 N
16.	कृष्ण कुमार	एमसीपीओ । (आरपी)	113203 F
17.	बाबुराज पी	एमसीपीओ लॉग (मैट) ।	113401 F
18.	अत्तर सिंह	एमसीपीओ । (आरपी) आरपी1	113420 Z
19.	ओंकेश्वर मिश्रा	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीडबल्यू1	113619 A
20.	बचना राम चौधरी	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	113647 R
21.	सत्येन्द्र चौधरी	एमसीपीओ । (जीएस) जीएस1	113974 H
22.	सत्यबीर सिंह यादव	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीडबल्यू1	114571 R
23.	दिनेश कुमार विश्वकर्मा	एमसी एएम ॥	115748 R
24.	मोहम्मद एच कालेभाई	एमसीपीओ लॉग (एससी) ।	145951 H
25.	करन सिंह	एमसीपीओ लॉग (ओसी) ।	145995 H
26.	सुरेन्द्र सिंह यादव	एमसीपीओ कॉम (टेल) ।	148602 H
27.	शूरवीर सिंह रावत	एमसी ईएल (आर) ।	148707 Y
28.	रतन चंद्रा दत्ता	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीआई(डबल्यू)	148715 R
29.	दिनानाथ ओझा	एमसीपीओ । (आरपी) आरपी1	148769 N
30.	उमा शंकर सिंह यादव	एमसीपीओ कॉम (टेल) । डबल्यू आई	148795 Y
31.	चन्द्र शेखर सिंह	एमसी मेक (पी) ।	148839 Y
32.	बलदेव राज	एमसी मेक ।	148856 K
33.	ठाकुर सिंह	एमसीपीओ । (यूडबल्यू) यूडबल्यू1	148867 K
34.	जे सिवा सन्मुगम	एमसीपीओ । (सीडी) सीडी1	148940 A
35.	बहादुर मल जाट	एमसी एमई ।	149018 B

36.	रविन्द्र सिंह	एमसीपीओ एम । पीएन1	149052	F
37.	शिवमाल सिंह	एमसीपीओ । (पीटी) पीटी1	149074	F
38.	बृजेन्द्र सिंह	एमसीपीओ एम । एएन1	149094	A
39.	जगदीश प्रसाद	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) । एस आई	149108	H
40.	बालाकृष्णन टी	एमसी एट आर्म्स ।	149225	Z
41.	पारस नाथ राय	एमसीपीओ । (पीटी) पीटी1	149285	K
42.	प्रेम कुमार गुप्ता	एमसी एट आर्म्स ।	149291	Z
43.	सुमेर सिंह राठोड़	एमसीपीओ । (आरपी) पीआर ।	149383	H
44.	भँवर सिंह चारण	एमसीपीओ । (सीडी) सीडी1	149387	T
45.	करण सिंह	एमसीए (एएच) । एएच । पार्ट II	149401	Z
46.	अशोक के विश्वकर्मा	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीआई(डबल्यू)	149413	A
47.	शाम सिंह डोगरा	एमसीपीओ एम । एल1	149420	T
48.	नवल किशोर सिंह	एमसी मेक (आर) ।	149635	F
49.	राजेन्द्र प्रसाद	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	149668	F
50.	ए के एस सोलंकी	एमसी ईएल (आर) ।	149672	R
51.	हरि नारायण यादव	एमसीए (एएच) । एएच । पार्ट II	149711	B
52.	विशम्बर दयाल	एमसीपीओ । (पीटी) पीटी1	149730	Y
53.	अशरफुद्दीन	एमसीपीओ । (जीएस) जीएस1	149837	R
54.	चन्द्रशेखर	एमसीपीओ । (यूडबल्यू) यूडबल्यू1	149929	Z
55.	सुरेश प्रसाद	एमसीपीओ । (यूएस) एसडबल्यूआई(एस)	149949	W
56.	राजेन्द्र सिंह	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) ।	150081	W
57.	विरेन्द्र सिंह	एमसीपीओ लॉग (एससी) ।	150140	B
58.	वी चिन्ना चैनईया	एमसीपीओ एचएस ।	150172	A
59.	बिष्णु चरण लाकरा	एमसीपीओ एचएस ।	150179	T
60.	राधा मोहन जेना	एमसीपीओ लॉग (ओसी) ।	150248	Z
61.	अनिल कुमार	एमसीपीओ लॉग (एससी) ।	150287	N
62.	अरुनकुमार एस निधान	एमसीपीओ एचएस ।	150297	K
63.	चैत राम	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) ।	150339	F
64.	देस राज	एमसीपीओ लॉग (ओसी) ।	150732	Z
65.	एन मल्लप्पा टोरनगट्टी	एमसीपीओ लॉग (एससी) II	150837	N
66.	सुरेन्द्रन	एमसीपीओ लॉग (ओसी) II	150842	Z
67.	डी सिंह	एमसीपीओ लॉग (एससी) II	150862	W
68.	हरीश चंद्रा	एमसीपीओ लॉग (एससी) II	150867	F
69.	कर्ण सिंह	एमसीपीओ लॉग (एससी) II	150871	R
70.	प्रीत सिंह	एमसीपीओ लॉग (एससी) II	150876	A
71.	मांगे राम यादव	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) II	150932	B
72.	बिनोद कुमार	एमसीपीओ एचएस II	150949	T
73.	दिनेश सिंह	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) II	150969	N

74.	ए षनमुगनाथन	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) ॥	150991	N
75.	गुलाम मुस्तफा मण्डल	एमसीपीओ । (सीडी) सीडी1	151185	B
76.	कृष्ण कुमार मिश्रा	एमसीपीओ लॉग (ओसी) ॥	151246	T
77.	इन्द्रपाल सिंह	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) ॥	151801	B
78.	बलदेव सिंह	एमसीपीओ लॉग (एसटीडी) ॥	151871	N
79.	एन अशोक	एमसी ईएलए ।	160163	H
80.	वेद प्रकाश सागर	एमसीपीओ । (यूडबल्यू) यूडबल्यू1	160364	R
81.	राम प्रवेश राय	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) ।	160648	K
82.	शमशेर सिंह	एमसीपीओ कॉम (टेल) । डबल्यू आई	160879	K
83.	रमेश कुमार	एमसी एमई ।	161065	H
84.	निर्मल सिंह	एमसीपीओ । (यूएस) एएसडबल्यूआई(एस)	161152	F
85.	सुरेश चन्द्र	एमसीपीओ । (यूडबल्यू) एएसडबल्यूआई(डबल्यू)	161382	B
86.	कारी सिम्हाद्री	एमसी ईएल (पी) ।	161415	B
87.	राजेश कुमार	एमसी ईए (पी) ।	161427	F
88.	चन्द्रेश एस यादव	एमसीपीओ । (आरपी) आरपी1	161528	K
89.	सुरेश कुमार	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ।	161529	N
90.	नरेन्द्र सिंह	एमसी ईएल (पी) ।	161577	Y
91.	रमेश कुमार	एमसीपीओ लॉग (मैट) ।	161783	R
92.	राम सजीवन	एमसीपीओ । (जीएस) जीएस1	162317	B
93.	बैदेही शरण शुक्ला	एमसीपीओ कॉम (टेल) । डबल्यू आई	162791	F
94.	हवा सिंह	एमसीपीओ । (जीडबल्यू) जीआई(डबल्यू)	163135	N
95.	नवीन चन्द्र	एमसीपीओ एओएफ ॥	163289	N
96.	राज नारायन परित	एमसीपीओ ॥ (जीएस) जीएस1	163417	B
97.	पाटील राजाराम दिनकर	एमसीपीओ ॥ (सीडी) सीडी1	163463	H
98.	गोविन्द सिंह कैन्तुरा	एमसीपीओ कॉम (टेल) । डबल्यू आई	163507	H
99.	अँगनु राम	एमसीए (एस&एस) ॥ एस&एस । पार्ट ॥	163545	W
100.	सुरेश कुमार यादव	एमसी एएम ।	163555	T
101.	सुरेश चन्द्र	एमसीपीओ लॉग (मैट) ॥	163561	F
102.	कृष्णा नन्द शर्मा	एमसीपीओ कॉम (ईडबल्यू) ।	163663	N
103.	शिशुपाल सिंह	एमसीए (मेट) । मेट । पार्ट ॥	163773	N
104.	विवेकानंद श्रीवास्तव	एमसीपीओ एम ॥ एमएस1	163877	Z
105.	दिनेश सिंह रावत	एमसी एएम ।	163924	F
106.	राज कुमार यादव	एमसी एमई ।	163935	F
107.	उदय भान	एमसी एमई ।	163989	B
108.	याद राम	एमसीपीओ । (यूएस) एएसडबल्यूआई(एस)	164121	B
109.	करतार सिंह	एमसीपीओ लॉग (एफ&ए) ॥	164148	R
110.	बिनोद शंकर पाण्डेय	एमसी ईएल (आर) ।	164233	H
111.	राजेन्द्रन पी	एमसीए (एएच) । एएच । पार्ट ॥	164724	Z

112.	वृज किशोर	एमसी ईएल (पी) ।	164855	Y
113.	जगदीश सिंह नेगी	एमसी ईएलए ।	164858	B
114.	एमडी जयनुद्दीन मोलिक	एमसी मेक (पी) ॥ मेट ॥	164902	B
115.	जय प्रकाश सिन्हा	एमसीपीओ । (यूएस) यूएस1	164978	A
116.	रंजन कुमार बिस्वाल	एमसी ईएल (आर) ।	165346	N
117.	राम राज	एमसीपीओ । (जीएस) जीएस1	165711	T
118.	राज कुमार यादव	एमसी मेक (पी) ।	166967	Y
119.	सलिम टि सि	एमसीपीओ ॥ (पीटी)पीटी1	167330	Y
120.	वतन सिंह	एमसीपीओ एएफ़ ॥	167500	H
121.	दिलावर सिंह	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) ।	167504	T
122.	दिबाकर प्रधान	एमसी ईआरए ।	167713	T
123.	जयदेव सिंह	एमसीपीओ लॉग (मैट) ॥	167843	N
124.	गोपाकुमार एस	एमसीपीओ एओएफ़ ॥	168483	T
125.	चरण सिंह	एमसीपीओ (पीटी) पीटी1	168571	T
126.	मुकेश डोभाल	एमसीपीओ लॉग (मैट) ॥	168647	R
127.	मूल सिंह शेखावत	एमसीपीओ एओएफ़ ॥	169436	H
128.	पाटील दिपक नारायण	एमसी मेक ।	172003	T
129.	पार्थ घोषाल	एमसीपीओ । (यूएस) यूएस1	172298	N
130.	विनोद कुमार	एमसीपीओ ॥ (पीटी) पीटी1	172338	B
131.	मानस कुमार प्रधान	एमसीपीओ ॥ (जीडबल्यू) जीडबल्यू1	172466	W
132.	विजय आनंद उनियाल	एमसीपीओ कॉम (टीएसी) ॥ एस आई	173591	A
133.	मंगे राम	एमसीपीओ ॥ (जीएस) जीएस1	173918	W
134.	नरेन्द्र सिंह	एमसीपीओ ॥ (यूएस) एएसडबल्यूआई(एस)	173932	A
135.	नरसिंह मौर्या	एमसीपीओ कॉम (टेल) ॥	175729	K
136.	खांडे जयवंत शंकर	एमसीपीओ लॉग (मैट) ।	176067	B
137.	सुशान्त कुमार बिशी	एमसी मेक (एएल) ।	176536	W
138.	प्रतिप सेन	एमसी मेक(एआर) ।	176577	N
139.	उमेश कुमार चौरसीया	एमसी ईए (पी) ॥ मेट ॥	177324	K
140.	ओरगन्टी सुर्या प्रकासा राव	एमसी ईआरए । यूएस2	179016	F
141.	राज कुमार	एमसी मेक (पी) ।	179329	T
142.	कन्नन एन	एमसी ईए (पी) ।	180356	A
143.	राजू के एस	एमसी ईएए ।	186089	F
144.	हेमन्त कुमार पटेल	एमसी ईएए ।	186142	A
145.	पटनाला सत्य राव	एमसीपीओ म्युस ।	188150	R
146.	रणधीर कुमार लाल कर्ण	एमसीपीओ म्युस ।	188169	H
147.	जन्नत हुसैन अंसारी	एमसी ईएल (आर) ।	191865	H
148.	जगमाल सिंह	एमसी ईए (आर) ।	191867	N
149.	राम बिलास सिंह यादव	एमसी ईए (आर) ।	191868	R

150.	महातम राम	एमसी ईआरए।	191906	A
151.	आनन्द प्रकाश सिंह	एमसी ईआरए।	191934	R
152.	शिवकुमार यादव	एमसी ईए (आर)।	192015	Z
153.	आई वी एस कुशवाह	एमसी एए।	192057	W
154.	मदनलाल काल्टा	एमसी ईए (आर)।	197354	H

[फा. सं. एचए/2504/ऑनरेरी कमीशन-अगस्त 2019]

आर. हरी कुमार, वाईस एडमिरल कार्मिक अध्यक्ष एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

(NAVY BRANCH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th Aug 2019

No. 16(E) dated 15th August 2019.—the President is pleased to make the following appointments:-

INDIAN NAVY

PERMANENT CADRE

SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 15th Aug 2019:-

TO BE HONORARY LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>PNO</u>	
1.	SAHAB SINGH	MCPO M I UWM1	111960	F
2.	SURESH PAL SINGH TOMAR	MCPO I (UW) ASWI(W)	112045	Z
3.	SUBODH CHANDRA PAUL	MC MECH (AL) I	112056	Z
4.	LAXMI NARAYAN	MC MECH I	112631	F
5.	DALER SINGH	MC ELA (R) I	112887	N
6.	NATARAJAN ARAVAMUTHAN	MCPO LOG (SC) I	145973	H
7.	HARENDER KUMAR	MCPO I (US) ASWI(S)	148606	T
8.	SUDESHWAR SINGH	MC MECH (P) I	148616	R
9.	RAMU SINGH YADAVA	MC MECH (P) I	148824	N
10.	MANOHAR LAL PARIHAR	MC EL (R) I	148881	T
11.	OM PRAKASH VERMA	MCPO COM (TAC) I SI	148968	R
12.	SUBHASH CHANDER	MCPO LOG (F&A) I	149021	K
13.	DHARAMPAL	MCPO LOG (F&A) I	149075	H
14.	JAGROOP SINGH YADAV	MCPO I (GW) GW1	149181	Z
15.	RAMESH YADAV	MCPO COM (TAC) I	149187	N
16.	LAXMAN SINGH NEGI	MCPO I (GS) GI(S)	149252	K
17.	AMILAL YADAV	MC ME I	149840	Y
18.	B SHANKAR SUPAKAR	MCPO LOG (STD) I	150067	N
19.	SHER SINGH YADAV	MC AT ARMS I	150096	B
20.	LOKNATH SARKAR	MCPO HS I	150177	N
21.	BALWANT SINGH NEGI	MCPO I (RP) PRI	160657	F
22.	LAXMI NARAIN	MCPO LOG (F&A) I	161410	T

23.	TEERTH RAJ	MCPO I (GW) GW1	162372	B
24.	RAMESH KUMAR	MCPO COM (TEL) I WI	163044	F
25.	DHAN PAL	MCA (MET) I MET I PART II	163428	B
26.	NARENDRA SINGH	MC EL (P) I	165080	H
27.	BC MAITY	MCPO AOF I	165095	T
28.	SHER SINGH	MC EL (R) I	165588	N
29.	MAKARA SAHOO	MC ERA I	171021	K
30.	RAMESH GEHLOT	MCPO AF I	171317	H
31.	NIKA RAM VERMA	MC MECH I	171429	N
32.	VIRANDAR SINGH YADAV	MC ME I	173650	K
33.	SHAIK SHAJAHAN	MC MECH I	173813	F
34.	PRAKASH CHANDRA MAULEKHI	MC MECH (AR) I	177580	T
35.	RAJESH KUMAR SHARMA	MC EA (P) I	178110	Y
36.	GITENDRA CHOUDHURY	MC ERA I	187334	K
37.	AWATAR SINGH	MC EA (P) I	187379	N
38.	PREM PAL SINGH	MC EAA (R) I	187649	A
39.	PREMENDRA ACHARIA	MC EAA (R) I	191650	W
40.	SURDEEP KUMAR TRIVEDI	MC AA (W) I	193078	R

TO BE HONORARY SUB LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>PNO</u>	
1.	RAGHUBIR SINGH	MCPO I (GS) GS1	111843	R
2.	NAND LAL	MCPO I (HY) HY1	111871	B
3.	KAILASH SINGH	MCPO AF I	112046	A
4.	RAKESH KUMAR	MC EL (R) I	112123	A
5.	ASH NARAIN SINGH	MCPO COM (TAC) I SI	112190	B
6.	DESH RAJ	MC ME I	112265	Z
7.	SANTOSH PAL SINGH	MC EL (P) I	112286	Y
8.	RAVINDER KUMAR	MCPO I (UW) UW1	112296	W
9.	GOPAL DUBEY	MCPO M I ORT1	112310	A
10.	AJIT SINGH	MC ME I	112331	Z
11.	MEGH SINGH	MC MECH (R) I	112362	W
12.	SANJAY KUMAR SINGH	MCPO LOG (F&A) I	112449	T
13.	RAJ KUMAR	MCPO M I UWM1	112638	Y
14.	DHANANJAY SINGH	MC AM (W) I	112749	Z
15.	GAJENDER SINGH	MCPO I (PT) PT1	112755	N
16.	KRISHAN KUMAR	MCPO I (RP) RP1	113203	F
17.	BABURAJ P	MCPO LOG (MAT) I	113401	F
18.	ATTAR SINGH	MCPO I (RP) RP1	113420	Z
19.	ONKESHWAR MISHRA	MCPO I (GW) GW1	113619	A

20.	BACHANA RAM CHOUDHARY	MCPO LOG (F&A) I	113647	R
21.	SATYENDRA CHAUDHARY	MCPO I (GS) GS1	113974	H
22.	SATYABIR SINGH YADAV	MCPO I (GW) GW1	114571	R
23.	DINESH KUMAR VISHWAKARMA	MC AM II	115748	R
24.	MAHAMMADA H KALEBHAI	MCPO LOG (SC) I	145951	H
25.	KARAN SINGH	MCPO LOG (OC) I	145995	H
26.	SURENDRA SINGH YADAV	MCPO COM (TEL) I	148602	H
27.	SURVEER SINGH RAWAT	MC EL (R) I	148707	Y
28.	RATTAN CHANDRA DUTTA	MCPO I (GW) GI(W)	148715	R
29.	DINANATH OJHA	MCPO I (RP) RP1	148769	N
30.	UMASHANKAR SINGH YADAV	MCPO COM (TEL) I WI	148795	Y
31.	CHANDRA SHEKHAR SINGH	MC MECH (P) I	148839	Y
32.	BALDEV RAJ	MC MECH I	148856	K
33.	THAKUR SINGH	MCPO I (UW) UW1	148867	K
34.	J SIVA SHAN MUGAM	MCPO I (CD) CD1	148940	A
35.	BAHADUR MAL JAT	MC ME I	149018	B
36.	RAVINDER SINGH	MCPO M I PN1	149052	F
37.	SHIVMAL SINGH	MCPO I (PT) PT1	149074	F
38.	BRIJENDRA SINGH	MCPO M I AN1	149094	A
39.	JAGDISH PRASAD	MCPO COM (TAC) I SI	149108	H
40.	BALAKRISHNAN T	MC AT ARMS I	149225	Z
41.	PARAS NATH RAI	MCPO I (PT) PT1	149285	K
42.	PREM KUMAR GUPTA	MC AT ARMS I	149291	Z
43.	SUMER SINGH RATHORE	MCPO I (RP) PRI	149383	H
44.	BHANWAR SINGH CHARAN	MCPO I (CD) CD1	149387	T
45.	KARAN SINGH	MCA (AH) I AH I PART II	149401	Z
46.	ASHOK K VISHWAKARMA	MCPO I (GW) GI(W)	149413	A
47.	SHAM SINGH DOGRA	MCPO M I L1	149420	T
48.	NAWAL KISHORE SINGH	MC MECH (R) I	149635	F
49.	RAJENDER PRASAD	MCPO LOG (F&A) I	149668	F
50.	AKS SOLANKI	MC EL (R) I	149672	R
51.	HARI NARAYAN YADAV	MCA (AH) I AH1 PART II	149711	B
52.	BISHAMBER DAYAL	MCPO I (PT) PT1	149730	Y
53.	ASHRAFUDDIN	MCPO I (GS) GS1	149837	R
54.	CHANDRA SHEKHAR	MCPO I (UW) UW1	149929	Z
55.	SURESH PRASAD	MCPO I (US) ASWI(S)	149949	W

56.	RAJENDER SINGH	MCPO LOG (STD) I	150081	W
57.	VIRENDRA SINGH	MCPO LOG (SC) I	150140	B
58.	V CHINNA CHENNAIAH	MCPO HS I	150172	A
59.	BISHNU CHARAN LAKRA	MCPO HS I	150179	T
60.	RADHA MOHAN JENA	MCPO LOG (OC) I	150248	Z
61.	ANIL KUMAR	MCPO LOG (SC) I	150287	N
62.	ARUNKUMAR S NIDHAN	MCPO HS I	150297	K
63.	CHAIT RAM	MCPO LOG (STD) I	150339	F
64.	DES RAJ	MCPO LOG (OC) I	150732	Z
65.	N MALLAPPA TORANAGATTI	MCPO LOG (SC) II	150837	N
66.	SURENDRAN	MCPO LOG (OC) II	150842	Z
67.	D SINGH	MCPO LOG (SC) II	150862	W
68.	HARISH CHANDRA	MCPO LOG (SC) II	150867	F
69.	KARAN SINGH	MCPO LOG (SC) II	150871	R
70.	PREET SINGH	MCPO LOG (SC) II	150876	A
71.	MANGE RAM YADAV	MCPO LOG (STD) II	150932	B
72.	BINOD KUMAR	MCPO HS II	150949	T
73.	DINESH SINGH	MCPO LOG (STD) II	150969	N
74.	A SHANMUGA NATHAN	MCPO LOG (STD) II	150991	N
75.	GOLAM MOSTAFA MONDAL	MCPO I (CD) CD 1	151185	B
76.	KRISHNA KUMAR MISHRA	MCPO LOG (OC) II	151246	T
77.	INDRA PAL SINGH	MCPO LOG (STD) II	151801	B
78.	BALDEV SINGH	MCPO LOG (STD) II	151871	N
79.	N ASHOK	MC ELA I	160163	H
80.	VED PRAKASH SAGAR	MCPO I (UW) UW1	160364	R
81.	RAM PRAVESH RAI	MCPO COM (TAC) I	160648	K
82.	SHAMSHER SINGH	MCPO COM (TEL) I WI	160879	K
83.	RAMESH KUMAR	MC ME I	161065	H
84.	NIRMAL SINGH	MCPO I (US) ASWI(S)	161152	F
85.	SURESH CHAND	MCPO I (UW) ASWI(W)	161382	B
86.	KARRI SIMHADRI	MC EL (P) I	161415	B
87.	RAJESH KUMAR	MC EL (P) I	161427	F
88.	CHANDRESH S YADAV	MCPO I (RP) RP1	161528	K
89.	SURESH KUMAR	MCPO LOG (F&A) I	161529	N
90.	NARENDER SINGH	MC EL (P) I	161577	Y
91.	RAMESH KUMAR	MCPO LOG (MAT) I	161783	R

92.	RAM SAJIWAN	MCPO I (GS) GS1	162317	B
93.	BAIDEHI SHARAN SHUKLA	MCPO COM (TEL) I WI	162791	F
94.	HAWA SINGH	MCPO I (GW) GI(W)	163135	N
95.	NAVIN CHANDRA	MCPO AOF II	163289	N
96.	RAJ NARAYAN PARIT	MCPO II (GS) GS1	163417	B
97.	PATIL RAJARAM DINKAR	MCPO II (CD) CD1	163463	H
98.	GOVIND SINGH KAINURA	MCPO COM (TEL) I WI	163507	H
99.	ANGANU RAM	MCA (S&S) II S&S I PART II	163545	W
100.	SURESH KUMAR YADAV	MC AM I	163555	T
101.	SURESH CHANDER	MCPO LOG (MAT) II	163561	F
102.	KRISHNA NAND SHARMA	MCPO COM (EW) I	163663	N
103.	SHISHUPAL SINGH	MCA (MET) I MET I PART II	163773	N
104.	VIVEKANAND SRIVASTAV	MCPO M II MS1	163877	Z
105.	DINESH SINGH RAWAT	MC AM I	163924	F
106.	RAJ KUMAR YADAV	MC ME I	163935	F
107.	UDAY BHAN	MC ME I	163989	B
108.	YAD RAM	MCPO I (US) ASWI(S)	164121	B
109.	KARTAR SINGH	MCPO LOG (F&A) II	164148	R
110.	BINOD SHANKER PANDEY	MC EL (R) I	164233	H
111.	RAJENDRAN P	MCA (AH) I AH I PART II	164724	Z
112.	BRIJ KISHORE	MC EL (P) I	164855	Y
113.	JAGDISH SINGH NEGI	MC ELA I	164858	B
114.	MD JAYNUDDIN MOLLIK	MC MECH (P) II MET II	164902	B
115.	JAI PRAKASH SINHA	MCPO I (US) US1	164978	A
116.	RANJAN KUMAR BISWAL	MC EL (R) I	165346	N
117.	RAM RAJ	MCPO I (GS) GS1	165711	T
118.	RAJ KUMAR YADAV	MC MECH (P) I	166967	Y
119.	SALIM T C	MCPO II (PT) PT1	167330	Y
120.	WATTAN SINGH	MCPO AF II	167500	H
121.	DILAWAR SINGH	MCPO COM (TAC) I	167504	T
122.	DIBAKAR PRADHAN	MC ERA I	167713	T
123.	JAYDEV SINGH	MCPO LOG (MAT) II	167843	N
124.	GOPAKUMAR S	MCPO AOF II	168483	T
125.	CHARAN SINGH	MCPO II (PT) PT1	168571	T
126.	MUKESH DOBHAL	MCPO LOG (MAT) II	168647	R
127.	MOOL SINGH SHEKHAWAT	MCPO AOF II	169436	H

128.	PATIL DIPAK NARAYAN	MC MECH I	172003	T
129.	PARTHA GHOSAL	MCPO I (US) US1	172298	N
130.	VINOD KUMAR	MCPO II (PT) PT1	172338	B
131.	MANAS KUMAR PRADHAN	MCPO II (GW) GW1	172466	W
132.	VIJAY ANAND UNIYAL	MCPO COM (TAC) II SI	173591	A
133.	MANGE RAM	MCPO II (GS) GS1	173918	W
134.	NARENDRA SINGH	MCPO II (US) ASWI(S)	173932	A
135.	NARSINGH MAURYA	MCPO COM (TEL) II	175729	K
136.	KHANDE JAYAWANT SHANKAR	MCPO LOG (MAT) I	176067	B
137.	SUSHANTA KUMAR BISHI	MC MECH (AL) I	176536	W
138.	PRATIP SEN	MC MECH (AR) I	176577	N
139.	UMESH KUMAR CHAURASIYA	MC EA (P) II MET II	177324	K
140.	ORUGANTI S PRAKASA RAO	MC ERA I US2	179016	F
141.	RAJ KUMAR	MC MECH (P) I	179329	T
142.	KANNAN N	MC EA (P) I	180356	A
143.	RAJU KS	MC EAA I	186089	F
144.	HEMANTA KUMAR PATEL	MC EAA I	186142	A
145.	PATNALA SATYA RAO	MCPO MUS I	188150	R
146.	RANDHIR KUMAR LAL KARAN	MCPO MUS I	188169	H
147.	JANNANT HUSSAIN ANSARI	MC EA (R) I	191865	H
148.	JAGMAL SINGH	MC EA (R) I	191867	N
149.	RAM BILAS SINGH YADAV	MC EA (R) I	191868	R
150.	MAHATTAM RAM	MC ERA I	191906	A
151.	ANAND PRAKASH SINGH	MC ERA I	191934	R
152.	SHIV KUMAR YADAV	MC EA (R) I	192015	Z
153.	IVS KUSHWAH	MC AA I	192057	W
154.	MADANLAL KALTA	MC EA (R) I	197354	H

[F. No. HA/2504/HONY COMMISSION-AUG 2019]

R. HARI KUMAR, Vice Admiral Chief of Personnel Integrated headquarters (Navy)